



# श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

## प्रथम भाग

( प्रथम बोल से पाँचवें बोल तक )


( बोल संख्या १ से ४२३ तक )

सम्रहकर्ता

भैरोदान सेठिया

सस्थापक

सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर ।



प्रकाशक

अगरचन्द भैरोदान सेठिया

जैन पारमार्थिक संस्था

ग्रन्थालय-भवन

वीकानेर

विक्रम संवत् २००६

वीर संवत् २४७५


वीर जयन्ती

न्योछावर ३॥) रु०

यह भी ज्ञान प्रचार में

लगेगा। डाकरखर्च अलग।

द्वितीयावृत्ति  
प्रति १०००



श्रीं सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर

## पुस्तक प्रकाशन समिति

अध्यक्ष— श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया ।

मंत्री— श्री जेठमल्लजी सेठिया ।

उपमन्त्री— श्री माणकचन्दजी सेठिया, साहित्यभूषण ।

### लेखक मण्डल

१. श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री M A (Previous), शास्त्राचार्य,  
न्यायतीर्थ, वेदान्तवारिधि ।
२. श्री रोशनलाल जैन B A , LL B , वकील हाइ कोर्ट ।  
न्यायतीर्थ, काव्यतीर्थ, सिद्धान्ततीर्थ, विशारद ।
३. श्री श्यामलाल जैन M A न्यायतीर्थ, विशारद ।
४. श्री घेवरचन्द्र वॉठिया 'वीरपुत्र' सिद्धान्तशास्त्री, न्याय-  
तीर्थ, व्याकरणतीर्थ, संकेत लिपि विशारद ।

## विषय सूची

विषय	पृष्ठ
१ श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सेठिया का चित्र	
२ पाँच दोहे	१
३ श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सेठिया की सक्षिप्त जीवनी	३-१६
४ श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सस्था के भवन का चित्र ( जीवनी के पृष्ठ ८-६ के बीच में )	
५ श्री सेठिया वंश वृत्त ( सस्कृत में )	१७-२०
६ श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सेठिया के परिवार का चित्र २०-२१ के बीच में	
७ श्रीमान् सेठ धर्मचन्द्रजी सेठिया का वंश ( हिन्दी में )	२१-२३
८ श्री सेठिया वंशावली ( दोहों में )	२४-२८
९ बारह भावना के दोहे	२६-३३
१० चार भावना के दोहे	३४-४१
११ आत्म प्रबोध भावना	४२-५७
१२ संस्था की सन् १९४८ की रिपोर्ट	५८-६५
१३ सम्मतिर्यौ	६५-७१
१४ आठ भागों का विषय विवरण	७२-७८
१५ सूचना	७८-७९
१६ प्रमाणग्रन्थों की सूची	८०-८३
१७ दो शब्द	८४-८६
१८ आभारप्रदर्शन	८६-९२

पृष्ठ	विषय
१६ भूमिका	६३-१०३
२० अकारादि अनुक्रमणिका	१३२
२१ शुद्धि-पत्र	३३-३६
२२ पहला बोल	१-३
२३ दूसरा बोल	४-४३
२४ तीसरा बोल	४४-६३
२५ चौथा बोल	६३-२५१
२६ पांचवा बोल	२५२-४४६



पुस्तक प्राप्ति स्थानः—

श्री अग्रचन्द मैरोदान सेठिया

श्री सेठिया जैन लाइब्रेरी

बीकानेर ( राजपूताना )

Bikaner

## दोहा

धर्मचन्दजी सेठ थे, धामी वीकानेर ।  
'ओसवंश में श्रेष्ठ वे, जैनधर्म में शेर ॥ १ ॥  
उत्तीर्णां तेवीस में, विजयादशमी मान ।  
उनके घर शुभलग्न में, जन्मे भैरवदान ॥ २ ॥  
दो हजार अरु पांच में, विक्रम संवत् जान ।  
उम्र तयामी वर्ष की, सपरिवार सुख जान ॥ ३ ॥  
बहु आगम संचय किया, पढन गुणन के हेत ।  
थावक व्रत को ग्रहण कर, मन समधि में देत ॥ ४ ॥  
आगम वांचन श्रवण में, राखे अधिको प्रेम ।  
दृढ़ता पूर्वक पालते, लिए हुए व्रत नेम ॥ ५ ॥

पुस्तक प्राप्ति स्थान—

श्री अग्रचन्द मैरोदान सेठिया

श्री सेठिया जैन लाडवोगे

वीकानेर ( राजपूताना )

Bikaner



भैरोदान सेठिया

जन्म सं० १९२३ विजया दशमी

फोटो सं० १९९३ अक्षय तृतीया





श्री हंसराज बच्छराज नाहटा

सरदार त्रिपुर निवासी

द्वारा

जैन विश्व भारती, लाहौर

को सप्रेम भेंट -

श्रीमान् धर्मभूषण दानवीर

सेठ श्री भैरोदानजी सेठिया

की

संक्षिप्त जीवनी

दानवीर सेठ श्री भैरोदानजी सेठिया का जन्म जैन बीसा ओसवाल कुल में विक्रम संवत् १९२३ विजयादशमी के दिन हुआ। आप के पिता का नाम श्रीमान् सेठ धर्मचन्द्रजी था। आप चार भाई थे। श्री प्रतापमलजी और श्री अग्रचन्द्रजी आप से बड़े और श्री हजारीमलजी आप से छोटे थे। आप दो वर्ष के ही थे कि आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। सात वर्ष की अवस्था में बीकानेर के बड़े उपाश्रय में साधुजी नामक यति के समीप आपकी शिक्षा का आरम्भ हुआ। दो वर्ष यहाँ पढ़ कर विक्रम सं० १९३२ में आपने कलकत्ते की यात्रा की। वहाँ से लौटकर आप बीकानेर के समीप शिववाड़ी गाँव में रहे। मन्दिर, उद्यान और सरोवर से यह गाँव सुहा-

बना है। उस समय राज्य की विशेष कृपादृष्टि होने से यहाँ का व्यापार बढ़ा चढ़ा था। यहाँ सदा बाजार में मेला सा लगा रहता था। यहाँ आप अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री प्रतापमलजी के पास व्यापार का काम सीखने लगे। सं० १६३६ में आपने बम्बई की यात्रा की। वहाँ अपने बड़े भाई श्री अग्रचन्दजी के पास रह कर आपने वहीखातो, जमा खर्च आदि व्यापारिक शिक्षा के साथ अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाएं सीखीं। शिक्षा के साथ आपने यहाँ व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त किया। यही आपकी शिक्षा समाप्त नहीं होती। नवीन ज्ञान सीखने की लगन आपको जीवन भर रही और आज भी है। ज्ञान सीखने के प्रत्येक अवसर से आपने सदा लाभ उठाया है। दूसरों को पढ़ाने और सिखाने में भी आप सदा दिलचस्पी लेते रहें हैं। कई व्यक्तियों को व्यापार व्यवसाय का काम सिखा कर आपने उन्हें सफल व्यापारी बनाया है। आपने अपनी संस्था से भी कई सुयोग्य व्यक्ति तैयार किये हैं एवं उन्हें ऊँची से ऊँची शिक्षा दिलाई है।

संवत् १६४० में आप देश आये। इसी वर्ष आप का विवाह हुआ। कुछ समय देश में ठहर कर संवत् १६४१ में आप पुनः बम्बई पधारे। वहाँ जाकर आप एक फर्म में, जिसमें चालानी का काम होता था, मुनीम के पद पर नियुक्त हुए। आपके बड़े भाई श्री अग्रचन्दजी इस फर्म के सांभालदार थे।

बम्बई में सात वर्ष रहकर सं० १६४८ में आप कलकत्ते गये और वहाँ आपने अपनी संचित पूँजी से मनिहारी और रंग की दूकान खोली और गोली सूता का कारखाना शुरू किया। सफल व्यापारी में व्यापारिक ज्ञान, अनुभव, समय

की सूक्ष्म, साहस, अर्धवसाय, परिश्रमशीलता, ईमानदारी, वचन की दृढता, नम्रता तथा स्वभाव की मधुरता आदि जो गुण होने चाहिये वे सभी आप में विद्यमान थे ! इसलिये थोड़े ही समय में आपका व्यापार चमक उठा । धीरे-धीरे आपने प्रयत्न करके भारत से बाहर बेल्जियम, स्विजरलैंड और बर्लिन आदि के रंग के कारखानों की तथा गबलॉन्ज ( Gablonz ) आष्ट्रिया के मनिहारी के कारखानों की सोल 'एजेन्सियाँ' प्राप्त कर ली । फलतः आपको अधिक लाभ होने लगा और काम भी विस्तृत हो गया । इसी समय आपके बड़े भाई श्री अग्रचन्दजी भी आपकी फर्म में सम्मिलित हो गये । अब फर्म का नाम 'ए. सी. वी. सेठिया एन्ड कम्पनी' रखा गया । कार्य के विस्तृत हो जाने से आपने कर्मचारियों को बढ़ाया । फर्म की सुव्यवस्था के लिये आपने एक अंग्रेज को असिस्टेन्ट मैनेजर के पद पर नियुक्त किया और पत्र व्यवहार के लिये एक वकील को रक्खा । कर्मचारियों के साथ आपका व्यवहार स्वामी-सेवक का नहीं किन्तु परिवार के सदस्य का सा रहा है । आप कर्मचारियों से काम लेना खूब जानते हैं और उन्हें सब तरह निभाते भी हैं । उक्त अंग्रेज आपके पास २७ वर्ष रहा और वकील बाबू आज भी आपके सुपुत्र श्री जेठमलजी साहब की फर्म में हैं ।

आप स्वभाव से ही कर्मठ और लगन वाले हैं । आपने कार्य करना ही सीखा है, विश्राम तो आपने जाना ही नहीं । जिस कार्य को आपने हाथ में लिया, उसे पूरा किये बिना आपने कभी नहीं छोड़ा । व्यापारिक जीवन में ऐसी सफलता पाकर भी आपने विश्राम नहीं लिया । आप और आगे बढ़ना चाहते थे । फलस्वरूप आपने हाबड़ा में 'दी सेठिया

कलर एण्ड केमिकल वर्क्स लिमिटेड' नामक रंग का कारखाना खोला । जिसके आप मैनेजिंग डॉयरेक्टर थे । यह कारखाना भारतवर्ष में रंग का सर्व प्रथम कारखाना था । कारखाने से तैयार होने वाले सामान की खपत के लिये आपने भारत के प्रमुख नगरों—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, करांची, कानपुर, देहली, अमृतसर और अहमदाबाद में अपनी फर्म की शाखाएं खोलीं । इसके सिवाय जापान के ओसाका नगर में भी आपने ऑफिस खोला ।

यहाँ यह बता देना भी अप्रासंगिक न होगा कि कारखाने और ऑफिस में विभिन्न कार्यों पर कुशल व्यक्तियों के नियुक्त होने पर भी आप आवश्यकता पर छोटे से बड़े सभी काम निस्संकोच भाव से कर लेते थे । शुरू से अन्त तक सभी कामों की जानकारी आप रखते थे । सर्वथा लोगों पर आपका कार्य निर्भर रहे यह आपको कतई पसन्द न था । यही कारण है कि रंगों के विश्लेषण के फॉर्मूले सीखने के लिये आपने एक जर्मन विशेषज्ञ को देवल दैनिक पाँच मिनिट के लिये ३००) मासिक पर नियुक्त किया एवं उसके लिये आपने निजी प्रयोगशाला स्थापित की ।

संवत् १९५७ में एक पुत्री ( वसन्तकंवर ) और दो पुत्रों ( श्री जेठमलजी और श्री पानमलजी ) को छोड़कर आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास होगया । आपकी पत्नी धर्मात्मा और गृहकार्य में बड़ी दक्ष थीं । इसी कारण आप गृह-व्यवस्था की चिन्ता से सदा मुक्त रहे एवं अपनी सभी शक्तियाँ व्यापार व्यवसाय में लगा सके थे । पहली धर्मपत्नी के स्वर्गवास होने पर आपका दूसरा विवाह हुआ । कर्त्तव्यनिष्ठ श्री सेठियाजी

का उस समय व्यापार-व्यवसाय की ओर ही विशेष ध्यान था। आप कुशलतापूर्वक व्यापार-व्यवसाय में लगे रहे और उत्तरोत्तर उन्नति करने लगे। सं० १९७१ (सन् १९१४) के गत महायुद्ध में आपको रंग के कारखाने से आशातीत लाभ हुआ।

संवत् १९६५ में आप एक भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गये। उस समय आप कलकत्ते थे। वहाँ के प्रसिद्ध डॉक्टर और वैद्यों का इलाज हुआ पर आपको कोई लाभ न पहुँचा। अन्त में आपने कलकत्ता के प्रसिद्ध होमियोपैथिक डॉक्टर प्रतापचन्द्र मजूमदार से इलाज करवाया और आप स्वस्थ हुए। इसी समय से आपको होमियोपैथी चिकित्सा-पद्धति में अपूर्व विश्वास हो गया। आपकी जिज्ञासा बढ़ी और उक्त डॉक्टर के सुयोग्य पुत्र डॉक्टर जतीन्द्रनाथ के पास आपने होमियोपैथी का अभ्यास किया एवं इसमें प्रवीणता प्राप्त की। तभी से आप होमियोपैथी साहित्य देखते रहे हैं एवं जनता में अमूल्य दवा वितरण करते रहे हैं। वर्षों के अनुभव ने आपको इस प्रणाली का विशेषज्ञ बना दिया है।

विक्रम संवत् १९६६ तदनुसार सन् १९१३ ई. में सेठ साहेब ने बीकानेर नगर में किंग एडवर्ड मेमोरियल रोड़ पर एक दूकान "बी. सेठिया एन्ड सन्स" के नाम से खोली। नाना प्रकार के फैन्सी बढ़िया सामान, पेटेन्ट दवाइयों और नई नई फैशन की चीजों के लिये यह बीकानेर की प्रसिद्ध दूकान है। यहाँ से सेठ, साहूकार, रईस और ऑफिसर लोग सामान खरीदते हैं। इसे सफलता पूर्वक चला कर सेठ साहेब ने यह दूकान अपने द्वितीयपुत्र श्री पानमलजी को दे दी। दूकान

के पीछे उससे जुड़ी हुई हवेली है। सेठ साहेब ने पानमलजी को दूकान और हवेली का पूरा मालिक बना दिया है और तारीख १४-१०-१९३० ई. को इन्हीं के नाम पर राज्य से इस जायदाद का पट्टा बनवा दिया है। श्री पानमलजी ने आस-पास और भी जमीन खरीद कर इस जायदाद को बढ़ाया है और काफी लागत लगा कर दूकान को दुबारा बनवाया है जो कि नई फैशन का दुमंजिला विशाल भवन है। अभी श्री पानमलजी और उनके पुत्र श्री कुन्दनमलजी इस दूकान को "वी. मेठिया एन्ड सन्स" के नाम से ही चला रहे हैं।

सेठ साहेब ने केवल धन कमाना ही नहीं सीखा पर आप समय समय पर सत्कार्यों में उदारतापूर्वक खर्च भी करते रहे हैं। सं० १९७० में आपने वीकानेर में स्कूल स्थापित किया। इसमें बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी। इस से भी पहले आपने शास्त्र भंडार का काम शुरू करा दिया था।

संवत् १९७८ में आपके बड़े भाई श्री अग्रचन्दजी वीकानेर में बीमार हो गये। उन्होंने आपको कलकत्ते से बुलाया। दोनों भाइयों ने मिल कर समाज में शिक्षा एवं धर्म प्रचार के लिये 'अग्रचन्द भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्थाएँ' स्थापित करना तय किया। इसके थोड़े दिनों बाद ही श्री अग्रचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। उक्त निश्चय के अनुसार आप एवं आपके सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र श्री जेठमलजी साहेब, जो कि श्री अग्रचन्दजी के गोद हैं, संस्थाओं को चला रहे हैं। संस्थाओं में पाँच लाख की चल अचल सम्पत्ति है और वह कानून के अनुसार संस्थाओं के

अ० मै० सेठिया जैन पारमार्थिक मंस्था भवन, वीकानेर ।

अज्ञानं तमसां पतिं विदलयन् सत्यार्थमुद्भासयन् ।  
भ्रान्तान् मत्पथ दर्शनेन सुखदे मार्गे सदा स्थापयन् ॥  
ज्ञानालोकविकासनेन मततं भूलोकमालोकयन् ।  
श्रीमद्भैरवदानमान पदवी पीठः सदा राजताम् ॥



वासी वीकानेर के, अग्रचन्द कुलचन्द ।  
नियम व्रत शुध पालते, सेठ धरमभीनन्द ॥ १ ॥  
वे श्रावक समुदारचित, भ्राता भैरवदान ।  
दोनों ने मिल कर दिया, ज्ञान हेतु धनदान ॥ २ ॥  
शुभ संवत् उगणीस सौ, सत्तर ऊपर जान ।  
संस्था श्रीपारमार्थिक, स्थापित की शुभ जान ॥ ३ ॥  
आज्ञाकारी जेठमल, ज्येष्ठ पुत्र सुविचार ।  
मंस्था का प्रबन्ध करे, देश काल अनुमार ॥ ४ ॥





नाम रजिस्ट्री करवा दी गई है ( यह ५ लाख की सम्पत्ति उस समय में थी। अब इस की कीमत समय की स्थिति के अनुसार बहुत बढ़ गई है। इस संस्था का नवीन ट्रस्ट-डीड ता० २१ सितंबर सन् १९४४ ई० मिति आसोज सुदी ६ मं० २००१ वि० को कलकत्ते में कराया गया। ता० २१-३-४६ को व्याख्यान-भवन ( कोटड़ी ) एवं ता० २८-३-४८ को संस्था के प्रधान कार्यालय का बीकानेर में ट्रस्ट-डीड रजिस्टर्ड कराया )। उक्त संपत्ति के व्याज एवं किराये की आय से धर्म शास्त्र, हिन्दी-संस्कृत-प्राकृत, अंग्रेजी, महाजनी, आदि शिक्षण, ग्रंथालय एवं प्रकाशन विभाग आदि चल रहे हैं। सेठिया जैन पारमार्थिक संस्थाओं के विभिन्न विभागों द्वारा पिछले पैंतीस वर्षों में, समाज में शिक्षा एवं धर्म प्रचार के जो महत्त्व पूर्ण कार्य हुए हैं, वे समाज के सामने हैं। द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के अनुसार काम चलता रहता है।

सं० १९७६ में आपके पुत्र उदयचंदजी का असामयिक देहान्त हो गया। इस घटना से आपके मन पर संसार की असारता का गहरा असर हुआ। व्यापार व्यवसाय से आप का मन हट गया। अतएव कलकत्ते का विस्तृत व्यापार समेट कर आप बीकानेर पधार गये। आपने पारमार्थिक संस्थाओं का कार्य हाथ में लिया और अपनी सारी शक्तियों संस्थाओं की उन्नति में लगा दीं। धार्मिक ज्ञान वृद्धि का भी आपने यह अच्छा सुयोग समझा। आपने थोकड़े, बोल और स्तवनों का स्वयं संग्रह किया और उन्हें प्रकाशित कराया। इसके सिवाय आपने संस्कृत, प्राकृत, अर्द्धमागधी, आगम, न्याय, धर्म शास्त्र, हिन्दी, नीति और कानून विषयक पुस्तकें भी प्रकाशित कीं। संवत् १९६४ में आपने 'श्री ज्ञानोपदेश इकावनी' की रचना की, जो संवत्

१९६८ में पुष्प नं० ६६ से प्रकाशित हुई ।

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग सं० १९६६ में तैयार कराया । संवत् १९६७ में एक "पुस्तक प्रकाशन-समिति" बनाई गई । जिस में निम्न पदाधिकारी थे:—

अध्यक्ष—श्री दानवीर सेठ भैरोदानजी सेठिया ।

मंत्री—श्री जेठमलजी सेठिया ।

उपमंत्री—श्री माणकचंदजी सेठिया "साहित्य-भूषण" ।

### लेखक—मण्डल

१ श्री इन्द्रचंदजी शास्त्री M. A शास्त्राचार्य, न्याय तीर्थ, वेदान्त वारिधि ।

२ श्री श्यामलालजी जैन एम. ए. ( हिन्दी, अंग्रेजी ), न्याय-तीर्थ, विशारद ।

३ श्री घेवरचंदजी वांठिया "वीरपुत्र" सिद्धान्त शास्त्री, न्याय व्याकरण तीर्थ, संकेत-लिपि-विशारद ।

४ रोशनलाल चपलोट, वकील ।

इस समिति ने सं० २००१ तक बोल संग्रह के आठ भाग तैयार किये ।

सं० २००२ से अब तक श्री घेवरचंदजी वांठिया संशोधन, सम्पादन, अनुवादन और लेखन आदि कार्य कर रहे हैं ।

इनके सिवाय इस वृद्धावस्था में भी आपने निरंतर सं० १९६६ से पांच वर्ष तक अथक परिश्रम कर अपूर्व लगन के साथ जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के आठ भाग, सोलह सती,

आर्हत प्रवचन और जैन दर्शन ग्रंथ तैयार करा कर प्रकाशित कराये ।

सं० २००२ में श्री दशवैकालिक सूत्र अन्वय सहित शब्दार्थ व संचिप्त भावार्थ सहित निर्माण करा कर प्रकाशित किया । आपकी ज्ञान पिपासा एवं ज्ञान प्रचार की भावना के फल स्वरूप संस्था से १११ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं ।

इनके सिवाय उत्तराध्ययन एवं आचारांग प्रथम खण्ड मूल शब्दार्थ, अन्वयार्थ तथा संचिप्त भावार्थ सहित संवत् २००४ में तैयार कराये हैं जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाले हैं ।

आपकी दानवीरता एवं समाज तथा धर्म की सेवा का सम्मान कर सन् १९२६ में अखिल भारतवर्षीय श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कान्फरन्स के कार्यकर्ताओं ने आपको कान्फरन्स के बम्बई में होने वाले सप्तम अधिवेशन का सभापति चुना । कान्फरन्स का यह अधिवेशन बड़ा शानदार और सफल हुआ । आपकी दानशीलता के प्रभाव से उस अधिवेशन में एक लाख से अधिक फण्ड इकट्ठा हुआ ।

समाज और धर्म की सेवा के साथ आपने बीकानेर नगर और राज्य की भी सेवा की । लगभग दश वर्ष तक आप बीकानेर म्यूनिसिपल बोर्ड के कमिश्नर रहे । सन् १९२६ में सब से पहले जनता में से आप ही सर्व सम्मति से बोर्ड के वाइस प्रेसिडेन्ट चुने गये । सन् १९३१ में राज्य ने आपको ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया । लगभग सवा दो वर्ष तक आप बेंच ऑफ ऑनरेरी मजिस्ट्रेट्स में कार्य करते रहे । आपके फैमल किये हुए मामलों की प्रायः अपीलें हुई ही नहीं, यदि दो एक हुई भी तो अपीलेंट कोर्ट में भी आप ही की राय

बहाल रही । इससे आपकी नीर-क्षीर विवेकिनी न्यायबुद्धि का सहज ही अन्दाज हो जाता है । सन् १९३८ में म्यूनि-सिपल बोर्ड की ओर से आप वीकानेर लेजिस्लेटिव एसेम्बली के सदस्य चुने गये । निस्स्वार्थभाव से वीकानेर की जनता की सेवा कर आप उसके कितने विश्वस्त एवं प्रिय बन गये, यह इससे स्पष्ट है ।

सन् १९३० में संयोगवश सेठियाजी को पुनः व्यवसाय-क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा । वीकानेर में विजली की शक्ति से चलने वाला ऊन की गाँठें बाँधने का एक प्रेस विक्राज था । योग्य कार्यकर्ताओं के अभाव से वह बन्द पड़ा था । प्रेस के मालिक उसे चला न सके थे । क्रियात्मक शिक्षा देकर अपने पुत्रों को व्यापार-व्यवसाय में कुशल बनाने के उद्देश्य से आपने उक्त प्रेस खरीद लिया । आपने प्रेस को एवं वीकानेर के ऊन के व्यापार को उन्नति देने का निश्चय किया । प्रेस के अहाते में आपने इमारतें, गोदाम और मकानात बनवाये और व्यापारियों के लिये सभी सहूलियतें प्रस्तुत की । आपने कमीशन पर व्यापारियों का खरीद फरोख्त का काम भुगताना, आर्डर सफाई एवं यहाँ से सीधा विलायत में माल चढ़ाने का काम शुरू किया । माल पर पेशगी रकम देकर भी आपने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया । आपने प्रयत्न करके व्यापारियों के हक में राज्य एवं वीकानेर स्टेट रेल्वे से सुविधाएँ प्राप्त कीं । सभी प्रकार की सुविधाओं के होने से वीकानेर राज्य एवं बाहर के व्यापारी यहाँ काफी तादाद में आने लगे । ऊन का कारवार करने वाली बड़ी बड़ी कम्पनियाँ भी यहाँ अपने कर्मचारी रखने लगीं । इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रेस का काम बढ़ने लगा । सन् १९३४ में आपने ऊन

के काँटों से ऊन निकालने के लिये ऊल बरिंग फेक्टरी ( Wool Burring Factory ) खरीदी । इस प्रकार कुछ ही वर्षों में आपकी लगन और परिश्रम ने आपके संकल्प को कार्य रूप में परिणत कर दिया । आज ऊन प्रेस सन् १९३० के ऊन प्रेस से कुछ और ही है । यहाँ सैकड़ों मजदूर लगते हैं और हजारों मन ऊन का व्यापार होता है । हजारों गाँठे बँधती हैं और अमेरिका व लीवरपुल आदि को जाती हैं ।

सेठ साहब की धार्मिकता एवं परोपकार-भावना के फल-स्वरूप ऊन प्रेस में भी गाय, गोधों के घास एवं कबूतरों के चुगे के लिये, होमियोपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधियों के लिये तथा साधारण सहायता आदि के लिये पृथक् पृथक् फंड कायम किये हुए हैं और सभी में अलग अलग रकम जमा कराई हुई है । रकम के व्याज की आये से उपरोक्त सभी कार्य नियमित रूप से चल रहे हैं ।

इस प्रकार ऊन प्रेस को सब भौति समुन्नत कर सेठ साहब ने उसे अपने सुयोग्य पुत्र श्री लहरचंदजी, जुगराजजी और जानपालजी के हाथ सौंप दिया है एवं आप व्यापार व्यवसाय से सर्वथा निवृत्त हो, धर्मध्यान में संलग्न हैं । पिछले नौ वर्षों से धार्मिक साहित्य पढना, सुनना और तैयार करवाना ही आपका कार्यक्रम रहा है और अब भी आपका समय इसी प्रकार की धर्म सेवा में व्यतीत हो रहा है ।

परिवार की दृष्टि से सेठ साहब जैसे भाग्यशाली विरले ही मिलते हैं । आप के पाँच पुत्र हैं । सभी शिक्षित, संस्कृत एवं व्यापारकुशल हैं । सभी जुदे किये हुए हैं एवं जुदे २ व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं । पाँचों पुत्र सेठजी के

आज्ञानुवर्ती हैं एवं सभी भाइयों में परस्पर सराहनीय प्रेम है। यही नहीं आपके पौत्र, प्रपौत्र, पौत्री और प्रपौत्री हैं। सेठजी के दो पुत्रियों में से छोटी पुत्री मौजूद है एवं दोहिते और दोहितियाँ हैं तथा प्रदोहिते प्रदोहिती हैं।

सेठजी सफल व्यापारी, समाज और राज्य में प्रतिष्ठा प्राप्त, बड़े परिवार के नेता एवं सम्पन्न व्यक्ति हैं। आप दानवीर और परोपकारपरायण हैं। धर्म और परोपकार के कार्यों में आपने उदारता के साथ धन ही नहीं बहाया किन्तु तन और मन का योग भी आपने दिया है। बचपन में माता और बूढ़ी बहिनों से धार्मिक संस्कार प्राप्त करने वाले एवं धर्म-स्थान में शिक्षा का श्रीगणेश करने वाले सेठ साहेब की प्रवृत्ति सांसारिक कार्यों के बीच रहते हुए भी सदा धार्मिक रही है। सांसारिक वैभव में जलकमलवत् निर्लिप्त रह कर आपने नाम से ही नहीं, कर्म से भी धर्मचन्द का पुत्र होना सिद्ध किया है। आपने बचपन में ही पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी महाराज की सम्प्रदाय के मुनि श्री केवलचन्द जी महाराज से धर्म श्रद्धा ग्रहण की और जमीकंद का जाव जीव त्याग किया। आप गुणों के ही पुजारी हैं। पंच महाव्रतधारी निर्मल आचार वाले सभी साधु आपके लिए वन्दनीय हैं। आपको चाय, भंग, तमाखू, अफीम आदि के सेवन का व्यसन नहीं है एवं सात व्यसनो का आपके त्याग है तथा रात्रिभोजन का भी आपके नियम है। अंगूठी पचक्खाण तो बहुत वर्षों से है। आपने श्रावक के वारह व्रत धारण किये हैं और जीवन के पिछले वर्षों में आपने सपत्नीक शीलव्रत भी धारण किया है। संवत् २००५ में आपने निम्न त्याग किये हैं:—

( १ ) ऊन प्रेस विल्डिंगस् बीकानेर ( आपके निवास स्थान ) से १-१ कोस-उपरान्त चारों दिशाओं में स्वेच्छा काया से जाने का त्याग ।

( २ ) स्वयं व्यापार धन्धा करने का त्याग ।

( ३ ) कमठाणा आदि आरम्भ का त्याग ।

( ४ ) क्रमशः आपने पुद्गलों पर से ममता उतारते उतारते अपनी नेश्राय में केवल नाम मात्र के पुद्गल रखे हैं । ग्रहण किये हुए त्याग प्रत्याख्यान आप दृढ़ता के साथ पालन करते रहे हैं ।

आपकी सब से बड़ी विशेषता यह है कि आप स्वनिर्मित हैं । आप सदा स्वावलम्बी, साहसी, अघ्यवसायशील एवं कर्मठ रहे हैं । सभी प्रकार से सम्पन्न होकर भी आप सर्वथा निरभिमान हैं । 'सादा जीवन और उच्च विचार' इस महान् सिद्धान्त को आपने जीवन में कार्य रूप दिया है । आपका चरित्र पवित्र एवं अनुकरणीय है । आप में परमहंसों का सा त्याग, साधुओं का सा कर्मसंन्यास और वीरों की सी कर्मनिष्ठा है । आपने क्या नहीं किया और क्या नहीं पाया परन्तु सांसारिक विभूति के मोह बन्धन में आपने अपने को कभी नहीं बाँधा । आपके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर जैन गुरुकुल शिक्षण संघ, व्यावर ने आपको ' धर्म भूषण ' की उपाधि से विभूषित किया है । यह उपाधि सब तरह से आप जैसे महापुरुष को शोभा देती है ।

ता० २०-७-१९४७ तदनुसार प्रथम श्रावण सुदी ३ संवत् २००४ वि० को 'श्री श्वेताम्बर साधुमार्गी जैन हितकारिणी संस्था' बीकानेर के सदस्य एवं कर्मचारीगण ने आपको आपकी



२० वर्ष तक उक्त संस्था की निःस्वार्थ सेवा करने के उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन-पत्र अर्पित किया ।

संवत् २००५ में बोल संग्रह की प्रथमावृत्ति समाप्त होने आई परन्तु इसके लिए जनता की मांग बढ़ती ही जा रही थी । इस लिये आपने परिश्रमपूर्वक शंकाशील स्थानों का मान्य विद्वानों से निर्णय मंगवा कर संशोधन करवाया और बोल संग्रह के आठों भाग, प्रतिक्रमण, जैनागम तत्त्व दीपिका आदि ग्रन्थों का संशोधन हुआ । कई भागों की द्वितीयावृत्ति छप गई । शेष प्रकाशित हो रहे हैं ।

परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि आप चिरायु हों ।

उदयपुर ( राजस्थान )

रोशनलाल जैन  
बी.ए., एल.एल.बी.,  
न्याय-काव्य-सिद्धान्ततीर्थ, विशारद-  
वकील-हाई कोर्ट



## श्री सेठियावंशवृक्षः

वीकानेरे शुभे राज्ये, मरोः मस्तकमण्डने ।  
आसीत् कस्तूरिया नामा, ग्रामो धर्मविदां खनिः ॥ १ ॥  
कस्तूरीव समं विश्वं, यशोगन्धेन पूरयन् ।  
सेठियावंशवृक्षोऽयम्, कुरुतेऽन्वर्थनामकम् ॥ २ ॥  
तस्मिन्कुले महातेजाः, धार्मिकः कुलदीपकः ।  
सेठसूरजमल्लोऽभूत्, यशस्वी स्फीतकीर्तिमान् ॥ ३ ॥  
तदन्वये धर्मचन्द्रः श्रेष्ठी धर्मरतोऽभवत् ।  
आत्मजास्तस्य धर्मस्य, चत्वार इव हेतवः ॥ ४ ॥  
जाताः प्रतापमल्लोऽथ, अग्रचन्द्रः सुधीवरः ।  
भैरोदानो वदान्यश्च, हजारीमल्ल इत्यपि ॥ ५ ॥  
श्रमणोपासकाः सर्वे, धर्मप्राणाः गुणप्रियाः ।  
गुणरत्नाकराः नूनं, चत्वारस्तोयराशयः ॥ ६ ॥  
पूज्यश्रीहुक्मचन्द्रस्य, सिंहासनमुपेयुषः ।  
श्रीलालाचार्यवर्यस्य, भक्ताः गौरवशालिनः ॥ ७ ॥  
श्रीलालानन्तरं सर्वे, तत्पदसुशोभिनः ।  
श्रीमतो ज्वाहिराचार्यान्, तेजोराशीन् प्रपेदिरे ॥ ८ ॥  
हजारीमल्लपत्नी तु, श्रीरत्नकुंवराह्वया ।  
बाल्यादेव विरक्तासीत्, संसारैश्वर्यभोगतः ॥ ९ ॥  
बाणरसनिधीन्दौ सा, पत्यौ प्राप्ते सुरालयम् ।  
श्रीलालाचार्यवर्येभ्यः, दीक्षां जग्राह साधवीम् ॥ १० ॥  
श्रीमानकुंवरायाः, अन्तेवासिन्यभूत्तदा ।  
रंगूजीसम्प्रदाये च, जाता मोक्षाभिलाषिणी ॥ ११ ॥  
आनन्दकुंवराख्यायाः, प्रवर्तिन्याः सुशासने ।  
धर्ममाराधयन्ती या, सच्चारित्रपरायणा ॥ १२ ॥

अद्यापि पूर्ववैराग्या, धर्मे दृढतराधिका ।  
चरन्ती व्रतिनां वृत्ति, पूर्णोत्साहा विराजते ॥ १३ ॥  
श्रीमत्प्रतापमल्लस्य, सञ्जातास्तनयास्त्रयः ।  
ज्येष्ठः सुगुणचन्द्राख्यः, हीरालालश्च मध्यमः ॥ १४ ॥  
कनीयांश्चन्दनमलः, गुणवन्तो विचक्षणाः ।  
यौवने एव सर्वे ते, कालधर्ममुपागताः ॥ १५ ॥  
तिस्रः कन्यास्तथा जाताः, सुशीलाः सद्गुणाश्रयाः ।  
तक्खुवाई प्रधानाऽऽसीत्, सुगुणीबाइ मध्यमा ॥ १६ ॥  
मानबाई तृतीयाऽभूत्, धर्माराधनतत्पराः ।  
व्यूढाः शुद्धे कुले सर्वाः, प्रजावत्यः दिवं गताः ॥ १७ ॥  
श्रीमद्भैरवदानस्य, षट् पुत्रा विजज्ञिरे ।  
षड्दर्शनीवाध्यात्मस्य, आधाराः कुलदीपनाः ॥ १८ ॥  
द्वे कन्ये च तथाभूताम्, एका ज्येष्ठा समेष्वभूत् ।  
'वसन्तबाई' त्याख्याना, वंशयुग्मप्रमोदिनी ॥ १९ ॥  
ज्येष्ठमल्लः गुणैर्ज्येष्ठः, विनीतो धार्मिकः सुधीः ।  
श्रीमद्गरचन्द्रस्य, दत्तकत्वमवाप यः ॥ २० ॥  
पानमल्लः कलाविज्ञः, जातस्तदनु नीतिविद् ।  
ततो लहरचन्द्रोऽभूत्, राजनीतिपड्महान् ॥ २१ ॥  
उदेकर्णो दिवं प्राप्तः, युवैव कालधर्मतः ।  
युगराजस्ततो जातः, व्यापारेऽतिविचक्षणः ॥ २२ ॥  
ज्ञानपालः रसाभिज्ञः, काव्यसाहित्ययोः पटुः ।  
स्वयं कर्त्ता सुकाव्यानां, विद्वत्सेवी कविप्रियः ॥ २३ ॥  
मोहिनी भ्रातृमनसां, मोहिनीबाइ नामिका ।  
सञ्जाता शोभना कन्या, शौचशीलगुणान्विता ॥ २४ ॥  
श्रीमतो ज्येष्ठमल्लस्य, चत्वारस्तनयास्तथा ।  
एका कन्या कनिष्ठाऽभूत्, गृहलक्ष्मीव शोभना ॥ २५ ॥

माणकचन्द्र आत्मार्थी, जातो माणिक्यदीप्तिमान् ।  
श्रीमञ्चन्दनमल्लस्य, धर्मपत्नी गुणालयम् ॥ २६ ॥  
प्त्युर्नामार्थिनी लेभे, दत्तकं यं शुभाशया ।  
केसरीचन्द्रनामाऽभूत्, ततः स्वातन्त्र्यप्रीतिमान् ॥ २७ ॥  
भद्रो मोहनलालोऽभूत्, यशकर्णः सुबुद्धिमान् ।  
प्रखरप्रतिभायुक्तः, पुण्यशीलोऽपि बालकः ॥ २८ ॥  
शैशवे निहति नीतः, लुब्धेनाकार्यकारिणा ।  
ततः स्वर्णलता जाता, ज्योत्स्नेव कुलदोपिनी ॥ २९ ॥  
पानमल्लसुतः श्रीमान्, भँवरलालापराह्वयः ।  
जातः कुन्दनमल्लाख्यः, ज्येष्ठः पौत्रोऽस्ति यः कुले ॥ ३० ॥  
तत्सुतोऽस्ति रवीन्द्राख्यः, प्रपौत्रः कुलतारकः ।  
जीयाद्यथा रविर्भाति, भूमिमण्डलदीपकः ॥ ३१ ॥  
श्रीमल्लहरचन्द्रस्य, क्षेमचन्द्राभिधः सुतः ।  
विद्याविनयसम्पन्नः, चित्रलेखा च नन्दिनी ॥ ३२ ॥  
श्रीमद्भैरवदानस्तु, पुरुषार्थे भगीरथः ।  
दाने कर्णो दृढो धर्म, न्याये मेरुरिव स्थिरः ॥ ३३ ॥  
शैशवेऽधीतविद्यो यः, युवा धनमुपार्जयन् ।  
निजबाहुबलेनैव, संजातः कोट्यधीश्वरः ॥ ३४ ॥  
संसारसारतां बुद्ध्वा, उदेकर्णविसानतः ।  
परमार्थे मनश्चक्रे, दाने ध्याने स धार्मिके ॥ ३५ ॥  
श्रीमानग्रचन्द्रश्च, जीवनस्यान्तिमे क्षणे ।  
परलोकस्य यात्रायां, किञ्चिदातुं मतिं व्यधात् ॥ ३६ ॥  
उभौ कृत्वा मनो दाने, पञ्चलक्षमितं धनम् ।  
ध्रुवकोशं विधायाथ, स्थायिनीं पारमार्थिकीम् ॥ ३७ ॥  
स्थापयामासतुः संस्थाम्, धर्मस्योन्नतये तथा ।  
शुभशिक्षाप्रचाराय, सेवायै जिनधर्मिणाम् ॥ ३८ ॥

साहित्यस्य प्रसाराय, धर्मजागरणाय च ।  
समाजे प्रौढविदुषां, पूरणाय क्षतिं तथा ॥ ३६ ॥  
पुण्यप्रतापतेजोऽन्धिः, गंगासिंहो नृपाग्रणीः ।  
शासको मारवाडस्य, प्रजाया अतिवल्लभः ॥ ४० ॥  
तस्यैव छत्रछायायां, लोकानामुपकारकः ।  
जैनोद्यानस्य वृक्षोऽयम्, फलछायासमन्वितः ॥ ४१ ॥  
वर्द्धतां फलतां शश्वत्, यावच्चन्द्रदिवाकरौ ।  
वर्द्धमानजिनेशस्य, भक्तः शक्तः सदा सुखी ॥ ४२ ॥

पञ्चापाभिजनोऽधिकाशि निवसन् यो विश्वविद्यालये ।  
शास्त्राचार्य्यपदं तथान्यपदवीः सन्मानितः प्राप्तवान् ॥  
सिद्धयङ्गाङ्गविधौ कुजे शुभदिने शाश्वत्तृतीयातिथौ ।  
सोऽयं निर्मितवान् प्रशस्तिपटली“मिन्द्रः” गुणैः प्रेरितः ॥ १॥  
सेठियास्थापिते पीठे, प्रथमः पादपोऽस्ति यः ।  
वर्द्धितः पुष्पितस्तत्र, प्रथमं फलमवाप्तवान् ॥ २ ॥  
श्रीमद्भैरवदानस्य, पुण्ययोः पादपत्रयोः ।  
पुष्पाञ्जलिं विनीतः सन्, 'इन्द्रचन्द्रः' प्रयच्छति ॥ ३ ॥

अक्षय तृतीया  
१६६८  
वीकानेरनगरम्

इन्द्रचन्द्रः शास्त्री,  
वेदान्तवारिधिः, शास्त्राचार्यः,  
न्यायतीर्थः, B. A






४

२

३



प.कि १—गाएकचन्द्र, केसरीचन्द्र, जुगाज, कुण्णमल । प.कि २—लहरचन्द्र, जेठमन्, भैरोदानजी, पानमल, ज्ञानपाल ।

प.कि ३—गोहृदाल, गोगलता, खेगचन्द्र ।

## श्रीमान् सेठ धर्मचन्दजी सेठिया का वंश ।

श्रीमान् सेठ धर्मचन्दजी के चार पुत्र और पाँच पुत्रियाँ हुईं । उनके नाम—श्री प्रतापचन्दजी, श्री अग्रचन्दजी, श्री भैरोदानजी, श्री हजारीमलजी, चॉदाचाई, घमाचाई, पन्नीचाई, मीराचाई और डुगीचाई । श्रीमान् प्रतापचन्दजी के तीन पुत्रियाँ और तीन पुत्र हुए । उनके नाम—तक्खुवाई, सुगनीचाई, मानचाई । सुगनचन्दजी, हीरालालजी, चन्दनमलजी । इन तीनों के कोई संतान न हुई । इन तीनों का तरुणावस्था में ही स्वर्गवास हो गया । श्रीमान् चन्दनमलजी की धर्मपत्नी अभी मौजूद है । उन्होंने श्रीमान् जेठमलजी सेठिया के ज्येष्ठ पुत्र श्री माणकचन्दजी को गोद लिया ।

श्रीमान् अग्रचन्दजी के कोई संतान न हुई । उन्होंने अपने लघुभ्राता श्रीमान् भैरोदानजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री जेठमलजी को गोद लिया ।

श्रीमान् भैरोदानजी के ६ पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं । वे इस प्रकार हैं—१ वसंतकुंवरचाई, २ जेठमलजी, ३ पानमलजी, ४ लहरचन्दजी, ५ उदयचन्दजी, ६ जुगराजजी, ७ ज्ञानपालजी, और ८ मोहिनीचाई । संवत् १६६६ मिति काती सुद ६ को वसन्तकुंवर चाई का स्वर्गवास हो गया । उनके दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ और पोते, दोहिते और दोहिती हैं ।

श्रीमान् जेठमलजी के चार पुत्र और एक पुत्री हुईं । उनके नाम—माणकचन्दजी, केशरीचन्दजी, मोहनलालजी, जसकरणजी और स्वर्णलताचाई । संवत् १६६४ में केवल आठ वर्ष की अवस्था में ही जसकरणजी का स्वर्गवास हो गया । श्री माणक



चन्दजी के इस समय एक पुत्र कुसुमकुमार और एक पुत्री आशालता है । स्वर्णलतावाई के इस समय दो पुत्र हैं ।

श्रीमान् पानमलजी के इस समय एक पुत्र श्री कुन्दन-मलजी ( भंवरलालजी ) हैं । कुन्दनमलजी के एक पुत्र रविकुमार और दो पुत्री एक लीला और एक सुशीला है ।

श्रीमान् लहरचन्दजी के इस समय एक पुत्र श्री खेम-चन्दजी और एक पुत्री चित्ररेखा है । खेमचन्दजी के एक पुत्री और चित्ररेखा वाई के एक पुत्री इस समय है

संवत् १६७६ में श्रीमान् उदयचन्दजी का केवल १५ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्गवास हो गया । उनके स्वर्गवास के पश्चात् करीब १६ महीनों के बाद उनकी धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया

श्रीमान् जुगराजजी के इस समय एक पुत्र श्री चेतन-कुमार है । बाबू ज्ञानपालजी अभी अविवाहित हैं ।

मोहिनी वाई के इस समय दो पुत्र और तीन पुत्रियाँ हैं ।

श्रीमान् भैरोदानजी से छोटे भाई श्रीमान् हजारीमलजी थे । उनका स्वर्गवास युवावस्था में ही हो गया । उनकी धर्मपत्नी श्री रत्नकुंवरजी को बचपन से ही धर्म के प्रति विशेष रुचि एवं प्रेम था । संवत् १६३६ में केवल छः वर्ष की अवस्था में आपने रतलाम में पूज्य श्री उदयसगरजी महाराज के पास सम्यक्त्व ग्रहण की थी । पति का स्वर्ग-वास हो जाने पर धर्म के प्रति आपकी रुचि और भी तीव्र हो गई । आपको संसार की असारता का अनुभव हुआ और

( २३ )

वैराग्य भावना जागृत होगई । संवत् १९६५ में समस्त सांसारिक वैभवों का त्याग कर श्रीमज्जैनाचार्य पूज्यश्री श्रीलालजी महाराज के पास श्रीरंगूजी महाराज की सम्प्रदाय में श्री मैनाजी महाराज की नेश्राय में पूर्ण वैराग्य के साथ दीक्षा अंगीकार की । ४० साल हुए आप पूर्ण उत्साह के साथ संयम का पालन करती हुई आत्म कल्याण की साधना में अग्रसर हो रही हैं ।

विक्रम सं० २००५

ज्ञान पंचमी ।



## श्री सेठिया वंशावली

( दोहे )

- (१) सुन्दर भारतवर्ष में, क्षत्रिय कुल का राज ।  
जिन के शासन से सदा, हुआ सुखद<sup>१</sup> जगकाज ॥
- (२) ज्ञाति वहाँ विख्यात पुनि, पंचवारा<sup>२</sup> जेहि काल ।  
तहँ जन्मे शुभ समय में, उदयादित भूपाल ॥
- (३) शुद्ध तत्त्व की खोज में, जो रत रहे हमेश ।  
उनके पुण्य प्रताप से, मिले गुरु ज्ञानेश<sup>३</sup> ॥
- (४) रत्न प्रभ सरीश की, हो शिक्षा में लीन ।  
शैव धर्म को त्याग कर, जैन धर्म को लीन ॥
- (५) दो सौ बाईस वर्ष में, विक्रम नृप के बाद ।  
धर्म भूमि शुभ ओसिया, नगर किया आवाद ॥
- (६) संवत आया चार सौ, तेहि पर पुनि छत्तीश ।  
नृप वंशज तज कर चले, ओसिय<sup>४</sup> नगर पुरीश ॥
- (७) ग्राम जहाँ शुभ रणथमण, देश सुखद गुजरात ।  
निवसे जाय वहाँ सभी, जहँ के जन शुभ गात ॥
- (८) संवत आया पांच सौ, पुनि इग्यारह वर्ष ।  
भाव नगर में जा बसे, नृप वंशज सह हर्ष ॥
- (९) शुभ संवत जब सात सौ, और अधिक अड़तीश ।  
शत्रुञ्जय में जा बसे, तीर्थराज की दीश ॥
- (१०) संवत आया आठ सौ, और अधिक दशकेर<sup>५</sup> ।  
आये बसने के लिए, मारवाड़ भटनेर ॥

---

(१) सुखद-सुख देने वाला । (२) पंचवार-क्षत्रियो की एक जाति ।  
(३) ज्ञानेश-ज्ञानी । (४) ओसिय-ओसियाँ । (५) दशकेर-दस ।

- (११) वारह सौ के वर्ष जब, वासठ अधिक सुपूर ।  
आये बसने के लिए, तिवरी जोधापूर ॥
- (१२) पन्द्रह सौ के बाद जब, आया सैतालीश ।  
पहुँचे वीकानेर में, जहाँ के वीका ईश ? ॥
- (१३) बहु धन को संचय किया, नानाविध व्यापार ।  
कुछ ही दिन में हो गये, धनिकन में सरदार ॥
- (१४) पुनि सोलह सौ वर्ष जब, वासठ अधिक सुपूर ।  
धन धामादि समृद्धि से, बढे तहाँ भरपूर ॥
- (१५) हुई प्रतिष्ठा शहर में, कीर्ति बढी परदेश ।  
मान बढ़ा नृप चित्त में, जोधपूर के देश ॥
- (१६) एक समय अस आगया, उलफन का कुछ काम ।  
ईश इशारा पाय के, दिये गॉठ से दाम ॥
- (१७) तब तहाँ के महाराज ने, राजहितैपी जान ।  
सूरजमलजी को दिया, सेठ उपाधि महान ॥
- (१८) सूरजमलजी सेठ जो, किये नियम व्रत दान ।  
मूर्त्तरूप से आगये, सुत हो करणीदान ॥
- (१९) करणीदान सुसेठ के, रामदानजी सेठ ।  
पुत्र हुए धनधर्म में, कभी न थे जो हेठ ॥
- (२०) रामदानजी सेठ के, पुत्र भूरसीचन्द ।  
हुए अलौकिक मूर्ति जो, निजकुल कैरवचन्द ३ ॥
- (२१) सुन्दर शुभ छन पायके, जगत हुआ आनन्द ।  
धर्म बढ़ाने के लिए, हुए भूरसीनन्द ॥
- (२२) धर्मचन्द पा नाम को, किया धर्म का काम ।  
धर्म बढ़ाने में लगे, छन छन आठों याम ४ ॥

(१) ईश-राजा । (२) मूर्त्तरूप-साकार-शरीरधारी । (३) कैरवचन्द-कुलरूपी कुमुद के लिए चन्द्रमा के समान । (४) याम-पहर ।

- (२३) रक्षा हित अस्तित्व का, धर्मरूप धर चार ।  
धर्मचन्दजी सेठ के, हुए पुत्र मनु चार ॥
- (२४) पहले सेठ प्रतापमल, जो विनयों की खान ।  
आये जो सम्पर्क में, किये सदा तेहि मान ॥
- (२५) मनु जिनके परताप से, कृपण दोष हट दूर ।  
गया लुकाने के लिए, जहँ थे भानुष कूर ॥
- (२६) जो जाचक जन के लिए, द्रिए सदा धन दान ।  
अपने कष्ट भले सहे, दूजे का रख मान ॥
- (२७) अग्रचन्दजी दूसरे, पुत्र हुए समुदार ।  
जिनकी गन्ध उदारता, सुरमित कुछ संसार ॥
- (२८) तीजे पुत्र सुसेठ श्री, जन्मे भैरवदान ।  
जग में रखने के लिए, दान मान का ग्रान ॥
- (२९) जिनकी एक विचित्र थी, सब बचपन की बात ।  
होनहार विरवान? के, होत चीकने पात<sup>२</sup> ॥
- (३०) था स्वभाव इनका सदा, बचपन ही के माँय ।  
ना करना नहीं जानते, श्रेष्ठ कर्म के माँय ॥
- (३१) जो दुर्जन से अलग रह, सज्जन से कर प्रेम ।  
करते थे पालन सदा, जप तप पुनि शुभ नेम ॥
- (३२) हुए हजारीमल्लजी, चौथे पुत्र सुजान ।  
विनय आदि जो सौम्य गुण, थे उनके सब प्राण ॥
- (३३) आज्ञा पाकर काल की, युवा अवस्था माँय ।  
मृत्यु लोक तज कर गये, स्वर्ग लोक के माँय ॥
- (३४) पत्नी जिनकी नेक थी, रत्न कुँवरि था नाम ।  
बचपन से जिसने क्रिया, सदा धर्म का काम ॥

- (३५) उन्नीसौ छत्तीस में, आय नगर रतलाम ।  
ग्रहण किया सम्यक्त्व को, शुभद<sup>१</sup> सुखद शिवधाम ॥
- (३६) पति को अन्तिम समय में, दिया ज्ञान का साज ।  
पतिभक्ता वनिता सदा, करती ऐसा काज ॥
- (३७) जीवन साथी भर्तृ<sup>२</sup> के, स्वर्ग गमन के बाद ।  
बढी भावना धर्म की, भूल गई विस्माद<sup>३</sup> ॥
- (३८) इस असार संसार में, रहा न तनिक सनेह ।  
मनु विराग घर रूप को, आया नर के देह ॥
- (३९) पूर्व पुण्य के योग से, जगा धर्म परिणाम ।  
व्रतादान<sup>४</sup> के हेतु से, पहुँची गुरु के धाम ॥
- (४०) पूज्य श्री-श्रीलाल जी, महाराज के पास ।  
रंगूजी महाराज की, संप्रदाय जहँ खास ॥
- (४१) श्री मैनाजी थी जहाँ, साध्वी शुभ गुण खान ।  
रत्नत्रय<sup>५</sup> आराधना, पुनि संयम जेहि ग्रान ॥
- (४२) उन्नीसों पंच साठ में, सभी विभव को त्याग ।  
मैनाजी के पास में, वनी व्रती<sup>६</sup> सविराग ॥
- (४३) दो हजार पुनि पाँच अब, संवत का है मान<sup>७</sup> ।  
दीक्षा वर्ष हुआ अभी, चालिस वर्ष प्रमान ॥
- (४४) जरा= अवस्था है अभी, नहिँ संयम कुछ खाम ।  
संयम की आराधना, करती आठों याम ॥

---

(१) शुभद-शुभदायक । (२) भर्तृ-पति । (३) विस्माद-महान् शोक ।  
(४) व्रतादान-दीक्षा (व्रत) ग्रहण करना । (५) रत्नत्रय-ज्ञान, दर्शन,  
चारित्र्य । (६) व्रती-व्रत ग्रहण किया हुआ । (७) मान-प्रमाण  
(८) जरा-बुढ़ापा ।

- (४५) धरमचन्दजी सेठ के, 'ये' सब चारों पुत्र ।  
सभी धुरन्धर धर्म के, सभी धर्म के सुत्र ? ॥
- (४६) इन में भैरवदानजी, अब भी है मौजूद ।  
उम्र तयासी वर्ष की, मूर्त्त<sup>२</sup> पुण्य जिमि खूद ॥
- (४७) सुत पौत्रादि अनेक हैं, सभी योग्य हर तौर ।  
दिखलाते हैं प्रेम को, सभी धर्म के ठौर ॥
- (४८) सभी परस्पर प्रेम से, रहते अपने घाम ।  
शुभ सुन्दर व्यापार से, करते अपने काम ॥
- (४९) ऐसे सुत पौत्रादि सह, दानी भैरवदान !  
श्रावक व्रत पालन करें, आगम का रख मान ॥
- (५०) दो हजार पुनि पांच अब, विक्रम संवत् जाय ।  
ये बातें लीखी गईं, विकानेर के माँय ॥
- (५१) जगती जल जब तक रहे, सूर्य देव का पेय<sup>३</sup> ।  
वंश वृद्ध यह सेठिया, नित्य नये फल देय ॥

---

(१) सुत्र-रत्नक । (२) मूर्त्त-शरीरधारी । (३) पेय-पीने योग्य ।



## बारह भावना ( दोहे )

### (१) अनित्य भावना ।

- (१) काया कञ्चन कामिनी, चिपय भोग सब जोय ।  
क्षणभङ्गुर? संसार में, रहि न सके थिर कोय ॥
- (२) जेती वस्तु जहान? में, छिन छिन पलटा खाय ।  
जो दिखती हैं भोर मे, सो संध्या में नाय ॥
- (३) इस जग में कोई कही, वस्तु न ऐसी खास ।  
जिसमें हरदम के लिए, किया जाय विश्वास ॥
- (४) लक्ष्मी संध्या की छटा, यौवन जल का फेन ।  
राजत? अक्षिनिमेप? तक, जाया भ्रात बहेन ॥

### (२) अशरण भावना ।

- (५) मात पिता सुत भामिनी,? अरु जेप्रिय परिवार ।  
काल-व्याघ्र? के गाल से, कोउ न राखनहार ॥
- (६) धर्म एक ही जगत में, शरणागत प्रतिपाल ।  
तेहि विन रक्षा को करे, काल चक्र के जाल ॥

### (३) संसार भावना ।

- (७) लेकर गर्भारम्भ से, देह त्याग पर्यन्त ।  
जगत जीव सब दुःख से, पीड़ित हैं हा हन्त? ॥
- (८) कहीं कष्ट अतिवृष्टि से, कहीं वर्षा विनु हाय ।  
दुःख भरा इस लोक में, शान्ति नहीं कहीं पाय ॥

---

१ क्षणभङ्गुर-नाशवान् । २ जहान-संसार । ३ राजत-ठहरता ।  
४ अक्षिनिमेप-क्षणमात्र । ५ भामिनी-स्त्री । ६ काल व्याघ्र-मृत्यु रूपी  
सिंह ७ हन्त-खेद



- (६) रंगमञ्च<sup>१</sup> यह जगत है, कर्म खिलावन हार ।  
नाना रूप बनाय के, चेतन खेलन हार ॥
- (१०) कभी जीव माता बना, पिता पुत्र फिर नार ।  
माई भगिनी बन गया, यह विचित्र संसार ॥
- (११) यह संसार असार है, लेश न इसमें सार ।  
भटका जीव अनादि से, पाया दुःख अपार ॥

### (४) एकत्व भावना ।

- (१२) जीव अकेला जनमता, मरे अकेला होय ।  
कर्मों का संचय करे, सुख दुख भोगे सोय ॥
- (१३) सभी कुटुम्बी हर्ष से, धन भोगों मन लाय ।  
जीव अकेला कर्म का, अपराधी बन जाय ॥
- (१४) जीव अकेला स्वर्ग सुख, भोगे अति हर्षाय ।  
नरकादि दुख एकला, भोगत पुनि पछताय ॥
- (१५) तन त्यागे जग जात जो, रहे न सँग छिन एक ।  
किया कर्म लेकर चला, पर भव प्राणी एक ॥

### (५) अन्यत्व (परपक्ष) भावना ।

- (१६) जीव जुदा काया जुदी, काया जीव न एक ।  
क्षणभङ्गुर यह काय है, जीव नित्य पुनि एक ॥
- (१७) काया पुद्गल-पिंड है, चेतन ज्ञान सरूप ।  
यह शरीर पुनि मूर्त्त है, जीव अमूर्त्त अनूप<sup>२</sup> ॥
- (१८) जीव अनादी काल से, सहता योग वियोग ।  
कभी-किसी से विछड़ता, कभी किसी से योग ॥

---

१ रंगमञ्च-खेलने की जगह । २ अनूप-उपमा रहित ।

(१६) जितनी वस्तु जहान में, वे सब हैं परकीय<sup>१</sup> ।  
इनसे ० ममता त्याग कर, घ्यावो आत्मस्वकीय<sup>२</sup> ॥

### (६) अशुचि भावना ।

- (२०) घृणित वस्तु संयोग से, हुई काय तैयार ।  
अशुचि वस्तु से है बड़ी माता गर्भागार<sup>३</sup> ॥
- (२१) उत्तम सुन्दर सरस भी, होय भले आहार ।  
जाकर अन्दर काय के, अशुचि होत तैयार ॥
- (२२) नेत्रादिक नव द्वार से, भरता मैल हमेश ।  
निर्मल यह नहिं बनि सके, करिये यत्न अशेष<sup>४</sup> ॥
- (२३) हाड मांस का पीजरा, हँका चामड़ी माय ।  
भरी असह दुर्गन्ध से, महाघृणित यह काय ॥

### (७) आश्रव भावना ।

- (२४) मन वच तन के शुभ अशुभ, योगों से जी जोय ।  
गहे शुभा शुभ कर्म को, आश्रव जानो सोय ॥
- (२५) एकेन्द्रिय आधीन हो, मृग खोते निज गात ।  
पञ्चेन्द्रिय आधीन जो, फिर उनकी क्या बात ॥

### (८) संवर भावना ।

- (२६) जिस व्रत के स्वीकार से, आश्रव की सब आय ।  
रुक जाती- तत्काल ही, वह संवर कहलाय ॥
- (२७) डूब बटोही<sup>५</sup> जांय वे, छिद्र तरी<sup>६</sup> चढ जांय ।  
बन्द करें जब छिद्र को, सुख से वे तरि जांय ॥

---

१ परकीय-पराई । २ आत्म स्वकीय-अपनी । ३ गर्भागार-गर्भ मे ।  
४ अशेष-सम्पूर्ण । ५ बटोही-यात्री । ६ तरी-नाव ।

- (२८) आश्रय से जिस कर्म की, होती छिन छिन आय ।  
जो रोके उन सवन को, संवर द्रव्य कहाय ॥
- (२९) भव हेतुक सब कर्म का, मन से सच्चा त्याग ।  
भावरूप संवर वही, अंस? मुनियों की वाग२ ॥

### (९) निर्जरा भावना ।

- (३०) जग का कारण भूत जो, कर्मों का सन्तान ।  
उमका लय है निर्जरा, मुनिजन का अम मान ॥
- (३१) जिमि सोने के मैल को, आग साफ करि देत ।  
तिमि तप रूपी आग भी, आत्म शुद्धि करि देत ॥
- (३२) पाप पहाड़ों के लिए, है यह वज्र स्वरूप ।  
पाप रूप घन३ के लिए, है यह आंधी रूप ॥
- (३३) इम तप के परभाव से, पापों का कर नाश ।  
बहुत जनों ने है किया, अविचल४ शिवपुर५ वाम ॥

### (१०) लोक स्वरूप भावना ।

- (३४) इम जग के संस्थान का, करना सदा विचार ।  
लोक भावना है यही, धर्म बढ़ावन हार ॥
- (३५) लोक भावना के किये, तत्त्वज्ञान प्रदिपाय ।  
मन बाहर जावे नहीं, अन्दर थिर हो जाय ॥

### (११) बोधि दुर्लभ भावना ।

- (३६) रत्न तीन सम्यक्त्व पुनि, ज्ञान बोधि का अर्थ ।  
साधन मिलना धर्म का, कहीं होत यह अर्थ ॥

---

१ अम-चह २ वाग-वाणी । ३ घन-घादल । ४ अविचल-निश्चल ।  
५ शिवपुर-सोह ।

- (३७) यहाँ ज्ञान ही मुख्य है, अन्य अर्थ है गौण ।  
ज्ञान बिना 'सद्धर्म' को, पहचानेगा कौन ॥
- (३८) बोधि<sup>१</sup> रत्न दोउ तुल्य है, इनमें धर्म समान ।  
रत्नों में द्युति<sup>२</sup> मुख्य है, मुख्य बोधि में ज्ञान ॥
- (३९) पढ़ अगाध भव कूप में, भटकत फिरे हमेश ।  
बोधिरत्न पावे कहाँ, जहाँ माया का देश ॥

### (१२) धर्म भावना ।

- (४०) जिससे परभव सुधरता, इस भव में कल्याण ।  
वही धर्म है परम हित, अस आगम अभिधान<sup>३</sup> ॥
- (४१) चारों ही पुरुषार्थ में, धर्म बड़ा सरदार ।  
मूलभूत सब तत्त्व का, महिमा अमित अपार ॥
- (४२) कामधेनु चिन्ता रतन, कल्प वृक्ष सुख हेत ।  
सब सेवक है धर्म के, विन सांगे फल देत ॥
- (४३) धर्म भावना के किये, जीव धर्म थिर होय ।  
धर्म कार्य में रत रहे, धर्म च्युत<sup>४</sup> ना होय ॥

---

१ बोधि-सम्यक्त्व । २ द्युति-कान्ति । ३ अभिधान-कथन ।  
४ च्युत-गिरना ।

## चार भावना

- (१) जाहि जोति से पा गये, शिवपद अखिल? जिनेश ।  
सोइ जोति मो मन वसे, जग-मग रहे हमेश ॥
- (२) जो ये चारों भावना, भवतारन की सेतु<sup>२</sup> ।  
करूँ आत्म हित के लिए, अन्य न कोई हेतु ॥
- (३) मैत्री करुणा मुदित पुनि, उदासीनता धार ।  
साधक भव-वारिधि तरे, पावे पद अविहार ॥
- (४) ताते चारों भावना, भावो मन के योग ।  
जाते भव बन्धन कटे, मिटे सकल भव रोग ॥
- (५) भावते नित भावना, चञ्चल मन थिर होय ।  
मुक्ति मार्ग को पाय के, शिव अधिकारी होय ॥

## मैत्री भावना

- (१) जग के जीवों को सदा, करहु मित्र सम प्यार ।  
वैर न करिये काहु से, मित्र भाव मन धार ॥
- (२) वैर भाव उद्वेग की, पुनि भय दुख की खान ।  
मित्र भावना है सदा, शान्ति सुखों का थान ॥

## मैत्री भावना के लिए वैर त्याग—

- (३) दुःख रूप दावाग्नि को, है जो पवन समान ।  
चिन्ता रूपी बेल को, सींचे मेघ समान ॥
- (४) धर्म रूप शुभ कमल को, नाशत बर्फ समान ।  
महाभयों की खान जो, कर्म बन्ध का थान ।
- (५) रागद्वेष पहाड़ का, ऊँचा शिखर समान ।  
ऐसा वैर विपक्ष<sup>३</sup> है, चित्त क्षोभ का थान ॥

---

(१) अखिल-सब । (२) सेतु-पुल । (३) विपक्ष-शत्रु ।

- (६) वैर विषची से रहो, मनुआं! तूं हुशियार ।  
त्यागे इसके जीत है, नेह करे ते हार ॥
- (७) शमभङ्गक? दुख मूल जो, चिन्ता का जो भेष? ।  
मैत्री भावों का रहे, जो प्रतिपक्ष हमेश ॥
- (८) मित्रो! वह गृह नहिं बसे, करे वैर जहँ वास ।  
कौरव पाँडव वंश का, क्रिया इसी ने नाश ॥
- (९) ताते, मैत्री भावना, भावो शुद्ध हमेश ।  
वैर भाव सब दूर हो, रहे न दुख का लेश ॥
- (१०) मैत्री भाव मनुष्य का, है गुण सहज महान ।  
वैर भावना जाहि में, वह नर पशु समान ।
- (११) मैत्री भाव विकसते, आस पास के लोग ।  
विसर जात हैं वैर को, करहिं उचित सहयोग ॥
- (१२) निज विकास द्वित चित्त जो, निर्मल करना होय ।  
तो तुम मैत्री भाव को, अपनाओ छल खोय ॥

### सभी जीव भाई हैं—

- (१३) भव भव के सम्बन्ध से, जीव मात्र समुदाय ।  
नहिं कोई ऐसा रहा, जो न हमारा भाय ॥
- (१४) सबही जीव जहान के, जब हैं मेरे भाय ।  
करना उनसे वैर भी, अनुचित समझा जाय ॥

### क्षमापना—

- (१५) सभी जीव - जब हो चुके, बन्धु किसी भव मांय ।  
उनका बुरा न सोचना, करना सदा सहाय ॥

---

(१) शमभङ्गक-शान्ति को नष्ट करने वाला ।(२) भेष-रूप ।

(१६) जो तुझसे अज्ञान वश, हुई किसी की हानि ।  
तो तू शाम, सुबह उसे, करो शान्त सनमानि ॥

### मैत्री क्रम—

- (१७) ज्यों ज्यों आतम शक्ति का, होता जाय प्रकाश ।  
मैत्री रूपी बेल का, त्यों त्यों होत विकाश ॥
- (१८) जड़ इसकी निज गेह में, जो हो सुन्दर वेष ।  
स्कन्ध कुडम्बों में रहे, शाखा सारे देश ॥
- (१९) इहि विधि मैत्री भावना, भावो शुद्ध हमेश ।  
तो पुनि मैत्री बेलड़ी, बाढे सारे देश ॥
- (२०) अन्य मतों के साथ तूँ, कर नहीं जरा विरोध ।  
तत्त्व खोज की दृष्टि से, कर तूँ मत का शोध ? ॥
- (२१) किसी जाति के लोग से रख नहीं जरा विभेद ।  
मित्र भाव त्यागो नहीं, जो स्वभाव कुछ भेद ॥
- (२२) जीव आदि छह द्रव्य का, है स्वभाव में भेद ।  
तो भी ये जग में रहें, हिलमिल, रखे न भेद ॥
- (२३) चन्द्र रहे, आकाश में, भू पै रहे चक्रोर ।  
मैत्री इनकी नित बढे, कभी न होवे थोर ॥
- (२४) जैसे उक्त पदार्थ में, देश जाति का भेद ।  
करे न किञ्चिन्मात्र भी, मित्र भाव का छेद ॥
- (२५) वैसे तुझको उचित है, कर जीवों से प्रेम ।  
होने पै कुछ भेद भी, तज मत मैत्री नेम ॥
- (२६) रे दुर्भाग ! जवासिया ! वर्षा ऋतु के माय ।  
जलता क्यों इस भांति से, हरा भरा तूँ नाय ॥

- (२७) भाई अब मैं क्या कहूँ, अपने दुख की बात ।  
वनस्पती का उदय लखि, सूख गया मम गात ॥
- (२८) अरे दुष्ट जवासिया !, तू तो बड़ा नादान ।  
पर सम्पत्ति लखि व्यर्थ ही, क्यों होता हैरान ॥
- (२९) थावर जग में जन्म से, जड़तावश? मैं नीच ।  
पर<sup>२</sup> मानव इर्ष्यालु जो, है वह मुझ से नीच ॥

### प्रमोद भावना

- (१) लखि गुणिजन की पूजना, आदर सह पुनि मान ।  
हर्षित होना ताहि ते, है प्रमोद शुभ खान ॥
- (२) वीतराग अरिहंत का, पुनि जे साधु सुजान ।  
दानी श्रावक वर्ग का, सबका कर गुणगान ॥
- (३) कर्त्तव्य व्रत पाल कर, जो चाहसि भव पार ।  
तो ईर्ष्या मन से तजो, रोधक<sup>३</sup> सेवा द्वार ॥
- (४) धन जन सम्पत्ति अन्य की, देख न मन ललचाव ।  
अन्य पुरुष सन्मान को, देख हृदय हर्षाव ॥
- (५) उदित सूर्य को देख कर, जिमि सरोज<sup>४</sup> खुश होत ।  
अतु वसन्त को देखते, जिमि वन विकसित होत ॥
- (६) सुनत मेघ की गर्जना, नाचत मत्त<sup>५</sup> मयूर ।  
चातक जिमि जल विन्दु पा, हो प्रसन्न भरपूर ॥
- (७) हे मानव ! इहि भांति तूँ, पर उन्नति को देख ।  
अति प्रसन्न शुभ दृष्टि से, ताहि ओर तूँ देख ॥

(१) जड़तावश-अज्ञानतावश । (२) पर-परन्तु ।

(३) रोधक-रोकने वाला । (४) सरोज-कमल । (५) मत्त-मग्न-  
मतवाला । (६) पेख-देख ।



- (८) करो न ईर्ष्या अन्य से, तेहि उन्नति हर्षव ॥  
ऐसा करने से सभी, करें तुम्हारा चाव ॥
- (९) हिलमिल तुम सब से रहो, प्राणी से रख प्रेम ।  
इहि विधि<sup>१</sup> भव वारिधि<sup>२</sup> तरो, कर जप तप पुनि नेम ॥
- (१०) चिरकालिक संस्कार से, यह मन ईर्ष्या खान ॥  
पर उन्नति नहीं महि सके, वृथा जले नादान ॥
- (११) ईर्ष्या सद्गुणहारिणी, पाप बढ़ावनि- हार ।  
इह भव में दुख दायिनी, परभव नाशनि हार ॥
- (१२) ऐसी ईर्ष्या को जरा, दो नहीं मन में थान ।  
जो चाहसि इस लोक में, या पर भव कल्याण ॥
- (१३) यह प्रमोद शुभ भावना, करती सदा प्रमोद ।  
सभी दुःख को दूर कर, मन में रखती मोद ॥

### करुणा भावना

- (१) मन अरु तन के दुःख से, दुखी जीव को जोय ।  
दुःख नाश की चाह को, जानो करुणा सोय ॥
- (२) करुणा गुण समदृष्टि का, जैनागम के मॉय ।  
धर्ममूल करुणा कही, अन्य धर्म के मॉय ॥
- (३) साधुपना श्रावकपना, बिन करुणा नहीं होय ।  
करुणा बिन नहीं जा सके, सेवा पथ पै कोय ॥
- (४) जीवन प्रिय सब जीव को, सब को सुख क्री चाह ।  
तिरस्कार दुख मृत्यु के, नहीं जावे कोइ राह ॥
- (५) तुम्हे चाह जिस वस्तु की, उसे शीघ्र कर दान ।  
ताहि वस्तु को हाथ ले, तुम्हें भाग्य दे मान<sup>३</sup> ॥

---

(१) इहि विधि—इस प्रकार । (२) भव वारिधि—ससार समुद्र ।

(३) मान—आदर ।

- (६) दुखी जीव जिस द्रव्य से, सुख नहीं पाये होया  
वह धन नहीं कुछ काम का, बकरी गल<sup>१</sup>-थन सोय ॥
- (७) दुखी जीव जिम काम से, रक्षित हुए न होय ।  
दुखी जीव जिस शक्ति से, उद्धृत हुए न होय ॥
- (८) मोक्ष मार्ग जिस वृद्धि से, नहीं पहचाना होय ।  
है नहि ये कुछ काम के, भार रूप पुनि सोय ॥
- (९) सुख, हित, विद्या, कीर्ति पुनि, सुत विनीत सब जोय ।  
पुण्य वृत्त के फल सभी, जो सुखदायी होय ॥
- (१०) जो चाहो इस वृत्त के, हरेभरे हों पात ।  
करुणा जल से सींचिये, इसकी जड दिन रात ॥
- (११) करुणा जल अभिषेक<sup>२</sup> विन, पुण्य वृत्त नशि जाय ।  
ता विन सुख सम्पन्नता, क्षण में स्वयं विलाय<sup>३</sup> ॥
- (१२) दीन, अपंग, दरिद्र नर, रोगी भाग्य विहीन ।  
विधवा, वृद्ध, अनाथ, शिशु, पर पीडित, बलहीन ॥
- (१३) विकट समय जो मर रहें, विना अन्न विन घास ।  
ये सब करुणा पात्र हैं, रखें तुम्हारी आश ॥

### मध्यस्थ भावना

- (१) जग के जीवों को सदा, करनं में अब<sup>४</sup> दूर ।  
मध्य भावना का मनन, साथ देय भरपूर ॥
- (२) मध्य भावना के विना, सम<sup>५</sup> हो विषम<sup>६</sup> समान ।  
पर-अव-मोचन दूर रह, आपृहि गुण विलगान<sup>७</sup> ॥

(१) बकरी-गल-थन-बकरी के गले में लटकने वाला स्तन ।

(२) अभिषेक-सींचना । (३) विलाय-नष्ट हो जाता है ।

(४) अव-राग । (५) सम-समभाव । (६) विषम-विषम भाव ।

(७) विलगान-दूर होना ।

- (३) जग सेवा जग जीव का, करने में उपकार ।  
पुनि शुभ धर्म प्रचार में, सहन शीलता धार ॥
- (४) शत्रु तुम्हें यदि मारने, को भी उद्यत होय ।  
कोप खेद करना नहीं, जेहि तव कारज होय ॥
- (५) चेतन इस संसार में, ऐसे हैं कुछ जीव ।  
जो तेरे प्रतिपक्ष हैं, पाप कर्म के सीव<sup>१</sup> ॥
- (६) साम, दाम अरु भेद से, दे सुन्दर उपदेश ।  
पुनि तेहि मीठे वचन से, बोधित करो हमेश ॥
- (७) सभी उपायों से यद्यपि, नहीं समझे वह क्रूर ।  
जरा न तेहि अपमान कर, तेहि से हट तूँ दूर ॥
- (८) पापी का मत नाश कर, कर पुनि पाप विनाश ।  
किसी जीव के नाश से, हिंसा आवे पास ॥
- (९) हिंसा के आगमन मे, पाप सृष्टि अधिक्राय ।  
अधः पात हो आत्म का, पुण्य छीण हो जाय ॥
- (१०) छेदन करना वस्त्र का, मल नाशन के हेत ।  
नीति शास्त्र के मार्ग में, नहीं यह शोभा देत ॥
- (११) जिमि जल कोमल वस्त्र से, मैल हटाया जाय ।  
वातों से करि नम्र तिमि, पापी पाप नशाय ॥
- (१२) देश 'हितैषी मनुज जो, अधिक होय बलवान ।  
बदला ले नहीं शत्रु से, करे ताहि सन्मान ॥
- (१३) सहन शीलता धारना, वीरों का है काम ।  
धार न सके सहिष्णुता,<sup>२</sup> दुर्बल नर बलखाम<sup>३</sup> ॥

---

(१) सीव-हठ । (२) सहिष्णुता-सहनशीलता । (३) बलखाम-बलहीन ।

- (१४) चेतन की बल वृद्धि से, सहन शीलता होय ।  
ताते तुम धारण करो, शान्ति खमा? शुभ दौय ।
- (१५) उदासीनता धार लो, जो निज मन के माँय ।  
तो अरि? त्यागे धृष्टता, पुनि सेवक बन जाय ॥
- (१६) ये सब ही शुभ भावना, भावे भैरवदान ।  
जो भावे शुभ भावसे, होय परम कल्याण ॥

---

(१) खमा-क्षमा । (२) अरि-शत्रु ।



## आत्म-प्रबोध भावना ।

- (१) नमो आदि अरिहंत को, जिन प्रकटा सब ज्ञान ।  
धर्म सिखाया जगत को, दूर किया अज्ञान ॥
- (२) सकल चराचर विश्व जस, हस्तामलक<sup>१</sup> समान ।  
सो प्रभु मति निर्मल करे, विघ्न हरे बलवान ॥
- (३) लोक हितैषी धर्म रत, मुनि जन ज्ञान समेत ।  
कीनी बहु सद्भावना, भव नाशन के हेत ॥
- (४) सोइ अधार कछु पाय के, आत्म मनन के हेतु ।  
करता हूँ सद्भावना, और न कोई हेतु ॥
- (५) यह शरीर पर्याय जो, नित, नित पलटा खात ।  
पर मैंने जाना नहीं, दिन दिन निरखत गात<sup>२</sup> ॥
- (६) अभी देह की यह थिती, निरखत ममता जात ।  
प्रभु की वाणी सत्य वह, “अथिर विनश्वर<sup>३</sup> गात” ॥
- (७) परमाणु के मिलन से, बना हुआ यह गात ॥  
विखरन से इनके नहीं, चेतन का कुछ जात ॥
- (८) जिमि अकाश में वादली, घुमड़त विछुरत आप ।  
कोई जग कर्ता नहीं, होता आपो आप ॥
- (९) चेतनकाय वियोग से, क्यों तू है ध्वरान ।  
रखने से क्या रहि सके, छोड़े से क्या जात ॥
- (१०) मैं तो चेतन अमर हूँ, दर्शन सुख अरु ज्ञान ।  
वीर्य आदि जो सहज गुण, सब मेरे पहचान ॥
- (११) काय रहे या जाय जो, पुद्गल का परिणाम ।  
मैं अविनाशी एक सा, चिन्ता का क्या काम ॥

(१) हस्तामलक-हथेली पर रखा हुआ आवला । (२) गात-शरीर ।

(३) विनश्वर-नष्ट होने वाला ।

- (१२) अब तक था मैं जानता, है यह मेरी देह ।  
पाली पोसी प्रेम से, कर कर नित नव नेह ॥
- (१३) पर अब मैंने समझ ली, इस काया की चाल ।  
अब तक हुई न आपणी, आगे कौन हवाल ॥
- (१४) मेरी होती काय जो, रहती मम आधीन ।  
रोग, शोक अरु मृत्यु के, क्यों होती आधीन ॥
- (१५) एक तुम्हारे देह के, कितने सगे न अन्त ।  
मोह फॉस में सब बंधे, मूर्ख अरु भतिमन्त ॥
- (१६) जग का नाता भूठ है, क्यों फँसता इस फंद ।  
जीव एक अरु नित्य है, सहज सच्चिदानन्द ॥
- (१७) सम्पत्ति कारण आज तक, बांधे कर्म अपार ।  
बिन भोगे छूटे नहीं, करो कोटि उपचार ॥
- (१८) बीती सो बीती सही, अब तो ममता छोड़ ।  
नया कर्म बांधो मती, कृत कर्मों को भाड़ ॥
- (१९) मैं हूँ निर्मल गगन सा, रूप हीन चैतन्य ।  
आदि अन्त से हीन हूँ, महिमा अमित अनन्य ॥
- (२०) सभी तत्त्व को जान कर, करूँ आत्म जयवन्त ।  
हरने में समर्थ बनूँ, रागद्वेष बलवन्त ॥
- (२१) हाड़ मांस अरु रक्त जहँ, मल मूत्रादि लखाय ।  
क्षणभङ्गुर इस काय में, ममता क्यों अधिकाय ॥
- (२२) स्वर्गादिक फलदान से, मित्र मृत्यु को जान ।  
हित कारक कोई नहीं, इससे बढ़कर मान ॥
- (२३) मृत्यु बिना इस बंध से, कौन छुड़ावन हार ।  
भवसागर में डूबते, गुरु-बिन कौन उबार ॥
- (२४) दूँदत दूँदत । तूँ-थका; मन ! शमसुख ? बहुवार ।  
पर नहीं मरण समाधि बिन, शर्म-सुख का दातार ॥

- (२५) मृत्युवृत्त की छाँह में, कर विषयों का त्याग ।  
जो नहीं त्यागो विषय को, तो चौरासी लाग ॥
- (२६) सात धातुओं से बनी, यह औदारिक देह ।  
गलते बार न लाग ही, जिमि जल-उपलन-गेह<sup>१</sup> ।
- (२७) नय उपनय अरु हेतु से, दे दृष्टान्त अनेक ।  
चेतन को पहचानते, मुनि जन सहित विवेक ॥
- (२८) चेतन तू इस काय पै, कर नहीं तनिक सनेह ।  
यह शरीर तेरा नहीं, तू निर्मल निर्लेह<sup>२</sup> ॥
- (२९) व्याधी कर्माधीन है, नहीं औषध आधीन ।  
ताते औषध छोड़ के, हो शुभ ध्यान विलीन ॥
- (३०) वैद्यराज जिन्नराज की, औषध मरण समाधि ।  
सेवन से आवे नहीं, आधि<sup>३</sup> व्याधि<sup>४</sup> उपाधि<sup>५</sup> ॥
- (३१) अजर अमर अक्षय सदा, अव्याबाध<sup>६</sup> अनन्त ।  
सपने जे सुख नहीं मिले, वे आते विकसन्त ॥
- (३२) तेज ताप से तप यथा, सोना निर्मल होत ।  
समता से सह वेदना, जीव अमल तिमि होत ॥
- (३३) 'हायवॉय'<sup>७</sup> तुम नाक रो, बढने से दुख जोर ।  
हाय किये दुख ना घटे, बँधते कर्म कठोर ॥
- (३४) इससे अच्छा है यही, सह दुख भजि समभाव ।  
नया कर्म बांधो नहीं, सञ्चित कर्म खपाव ॥

१ जल उपलन गेह - बर्फ का घर । विलीन-तल्लीन

२ निर्लेह-निर्लेप-लेप रहित ३। आधि-मानसिक चिन्ता ४। व्याधि-शारीरिक रोग । ५ उपाधि-बाहरी मगड़े । ६ अव्याबाध - रोग रहित । ७ हायवॉय-वेदना के न सह सकने से जो कायरता के शब्द निकलते हैं ।

- (३५) जो तूने नरकादि में, बहु सागर पर्यन्त ।  
सही विविध विध वेदना, जिस का नहि कुछ अंत ॥
- (३६) ताहि वेदना सामने, मनुज वेदना जोय ।  
क्या है यह दुख दायिनी, अल्प कालिनी सोय ॥
- (३७) यह तो दुख, सुख मूल है, सार रूप पुनि सोय ।  
कायर पन को त्याग कर, सह मन दुख दृढ होय ॥
- (३८) यह तो तेरा ही किया, भव भव का ऋण भार ।  
तीव्र असाता वेदनी, बांधा कर्म अपार ॥
- (३९) वही असाता वेद कर, उच्छ्रय हुआ तू आज ।  
कर्म भार हलका हुआ, हुआ सकल सुख साज ॥
- (४०) हो परवश तू नरक में, पीडा सही अनन्त ।  
पर उससे कुछ नहीं सरा, विन समकित बलवन्त ॥
- (४१) सहने से भी वेदना, बहु सागर पर्यन्त ।  
हुई सकाम न निर्जरा, हुआ न भव का अन्त ॥
- (४२) अमित निर्जरा होगी, होगा भव का अन्त ।  
आ क्षण? दुख समभाव से, सहवे जो गुणवन्त ॥
- (४३) चेतन तू यह जान ले, निश्चय है यह बात ।  
किये कर्म भोगे विना, प्राणी मोक्ष न जात ॥
- (४४) प्रबल पुण्य के उदय से, मिला मनुज भवजान ।  
कहा भगवती सूत्र मे, तीर्थङ्कर भगवान ॥
- (४५) ता में भी बहु पुण्य से, आर्य क्षेत्र में आय ।  
उत्तम कुल चिर जीविता, रोग हीन तन पाय ॥
- (४६) पञ्चेन्द्रिय परिपूर्यता, सद्गुरु का संयोग ।  
ता पै मिलना कठिन है, प्रवचन श्रवण सुयोग ॥



- (४७) आगम सुन कर श्रद्धना, कठिन कहा जिनराय ।  
उससे भी पचखाण का, करना कठिन कहाय ॥
- (४८) श्रद्धालू संसार में, करे त्याग पचखाण ।  
ग्यारह व्रत भी साथ ले, कठिन सुपातर दान ॥
- (४९) ऐसा अवसर पाय के, कर मत तनिक प्रमाद ।  
नहिं तो फिर पछतायगा, समय चूकने बाद ॥
- (५०) धर्म काम में मत करो, समय मात्र परमाद ।  
आनंद सुख शाश्वत मदा, मिले धर्म परसाद ॥
- (५१) जब तक घट में प्राण है, जपता रह नवकार ।  
दुख तेरे कट जायेंगे, होगा भव से पार ॥
- (५२) ले तू अपने साथ में, धर्म-रत्न-भण्डार ।  
वरना तू फिर जायगा, खाली हाथ पसार ॥
- (५३) कर प्रमाद मत धर्म में, आयुष वीती जाय ।  
काल चक्र है घूमता, कुण जाये कब आय ॥
- (५४) बिना धर्म सेवन किये, भोगे दुःख अनेक ।  
चौरासी भमता रहा, अब तो राख विवेक ॥
- (५५) हाट बगीचा खेत पुनि, मोना चोदी धाम ।  
जेती सम्पति जगत की, मृत्यु सके नहिं थाम ॥
- (५६) उगिनी-सम्पति से सदा, मन तू रह हुशियार ।  
यह इतनी मायाविनी, जिसका चार न पार ॥
- (५७) धन्य महाजन है वही, दे धन को शुभ ठाम ।  
श्रावक व्रत को धार कर, करता अतिम काम ॥
- (५८) जागो - प्राणी भोर है, नहिं अब है यह रात ।  
सोने में तुमने किया, कुम्भकरण को मात ॥

- (५६) आत्म हित की भावना, भावे भैरवदान ।  
पुनि राखे यह कामना, होय जगत कल्याण ॥

### माता पिता के प्रति—

- (१) मात पिता इस देह के, लीजे खूब विचार ॥  
यह शरीर था आपका, खूबे किया था प्यार ॥
- (२) थी इसकी इतनी थिती, अब न आयु अवशेष ।  
नेह करे कुछ ना सरे, चाहे दुःख विशेष ॥
- (३) यह तन उतना ही रहे, जितनी वय अवशेष ।  
है नहिं ऐसी शक्ति जो, रख ले इसे विशेष ॥
- (४) आत्म साधन में मुझे, दीजे अब सहयोग ।  
गमनागमन विनष्ट हो, मिटे सकल भवरोग ॥
- (५) काया और कुडुम्ब का, तज कर सब सम्बन्ध ।  
मेरा चेतन दृढ़ बने, ऐसा करो प्रबन्ध ॥

### पत्नी के प्रति—

- (१) हे सहयोगिनी ! हे प्रिये ! सुन मम हित की बात ।  
मेरा तेरा नियत था, इतने दिन का साथ ॥
- (२) तूने मम इक चित्त से, सेवा की दिन रात ।  
अब यह तन विनमन लगा, करो धर्म की बात ॥
- (३) जो सच्ची हितकारिणी, हो पतिभक्ता नार ।  
इस अवसर ममता तजो, दुर्गति की दातार ॥
- (४) जाता था परगाँव जब, तुम विवेक की खान ।  
देती थी मुझको सदा, खाने को पकवान ॥
- (५) परभव भाता बांध दो, शुभ परिणाम अथोरि ? ।  
अब तू मोह ममत्व कर, अहित करो ना मोरि ॥

- (६) धर्मसंगिनि ! दो मुझे, अन्त समय में साज ।  
भव भव का फेरा टले, सींके आत्म काज ॥
- (७) जिन निगदित<sup>१</sup> शुभ धर्म का, पालन करना रोज ।  
वन कर सच्ची श्राविका करना आत्म खोज ॥
- (८) धर्म ध्यान में लीन हो, जिन वाणी अनुसार ।  
मोह त्याग शुभ<sup>२</sup> कर्म कर, धीरज मन में धार ।
- (९) अशुभ ध्यान को त्याग कर, करो सदा शुभ ध्यान ॥  
ज्ञान सहित शुभ कर्म कर, करो आत्म कल्याण ॥
- (१०) ज्ञानादिक शुभ रतन धर, करो नियम पचखाण ।  
जिन भाषित शुभ धर्म का, निशदिन करना मान ॥

### पुत्र के प्रति:—

- (१) नीति सहित संसार से, सुत ! रखना व्यवहार ।  
वंश दियाणा आपना, तज कर मिथ्याचार ॥
- (२) मद्गुरु की सेवा करो, श्रावक व्रत लो धार ।  
श्रद्धा रखो धर्म में, आगम के अनुसार ॥
- (३) जूआ सट्टा फाटका, कभी न करना भूल ।  
लोगों में इज्जत घटे, पुनि चिन्ता का मूल ॥
- (४) लोक हंसी नृप दंड पुनि, जिन कामों से होय ।  
उन कामों से दूर रह, जाते हंसी न होय ॥
- (५) संप किये लक्ष्मी बढे, प्रेम रखे सुखे होय ।  
मामलबाजी<sup>२</sup> से सदा, घर का धन छिन<sup>३</sup> होय ॥
- (६) संगत करना गुणिन की, शिचा उनकी मान ।  
खोटी आदत त्याग कर, जन्म करो फलवान<sup>४</sup> ॥

१. १ निगदित-भाषित-कहा हुआ । २ मालबाजी- मुकदमा वाली ।

३ छिन- क्षीण-। ४ फलवान-सफल ।

- (७) न्याय मार्ग का पथिक बन, कभी न कर अन्याय ।  
नहिं विरुद्ध कुछ काम कर, जाति वर्ग के मांय ॥
- (८) उस मत में शामिल रहो, जिसमें सत्य विचार ।  
खीचा तानी मत करो, गुरुजन शिचा धार ॥
- (९) अथगुण काढो आपना, दोष न दीजे काहु ।  
मत कर निन्दा अन्य क्री, गुण ग्राहक बनि जाहु ॥
- (१०) शान गुमान करो नहीं, चलो सादगी चाल ।  
मीठा वचन पुकार कर, हिल मिल मव से हाल ॥
- (११) तू जौहरि यह कूँजडी, क्यों करता तकरार ।  
इमकी भाजी विखरसी, तेरे रत्न अपार ॥
- (१२) बुरी रीति को त्याग कर, सत्यमार्ग को धार ।  
जैन धर्म पालन करो, आगम के अनुसार ॥

### शान्ति मार्ग—

- (१) कहाँ शान्ति का मूल हैं, दृढ रहा संसार ।  
कस्तूरी निज नाभि में, पर मृग भ्रमत गँवार ॥
- (२) मैं ही दुख का मूल हूँ, मैं ही परमानन्द ।  
म्वामी हूँ मैं दास हूँ, हूँ बंधित स्वछन्द ॥
- (३) राग द्वेष दो पट विकट, चेतन उसमें बन्द ।  
पराधीनता है जहाँ, वहाँ न है आनन्द ॥
- (४) क्यों करता तू राग है, तेरा है कह कौन ।  
संकट में तू देखना, होंगे सारे मौन ॥
- (५) अरे द्वेष क्यों कर रहा, है सब तेरे मीत ।  
तेरा बोक बटा रहे, लडता उल्टी रीत ॥
- (६) जैसे चन्दन लेप से, मिटे देह सन्ताप ।  
तैसे धीरज से मिटे, चेतन के त्रय-ताप ॥

(१) त्रय-ताप—आधि, व्याधि, उपाधि ।

- (७) जो देते हैं गालियों, या करते तकरार ।  
वे मृगती को भेजते, तुम्हको धक्का मार ॥
- (८) रे अधीर क्यों हो रहा, धीरज का गुण धार ।  
जो भवसागर विकट का, पाना ही है पार ॥
- (९) आग आग से ना बुझे, पानी से बुझ जाय ।  
क्रोध क्रोध से ना मिटे, समता से मिट जाय ॥
- (१०) जैसे चन्दन लेप से, मिटे दाह ज्वर पीर ।  
तैसे समता से मिटे, क्रोधी की तासीर ॥
- (११) सुख में फूला क्यों फिरे, क्यों दुख में घवराय ।  
जो सुख के दिन ना रहे, तो दुःख क्यों टिक जाय ॥
- (१२) अनुभव का कर दीप ले, बढ आगे हर वार ।  
तव पहुँचेगा ध्येय<sup>१</sup> को, ए चेतन अविकार ।
- (१३) पाने से संवेग के, दृढ होता वैराग्य ।  
राग द्वेष को जीतता, होता विकसित<sup>२</sup> भाग्य ॥
- (१४) बना जीव निर्वेद तो, छोड़ेगा आरम्भ ।  
करता है वह पथ<sup>३</sup> विमल<sup>४</sup>, शिवपुर<sup>५</sup> का प्रारम्भ ॥
- (१५) श्रद्धा से ही प्राप्त हों, त्याग और वैराग ।  
सुर सुख को भी त्यागते, कर शिव सुख अनुराग<sup>६</sup> ॥
- (१६) सेवा देती विनय को, विनय सभी गुणखान ।  
गुण का धारक जीव ही, करे मोक्ष प्रस्थान ॥
- (१७) शत्रु मित्र सुख दुःख में, साम्य भाव को धार ।  
यह सामायिक सुखद है, रुके पाप आचार ॥
- (१८) क्षमा याचना से मिटे, क्लेश और संताप ।  
बढ़े मित्रता भय हटे, विकसित हो गुण आप ॥

१ ध्येय-लक्ष्य । २ विकसित-विस्तार होना, फैलना । ३ पथ-रास्ता ।

४ विमल- निर्मल । ५ शिवपुर-मोक्ष । ६ अनुराग-प्रेम ।

- (१६) क्रोध विजय से नाथ क्या, होता है उपकार ।  
क्षमा शान्ति-प्रद प्राप्त हो, हटे कर्म का भार ॥
- (२०) मान विजय से नाथ क्या, होता है उपकार ।  
विनय शील बन जाएगा, छोड़ कर्म का भार ॥
- (२१) माया जीतन से प्रभो, क्या होता उपकार ।  
सरल-भाव-सम्पन्न हो, सद्गति का दातार ॥
- (२२) लोभ विजय मे जीव का, क्या होता उपकार ।  
पायेगा संतोष को, सब सुख का भण्डार ॥
- (२३) धर्म रूप शुभ वृत्त का, विनयमूल पहचान ।  
ताते यश कीरति बढे, पावे पद निर्वाण ॥
- (२४) यदि कोई वन्दन करे, या कर दे अपमान ।  
राखे समता दोउ में, सो ज्ञानी पहचान ॥
- (२५) शस्त्र घाव कुछ काल तक, करता है वेचैन ।  
वचन घाव लग जाय तो, दुखित करे दिन रैन ॥
- (२६) सत्त्वों से हो मित्रता, गुणिजन का हो चाव ।  
कृपा क्लिष्ट? जन पर रहे, वैरी पर समभाव ॥

### कल्याण-मार्ग

- (१) 'बूँद बूँद से घट भरे'—यह जानत सब कोय ।  
गुण का ग्राहक अंत में, गुण-रत्नाकर होय ।
- (२) जिस गुण की अनुमोदना, करते हैं नर नार ।  
वह गुण आता साथ है, छाया के अनुसार ॥
- (३) पर निन्दक पर दोष को, लेता हाथ पसार ।  
गुण ग्राहक गुण को गहे, दुनिया है बाजार ॥

- (४) कर्मों से इस जीव को, जानो अति बलवन्त ।  
भव भव के सब कर्म का, क्षण में करता अन्त ॥
- (५) मोह कर्म की प्रबलता, करं कर्म बलवान ।  
मोह कर्म की शिथिलता, करत कर्म की हान ॥
- (६) देह वृक्ष की छॉह में, बैठे आत्म सफीर<sup>१</sup> ।  
कौन जानता कब उड़े, जैसे पञ्जर<sup>२</sup> कीर<sup>३</sup> ॥
- (७) एक आत्म पहचान से, भव भव के सब रोग ।  
मिट जाते हैं जीव के, यों कहते मुनि लोग ॥
- (८) जैसे बादल कं हटे, सूर्य प्रकट हो जाय ।  
राग द्वेष पट के हटे, ज्ञान प्रकट हो जाय ॥
- (९) महारोग इस जगत के, कैसे हैं भगवान ।  
प्रथम रोग 'आरंभ' है, द्वितीय 'परिग्रह' जान ॥
- (१०) रजकण पड़कर नेत्र में, खटकत जिमि दिनरैन ।  
समदृष्टी आरम्भ से, रहता तिमि वेचैन ॥
- (११) ज्ञानी अपनी देह से, करते कर्म विनाश ।  
अज्ञानी की देह है, केवल उसकी पाश<sup>४</sup> ॥
- (१२) नर भव आया, है गया, इस भव में रख ध्यान ।  
निष्फल चला न जाय यह, कर इसमें कल्याण ॥

### आत्म निन्दा—

- (१) जीव अनकों वध किये, बोला मिथ्यावाद ।  
चोरी से पर धन हर्या, किया ब्रह्म<sup>५</sup> वरवाद ॥
- (२) ढेरी की बहु वस्तु की, जिसका नहीं कुछ काम ।  
पड़ी पड़ी वह सड़ गई, भरी हुई गोदाम ॥

१ सफीर - मुसाफिर । २ पञ्जर - पीजरा । ३ कीर - तोता ।

४ पाश - जाल, बन्धन । ५ ब्रह्म-ब्रह्मचर्य ।

- (३) हूँ लम्पट हूँ लालची, कर्म किया कई कोड़ ।  
तीन भुवन में है नहीं, मेरी कोई जोड़ ॥
- (४) छिद्र पराया रात दिन, जोता हूँ जगनाथ ।  
कुगति तणी करणी करूँ, जोड़ूँ उनमे साथ ॥
- (५) मैं अचगुण की कोटड़ी, नहीं गुण मुझ में कोय ।  
पर गुण देख सकूँ नहीं, तिरना किस विध होय ॥
- (६) विन कौधा विन भोगिया, फोकट कर्म बंधाय ।  
आर्च रौद्र भिटता नहीं, कीजे कौन उपाय ॥
- (७) भूठ कपट बहु सेविया, किया पाप का संच ।  
भोलों को ठगिया घणा, करि अनन्त परपंच ॥
- (८) मन चंचल थिर ना रहा, राचा रमणी रूप ।  
कर्म विटमना क्या कहूँ, नाँखे दुर्गति रूप ॥
- (९) अधमों में मैं हूँ अधम, अचगुण भरे अनेक ।  
किसी हिताहित कर्म का, मुझमें नहीं विवेक ॥
- (१०) मैं क्रोधी मैं लालची, नहीं छोडा अभिमान ।  
मैं कपटी अविनीत हूँ, पापी भैरवदानं ॥
- (११) हाय न मुझसे हो सका, जनता का उपकार ।  
यश के कारण ही किया, मैंने सब व्यवहार ॥
- (१२) नाथ ! दिवस कब आयगा, जब होऊँ अनगार ।  
कर्म बोझ को डाल कर, बनूँ सिद्ध अविकार ॥

### आलोचना—

- (१) अनुपम? जिनकी ज्योति से, जग मगात संसार ।  
सदा हमारे मन बंसो, जिनवर जग हितकार ॥
- (२) करूँ वन्दना वीर को, और जपूँ नवकार ।  
पापों की आलोचना, करता हूँ इस चार ॥



- (३) प्रथम शरण अरिहंत का, द्वितीय मिद्ध का जान ।  
तृतीय सन्त जन का कहा, चौथा धर्म प्रमाण ॥
- (४) शरण गही प्रभु आपकी, करता आत्म विचार ।  
मैंने भव भव में प्रभो !, मेव्यां पाप अठार ॥
- (५) चौरासी लख योनि को, दुखित किया दिन रात ।  
लेखा उसका क्या कहूँ, कहते जी धवरात ॥
- (६) थावर त्रम के प्राण में, मैंने खेले खेल ।  
पूँजी से देना वदा, मिले न विल्कुल मेल ॥
- (७) अष्टादश? जो पाप हैं, उनका बोक अणार ।  
डगमग नैया कर रही, कैमे पाऊँ पार ॥
- (८) जाकर भव भव में किये, मैंने अत्याचार ।  
सोच सोच कर हो रहा, विचलित हृदय अपार ॥
- (९) मन वच तन के योग में, जो कुछ किय अतिचार ।  
जैनागम विपरीत जो, भाषण या आचार ॥
- (१०) कल्प विरोधी काम या, अकरणीय कुछ काम ।  
आर्च रौद्र किय ध्यान जो, धर्मध्यान से वामर ॥
- (११) मेरे चेतन ने कभी, जो की दृष्ट निगाह ।  
नियमों का कुछ मंग या, बुगी वस्तु की चाह ॥
- (१२) श्रावक धर्म विरुद्ध जो, किया कभी कुछ काम ।  
पुनि दर्शन या ज्ञान के, किया कभी कुछ वाम ॥
- (१३) देशत्रत आगम तथा, मामायिक अतिचार ।  
मोह विवश सेवन किया, जो कुछ मिथ्याचार ॥
- (१४) मन, वच, तन, व्यापार को, वश में रखा न- होय ।  
जो क्रोधादि कपाय का, दमन किया नहिं होय ॥

- (१५) अणुव्रत पहले पांच हैं, गुणव्रत तीन सुजान ।  
शिखा व्रत हैं चार पुनि, ये बारह व्रत जान ॥
- (१६) एक देश या सर्व से, हुई विराधना क्रोय ॥  
सेवें हो अतिचार जो, मिच्छा दुकडं मोय ॥
- (१७) इस भव पर भव में किया, पनरा कर्मादान ।  
त्रिविध त्रिविध से बसिरूँ, जो दुर्गति की खान ॥
- (१८) यंत्रादिक आरंभ के, मैंने कीने काम ।  
त्रिविध त्रिविध से बसिरूँ, फेर नहीं परिणाम ॥
- (१९) वाग वर्गीचा खेत घर, जो भी मेरे होय ।  
त्रिविध त्रिविध से बसिरूँ, ममता तहों न मोय ॥
- (२०) मेरे निज के नाम में, घर दुकान जो होहिं ।  
उन सबको मैं त्यागता, ममता जरा न मोहिं ॥
- (२१) निन्याण् अतिचार में, जो जो सेव्या होय ।  
करता हूँ आलोचना, मिच्छा दुकडं मोय ॥
- (२२) मैं अपराधी जन्म का, सेव्या पाप अठार ॥  
निज आत्म की साख से, बार बार धिक्कार ॥
- (२३) व्रत नियमादिक में कभी, टंटा लाग्या होय ।  
अरिहंत सिद्ध की साख से, मिच्छा दुकडं मोय ॥
- (२४) चौरासी लखयोनि में, फिरियो बार अनंत ।  
पाप अलोऊँ पाछला, अब तारो भगवन्त ॥
- (२५) जाने अनजाने कभी, सेवे पाप महान ।  
उन सब की आलोचना, करता भैरवदान ॥

## क्षमायाचना ।

- (१) चौरासी-लख योनि का, क्षमा करूँ सब दोष ।  
क्षमा करें पुनि वे मुझे, मुझसे रखें न रोष ॥
- (२) मैत्री भाव सदा मुझे, सब जीवों के साथ ।  
चैर नहीं मुझको कहीं, किमी जीव के साथ ॥
- (३) मन, वच, तन, व्यापार से, मैंने किय जो पाप ।  
वे सब मिथ्या हों सदा, वनूँ सदा निष्पाप ॥
- (४) पुनि उनसे जो कुछ किया, सह कपाय व्यवहार ।  
क्षमा चाहता ताहि के, मन, वच, तन, व्यापार ॥
- (५) पूज्य श्रमण मुनि संघ को, हाथ जोड़ सिर नाउँ ॥  
उनके दोषों को खमूँ, पुनि निज दोष खमाउँ ॥
- (६) भाव सहित सब जीव से, धर्म बुद्धि थिर होय ।  
खमूँ खमाऊँ दोष को, जो दोनों का होय ॥
- (७) राग द्वेष अकृतज्ञता<sup>३</sup>, या आग्रह<sup>४</sup> वश जोय ।  
कही बात हर तौर से, क्षमा करें सब कोय ॥
- (८) सेठ महेता<sup>५</sup> रंकड्या, जो मेरे संग होय ।  
या मेरे सम्पर्क में, जो कोड आये होय ॥
- (९) सगे कुटुम्बी वन्धु जन, या गोत्रज जो कोय ।  
खमूँ खमाऊँ दोष को, हुआ परस्पर जोय<sup>६</sup> ॥
- (१०) भगड़ा टंटा आदि या, क्रोध विवश व्यवहार ।  
किया किसी के साथ जो, जो कुछ मिथ्याचार ॥
- (११) या कोइ ऐसा दोष हो, जिमका नहीं कुछ ज्ञान ।  
क्षमा करें मम दोष को, मुझको बालक जान ॥

(१) रोष-द्वेष । (२) नाउँ-नमाता हूँ । (३) अकृतज्ञता-कृतघ्नता ।  
(४) आग्रह-हठ । (५) महेता-मुनीम-गुमास्ता । (६) जोय-जो ।

( ५७ )

- (१२) चौंरास्त्री लख योनि से, तन, मन, वच से जान ।  
क्षमा याचना कर रहा, श्रावक भैरवदान ॥
- (१३) सकल चराचर जगत का, होय सदा कल्याण ।  
सब प्राणी पर हित रहे, करें धर्म का मान ॥
- (१४) सब मंगल का मूल जो, सभी शिवों का हेतु ।  
जिन शासन विजयी रहे, सभी धर्म का केतु ॥

॥ इति शुभम् ॥

उक्तक प्राप्ति स्थानः—

श्री अग्रचन्द्र भैरवदान सेठिया

श्री सेठिया जैन लाडवारी

बीकानेर ( राजपूताना )

Bikaner

श्री अग्रचंद भैरोदान सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, बीकानेर  
का

## ३५ वाँ वार्षिक विवरण

( १ जनवरी से ता० ३१ दिसम्बर सन् १९४८ का )

इस संस्था की स्थापना सन् १९१३ में हुई। इसका डीड ऑफ ट्रस्ट सन् १९४४ में कलकत्ते में और सन् १९४६ में बीकानेर में रजिस्टर्ड कराया गया। इसकी व्यवस्था के लिए तीन कमेटियाँ बनी हुई हैं। यथा:—

(१) ट्रस्ट कमेटी। ( Board of Tsurties )

१ श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सेठिया	सभापति
२ " जेठमलजी सेठिया	
३ " लहरचन्दजी सेठिया	मंत्री
४ " जुगराजजी सेठिया	
५ " माणकचन्दजी सेठिया	

(२) मैनेजिङ्ग कमेटी ( प्रबन्धकारिणी सभा )

उपरोक्त पाँचों सख्तन इस कमेटी के मेम्बर हैं।

(३) जनरल कमेटी।

१ श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सेठिया।
२ " जेठमलजी सेठिया।
३ " मगनमलजी कोठारी।
४ " महता बुधसिंहजी वैद।
५ " पानमलजी सेठिया।

६	श्रीमान् लहरचन्दजी सेठिया ।	मन्त्री ।
७	” जुगराजजी सेठिया ।	
८	” कुन्दनमलजी सेठिया ।	
९	” माणकचन्दजी सेठिया ।	
१०	” गोविन्दरामजी भणसाली ।	
११	” घेवरचन्दजी वॉठिया ।	
१२	” केशरीचन्दजी मेठिया ।	
१३	” खेमचन्दजी सेठिया ।	
१४	” मोहनलालजी सेठिया ।	

इस साल के लिए श्रीयुत् सतीदासजी सा० तातेड़ और श्रीमान् हीरालालजी मा० मुकीम ऑडिटर (दिसाव निरीक्षक) नियुक्त किये गये हैं ।

इस संस्था के अन्तर्गत चलने वाले विभाग और उनका कार्य विवरण इस प्रकार है:—

### विद्यालय विभाग ।

इस विभाग में धर्मशास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी आदि की उच्च शिक्षा दी जाती है और उनकी परीक्षाएं दिलाई जाती हैं । इस साल १८ विद्यार्थियों ने उपरोक्त भिन्न भिन्न विषयों की शिक्षा प्राप्त की है । इनमें से दो विद्यार्थियों ने (श्री शान्तिराल मोगरा और बाबूलाल पटेल ने) पञ्जाब युनिवर्सिटी की मेट्रिक परीक्षा दी और उसमें द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं । एक विद्यार्थी हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्य रत्न परीक्षा में और पांच विद्यार्थी साहित्य विशारद परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं ।

## श्राविका और कन्या शिक्षण ।

इस विभाग में श्राविकाओं तथा कन्याओं को शिक्षण दिया जाता है । इस वर्ष १३ श्राविकाओं और कन्याओं को संस्था की ओर से हिन्दी और धार्मिक का अध्ययन कराया गया ।

## सिद्धान्त शाला विभाग ।

सिद्धान्त शाला में हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत और धर्मशास्त्रों का साधु साध्वियों को उनके धर्मस्थानों पर जाकर विद्वानों द्वारा अध्ययन कराया जाता है और उनकी मासिक परीक्षाएं भी ली जाती हैं ।

इस वर्ष सिद्धान्त शाला में मन्दिरमार्गी और साधुमार्गी समाज के ६ साधु और ३० साध्वियों ने लघुकौमुदी, सिद्धान्त कौमुदी, सिद्धान्त चन्द्रिका, जैन सिद्धान्त कौमुदी, प्राकृत व्याकरण ( हेमचन्द्र अष्टमाध्याय ), स्याद्वादमञ्जरी, उत्तराध्ययन सूत्र, दशवैकालिक सूत्र, स्थानाङ्ग सूत्र, जिन-शतक आदि का अध्ययन किया ।

## छात्रालय ( Boarding House )

इस साल छात्रालय में रह कर ११ छात्रों ने लाभ उठाया । सेठिया संस्था की यह विशेषता सदा से ही रही है कि बोर्डिंग-हाउस छात्रों के लिए सदा से निःशुल्क ( फ्री ) रहा है ।

## धर्म प्रचार विभाग ।

इसके अन्तर्गत उपहार विभाग, धर्मोपकरण विभाग और दीक्षोपकरण विभाग हैं ।

उपहार विभाग— इस साल १६४८ पुस्तकें उपहार रूप से भिन्न भिन्न पुस्तकालयों और सज्जनों को दी गईं और भेजी गईं । भेट में दी गईं ६६२, असमूल्य पुस्तकों के सिवाय मूल्य वाली ६८६ पुस्तकों का मूल्य ४८६।- ) है ।

धर्मोपकरण विभाग— इस विभाग से रुपैये ५६३।।- ) के आसन, पूंजणी, नवकरवाली आदि श्रावक श्राविकाओं को भेट दिये गये ।

दीक्षोपकरण विभाग— इस साल चार दीक्षार्थियों को ओषा, पूंजणी, पातरा, शास्त्र, पुस्तकें आदि स्टॉक में से भेट भेजे गये ।

## ग्रन्थालय ( लायब्रेरी ) विभाग ।

(१) संग्रहालय विभाग— इस विभाग में इस वर्ष ५७१ पुस्तकें नई मंगवाई गईं । संग्रहालय में कुल पुस्तकें १५०६५ हैं । संस्था से प्रकाशित ८४५०० पुस्तकें स्टॉक में हैं । पत्राकार १३००० स्टॉक में हैं ।

(२) छात्रनालय विभाग— इस वर्ष दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक पत्र पत्रिकाएं ४४ आती रही हैं ।



(३) पुस्तक लेन देन— इस वर्ष १४१ सजनों ने १५०० पुस्तकों का लेन देन करके लाभ उठाया ।

## साहित्य-प्रकाशन विभाग ।

इस वर्ष श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के आठ भागों के कई स्थलों का तथा मूल और अर्थ युक्त प्रतिक्रमण, जैनागम तत्त्व दीपिका, १४ गुणस्थान का थोकड़ा, लघु दण्डक, पच्चीस बोल का थोकड़ा और पांच समिति तीन गुप्ति का थोकड़ा आदि ग्रन्थों का संशोधन हुआ और दस प्रकार की ६५०० पुस्तकें इस वर्ष छप कर प्रकाशित हुई ।

## कार्यालय विभाग (office)

इम विभाग में संस्था के आय व्यय का हिमाव किताब रखा जाता है । संस्था की रकम का व्याज, मकानों का भाड़ा आदि से जो आय होती है उसका तथा संस्था के अन्तर्गत चलने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन, विलां का भुगतान आदि जो व्यय होता है उसका तथा रूपैयों के लेन देन आदि का हिसाब किताब रख कर वहीखातों में जमाखर्च होता है । सामाजिक पत्र व्यवहार आदि समाज सेवा का कार्य भी इसी कार्यालय द्वारा भुगताया जाता है ।

## लोन-(Loan) विभाग ।

रु० ७१६८ रूपैये छात्रों को उच्च शिक्षण के लिए बिना व्याज लोन पर दिये हुए हैं ।

## सन् १९४८ की आय का विवरण—

इस वर्ष (१९४८) संस्था में कलकत्ते के मकानों का १२

मास के भाडे के रुपैये २०३४४-। और व्याज के रुपैये ३४३८।) रु० (शेयरों का डिविडेण्ड-१८८८) रु० तथा और रकम का व्याज १५५०।) कुल रुपये २३७८२।-। की आय हुई ।

इस वर्ष धर्मोपकरण खाते मे रुपैये ५००), दया चिकित्सा खाते में १०००) रुपैये, दीक्षोपकरण खाते में १०००) रुपैये और दया आयम्बिल खाते में ५००) रुपये । इस प्रकार उपरोक्त खातों में रुपये ३०००) श्री भैरोदानजी सेठिया ने जमा कराये हैं ।

### सन् १९४८ का व्यय का विवरणः—

रु० ३७३८।)॥ विद्यालय विभाग—इसमे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, हिन्दी शॉर्टहैंण्ड, अंग्रेजी, और धार्मिक शिक्षण देने वाले अध्यापकों का वेतन खर्च तथा विद्यालय में अध्ययन करने, परीक्षा देने के लिए भये हुए विद्यार्थियों का सफर खर्च तथा परीक्षा फीस खर्च ।

रु० २३४५) ग्रन्थालय (लायब्रेरी) विभाग— इसमें संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की नवीन पुस्तकों संगवार्ड जिनका खर्च तथा लायब्रेरियन और सहायक लायब्रेरियन आदि का वेतन खर्च तथा वाचनालय विभाग में धरने वाले पत्र पत्रिकाओं का खर्च ।

रु० ४१००) साहित्य प्रकाशन विभाग—इस विभाग में नवीन साहित्य निर्माण, खर्चों का अनुवाद, साहित्य संशोधन आदि कार्य करने वाले पण्डितों का वेतन तथा छपाई आदि खर्च ।

रु० ३४२१।-) सिद्धान्तशाला-साधु साध्वियों को उनके धर्मस्थानों पर जाकर अध्ययन कराने वाले पण्डितों का वेतन खर्च ।

रु० १३०१।।)। कन्या और श्राविका शिक्षण—कन्याओं और श्राविकाओं को अध्ययन कराने वाली अध्यापिकाओं का वेतन खर्च ।

२२५०।≡)।। कार्यालय विभाग—

२१६८।।)।। मुनीम, रोकड़िया तथा कर्मचारियों का वेतन खर्च ।

६६-)।। स्टेशनरी खर्च ।

७०।।-)।।। फुटकर खर्च ।

रु० ४८६।-)। धर्म प्रचार-उपहार विभाग-श्रावक श्राविकाओं को तथा भिन्न भिन्न पुस्तकालयों को मूल्य वाली पुस्तकें भेंट भेजी गई, उनकी कीमत तथा उनका डाकखर्च ।

रु० ५५०।।)।। धर्म प्रचार धर्मोपकरण विभाग-श्रावक श्राविकाओं को आसन, पूंजणी, नवकरवाली आदि भेंट दी गई, उनकी कीमत ।

रु० १५८४-)।। छात्रालय विभाग-बोर्डिंग में रहने वाले छात्रों का भोजन खर्च तथा पानी और रोशनी खर्च ।

रु० १४७१।।≡)।। छात्रवृत्ति-बोर्डिंग के सिवाय बाहर के असक्त विद्यार्थियों को तथा उच्च शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को छात्र वृत्ति (स्कालर शिप) दी गई ।

( ६५ )

५३८।३) दवा, चिकित्सा विभाग—दवा और डाक्टर की फीस आदि का खर्च ।

रु० १४५७।।)। कमठाणा विभाग—कोठडी ( व्याख्यान-भवन ) की मरम्मत में खर्च हुआ ।

५०) दया आयम्बिल विभाग ।

४७३) असक्तों को सहायता दी ।

संस्था का इस वर्ष कुल व्यय रु० २३७१७।।।)।।। हुए ।

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग

पर प्राप्त

## सम्मतियाँ

‘जैन प्रकाश’ (बम्बई ता० १० अक्टूबर १९४०)

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग ) ।

संग्रहकर्ता—भैरोदानजी सेठिया, प्रकाशक—सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर । पृष्ठ ५०० ।

उपरोक्त बोल संग्रह में प्रथम बोल से पांचवें बोल तक संग्रह किया गया है । इस संग्रह से वर्तमान जैन साहित्य में एक बड़ी क्षति की पूर्ति हुई है ! इस संग्रह को हम “जैन विश्व कोष” भी कह सकते हैं । प्रत्येक बोल इस खूबी से संग्रह किया गया है कि उस बोल से सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक विषय को इसमें स्पष्ट कर दिया है । प्रत्येक बोल के साथ

जैनशास्त्र स्थल का भी संपूर्ण रूप से उल्लेख किया है । अतः जिज्ञासु और विद्यार्थियों के लिये यह संग्रह बहुत ही उपयोगी है ।

पक्की जिल्द, बढ़िया कागज और सुन्दर छपाई से पुस्तक को बहुत ही आकर्षक रूप से तैयार किया गया है । इस दृष्टि से मूल्य बहुत कम है ।

सेठियाजी ने इसमें जो प्रयास किया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं ।

‘स्थानकवासी जैन’ (अहमदाबाद ता० १२-१-१९४१)

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ( प्रथम भाग )

संग्रहकर्ता—भैरोदानजी सेठिया, प्रकाशक—सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर । पाकुं सोनेरी पुठ्ठुं, डेमी ८ पेजी साइजना पृष्ठ ५०० ।

जैन फिलोसोफी केटली समृद्ध अने संगीन छे तेनो पुरावो आ ग्रन्थ अति संक्षेप मां आपी दे छे । अभ्यासी ने कया विषय पर जाणवुं छे तेनी माहिती अकारादि थी आपेल अनुक्रमणिका पर थी मली रहे छे । उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराजे विद्वत्ता भरी भूमिका लखी छे ।

आज सुधी मां तत्त्वज्ञान विषय ने स्पर्शतां संख्या बन्ध पुस्तकों आ संस्था तरफ थी वहार पढ्या छे । तेमां आ एक नो सुन्दर उमेरो करी संस्थाए जैन समाजनी सुन्दर सेवा बजावी छे ।

श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सा० ७२ वर्ष नी वयना धृद्ध होवा छतां तेओनी उदारता अने जैन धर्म प्रत्येनी अभिरुचि अन प्रेम केटलो छे ते तेमना आ संग्रह शोख थी जणाइ आवे छे। जैन समाजना अनेक धनिको पैकी मात्र ५-५० जो जैन साहित्य ना शोखीन निकले तो जैन साहित्य रूप वगीचो नव पल्लवित वनी जाय तेमां सन्देह नथी। श्री सेठियाजी ने तेमना आवा जैन तत्त्व ज्ञान प्रत्येना प्रेम बदल धन्यवाद घटे छे।

आ ग्रन्थ मां आत्मा, समकित, दण्ड, जम्बूद्वीप, प्रदेश परमाणु, त्रस, स्यावर, पांच ज्ञान, श्रुतचारित्र धर्म, इन्द्रियाँ, कर्म, स्थिति, कार्य्य, कारण, जन्म, मरण, प्रत्याख्यान, गुण-स्थान, श्रेणी, लोग, वेद, आगम, आराधना, वैराग्य, कथा, शल्य, ऋद्धि, पल्योपम, गति, कपाय, मेघ, चादि, पुरुषार्थ, दर्शन वगैरे सख्या बन्ध विषयों भेद—उपभेदों अने प्रकारो थी सविस्तर वर्णवामां आन्या छे। आ ग्रन्थ पाठशालाओं मां अने अभ्यासियों मां पाठ्यपुस्तक तरीके खूबज उपयोगी नीवड़ी शके तेम छे।

**श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचन्दजी महाराज  
की सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम का**

निवेदनपत्र ( मिति पौष शुक्ला १५. सं० १९६७ )

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह, प्रथम भाग। संग्रहकर्त्ता-  
श्रीमान् सेठ भैरोदानजी सेठिया वीकानेर। प्रकाशक-श्री  
सेठिया जैन पारमार्थिक संस्था, वीकानेर।

पुस्तक श्रीमान् सेठ सा० की ज्ञान जिज्ञासा का प्रमाण स्वरूप है। पुस्तक के अन्दर वर्णित सैद्धान्तिक बोलों की

संग्रहशैली एवं उनका विवरण बहुत सुन्दर रीति से दिया गया है। भाषा भी सरल एवं आकर्षक है। पुस्तक के पठन मनन से साधारण मनुष्य भी जैन तत्त्वों का बोध सुगमता पूर्वक कर सकता है। पुस्तक का बंद एवं जिल्द की सुन्दरता देखते हुए न्योछावर नाम मात्र है। प्रत्येक जैन को तात्त्विक बोध करने के लिए उपयोगी है। सेठ सा० की तत्त्वरुचि और तत्त्वप्रचार की भावना प्रशंसनीय है। आपने साहित्य प्रचार में अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग बहुत किया व कर रहे हैं।

Dr Banarsi Das Jain M A (Punjab) Ph D (London)

Lecturer, Oriental College, Lahore, 7-2-41-

It has given me much Pleasure to go through the, book 'SHRI JAIN SIDDHANTA BOL-SANGRAH' Part I compiled by Sri Bhairudan Sethia of Bikaner Sethia. He is a veteran student of Jainism being a practical follower of the teachings of Lord Mahavira. He is, thus, fully competent for the task he has undertaken. The book which is a mine of information about Jain doctrines is planned on the model of the 'Thananga Sutra' where in the fundamental categories are grouped together according to the number of their sub-divisions. Consequently the Thananga Sutra is the chief source for the greater part of the book. The present part covers categories and principles comprising one to five sub-divisions. It consists of 423 Bols or formulas.

The Bol-vichar or exposition of these formulas forms the bed rock of the Jain Siddhanta on which alone a sure structure of Jain studies can be built. For this reason the book will prove highly

useful to students of Jain philosophy Sethiaji has rendered great service to the cause of Jainism by writing this book and has thereby put Jain scholars under a deep debt of gratitude

The subject-index attached to the volume has greatly enhanced its value

I am eagerly awaiting the other parts of the work

चनारसीदास जैन एम. ए. पी. एच. डी.

युनिवर्सिटी लेक्चरर ओरिएण्टल कालेज, लाहोर ।

वीकानेर निवासी श्री मैरोदानजी सेठिया द्वारा संकलित 'श्री जैन सिद्धान्त चोल संग्रह' का प्रथम भाग पढ़कर मुझे बड़ा हर्ष हुआ । सेठियाजी भगवान् महावीर के सच्चे अनुयायी और जैन दर्शन के पुराने अभ्यासी हैं । इसलिए अपने हाथ में लिए हुए काम के वे पूर्ण अधिकारी हैं । पुस्तक जैन सिद्धान्त विषयक सूचनाओं की खान है इसकी विषय व्यवस्था ठाणांग सूत्र के अनुसार की गई है, जहाँ सभी विषय उनके उपभेदों की संख्या के अनुसार इकट्ठे किए गये हैं । इसके फल स्वरूप पुस्तक का अधिक भाग ठाणांग सूत्र से लिया गया है । इस भाग में एक से लेकर पाँच भेदों वाले पदार्थ एवं सिद्धान्त तथा ४२३ चोल सन्निहित हैं ।

चोलों का विचार या इन सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण जैन दर्शन का आधार स्तम्भ है । जैन साहित्य का विशाल प्रासाद इन्हीं पर खड़ा किया जा सकता है । इस कारण से यह पुस्तक जैन दर्शन के अभ्यासियों के लिए बहुत लाभ-



दायक सिद्ध होगी । यह पुस्तक लिखकर सेठियाजी ने जैन साहित्य की बहुत बड़ी सेवा की है और जैन विद्वानों को सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है ।

पुस्तक के साथ लगी हुई विषय सूची ने इसकी उपयोगिता को बहुत बढ़ा दिया है ।

मैं इसके दूसरे भागों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ ।

भारतभूषण, शतावधानी पण्डित रत्न मुनि श्री १००८

श्री रत्नचन्द्र जी महाराज की सम्मति ।

श्रावक वर्ग में साहित्य प्रचार करने के क्षेत्र में जितनी लगन सेठिया जी 'श्री अगारचंदजी भैरोदानजी' सा० में दिखाई देती है, उतनी लगन अन्य किसी में क्वचित् ही दिखाई देती होगी ।

अभी उन्होंने एक एक बोल का क्रम लेकर शास्त्रीय वस्तुओं का स्वरूप बताने वाली एक पुस्तक तैयार करने के पीछे अपनी देखरेख के अन्दर अपने पण्डितों द्वारा "श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह" के प्रथम भाग को तय्यार करवाने में जो अथाह परिश्रम उठाया है, वह अति प्रशंसनीय है । एक बोल से पाँच बोल तक का विभाग बिल्कुल तैयार हो गया है । उस विभाग का अवलोकन तथा सुधार करने के लिए पं० पूर्णचन्द्रजी दक अजमेर तथा पालनपुर आकर उसे आद्योपान्त सुना गए हैं ।

संक्षेप से पुस्तक जैनदृष्टि से बहुत ही उपयोगी है । जैन

शैली तथा जैन तत्त्वों को समझने के लिए जैन तथा जैनेतर दोनों को लाभप्रद होगी ।

ता० ३-५-४०

घाटकोपर

( वम्बई )

पं वसन्ती लाल जैन

c/o उत्तमलाल कीरचन्द

लाल बंगला, घाटकोपर ।

जैन धर्म दिवाकर, जैनगम रत्नाकर, साहित्य रत्न, जैन मुनि श्री १००८ उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज (पञ्जाबी) का

### सम्मति पत्र

श्रीमान् पं० श्यामलालजी वी. ए. प्रस्तुत ग्रन्थ को दिखाने यहाँ आये थे । मैंने तथा मेरे प्रिय शिष्य पं० हेमचन्द्रजी ने ग्रन्थ का भली भँति पर्यवेक्षण किया ।

यह ग्रन्थ अतीव सुन्दर पद्धति से तैयार किया है । आगमों से तथा अन्य ग्रन्थों से बहुत ही सरस एवं प्रभावशाली चोर्लों का संग्रह हृदय में आनन्द पैदा करता है । साधारण जिज्ञासु जनता को इस ग्रन्थ से बहुत अच्छा ज्ञान का लाभ होगा । प्रत्येक जैन विद्यालय में यह ग्रन्थ पाठ्य-पुस्तक के रूप में रखने योग्य है । इससे जैन दर्शन सम्बन्धी अधिकांश ज्ञातव्य बातों का सहज ही में ज्ञान हो जाता है ।

श्रीमान् सेठियाजी का तत्त्वज्ञान सम्बन्धी प्रेम प्रशंसनीय है । लक्ष्मी के द्वारा सरस्वती की उपासना करने में सेठियाजी सदा ही अग्रसर रहे हैं । प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रकाशन करके सेठजी ने इस दिशा में सराहनीय उद्योग किया है ।

ता० २७-६-१९४०.

लुधियाना

( पञ्जाब )

जैन मुनि उपाध्याय आत्माराम (पञ्जाबी)

लुधियाना ।

श्री अग्रचंद्र मैरोदान सेठिया जैन ग्रंथमाला बीकानेर  
द्वारा प्रकाशित श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के आठ भागों

का

संक्षिप्त विषय विवरण

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह—

( द्वितीयावृत्ति ) भाग १ से ८ तक । ये भाग सरल हिन्दी में ठाणांग और समवायांग के ढंग पर तैयार किये गये हैं । इनका प्रथम संस्करण सम्पूर्ण भारतवर्ष में पहुँचा और इनकी मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई है । जैन सिद्धान्त के प्रायः प्रत्येक विषय को इन में सरल विधि से समझाया गया है । इन्हें जैन सिद्धान्तों का इन्साइक्लोपीडिया ( विश्वकोष ) कहा जाय तो अनुचित न होगा । यह संग्रह आगम शास्त्रों और प्रामाणिक धर्म शास्त्रों के आधार से तैयार किया गया है । उनके नीचे प्रमाण का उल्लेख भी किया गया है । प्रत्येक भाग में अकारादि क्रम की सूची भी जोड़ दी गई है । इस संशोधित आवृत्ति के प्रत्येक भाग का मूल्य लागत मात्र ज्ञान प्रचार की दृष्टि से रखा गया है ।

८ भागों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

( १ ) प्रथम भाग— इस में विविध प्रकार के बोल संग्रह १ से ५ तक । बोल संख्या १ से ४२३ हैं । इस में एक एक के, दो दो के, तीन तीन के, चार चार के, पांच पांच के, बोल आगम शास्त्रों से लेकर दिये गये हैं ।

( २ ) द्वितीय भाग— इस में बोल संग्रह ६ और ७ का वर्णन है । बोल संख्या ४२४ से ५६३ । इसमें षट्द्रव्य के

भेद, श्रवसर्पिणी उत्सर्पिणी के ६-६ आरे, प्रतिलेखना के भेद, छः लेश्या, परदेशी राजा के ६ प्रश्न, पङ्दर्शन तथा ६-६ के कई चोल । प्राणायाम सात, सात नरकों का वर्णन, ७ निह्वनों का वर्णन, ७ नय, सप्तमंगी आदि कई चोल वड़े ही सरल ढंग से लिखे गये हैं ।

( ३ ) तृतीय भाग— इस में ८ से १० तक के चोल हैं । चोल संग्रह ५६४ से ७६६ तक है । इसमें ७ आचार, ८ प्रमाद, प्रतिक्रमण के भेद व दृष्टान्त, आठ कर्म विस्तार सहित, आठ आत्मा, अहिंसा भगवती की ८ उपमा, भगवान् महावीर के शासन में तीर्थङ्कर गोत्र बांधने वाले जीव ६, नवतत्त्व, स्वप्न के ६ निमित्त, नव नियाणे, भगवान् महावीर के १० स्वप्न, एषणा के १० दोष, समाचारी १०, प्रव्रज्या १०, आलोचना के १० दोष, चित्त समाधि के १० स्थान, संमार की समुद्र के साथ १० उपमा, मनुष्य भव की दुर्लभता के १० दृष्टान्त, दस अछेरे, श्रावक के १० लक्षण, दस श्रावक, श्रेणिक राजा की १० राणियाँ, पइएणा दस, अस-ज्जाय आंतरिक १० और औदारिक १०, सम्यक्त्व प्राप्ति के १० चोल, मिथ्यात्व १०, सत्य वचन के १० प्रकार, ब्रह्मचर्य के समाधिस्थान १०, पचखाण १०, चैयाचच्च १०, संज्ञा १०, संवर १०, असंवर १०, वाद के १० दोष, १० प्रकार के सब जीव, अजीव परिणाम १०, अरूपी जीव के १० भेद, १० प्रकार के कल्पवृक्ष, महानदियाँ १०, मन के १० दोष, वचन के १० दोष, कुलकर १०, दान १० और सुख १० आदि बहुत से चोल हैं ।

( ४ ) चतुर्थ भाग— चोल संग्रह ११ से १३ तक। चोल

संख्या ७७० से ८२१ तक । भगवान् महावीर के ११ नाम, दशवैकालिक सूत्र दूसरा सामरण पुण्यं नाम के अध्ययन की ११ गाथाएँ, संसार में ११ बातों की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ है, आरम्भ परिग्रह को छोड़े बिना ११ बातों की प्राप्ति नहीं हो सकती, गणधर ११, अंग सूत्र ११, उपांग सूत्र १२ का वर्णन, सूत्र के १२ भेद, अननुयोग के १२ दृष्टान्त, उत्तराध्ययन २१ वें अध्ययन की जैन साधु के लिये मार्ग प्रदर्शक १२ गाथाएँ, अरिहन्त के १२ गुण, चक्रवर्ती १२, उपयोग १२, कम्मिया बुद्धि के १२ दृष्टान्त, निश्चय और व्यवहार से श्रावक के भावव्रत १२, श्रावक के बाहर व्रत लेने की संचित टीप, भिक्षु पडिमा १२, सम्भोग १२, १२ महीनों में पोरिसी का परिमाण, धर्म के १२ विशेषण, कर्म प्रकृतियों के १२ द्वार, भावना १२, विनय के १३ भेद, क्रियास्थान १३, आहारक और अनाहारक के १३ द्वार, क्रोध आदि की शान्ति के १३ उपाय, उत्तराध्ययन के चौथे असंस्कृत नामक अध्ययन की १३ गाथाएँ, भगवान् ऋषभ देव के १३ भव, सम्यक्त्व के लिए १३ दृष्टान्त ।

( ५ ) पांचवां भाग— इसमें बोल संग्रह १४ से १६ तक । बोल संख्या ८२२ से ६०० तक है । श्रुतज्ञान के १४ भेद, पूर्व १४, ज्ञान के अतिचार १४, भूतग्राम के १४ भेद, संमृच्छिम मनुष्यों के उत्पत्ति स्थान १४, स्वप्न १४, महास्वप्न १४, श्रावक के १४ नियम, १४ प्रकार का दान, साधु के लिये अकल्पनीय १४ बातें, अविनीत के १४ लक्षण, सप्रदेशी अप्रदेशी के १४ द्वार, पढमापढम के १४ द्वार, चरमाचरम के १४ द्वार, १४ राजप्रमाण लोक, मार्गणा स्थान १४, गुणस्थान १४ का विवरण, सिद्धों के १५ भेद, मोच के

१५ अंग, दीक्षा देने वाले गुरु के १५ गुण, विनीत के १५ लक्षण, वैनयिकी बुद्धि के १५ दृष्टान्त, पूज्यता को बतलाने वाली १५ गाथाएँ, अनाथता की १५ गाथाएँ, कर्म भूमि १५, परमाधार्मिक १५, कर्मादान १५, दशवैकालिक सूत्र द्वितीय चूलिका की १६ गाथाएँ, उत्तराध्ययन पन्द्रहवें अध्ययन सभिक्षु की १६ गाथाएँ, बहुश्रुत साधु की १६ उपमाएँ, दीक्षार्थी के १६ गुण, गवेपणा के १६ दोष, साधु को कल्पनीय ग्रामादि १६ स्थान, आश्रव आदि के १६ भाँगे, चन्द्रगुप्त राजा के १६ स्वप्न, महावीर की वसति विषयक १६ गाथाएँ, सोलह सत्तियों की कथा, दशवैकालिक विनय समाधि ६वें अध्ययन की १७ गाथाएँ, भगवान् महावीर की तपश्चर्या विषयक १७ गाथाएँ, मरण १७ प्रकार का, पञ्चवणा सूत्र के २१ वें पद के शरीर के १७ द्वार, भाव श्रावक के १७ लक्षण, संयम के १७ भेद, अरिद्वन्त भगवान् में नहीं पाये जाने वाले १८ दोष, गतागत के १८ द्वार, साधु के १८ कल्प, दीक्षा के अयोग्य १८, पौषध के १८ दोष, १८ पाप-स्थानक, चोर की प्रसूति १८, उत्तराध्ययन के छठे लुल्लक निर्ग्रन्थीय अध्ययन की १८ गाथाएँ, दशवैकालिक प्रथम चूलिका की १८ गाथाएँ, कायोत्सर्ग के १९ दोष, ज्ञाता धर्म कथाङ्ग की १९ कथाएँ आदि ।

( ६ ) छठा भाग— बोल संग्रह २० से ३० । बोल संख्या ६०१ से ६६० तक । आनुपूर्वी, आनुपूर्वी कण्ठस्थ गुणने की सरल विधि, श्रुत ज्ञान के २० भेद, तीर्थङ्कर नाम कर्म बांधने के २० बोल, विहरमान २०, २० कल्प साधु के, परिहार विशुद्धि चारित्र के २० द्वार, असमाधि के २० द्वार, आश्रव के २० भेद, संवर के २० भेद, उत्तराध्ययन चतुरंगीय तीसरे

अध्ययन की २० गाथाएं, विपाक सूत्र की २० कथाएं, श्रावक के २१ गुण, धोवण पानी २१ प्रकार का, २१ शबल दोष, विद्यमान पदार्थ की अनुपलब्धि के २१ कारण, पारिणामिकी बुद्धि के २१ दृष्टान्त, दशवैकालिक सभिक्षु दसवें अध्ययन की २१ गाथाएं, उत्तराध्ययन सूत्र के चरणविहि नामक ३१वें अध्ययन की २१ गाथाएं, प्रश्नोत्तर २१, साधु धर्म के विशेषण २२, निग्रहरथान २२, भगवान् महावीर की चर्या त्रिपयक आचारांग ६ वां अ० उ० १ की २३ गाथाएं, साधु के उतरने योग्य तथा अयोग्य स्थान २३, क्षेत्र परिमाण के २३ भेद, ५ इन्द्रिय के विषय २३, गत उत्सर्पिणी के २४ तीर्थङ्कर, ऐरवत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थङ्कर, वर्तमान अवसर्पिणी के २४ तीर्थङ्कर, चौबीस तीर्थङ्करों का लेखा, भरत क्षेत्र के आगामी २४ तीर्थङ्कर, ऐरवत क्षेत्र के आगामी २४ तीर्थङ्कर, विनय समाधि दशवैकालिक अध्ययन ६ की २४ गाथाएं, दरुडक २४, उपाध्याय के २५ गुण, ५ महाव्रत की २५ भावनाएं, प्रतिलेखना के २५ भेद, क्रिया २५, स्यगडांग सूत्र के ५ वें अध्ययन की २५ गाथाएं, आर्य क्षेत्र साढ़े पच्चीस, २६ बोलों की मर्यादा, वैमानिक देवों के २६ भेद, साधु के २७ गुण, स्यगडांग सूत्र के १४ वें अध्ययन की २७ गाथाएं, स्यगडांग सूत्र के ५वें अध्ययन की २७ गाथाएं, आकाश के २७ नाम, औत्पातिकी बुद्धि के २७ दृष्टान्त, मतिज्ञान के २८ भेद, मोहनीय कर्म की २८ प्रकृतियां, अनुयोग देने वाले के २८ गुण, नक्षत्र २८, लब्धियों २८, स्यगडांग सूत्र के महावीर स्तुति नामक छठे अध्ययन की २९ गाथाएं, पाप श्रुत के २९ भेद, अकर्म भूमि के ३० भेद, परिग्रह के ३० भेद, भिक्षाचर्या के ३० भेद, महामोहनीय कर्म के ३० स्थान ।

( ७ ) सातवाँ भाग—बोल ३१ से ५७ तक । बोल संख्या ६६१ से १०१२ तक । सिद्ध भगवात् के ३१ गुण, साधु की ३१ उपमाएं, सूत्र कृतांग सूत्र चौथे अध्ययन की ३१ गाथाएं, ब्रह्मचर्य-शील की ३२ उपमाएं, ३२ योग संग्रह, ३२ सूत्र, ३२ सूत्रों के नाम, ३२ अस्वाध्याय, वंदना के ३२ दोष, सामायिक के ३२ दोष, विजय ३२, उत्तराध्ययन सूत्र के ५ वें अकाममरणीय अ० की ३२ गाथाएं, उत्तराध्ययन सूत्र के ११ वें बहुश्रुत पूजा अध्ययन की ३२ गाथाएं, स्यगडांग सूत्र द्वितीय अध्ययन के द्वितीय उ० की ३२ गाथाएं, आशातना ३३, अनन्तरागत सिद्धों के अल्प-बहुत्व के ३३ बोल, तीर्थङ्कर देव के ३४ अतिशय, गृहस्थ धर्म के ३५ गुण, स्यगडांग सूत्र के नवें अध्ययन की ३६ गाथाएं, आचार्य के ३६ गुण, प्रश्नोत्तर ३६, उत्तराध्ययन सूत्र के १० वें द्रुमपत्रक अध्ययन की ३७ गाथाएं, स्यगडांग सूत्र के ग्यारहवें मार्गाध्ययन की ३८ गाथाएं, समय क्षेत्र के ३९ कुल पर्वत, खर चादर पृथ्वीकाय के ४० भेद, आहार के दायक दोष से दूषित चालीस दाता, उदीरणा विना उदय में आने वाली ४१ प्रकृतियां, आहारादि के ४२ दोष, नाम कर्म की ४२ प्रकृतियां, आश्रव के ४२ भेद, पुण्य प्रकृतियां ४२, प्रवचन विषय संग्रह ४३, स्थावर जीवों की अवगाहना के अल्प बहुत्व के ४४ बोल, उत्तराध्ययन सूत्र के २५वें अध्ययन की ४५ गाथाएं, आगम ४५, गणित योग्य काल प्रमाण के ४६ भेद, आहार के ४७ दोष, तिर्यञ्च के ४८ भेद, ध्यान के ४८ भेद, आश्रव के प्रत्याख्यान के ४९ भंग, प्रायश्चित्त के ५० भेद, आचारांग प्रथम श्रुतस्कंध के ५१ उद्देशे, विनय के ५२ भेद, साधु के ५२ अनाचीर्ण,



मोहनीय कर्म के ५३ नाम, उत्तम पुरुष ५४, दर्शन विनय के ५५ भेद, ५६ अन्तर द्वीप, संवर के ५७ भेद ।

(८) आठवाँ भाग—(सात भागों का विस्तृत विषय कोष)

इस में सातों भागों के बोल अनुक्रम में दिये गये हैं । कौनसा विषय और कौनसा बोल सात भागों में से किस किस स्थान पर है। इस आठवें भाग से स्पष्ट ज्ञात हो जायगा । बोलों के विषय में सूत्रों द्वारा प्रमाण दिये गये हैं । यदि कोई भाग मौजूद न हो तो भी दिये गये प्रमाणों के द्वारा ही बोलों का ज्ञान आसानी से हो सकता है । आवश्यकता-नुसार सभी बोलों पर अनेक प्रमाण दिये गये हैं । बोल जिज्ञासु प्रेमियों के लिये यह भाग बहुत उत्तम रहेगा । अतः इसी आवश्यकता को लेकर यह ग्रन्थ बहुत परिश्रम से बनाया गया है ।

## सूचना

श्री सेठिया जैन ग्रंथमाला द्वारा प्रकाशित धार्मिक पुस्तकें, आनुपूर्वी, बोल, थोकड़े, स्तवन, ढाल, सामायिक, प्रतिक्रमण सूत्र, मूल तथा सार्थ, व हिन्दी बाल शिक्षा, नैतिक धार्मिक शिक्षा आदि की पुस्तकें मिलती हैं । “श्री जैन हितेच्छु श्रावक मंडल रत्नाम” की प्रकाशित पुस्तकें, श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज सा० का जीवन चरित्र और पूज्यश्री के व्याख्यानो से उद्धृत जवाहर किरणावली की किरणें १ में १८ तक भी मिलती हैं । सूचीपत्र मंगवाकर देखिये ।

धार्मिक उपकरण—यहां दीक्षा संबंधी धर्मोपकरण शोधा,

पूँजणी, वस्त्र, पात्र, कम्बल ऊनी, आसन, नवकरवाली ( माला )  
आदि तथा शुद्ध छपे हुए दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, साधु  
प्रतिक्रमण, नंदी, सुखविपाक आदि एवं चीपड़ी, कामी फीता,  
डोरी, सूत्र बांधने के पलेटे, सूत्र रखने के डिब्बे, काठ की  
पट्टियाँ, पुट्टे, पूँजणी की डान्डी आदि भी मिलते हैं।

विद्यालय में—धार्मिक और हिन्दी की उच्च शिक्षा दी जाती  
है। मेट्रिक या इससे अधिक योग्यता वाले छात्रों को महाजनी  
(शराफी) चही खाता का जमा खर्च सिखाया जाता है और  
जनरल ज्ञान के लिये अंग्रेजी का व्यावहारिक ज्ञान (पत्र  
लेखन, पत्रों का पढ़ना, अंग्रेजी में बातचीत करना आदि )  
भी करवाया जाता है।

दीक्षाभिलाषी या प्रचारक बनने की अभिलाषा वाले  
आवक आविकाओं की पढाई का भी प्रबन्ध किया जाता है।

**पता—अगरचंद भैरोदान सेठिया**

**जैन पारमार्थिक संस्था, (ग्रन्थालय भवन)**

**सोहला मरोटियान Bikaner B. K S Ry-**

**बीकानेर ( राजपूताना )**



## प्रमाण के लिए उद्धृत ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ नाम	कर्ता	प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान ।
'अनुयोग द्वार सूत्र	मजधारी हेमचन्द्र सूरि	आगमोदय समिति, सूरत ।
आगमभार	देवचन्द्रजी	"
आचाराङ्ग सूत्र	टी काकार-शीलाङ्काचार्य	आगमोदय समिति "
आतुरप्रत्याख्यान पदप्रणाली	"	"
आवश्यक	मलयगिरि	आगमोदय समिति "
उत्तराध्ययन सूत्र	टीकाकार-श्री शान्त्याचार्य	आगमोदय समिति "
उपासक दशाङ्ग सूत्र	टीकाकार-अभयदेव सूरि	" "
औपपातिक सूत्र	" "	" "
कर्त्तव्य कौमुदी दूसरा भाग	श० रत्नचन्द्रजी म०	भैरोदानजी जेठमलजी सेठिया, बीकानेर ।
कर्मग्रन्थ भाग १-२	व्याख्याकार-प० सुलनालजी	आत्मानन्द जैन पुस्तकप्रचारक मंडल आगरा।
कर्मप्रकृति (कम्मपयडि)	शिवशर्माचार्य	जैन धर्मप्रसारक सभा, भावनगर।
कारण संवाद	श० रत्नचन्द्रजी म०	हीरालाल सुगनचन्द जैन अजमेर ।
चतुर्भविना पाठमाला	" "	रत्नलाल अर्द्धहास जैन, सोनीपत ।

प्रत्यनाम

२७ जीवाजीवाभिगम सूत्र

शाताचर्म तथान्न सूत्र

ज्ञानार्णव

तत्त्वार्थाधिगम भाष्य

तन्दुल वयाली पदण्ड

दशवैकालिक नियुक्ति

दशाश्रुतस्कन्ध

द्रव्यलोक प्रकाश

द्रव्यानुयोग तर्कण

धर्मसंग्रह

धर्मसंग्रह

नन्दी सूत्र

निरीय चूर्णि

न्यायकोष

कथा

टीका-मलयगिरि

" अभयदेव सूत्रि

शुभचन्द्राचार्य

श्री उमास्वामि

भद्रवाहुरुचामी

अनुवादक उपा० श्री आत्मारामजी म०

विनय विजय जी महाराज

शुनि भोजसागरजी

श्री शान्ति सूत्रि

उपाध्याय मानविजय जी

देववाचक जमाश्रमण

प्रयागक एवं प्राप्तिस्थान

आगमोदय समिति

" "

परमश्रुतप्रभावक मंडल, वस्वई

मोतीलाल जाधाजी, पुना

आगमोदय समिति

० जैन शास्त्रमाला, लाहोर

हीरालाल हसरज, जामनगर

परमश्रुत प्रभावक मंडल, वस्वई

आत्मानन्द जैन सभा, भावनगर

आगमोदय समिति

" "

महामहोपाध्याय श्रीभाचार्य

गवर्नमेन्ट सेन्ट्रल बुक डिपो, वस्वई

ग्रन्थनाम  
 न्यायदीपिका  
 न्यायप्रदीप  
 पिण्डनियुक्ति  
 पंचनिर्गन्थीप्रकरण  
 पंचाशक  
 प्रज्ञापना सूत्र  
 प्रमाणनयतस्वालोकालंकार  
 प्रवचनसारोक्तार  
 प्रश्न व्याकरण सूत्र  
 अगवती सूत्र  
 भावना शतक  
 योग शास्त्र  
 रत्नाकरावतारिका  
 रायप्रशनीय सूत्र

कर्ता  
 श्री धर्मभूषण यति  
 दरशरीलालजी न्यायतीर्थ  
 भद्रबाहुस्थामी

श्री हरिभद्रसूरि  
 मलयगिरि टीका  
 वाहिदेव सूरि  
 श्री नेमिचन्द्रसूरि  
 अमय देवसूरि  
 ” ”

शतावधानी रत्नचन्द्रजी म०  
 हेमचन्द्राचार्य  
 रत्नप्रभसूरि  
 मलयगिरि टीका

प्रकाशक एवं प्राप्तिस्थान  
 जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई  
 ” ” ” ”

आगमोदय समिति

जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर

आगमोदय समिति

हर्षचन्द्र भूराभाई, बनारस

आगमोदय समिति

” ”

” ”

बन्द्रावनदास दशाल, बम्बई

जैनधर्म प्रसारक सभा, भावनगर

हर्षचन्द्र भूराभाई, बनारस

आगमोदय समिति

ग्रन्थ नाम

त्रिपाक सूत्र

विशेषावश्यक भाष्य

बृहत्कल्प सूत्र

व्यवहार सूत्र

शावक प्रज्ञप्ति

सम्प्रति तर्क

समवायाङ्ग सूत्र

सरलपिङ्गल

सूत्रकृताङ्ग सूत्र

स्थानाङ्ग ( ठाण्यांग ) सूत्र

स्याबादमञ्जरी

कर्त्ता

अभयदेव सूरि

जिनभद्र गणि क्षमा श्रमण

अनुवादक-अमोलख ऋषिजी म०

वाचक मुख्य उभास्वाति

सिद्धसेन दिवाकर

अभयदेव सूरि

पुस्तकालय विद्यार्थी

श्री शीलाङ्काचार्य

अभयदेव सूरि

अल्लिषेण सूरि

प्रकाशक एवं प्राप्तिस्थान

आगमोदय समिति

हर्षचन्द्र भूराभाई, बनारस

राजाबहादुर लाला सुखदेवसहाय

बंवालाप्रसाद, द्वैवराबाद

ज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई

गुजरात पुरातत्व मंदिर, अहमदाबाद

आगमोदय समिति

हिन्दी सा० सम्मेलन, प्रयाग

आगमोदय समिति

” ”

भोतीलाळ लाघाजी, पूना

## दो शब्द

“ श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह ” नामक ग्रन्थ का प्रथम भाग पाठकों के सामने रखते हुए मुझे विशेष हर्ष हो रहा है । इसे तय्यार करने में मेरा मुख्य उद्देश्य था आत्म-संशोधन । वृद्धावस्था में यह कार्य मुझे चित्त शुद्धि, आत्म-सन्तोष और धर्म ध्यान की ओर प्रवृत्त करने के लिए विशेष सहायक हो रहा है । इसी के श्रवण, मनन और परिशीलन में लगे रहना जीवन की विशेष अभिलाषा है । इसकी यह आंशिक पूर्ति मुझे असीम आनन्द दे रही है । ज्ञान प्रसार और पारमार्थिक उपयोग इसके आनुपंगिक फल हैं । यदि पाठकों को इससे कुछ भी लाभ हुआ तो मैं अपने प्रयास को विशेष सफल समझूँगा । प्रस्तुत पुस्तक मेरे उद्दिष्ट प्रयास का केवल प्रारम्भिक अंश है । इस प्रथम भाग में भी एक साल का समय लग गया है । दूसरा भाग भी शीघ्र ही प्रकाशित करने की अभिलाषा है । पाठकों की शुभ कामना का बहुत बड़ा बल अपने साथ लेकर ही मैं इस कार्य भार को वहन कर रहा हूँ । बीकानेर वूलन प्रेस के सामायिक भवन में इस सद्दिचार का श्रीगणेश हुआ था और वहीं इसे यह रूप प्राप्त हुआ है । उद्देश्य, विषय और वातावरण की पवित्र छाप पाठकों पर पड़े बिना न रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है ।

संवत् १९७२ तथा १९७६ में ‘छत्तीस बोल संग्रह’ नामक ग्रंथ के प्रथम भाग और द्वितीय भाग क्रमशः प्रकाशित हुए थे । पाठकों ने उन संग्रहों का यथोचित आदर किया । अब भी उनके प्रति लोगों की रुचि बनी हुई है । वे संग्रह

ग्रंथ भी वर्षों के परिश्रम का फल थे और अनेक सन्त-  
मुनिराजों से सुन कर एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुशीलन के  
पश्चात् संग्रहीत हुए थे और विशेषतः उनका आधार प्रसिद्ध  
स्थानाङ्ग सूत्र और समवायाङ्ग सूत्र थे । उक्त सूत्र एवं अन्य  
ग्रंथों की शैली पर रचित होने पर भी हम उस संग्रह को  
सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं कह सकते । वे हमारे प्रथम प्रयास थे और  
उनमें अनुभव की इतनी गहराई नहीं । परन्तु उस समय  
के समाज को देखते हुए वे समय में पूर्व ही कहे जायें तो  
कोई अत्युक्ति न होगी । आज समाज के ज्ञान का स्तर  
उस समय की अपेक्षा ऊँचा हो गया है । इसी लिए प्रस्तुत  
ग्रंथ शैली आदि की दृष्टि से, 'छत्तीस बोल संग्रह' का  
अनुगामी होते हुए भी कुछ विशेषताओं से सम्बद्ध है । यह  
अन्तर कुछ तो बढे हुए अनुभव के आधार पर है, कुछ  
वर्तमान समाज की बढती हुई ज्ञान पिपासा को तदनु रूप तृप्त  
करने के लिए और कुछ माधनों की सुविधा पर है जो इस  
बार सौभाग्यवश पहले से अधिक प्राप्त हो सकी हैं ।

इस बार जितने भी बोल संग्रहीत हुए हैं । प्रायः सभी  
आगम एवं सिद्धान्त ग्रंथों के आधार पर लिखे गए हैं ।

बोलों के आधारभूत ग्रंथों का नामोल्लेख भी यथा-  
स्थान कर दिया गया है । ताकि, अन्वेषणप्रिय पाठकों को  
संदर्भ के लिए इधर उधर खोजने में विशेष परिश्रम न करना  
पड़े । बोलों के साथ ही आवश्यक व्याख्या और विवेचन  
भी जोड़ दिया गया है । इस विस्तार को हमने इस लिए  
उपयोगी और महत्वपूर्ण समझा है कि पुस्तक सार्वजनिक  
और विशेष उपयोगी हो सके । बोलों के संग्रह, व्याख्यान



और विवेचन में मध्यस्थ दृष्टि से काम लिया गया है। साम्प्रदायिकता को छोड़ कर शास्त्रीय प्रमाणों पर ही निर्भर रहने की भरसक कोशिश की गई है। इसी लिये ऐसे बोलों और विवेचनों को स्थान नहीं दिया है जो साम्प्रदायिक और एक देशीय हैं। आशा है प्रस्तुत ग्रंथ का दृष्टिकोण और विवेचन शैली उदार पाठकों को समयोपयोगी और उचित प्रतीत होंगे।

प्रत्येक विषय पर दिए गए प्राचीन शास्त्रों के प्रमाण जैनदर्शन का अनुसन्धान करने वाले तथा दूसरे उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे। बोलों का यह वृहत् संग्रह उनके लिए 'जैन विश्वकोष' का काम देगा। साधारण स्कूल तथा पाठशालाओं के अध्यापक भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तथा प्रामाणिक विषय चुनने में पर्याप्त लाभ उठा सकेंगे। उनके लिए यह ग्रंथ एक मार्ग दर्शक और रत्नों के भण्डार का काम देगा। साधारण जिज्ञासुओं के लिए तो इसकी उपयोगिता स्पष्ट ही है।

ग्रन्थ में आए हुए विषयों की सूची बोलों के नम्बर देकर अकाराद्यनुक्रमणिका के अनुसार प्रारम्भ में दे दी गई है। इस से पाठकों को इच्छित विषय ढूँढने में सुविधा होगी।

चूँकि इस पुस्तक की शैली में संख्यानुक्रम का अनुसरण किया गया है। इस लिए पाठकों को एक ही स्थान पर सरल एवं सूक्ष्म भाव तथा विचार के बोलों का संकलन मिलेगा, परन्तु इस दशा में यह होना स्वाभाविक ही था। इस कठिनार्थ को हल करने के लिए कठिन बोलों पर विशेष रूप से सरल एवं विस्तृत व्याख्याएँ दी गई हैं। कठिन और

दुर्बोध विषयों को सरल एवं सुबोध करने के प्रयत्न में सम्भव है भावों में कहीं पुनरुक्ति प्रतीत हो, परन्तु यह तो जान बूझ कर पाठकों की सुविधा के लिए ही किया गया है ।

ये शब्द इसलिये लिखे जा रहे हैं कि प्रेमी पाठकों को मेरे प्रयास के मूल में रही हुई भावना का पता लग जाय और वे जान लें कि जहां इसमें आत्मोन्नति की प्रेरणा है वहीं लोकोपकारी प्रवृत्ति भी है। ग्रंथ के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया है वह पाठकों को अपने परिश्रम का आभास करा कर प्रभावित करने के लिए नहीं अपितु इस धार्मिक अनुष्ठान का समुचित आदर करने के लिए है। यदि वे मेरे इस कार्य से किंचिन्मात्र भी आध्यात्मिक स्फूर्ति का अनुभव करेंगे तो लोक कल्याण की भावना को इससे भी सुन्दर और आध्यात्मिक साहित्य मिल सकेगा ।

“श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह” में ‘बोल’ शब्द साधारण पाठकों को एक देशीय प्रतीत होगा, किन्तु शास्त्रों में जहाँ स्थान शब्द है, खड़ी बोली और संस्कृत में जहाँ अङ्क या संख्या शब्द दिए जाते हैं, वहीं जैन परम्परा में “बोल” शब्द प्रचलित है। प्राकृत और संस्कृत न जानने वाले पाठक भी इससे हमारा उद्दिष्ट अभिप्राय सरलता से समझ सकेंगे। इसी लिए और शब्दों की अपेक्षा इसको विशेषता दी गई है और इस ग्रन्थ में “बोल” शब्द का ही प्रयोग किया गया है ।

इस ग्रंथ को शुद्ध और प्रामाणिक बनाने के लिए भरसक कोशिश की गई है। फिर भी मानव सुलभ त्रुटियों का रह जाना सम्भव है। यदि सहृदय पाठक उन्हें सूचित करने की

कृपा करेंगे तो आगामी संस्करण में सुधार ली जाएँगी ।  
इसके लिए मैं उनका विशेष अनुगृहीत रहूँगा ।

वूलन प्रेस, बीकानेर  
आपाठ शुक्ला ३, सवत १९६७  
ता० ८ जोलाई १९४० ई०

निवेदकः—  
भैरोदान मेठिया

## द्वितीया वृत्ति के सम्बन्ध में:—

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग की द्वितीया वृत्ति पाठकों के कर कमलों में पहुँचाते हुए हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है प्रथमावृत्ति में अकारादि-अनुक्रमणिका में केवल बोल नम्बर दिये गये थे परन्तु द्वितीयावृत्ति में पृष्ठ संख्या और बढ़ा देने से पाठकों को सुविधा होगी । प्रथमावृत्ति में प्रमाण रूप से उद्धृतग्रन्थों की सूची नहीं दी गई थी अब की चार बढ़ दे दी गई हैं ।

वर्तमान समय में कागज, छपाई, बन्धाई एवं अन्य सब सामान के भाव बहुत अधिक बढ़ जाने से द्वितीयावृत्ति में कीमत बढ़ानी पड़ी है । फिर भी ज्ञान प्रचार की दृष्टि से इस का मूल्य लागत मात्र रखा गया है । यह भी फिर ज्ञान प्रचार में ही लगता है ।

पुस्तकें मंगाने वालों से प्रार्थना है कि अपना नाम, पता, मुकाम, पोस्ट ऑफिस और रेल्वे स्टेशन आदि हिन्दी और अंग्रेजी में साफ साफ लिखने की कृपा करें ।

इस आवृत्ति में जो अशुद्धियाँ रह गई हैं—उनका शुद्धि

पत्र लगा दिया है। उसके अनुसार पुस्तक शुद्ध करके पढ़ने की कृपा करें।

विनीतः—

भैरोदान सेठिया

## आभार प्रदर्शन

सर्व प्रथम मैं भारत भूषण, पण्डित रत्न, शतावधानी मुनि श्री रत्नचन्द्रजी महाराज, जैनधर्म दिवाकर, साहित्य रत्न उपाध्याय श्री आत्मारामजी महाराज तथा परम प्रतापी पूज्य श्री हुकमीचन्द्रजी महाराज की सम्प्रदाय के आचार्य्य पूज्य श्री जवाहरलालजी महाराज के सुशिष्य पं० मुनि श्री पन्नालालजी महाराज ( उंटाला वाले ) इन धर्म गुरुओं का आभारी हूँ, जिन्होंने कृपा पूर्वक अपना अमूल्य समय देकर इस ग्रन्थ की हस्त लिखित प्रति का अवलोकन करके उचित और उपयोगी परामर्श प्रदान किए हैं। इन पूज्य मुनिवरों के इस हस्त लिखित प्रति को पढ़ जाने के बाद मुझे इस ग्रन्थ के विषय में विशेष चल प्रतीत होने लगा है और मैं इतना साहस संचित कर सका हूँ कि अपने इस प्रयास को निस्संकोच भाव से पाठकों के सामने रख सकूँ। अत एव यदि पाठकों की ओर से भी उक्त मुनिराजों के प्रति आभार प्रदर्शन करूँ तो सर्वथा उचित ही होगा।

इस ग्रन्थ के प्रणयन में मैं तो उपलब्ध मात्र हूँ। इसके लेखन, संपादन, संकलन, अनुवाद, अवलोकन, विवेचन और व्याख्यान आदि का अधिकांश प्रत्यक्ष कार्य तो उदयपुर निवासी श्रावक श्रीयूत् पं० रोशनलालजी चपलोट, बी० ए०,

न्यायतीर्थ, काव्य तीर्थ, सिद्धान्त तीर्थ, विशारद का क्रिया हुआ है। इनके इस कार्य में मेरा भाग मार्ग प्रदर्शन भर का रहा है। इस अमूल्य और साज्जोपाज्ज सहायता के लिए यदि मैं उन्हें धन्यवाद देने की प्रथा का अनुसरण करूँ तो वह उनके सहयोग का उचित पुरस्कार न होगा। इस लिए यहाँ मैं केवल उनके नाम का उल्लेख करके ही अग्रसर होता हूँ। इसी प्रकार इस ग्रन्थ के प्रथम और द्वितीय बोल के सम्पादन में कानोड़ ( मेवाड़ ) निवासी सुश्रावक पं० श्रीयुत् पूर्णचन्द्रजी दक, न्याय तीर्थ का सहयोग मुझे सुलभ रहा है। उनके विस्तृत शास्त्रीय ज्ञान और उनकी अनुशीलन-प्रिय विद्वत्ता का लाभ उठाने से ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ गई है। अतः श्री पूर्णचन्द्रजी को उन के अमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना मेरा कर्तव्य है।

पंजाब प्रान्त के कोट-इसा-खां निवासी श्रावक पं० श्यामलालजी जैन, वी० ए०, न्याय तीर्थ, विशारद का भी समुचित सहयोग रहा है। श्रीयुत भीखमचन्दजी सुराणा वी० ए० ने भी इस कार्य में सहयोग दिया है। अतः दोनों महाशयों को मेरा धन्यवाद है।

श्रीमान् पं० इन्द्रचन्द्रजी शास्त्री, शास्त्राचार्य, वेदान्त वारिधि, न्याय तीर्थ, एम० ए०, ने इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि का परिश्रम पूर्वक संशोधन किया है। उनका अल्पकालीन सहयोग ग्रन्थ को उपयोगी, विशद और सामयिक बनाने में विशेष सहायक है।

उपरोक्त सज्जन सेठिया विद्यालय के स्नातक हैं। उन से इस तरह का सहयोग पाकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

अपने लगाये हुए पौधे के फूलों की सुगन्ध से किस माली को हर्ष नहीं होता ?

पुस्तक तय्यार होने के कुछ दिन पहले “श्री जैन वीरा-श्रम व्यावर” के स्नातक श्रीयुत् पं० घेवरचन्द्रजी चौठिया ‘वीर पुत्र’ जैन न्यायतीर्थ, व्याकरण तीर्थ, जैन सिद्धान्त शास्त्री का सहयोग प्राप्त हुआ। उनके प्रयत्न से इस ग्रन्थ का शीघ्र प्रकाशन सुलभ हो गया। अतः उन्हें मेरा धन्यवाद है।

श्रीमान् पं० सच्चिदानन्दजी शर्मा साहित्य शास्त्री, ज्योतिर्विद का भी मैं अनुगृहीत हूँ। जिन्होंने इस ग्रन्थ में आए हुए ज्योतिषसम्बन्धी चीलों का अवलोकन और उपयोगी परामर्श प्रदान किया है।

चिरञ्जीव जेठमल सेठिया ने भी इस ग्रन्थ की हस्त लिखित प्रति का आद्योपान्त अवलोकन करके जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन किये।

इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ के प्रणयन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मुझे जिन जिन विद्वानों की सम्मतियों और ग्रन्थ कर्त्ताओं के ग्रन्थों से लाभ हुआ है उनके प्रति मैं विनम्र माघ से कृतज्ञ हूँ।

उन प्रेस बिल्डिंग्स  
वीकानेर  
Bikaner Woollen Press  
Buildings, Bikaner

निवेदकः—  
मैरोदान सेठिया

## द्वितीयावृत्ति के सम्बन्ध में—

इस की द्वितीयावृत्ति में श्री मज्जैनाचार्य पूज्य श्री हस्तीमल्लजी महाराज साहव की सम्प्रदाय के वयोवृद्ध मुनि श्री सुजानमल्लजी महाराज साहव के सुशिष्य पण्डित मुनिश्री लक्ष्मीचन्द्रजी महाराज साहव ने अजमेर चातुर्मास में बड़े परिश्रम से आवश्यक संशोधन, श्री घेवरचन्द्रजी साहव वांठिया को करवाये—अतः हम उनके आभारी हैं ।

शास्त्रज्ञ मुनिश्री पन्नालालजी महाराज साहव ने बड़े परिश्रम से सब भागों का दुबारा, संशोधन किया है और सूक्ष्म निरीक्षण के साथ उचित परापर्श दिया है अतः हम आपके आभारी हैं ।

संवत् २००४ में सिंध-हैदरावाद और बम्बई में रहते हुए श्रीमान् दुर्लभजी रूपचन्दजी गांधी और श्रीमान् सेठ नगीनदास गिरधरलाल भाई, जैन सिद्धान्त सभा, बम्बई वालों ने परिश्रम पूर्वक संशोधन करके हम को सूचित किया, अतः हम उन्हें धन्यवाद देते हैं ।

इन भागों की उपयोगिता को लक्ष्य में लेकर उक्त जैन सिद्धान्त सभा बम्बई, इन का गुजराती अनुवाद करवा रही है— यह प्रसन्नता का विषय है ।

आशा है पाठक इन भागों से अधिकाधिक लाभ उठावेंगे ।

निवेदकः—

भैरोदान सेठिया

# भूमिका

इस अनादि संसार चक्र में प्रत्येक आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुःख का अनुभव कर रहा है। किन्तु जो आत्मिक आनन्द है, उससे वञ्चित ही है। कारण कि आत्मिक आनन्द द्वायिक और द्वायोपशमिक भाव पर ही निर्भर है सो जब तक आत्मा उक्त भावों की ओर लक्ष्य नहीं करता अर्थात् सम्यक्तया उक्त भावों में प्रविष्ट नहीं होता तब तक आत्मा को आत्मिक आनन्द की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसलिये आगमों में विधान किया गया है कि जब तक आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति नहीं होती तब तक आत्मा मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं कर सकता। जैसे कि:—

चत्तारी परमंगाणि, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य वीरियम् ॥ १ ॥

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३ गाथा १ )

इस गाथा का यह भाव है कि प्रत्येक आत्मा को चार अंगों की प्राप्ति होना दुर्लभ है। वे चार अङ्ग ये हैं:—मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा, और समय में पुरुषार्थ। जब ये सम्यक्तया प्राप्त हो जाय तब निस्सन्देह उस जीव की मुक्ति हो जाती है। उक्त गाथा में मनुष्यत्व के अनन्तर ही श्रुति शब्द दिया गया है। इस में प्रायः आत्म विकास का कारण श्रुत ज्ञान ही मुख्य कारण प्रतिपादन किया है।

## श्रुत ज्ञान के विषय

शास्त्रों में पाँच ज्ञानों में से परोपकारी सिर्फ श्रुत ज्ञान को ही प्रतिपादन किया है। इस के नन्दी सूत्र में चतुर्दश भेद



कथन किए गए हैं। वे भेद जिज्ञासुओं के अवश्य ही द्रष्टव्य हैं। उपयोग पूर्वक कथन करता हुआ श्रुत केवली भगवान् की शक्ति के तुल्य हो जाता है तथा श्रुत ज्ञान के अध्ययन करने से आत्मा स्व-विकास और परोपकार करने की शक्ति उत्पन्न कर लेता है, इतना ही नहीं किन्तु सम्यग्श्रुत के अध्ययन से सम्यग् दर्शन को भी उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि उत्तराध्ययन सूत्र के २८ वें अध्ययन की २१ वीं वा २३ वीं गाथा में वर्णन किया है—

जो सुत्तमहिज्जन्तो, सुएण ओगाहई उ संमचं ।  
 अंगेण वाहिरेण वा, सो मुत्तरुइ त्ति नायव्वो ॥ २१ ॥  
 सो होइ अभिगम रुई, सुय नांण जेण अत्यओ दिट्ठं ।  
 इकारस अंगाइं, पइएणगं दिट्ठिवाओ य ॥ २३ ॥

इन गाथाओं का यह भाव है कि अंग सूत्र वा अंगवाह्य सूत्र तथा दृष्टिवाद अथवा प्रकीर्णक ग्रन्थों के अध्ययन से सूत्र रुचि और अभिगम रुचि उत्पन्न हो जाती है। जो सम्यग् दर्शन के ही उपभेद हैं।

### प्रस्तुत ग्रन्थ विषय

सम्यग् दर्शन की प्राप्ति के लिये ही “श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह” अर्थात् प्रस्तुत ग्रन्थ निर्माण किया गया है।

कारण कि शास्त्रों में चार अनुयोगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है जो कि मृष्टुलु आत्माओं के लिये अवश्यमेव पठनीय है। जैसे कि:— चरण करणानुयोग, धर्म कथानुयोग, गणितानुयोग, द्रव्यानुयोग। इस ग्रन्थ में चार अनु-

योगों का यथा स्थान बड़ी सुन्दर रीति से संग्रह किया है तथा प्रत्येक स्थान अपनी अनुपम उपमा रखता है। जैसे एक स्थान में ऐसे बोलों का संग्रह किया गया है जो सामान्य रूप से एक ही संख्या वाले हैं। जैसे सामान्य रूप से आत्मा एक है क्योंकि उपयोग लक्षण आत्मा का निज गुण है। वह सामान्य रूप से प्रत्येक जीव में रहता है। जिस द्रव्य में उपयोग लक्षण नहीं है उसी द्रव्य को अनात्मा वा अजीव द्रव्य कहते हैं। कारण कि प्रत्येक पदार्थ की सिद्धि उसके द्रव्य गुण, और पर्याय से की जाती है। प्रथम स्थान में बड़ी सुन्दर शैली से आगमों से वा आगमों के अवरुद्ध ग्रंथों से एक एक बोल का संग्रह किया गया है।

द्वितीय अंक में दो दो बोलों का संग्रह है। उसमें सामान्य और विशेष वा पक्ष, प्रतिपक्ष बोलों का संग्रह है। जैसे जीव और अजीव, पुण्य और पाप, बन्ध और मोक्ष इत्यादि। इसी प्रकार हेय, ज्ञेय और उपादेय से सम्बन्ध रखने वाले अनेक बोल संग्रह किये गये हैं। स्थानाङ्ग सूत्र के द्वितीय स्थान में उपादेय का वर्णन करते हुए कथन किया है कि दो स्थानों से युक्त आत्मा आदि संसार चक्र से पार हो जाता है जैसे कि:—

दोहिं ठाणेहिं अणगारे सम्पन्ने अणदिणं अणवयग्गं  
दीहमद्वं चाउरंत संसारं कंतारं वीतिवतेज्जा, तं जहा विज्जाए  
चेव चरणेण वा ।

( द्वितीय स्थान उद्देश प्रथम सूत्र ६३ )

इस सूत्र का यह भाव है कि दो स्थानों से युक्त अनगार अनादि संसार चक्र से पार हो जाता है। जैसे कि विद्या से

और चारित्र से । यह सूत्र प्रत्येक मुमुक्षु के मनन करने योग्य है क्योंकि इस सूत्र से जातिवाद और कुल-वाद का खण्डन स्वयमेव हो जाता है अर्थात् जाति और कुल से कोई भी संसार चक्र से पार नहीं हो सकता । जब होगा विद्या और चारित्र से होगा । इस प्रकार प्रस्तुत ग्रन्थ में शिक्षाप्रद वा ज्ञातव्य आगमों से उद्धृत कर संग्रह किया गया है जो अवश्य पठनीय है ।

तीन तीन के बोल संग्रहों में बड़े ही विचित्र और शिक्षाप्रद बोलों का संग्रह है । इस लिए ज्ञान संपादन के लिए प्रस्तुत ग्रंथ का अवश्य ही स्वाध्याय करना चाहिए । स्थानाङ्ग सूत्र के तृतीय स्थान के चतुर्थ उद्देश्य के २१७ वें सूत्र में लिखा है किः—

तिविहे भगवया घम्मे परणत्ते तंजहाः—सुअधिज्भितं सुज्भ्नातिते सुतवस्सिते । जया सुअधिज्भितं भवति तदा सुज्भ्नातियं भवति जया सुज्भ्नातियं भवति तदा सुतवस्सियं भवति । से सुअधिज्भिते सुज्भ्नातिते सुतवसिते सुतक्खातेण भगवया घम्मे परणत्ते ।

( सूत्र २१७ )

इस सूत्र का यह भाव है कि श्री भगवान् ने घर्म तीन प्रकार से वर्णन किया है ! जैसे कि भली प्रकार से पठन करना, फिर उसका ध्यान करना, फिर तप करना अर्थात् आचरण करना । क्योंकि जब भली प्रकार से गुरु आदि के समीप पठन किया होता है तब ही सुध्यान हो सकता है । सुध्यान होने पर ही फिर भली प्रकार से आचरण किया जा सकता है । अतः पहले पठन करना फिर मनन करना

और फिर आचरण करना । यही तीन प्रकार से श्री भगवान् ने धर्म वर्णन किया है । इससे भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि श्री भगवान् का प्रथम धर्म अध्ययन करना ही है । सो सम्यग् सूत्रों का अध्ययन किया हुआ आत्म विकास का मुख्य हेतु होता है ।

यह प्रस्तुत ग्रन्थ विद्यार्थियों के लिये उपयोगी होने पर भी विद्वानों के लिये भी परमोपयोगी है और इसमें बहुत से बोल उपादेय रूप में भी संग्रहीत किये गए हैं । जैसे कि श्रावक की तीन अनुप्रेक्षाएँ । स्थानाङ्ग सूत्र तृतीय स्थान के चतुर्थ उद्देशे के २१० वें सूत्र में वर्णित की गई हैं । जैसे कि:—

तिहिं ठाणेहिं समणोवासते महानिज्जरे महापज्जवसाणे भवति । तंजहा:—(१) कयाणमहमप्पं वा बहुयं वा परिग्गहं परिचइस्सामि (२) कया णं अहं मुंढे भवित्ता आगारातो अणगारितं पव्वइस्सामि (३) कया णं अहं अपच्छिम मारणात्तियं संलेहणा भूसणा भूसिते भत्तपाण पडियात्तिक्खते पाओवगते कालं अणवकंखमाणे विहरिस्सामि । एव स मणसा स वयसा स कायसा पागइमाणे (जागरमाणे) समणोवासते महाणिज्जरे महापज्जवसाणे भवति (सूत्र २१०)

इस पाठ का भावार्थ यह है कि श्रावक तीन अनुप्रेक्षाओं द्वारा कर्मों की निर्जरा करके संसार चक्र से पार हो जाता है । जैसे कि:—

श्रावक मन, वचन और काया द्वारा निम्नलिखित तीन अनुप्रेक्षाएँ सदैव करता रहे अर्थात् तीन मनोरथों की सदैव

काल शुद्ध अन्तःकरण से भावना भाता रहे । जैसे किः—

(१) कब मैं अल्प वा बहुत परिग्रह का परित्याग करूँगा अर्थात् दान दूँगा ।

(२) कब मैं मुण्डित होकर घर से निकल अनगार वृत्ति ग्रहण करूँगा ।

(३) कब मैं अशनादि का त्याग कर पादोपगमन अनशन द्वारा समाधि मृत्यु की प्राप्ति करूँगा ।

ये तीन मनोरथ श्रमणोपासक - के लिये सदैव काल उपादेय हैं ।

प्रथम मनोरथ में अल्प वा बहुत परिग्रह का त्याग विषय कथन किया है । किन्तु मूल सूत्र में आरम्भ का उल्लेख नहीं है इससे दान ही सिद्ध होता है क्योंकि हेम कोश के द्वितीय देव काण्ड के पचास और इक्कावन श्लोक में दान शब्द के १३ नाम दिये गये हैं । जैसे किः—

दानमुत्सर्जनं त्यागः, प्रदेशनविसर्जने ।

विहायितं वितरणं, स्पर्शनं प्रतिपादनम् ॥५०॥

विश्राणनं निर्वपणमपवर्जनमंहतिः ।

दान धर्म श्री भगवान् ने सर्व धर्मों से मुख्य वर्णन किया है । अतः तृतीय बोल संग्रह में जिज्ञासुओं के लिये अत्यन्त उपयोगी संग्रह किया गया है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के चतुर्थ बोल संग्रह में विस्तार पूर्वक चतुर्भङ्गियों का संग्रह है जो अनेक दृष्टियों से बड़े ही महत्व

का है। जैसे स्थानाङ्ग सूत्र के चतुर्थ स्थान के प्रथम उद्देशे में लिखा है कि वस्त्र चार प्रकार के होते हैं। जैसे किः—

चचारि वत्था पण्णते तंजहा, (१) सुद्धे णामं एगे सुद्धे (२) सुद्धे णामं एगे असुद्धे (३) असुद्धे णामं एगे सुद्धे (४) असुद्धे णामं एगे असुद्धे (५) एवामेव चचारि पुरिस जाता पण्णते तंजहाः—सुद्धे णामं एगे सुद्धे चउ भङ्गो ष। एवं परिण-तरूवे वत्था सपडिवक्खा। चचारि पुरिस जाता पण्णते तंजहाः—सुद्धे णामं एगे सुद्धमणे चउ भङ्गो ष। एवं संकप्पे जाव परक्कमे। ( सूत्र २३६ )

इस पाठ का यह भाव है कि वस्त्र चार प्रकार के होते हैं। (१) शुद्ध नाम वाले एक शुद्ध वस्त्र हैं। (२) शुद्ध अशुद्ध (३) अशुद्ध शुद्ध (४) अशुद्ध अशुद्ध। इसी प्रकार पुरुषों के विषय में भी जानना चाहिये। जिसका ताना बाना शुद्ध हो और क्षोममय वस्त्र हो, वह पहले भी शुद्ध है अर्थात् उसकी उत्पत्ति भी शुद्ध और वस्त्र भी शुद्ध है। इसी प्रकार अन्य भङ्गों के विषय में भी जानना चाहिये। इस चतुर्भङ्गी में वस्त्रों द्वारा पुरुषों के विषय में अत्यन्त सुन्दर शैली से वर्णन किया है। अहिंसक पुरुषों के लिए वस्त्र का प्रथम भङ्ग उपादेय है। दार्ष्टान्तिक में प्रथम भङ्ग वाला पुरुष जगत् में परोपकारी हो सकता है अर्थात् जो जाति कुलादि से सुसंस्कृत है और फिर ज्ञानादि से भी अलंकृत हो रहा है, वही पुरुष संसार में परोपकार करता हुआ मोक्षाधिकारी हो जाता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में बड़ी ही योग्यता के साथ महती पठनीय चतुर्भङ्गीयों का संग्रह किया गया है। वे चतुर्भङ्गीयों अनेक दृष्टि कोण से महत्ता रखती हैं। जो मृष्टुज्जु जनों के लिए

अत्यन्त उपादेय हैं और आत्म विक्रम के लिये एक कुञ्जी के समान हैं ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के पाँचवें बोल संग्रह में पांच पांच बोलों का संग्रह किया गया है । यदि उनको अनुप्रेक्षा पूर्वक पढ़ा जाय तो जिज्ञासुओं को अत्यन्त लाभ हो सकता है क्योंकि उपयोग पूर्वक अध्ययन किया हुआ श्रुत आत्म विकास का मुख्य कारण होता है । जैसे कि स्थानाङ्ग सूत्र के पांचवें स्थान के तृतीय उद्देशे में लिखा है । जैसे कि:—

धम्मं चरमाणस्स पंच गिस्सा ठाणा पएणते तंजहा:—

छक्काए, गणो, राया, गिहवती, सरीरं । (सूत्र ४४७)

पञ्च गिही पएणते तंजहा:—

पुचानिही मिचानिही सिप्पनिही धणणिही धन्नणिही ।

(सूत्र ४४८)

सोए पञ्च विहे पएणते तंजहा:—

पुढवि सीते, आउ सोते, तेउ सोते, मंत सोते, वंम सोते ।

(सूत्र ४४९)

इस सूत्र में यह वर्णन किया है कि जिस आत्मा ने धर्म ग्रहण किया है उसके पांच आलम्बन स्थान होते हैं । जैसे—  
छः काया, गण, राजा, गृहपति, और शरीर । जब ये पांचों ही ठीक होंगे तब ही निर्विघ्नता पूर्वक धर्म हो सकेगा ।

पांच निधि ( कोष ) गृहस्थों की होती हैं । (१) पुत्र निधि (२) मित्र निधि (३) शिल्प निधि (४) धन निधि (५) धान्य निधि ।

पांच प्रकार का शौच होता है । जैसे:—पृथ्वी शौच, जल शौच, तेजः शौच, मन्त्र शौच और ब्रह्म शौच । जिस में प्रथम के चार शौच बाह्य हैं और ब्रह्मशौच अन्तरङ्ग है । इन सूत्रों की व्याख्या वृत्तिकार ने बड़े विस्तार से की है जो जिज्ञासुओं के लिये दृष्टव्य है ।

प्रस्तुत ग्रन्थ के संग्रह में पांच पांच बोलों का संग्रह बड़ी ऊहापोह द्वारा किया गया है । प्रत्येक बोल बड़े महत्व का है और अनेक दृष्टि कोण से विचारने योग्य है । अतः यह संग्रह अत्यन्त परिश्रम द्वारा किया गया है । इस से अत्यन्त ही लाभ होने की संभावना की जा सकती है । मेरे विचार में यह ग्रन्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपयोगी है । यदि पाठशालाओं में इसको स्थान मिल जाय तो विद्यार्थियों को अत्यन्त लाभ होगा ।

श्रीमान् सेठ भैरोदानजी को अत्यन्त धन्यवाद है कि वे इतनी वृद्धावस्था होने पर भी श्रुत ज्ञान के प्रचार में लगे हुए हैं ।

श्रुत ज्ञान का प्रचार ही आत्म विकास का मुख्य हेतु है । इसी से आत्मा अपना कल्याण कर सकता है क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के २६ वें अध्ययन के २४ वें सूत्र में लिखा है कि:—

सुयस्स आराहणयाए णं भन्ते जीवे किं जणयइ ? ।  
सुयस्स आराहणयाए अच्चाणं खवेइ ण य संकिल्लिस्सइ ॥२४॥

इस पाठ का यह भाव है कि भगवान् श्री गौतम जी महाराज श्रमण भगवान् श्री महावीर स्वामी से पूछते हैं कि



है भगवन् ! विधि पूर्वक श्रुत की आराधना करने से जीव को किम फल की प्राप्ति होती है ? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् फरमाते हैं, कि हे गौतम सम्यक्तया श्रुत की आराधना करने से अज्ञान और क्लेश का नाश हो जाता है कारण कि क्लेश अज्ञान पूर्वक ही होता है । जब अज्ञानता का नाश हुआ तब क्लेश साथ ही नष्ट हो जाता है । अतः सिद्ध हुआ श्रुत आराधना के लिए स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए क्योंकि स्वाध्याय करने में ज्ञानावरणीय कर्म नष्ट हो जाता है । फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप में लीन हो जाता है । जैसे कि आगम में कथन किया है किः—

मज्झाएणं भन्ते जीवे किं जणेइ ?

नाणावरणिज्जं कम्मं खुवेइ ॥ १८ ॥

अतः स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । स्वाध्याय करने से ही फिर आत्मा को प्रायः चारित्र गुण की प्राप्ति हो जाती है चाहे वह देश चारित्र हो या सर्व चारित्र । सूयगडांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध के द्वितीय अध्याय के तृतीय उद्देश की १३ वीं गाथा में लिखा हैः—

गारं पिअ आवसे नरं, अणुपुव्वं पाणेहिं मंजए ।

समता मव्यत्थ सुव्वते, देवारणं गच्छे स लोणयं ॥१६॥

भावार्थ—जो पुरुष गृहवाम में निवास करता हुआ भी क्रमशः श्रावक धर्म को प्राप्त करके प्राणियों की हिंसा से निवृत्त होता है तथा सर्वत्र समभाव रखता है वह सुव्रत पुरुष देवताओं के लोक में जाता है ।

(१०३)

प्रस्तुत ग्रन्थ से अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को इससे अत्यन्त लाभ हो सकता है। क्योंकि यह ग्रन्थ बड़ी उत्तम शैली से निर्माण किया गया है। अतः प्रत्येक मुमुक्षु आत्मा को इसका स्वध्याय करना चाहिए जिससे वह क्रमशः निर्वाण पद की प्राप्ति कर सके।

संवत् २६६७ आषाढ  
शुक्ला ४ चन्द्रवार

उपाध्याय जैन मुनि आत्माराम (पञ्जाबी)  
लुधियाना





# अकाराद्यनुक्रमणिका

अ

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
१६	अङ्ग वाह्य श्रुत	१३	४१३	अचित्त वायु पाँच	४३८
१६	अङ्ग प्रविष्ट श्रुत	१३	२६६	अचौर्य्य.	२८६
३३०	अङ्गार दोष	३३६	३०३	अचौर्य्याणुव्रत (स्थूल अदत्तादान	
११८	अंगुल के तीन भेद	८३		विरमण व्रत) के पाच	
३५६	अकण्डूयक	३७३		अतिचार	२६६
७१	अकर्मभूमिज	५१	३७१	अच्छवि	३८६
३७१	अकर्मांश	३८६	५०	अजीवाधिकरण	२६
२६६	अकपाय	२८७	३५३	अज्ञात वरक	३६७
२६०	अकस्माद्दण्ड	२७०	१६१	अज्ञानवादी	१४४
५३	अकाम मरण	३१	३००	अणुव्रत पांच	२८८
३३०	अकारण	३३६	२४४	अतिक्रम	२२१
३२६	अकृत्स्ना	३३५	२४४	अतिचार	२२१
१६१	अक्रियावादी	१४५	३७३	अतिथि घनीपक	३८८
२०	अगार धर्म	-१५	३१२	अतिथि संविभाग व्रत के पांच	
२७	अघाती कर्म	१६		अतिचार	३१३
१६६	अचक्षु दर्शन	१५७	१८६	अतिथि संविभाग शिञ्जाव्रत	१४१
३७०	अचरम समय निर्ग्रन्थ	३८५	३०१	अतिभार	२६१
६७	अचित्त योनि	४८	१२०	अतिव्याप्ति	८४

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
३१६	अदत्तादान विरमण महाव्रत	३२१	१५८ (क)	अनर्थ दण्ड विरमण	
३१६	अदत्तादान विरमण रूप तृतीय महाव्रत की पांच भावनाएं	३२६		व्रत	६१
१०८	अद्धा पत्योपम	७५	२६५	अनवकांक्षा प्रत्यया	२८१
१०६	अद्धा सागरीपम	७८	३०६	अनवस्थित सामायिक करण	३१०
२७६	अधर्मास्तिकाय	२५३	२४४	अनाचार	२२१
२७७	अधर्मास्तिकाय के पांच प्रकार	२५५	६२	अनात्मभूत लक्षण	४३
५०	अधिकरण की व्याख्या और उसके भेद	२६	११६	अनानुपूर्वी	८
३०६	अधो दिशा प्रमाणातिक्रम	३०३	२८८	अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व	२६७
६५	अधोलोक	४६	२६५	अनाभोग प्रत्यया	२८१
३२२	अधोवेदिका	३२६	३६८	अनाभोग वकुश	३८३
३०४	अनङ्ग क्रीडा	२६६	२८८	अनाभोग मिथ्यात्व	२६७
२०	अनगार धर्म	१५	८	अनाहारक	७
१२१	अनध्यवसाय	६६	७८	अनिवृत्तिकरण	५७
४१७	अनन्तक पांच	४४१	२८३	अनुकम्पा	२६४
४१८	अनन्तक पाच	४४२	१६७	अनुकम्पा दान	१५७
७०	अनन्त जीविक	५०	२३५	अनुत्पन्न उपकरणोत्पादन विनय के चार प्रकार	२१६
८	अनन्त संसारी	६	३२८	अनुपालना शुद्ध	३३७
१५८	अनन्तानुबन्धी	११८	३८१	अनुप्रेक्षा	३६८
३६	अनर्थ दण्ड	२३	२४७	अनुभाग बन्ध	२३०
२६०	अनर्थ दण्ड	२७०	३२८	अनुभाषणा शुद्ध	३३७
३०८	अनर्थ दण्ड विरमण व्रत के पांच अतिचार	३६०	३७६	अनुमान	३६५
			२०२	अनुमान प्रमाण	१६०
			२०८	अनुयोग के चार द्वार	१८५
			२११	अनुयोग के चार भेद	१६०

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
२०४	अनुयोग द्वार सूत्र का सक्षिप्त परिचय	१७६	३११	अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रस्रवण भूमि	३१२
२५४	अन्तक्रियाएं चार	२३७	३११	अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारक	३११
३५२	अन्तचरक	३६७	३७०	अप्रथम समय निर्ग्रन्थ	३८५
७१	अन्तरद्वीपिक	५२	३३०	अप्रमाण	३३६
१२५	अन्तरात्मा	८६	२६६	अप्रमाद	२८७
३८८	अन्तराय कर्म के पाच भेद	४१०	३११	अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमि	३१२
३५६	अन्ताहार	३७१	३११	अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारक	३१२
३५३	अन्न हलाय चरक	३६८	३५६	अप्रावृत्तक	३७३
१७४ (ख)	अन्य प्रकार से मेघ के चार भेद	१२६	१६७	अभयदान	१५७
३०७	अपक्वौषधि भक्षण	३०६	८	अभव सिद्धिक	७
३०४	अपरिगृहीतागमन	२६८	४००	अभिवर्धित संवत्सर	४२६
२६६	अपरिग्रह	२८८	३६७	अभिषेक सभा	४२१
३७१	अपरिश्रावी	३८७	२६६	अमृषा	२८७
८	अपर्याप्त	६	२६६	अमैथुन	२८७
४०	अपवाद	२५	२६६	अयोग	२८७
३१३	अपश्चिम मारणान्तिक सलेखना के पाच अतिचार	३१४	३५६	अरसाहार	३७१
२२०	अपाय विचय	२०२	२७४	अरिहन्त	२५२
१२६ (ख)	अपायापगम अतिशय	६६	१२६ (ख)	अरिहन्त भगवान् के चार मूलातिशय	६६
७८	अपूर्व करण	५६	६०	अरूपी	४२
१०	अपौद्गलिक समकित	१०	६७	अर्थ कथा	६६
१५८	अप्रत्याख्यान	११६			
२६३	अप्रत्याख्यानिकी क्रिया	२७८			

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
३६	अर्थ दण्ड	२३	५६	अवान्तर सामान्य	४१
२६०	अर्थ दण्ड	२७०	२००	अवाय	१५६
८४	अर्थघर पुरुष	६२	२८६	अविरति	२६८
१६४	अर्थ पुरुषार्थ	१५१	४२१	अन्यक्त स्वप्न दर्शन	४४५
१६	अर्थ रूप श्रुत धर्म	१५	६	अव्यवहार राशि	८
८३	अर्थागम	६०	१२०	अव्याप्ति	८४
२७०	अर्थान्तर	२५०	३७१	अशबल	३८६
५८	अर्थावग्रह	४०	७०	असख्यात जीविक	५०
३५८	अर्थ पर्यङ्का	३७२	८	असङ्गी	६
३६७	अलङ्कार सभा	४२२	१२०	असम्भव	८५
१०५	अल्प आयु के तीन कारण	७४	६६	असयती	५०
३४	अलोकाकाश	२३	२६७	असंयम पांच	२८३
५८	अवग्रह के दो भेद	४०	३६७	असंवृत वक्रुश	३८३
२००	अवग्रह	१५८	२६६	असत्य भाषा	२४६
३७५	अवधि ज्ञान	३६१	२७०	असत्य वचन के चार प्रकार	२४६
१२	अवधिज्ञान की व्याख्या और भेद	११	२६६	असत्यामृषा भाषा ( व्यवहार भाषा )	२४६
३७७	अवधिज्ञान या अवधिज्ञानी के चलित होने के पांच बोल	३६२	२७०	असद्भावोद्भावन	२५०
७४	अवधिज्ञानी जिन	५३	५१	असाता वेदनीय	३०
३७८	अवधि ज्ञानावरणीय	३६४	७२	असि कर्म	५२
१६६	अवधि दर्शन	१५८	७६	अस्तिकाय धर्म	५४
३४७	अवन्दनीय साधु पांच	३५७	२७७	अस्तिकाय के पांच पांच भेद	२५४
३४७	अवसन्न	३५८	६१	अष्ट स्पर्शी	४२
३३	अवसर्पिणी	२२	२६६	अहिंसा	२८७

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
३०१	अहिंसागुणव्रत (स्थूल प्राणा- तिपात विरमण व्रत) के पाँच अतिचार	२६०		से निकलने के पाँच कारण	३५४
—:०:—					
आ					
३४	आकाश	२२	३४२	आचार्य्य उपाध्याय के शेष साधुओं की अपेक्षा पाँच अतिशय	३५३
२७६	आकाशास्ति काय	२५४	१०२	आचार्य्य की ऋद्धि के तीन भेद	७१
२७७	आकाशास्ति काय के पाँच भेद	२५४	१०३	आचार्य्य के तीन भेद	७२
४१३	आक्रान्त वायु	४३८	३४१	आचार्य के पाँच प्रकार	३५२
१५४	आक्षेपणी कथा की व्या- ख्या और भेद	११२	३७२	आजीवक	३८७
२७६	आगम	३६६	२६५	आज्ञापनिका	२८०
८३	आगम की व्याख्या और भेद	६०	२२०	आज्ञा विचय धर्मध्यान	२०१
२०२	आगम प्रमाण	१६१	३६३	आज्ञा व्यवहार	३७६
३६३	आगम व्यवहार	३७५	३५६	आतापक	३७३
३५५	आचान्तिक	३७०	६२	आत्मभूत लक्षण	४३
३२४	आचार पाँच	३३२	१६२	आत्मवादी	१४६
३२५	आचार प्रकल्प के पाँच प्रकार	३३३	२४३	आत्मसंवेदनीय उपसर्ग के चार प्रकार	२२०
२३०	आचार विनय के चार प्रकार	२१४	११८	आत्मांगुल	८३
२७४	आचार्य	२५२	१	आत्मा	२
३४३	आचार्य उपाध्याय के गण		१२५	आत्मा तीन	८६
			१८५	आदर्श समान श्रावक	१३६
			३२३	आदानभंडमात्रनिक्षेपणा समिति	३३१
			४००	आदित्य संवत्सर	४२७
			४८	आधार	२८



बोल न०	विषय	पृष्ठ
२६२	आधिकरणिकी क्रिया	२७७
१०	आाधगमिक समकित	१०
४८	आधेय	२८
३१०	आनयन प्रयोग	३१०
८५	आनुगमिक व्यवसाय	६२
२८८	आभिग्रहिक मिथ्यात्व	२६७
१५	आभिनिवोधिक ज्ञान	१२
३७५	आभिनिवोधिक ज्ञान	३६०
२८८	आभिनिवेशिक मिथ्यात्व	२६७
१४१	आभियोगिकी भावना	१०४
४०४	आभियोगी भावना के पाँच प्रकार	४३१
३६८	आभोग वक्रुश	३८३
३४१	आन्तायार्थ वाचकाचार्य	३५२
३०	आयु की व्याख्या और भेद	२१
४६	आरम्भ	२६
६४	आरम्भ	६७
२६३	आरम्भिकी क्रिया	२७८
८६	आराधना तीन	६२
३२५	आरोपणा	३३४
३२६	आरोपणा के पाच भेद	३३४
२४५	(ख) आरोपणा प्रायश्चित्त	२२३
३५०	आर्जव	३६५
२१५	आर्त्तध्यान	१६४
२१६	आर्त्तध्यान के चार प्रकार	१६६

बोल न०	विषय	पृष्ठ
२१७	आर्त्तध्यान के चार लिङ्ग	१६८
५४	आविर्भाव	२७
३२६	आश्रवद्वार प्रतिक्रमण	३३८
१४१	आसुरी भावना	१०४
४०५	आसुरी भावना के पाच भेद	३३१
२८३	आस्तिक्य	२६४
८	आहारक	७
३६०	आहारक वन्दन नाम कर्म	४१६
३८६	आहारक शरीर	४१४
१४२	आहार मंज्ञा	१०५
१४३	आहार सज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है	१०५
—:०—		
इ		
३००	इच्छा परिमाण	२६०
३०४	इत्वरिका परिगृहीता गमन	२६८
३६७	इंद्र स्थान की पाँच सभाएं	४२१
२३	इन्द्रिय की व्याख्या और भेद	१७
३१३	इहलोकाशसा प्रयोग	३१४
—:—		
ई		
२६६	ईर्यापयिकी क्रिया	२८३

श्लोक न०	विषय	पृष्ठ	श्लोक न०	विषय	पृष्ठ
३२३	ईर्या समिति	३३१	४०६	उन्मार्ग देशना	४३३
१२१	ईर्या समिति के चार कारण	१३५	२४	उपकरण द्रव्येन्द्रिय	१७
२००	ईहा	१५८	२०८	उपक्रम	१८५
—०:—					
उ					
३२३	उच्चार प्रसवण श्लेष सिंघाण जल्ल परिस्थापनिका समिति	३२१	३८०	उपनय	३६७
३५७	उत्कटुकासनिक	३७१	६६	उपपात	४७
३५०	उत्क्षिप्त चरक	३६७	३६७	उपपात सभा	४२१
५५	उत्तर गुण	३२	१२८	(क) उपभोग परिभोग परिमाण गुणव्रत	६१
२०४	उत्तराध्ययन सूत्र की व्याख्या और छत्तीस अध्ययनों के नाम तथा उनका सक्षिप्त भाव	१६३	३०७	उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के पाच अतिचार	३०५
२०१	उत्पातिया बुद्धि	१५६	३०८	उपभोग परिभोगातिरिक्त	३०८
६४	उत्पाद	४५	३८८	उपभोगान्तराय	४११
४०	उत्सर्ग	२५	२००	उपमान प्रमाण	१६१
३३	उत्सर्पिणी	२२	२०३	उपमा संख्या की व्याख्या और भेद	१६१
११८	उत्सेधागुल	८३	११	उपयोग	१०
२५३	उदय	२३७	२५	उपयोग भावेन्द्रिय	१८
३८०	उदाहरण	३६७	२४६	उपशमना उपक्रम	२३४
२५३	उदीरणा	२३७	५६	उपशम श्रेणी	३३
२४६	उदीरणा उपक्रम	२३४	२८२	उपशम समकित	२६१
३४१	उद्देशाचार्य	३५२	२३६	उपसर्ग चार	२१८
१०८	उद्धार पल्योपम	७६	३५	उपादान कारण	२३
१०६	उद्धार सागरोपम	७८	२७४	उपाध्याय	२५२

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
४०६	उरपरिसर्प	४३६		औ	
६७	उष्ण योनि	४८	३८७	औदयिक	४०८
	—:०:—		३६०	औदारिक घन्धन नामकर्म	४१५
	ऊ		३८६	औदारिक शरीर	४१२
	ऊर्ध्वता सामान्य	४१	३६१	औदारिक सघात नामकर्म	४१७
३०६	ऊर्ध्व दिशा प्रमाणातिक्रम	३०३	३५४	औपनिधिक	३६६
६५	ऊर्ध्व लोक	४६	८०	औपशमिक	५६
३२२	ऊर्ध्व वेदिका	३३०	३८७	औपशमिक	४०७
२१	ऊनोदरी की व्याख्या और भेद	१६		— ०:—	
	—:०:—			क	
	ऋ		१८५	कण्टक के समान श्रावक	१३६
१४	ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान	१२	६७	कथा तीन	६६
४००	ऋतु प्रमाण सवत्सर	४२६	२१२	कथ्य काव्य	१६०
६६	ऋद्धि के तीन भेद	७०	३०८	कन्दर्प	३०७
६८	ऋद्धि गारव	७०	४०२	कन्दर्प	४२६
	—:०:—		१४१	कन्दर्प भावना	१०४
	ए		४०२	कन्दर्प भावना के पाच प्रकार	४२८
५२२	एकतोवेदिका	३३०	३८४	कप्पवडसिया	४०१
४१८	एकतःअनन्तक	४४२	२०१	कम्मिया	१५६
२२५	एकत्ववितर्क शुक्लध्यान	२१०	७८	करण की व्याख्या और भेद	५५
२८१	एकेन्द्रिय	२६०	६४	करण के तीन भेद	६७
६३	एषणा की व्याख्या और भेद	६६	२७	कर्म की व्याख्या और भेद	१८
३२३	एषणासमिति	३३१	२५३	कर्म की चार अवस्थाएं	२३७

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
७२	कर्म तीन	५२	८०	कारक समकित	५८
७१	कर्म भूमिज	५१	४३	कारण	२७
५७	कल्पातीत	४०	३५	कारण के दो भेद	२३
५७	कल्पोपपन्न	४०	२४६	कारुण्य भावना	२२७
२६६	कषाय	२६६	३६०	कार्माण बन्धन नामकर्म	४१६
२६१	कषाय	२७३	३८६	कार्माण शरीर	४१४
२७३ (क)	कषाय का फल	२५१	४३	कार्य्य	२७
१६६	कषाय की ऐहिक हानियाँ	१२५	२१०	काल	१८६
१५८	कषाय की व्याख्या और भेद	११७	३२	काल के भेद और व्याख्या	२२
१६७	कषाय जीतने-के चार उपाय	१२५	३३	कालचक्र के दो भेद	२२
३२६	कषाय प्रतिक्रमण	३३८	३१२	कालातिक्रम	३१३
२६	कषाय मोहनीय	२०	२१२	काव्य के चार भेद	१६०
२८५	काक्षा	२६५	१४१	किल्बिषिकी भावना	१०४
६७	काम कथा	६६	४०३	किल्बिषिकी भावना के पाच प्रकार	४३०
१६४	काम पुरुषार्थ	१५२	१६३	किस गति में किस कषाय की अधिकता होती है	१२३
३०४	कामभोग तीव्राभिलाष	२६६	३०५	कुत्र प्रमाणातिक्रम	३०२
३१३	कामभोगाशसा प्रयोग	३१५	१६८	कुम्भ की चौभङ्गी	१२५
१२८ (ख)	कायगुप्ति	६२	१६६	कुम्भ की उपमा से चार पुरुष	१२६
३०६	काय दुष्प्रणिधान	३०६	३४७	कुशील	३६०
६५	काय योग	६८	३६६	कुशील	३८१
३१	काय स्थिति	२१	३६६	कुशील के पाच भेद	३८४
२६२	कायिकी	२७७			

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
३०३	कूटतूला कूटमान	२६७	१६४	क्रोध के चार प्रकार	१२३
३०२	कूट लेखकरण	२६६	१६५	क्रोध की उत्पत्ति के चार	
२४५ (क)	कृत्य प्रायश्चित्त	२२३		स्थान	१२४
३२६	कृत्स्ना	३३५	१५६	क्रोध के चार भेद और	
३७३	कृपण वनीपक	३८८		उनकी उपमाएँ	१२०
७२	कृपि कर्म	५२	५६	क्षपक श्रेणी	३६
८	कृष्ण पक्षी	७	१६३	क्षमाशूर	१५१
३७५	केवल ज्ञान	३६१	१३	क्षयोपशम प्रत्यय अवधि-	
७३	केवलज्ञानी जिन	५१		ज्ञान	११
३७८	केवल ज्ञानावरणीय	३६४	३५०	क्षान्ति	३६५
१६६	केवल दर्शन	१५८	३८७	क्षायिक	४०८
३३२	केवली के परिपह उपसर्ग		८०	क्षायिक समकित	५६
	सहने के पाच स्थान	३४२	२८२	क्षायिक समकित	२६३
३७६	केवली के पांच अनुत्तर	३६१	३८७	क्षायोपशमिक	४०८
४०४	कौतुक	४३१	८०	क्षायोपशमिक समकित	५६
३०८	कौत्कुच्य	३०७	२८२	क्षायोपशमिक समकित	२६२
४०२	कौत्कुच्य	४२६	२ ०	क्षेत्र	१८६
२६२	क्रिया की व्याख्या और		१०८	क्षेत्र पल्लोपम	७७
	उसके भेद	२७६	३०५	क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम	३००
२६३	क्रिया पांच	२७७	३०६	क्षेत्र वृद्धि	३०४
२६४	क्रिया के पाच प्रकार	२७८	१०६	क्षेत्र सागरोपम	७८
२६५	क्रिया के पाच भेद	२८०		—:०.—	
२६६	क्रिया के पाच भेद	२८२		ख	
१६१	क्रियावादी	१४४	१८५	खर कण्टक के समान	
१५८	क्रोध	११७		श्रावक	१३६
			४०६	खेचर	४३६

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
	ग				
३४४	गच्छ मे आचार्य्य उपा- ध्याय के पाच कलह स्थान	३५५	३३४	गृहपति अचग्रह	३४५
४१७	गणना अनन्तक	४४१	२१२	गेय काव्य	१६०
२११	गणितानुयोग	१६०	३७२	गैरुक	३८७
२६४	गणिम भाण्ड	२४६	३५८	गोनिषधिका	३७२
१३१	गति की व्याख्या	६६	३८	गौण	२४
२७८	गति पांच	२५७	६३	ग्रहणैषणा	६७
४१६	गति प्रतिघात	४४०	६३	ग्रासैषणा	६७
२१२	गद्य काव्य	१६०	३३०	ग्रासैषणा (माडला) के पाँच दोष	३३०
६६	गर्भ	४७		घ	
२७०	गर्हा	२५०	२७	घाती कर्म	१६
६३	गवेषणैषणा	६७	३६२	घ्राणेन्द्रिय	४१८
६६	गारव ( गौरव ) की व्याख्या और भेद	७०		—०—	
४६	गुण	२८		च	
५५	गुण के दो प्रकार से दो भेद	३२	३६२	चक्षुरिन्द्रिय	४१८
२५६	गुण प्रकाश के चार स्थान	२५४	१६६	चक्षु दर्शन	१५७
२५८	गुण लोप के चार कारण	२४३	२८१	चतुरिन्द्रिय	२६०
१२८	( क ) गुण व्रत की व्याख्या और भेद	६१	२७१	चतुष्पद तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के चार भेद	२५०
२२	गुप्ति	१६	६१	चतुः स्पर्शी	४२
१२६	( ख ) गुप्ति की व्याख्या और भेद	६२	४००	चन्द्र संवत्सर	४२७
६३	गुरु तत्त्व	४४	२११	चरण करणानुयोग	१६०
			३७०	चरम समय निर्गन्थ	३८५
			१४७	चार गति मे चार संज्ञाओं का अल्प बहुत्व	१०७

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
१२६	(क) चार मंगल रूप	६४	२६५	चार व्याधि	२४७
१७६	चार प्रकार का सयम	१३४	२६६	चार पुद्गल परिणाम	२४७
१८०	चार महाव्रत	१३५	२६७	चार प्रकार से लोक की व्यवस्था है	२४७
१८३	चार कारणों से साव्वी में आलाप संलाप करता हुआ साधु निर्ग्रन्थाचार का अतिक्रमण नहीं करता ।	१३७	२६८	चार कारणों से जीव और पुद्गल लोक के बाहर जाने में अममर्थ हैं	२४७
२०४	चार मूल सूत्र	१६३	२६९	चारित्र	१५३
२१३	चार शुभ और चार अशुभ गण	१६१	३६६	चारित्र कुशील	३८४
२१४	चार इन्द्रियों प्राप्यकारी हैं	१६३	१८	चारित्र वर्म	१५
२२६	चार विनय प्रतिपत्ति	२१३	२०	चारित्र वर्म के दो भेद	१५
२४६	चार भावना	२०४	३१५	चारित्र की व्याख्या और भेद	३१५
२४८	चार बन्धों का स्वरूप समझाने के लिये मोडक (लड्डू) का दृष्टान्त	२३२	३६७	चारित्र पुलाक	३८२
२५७	चार स्थान से हास्य की उत्पत्ति	२४३	२४५	(क) चारित्र प्रायश्चित्त	२२३
२६०	चार प्रकार का नरक का आहार	२४४	८१	चारित्र में राग	६०
२६१	चार प्रकार का तिर्यञ्च का आहार	२४५	२८	चारित्र मोहनीय	२०
२६२	चार प्रकार का मनुष्य का आहार	२४५	२६	चारित्र मोहनीय के दो भेद	२०
२६४	चार भाण्ड (पण्य वस्तु)	२४६	८७	चारित्र विराधना	६३
			३२४	चारित्राचार	३३२
			८६	चारित्राराधना	६३
			६२	चारित्रेन्द्र	६६
			४२१	चिन्ता स्वप्न दर्शन	५४४
			३०५	चौमासी उद्घातिक	३३४
			३२५	चौमासी अनुद्घातिक	३३४

बोल न०	विषय	पृष्ठ
३३७	चौमासे के पिछले सत्तर दिनों में विहार करने के पाँच कारण	३४७
३३६	चौमासे के प्रारभ के पचास दिनों में विहार करने के पाँच कारण	३४७
—:०:—		
छ		
३०१	छविच्छेद	२६२
२०५	छेद सूत्र चार	१८०
३१५	छेदोपस्थापनिक चारित्र	३१७
३३१	छद्मस्थ के परिपह उपसर्ग सहने के पाँच स्थान	३४०
३८६	छद्मस्थ पाँच बोल साक्षात् नहीं जानता	४०६
— ०:—		
ज		
६६	जन्म की व्याख्या और भेद	४६
४	जम्बू द्वीप	२
२७३	जम्बू द्वीप में मेरु पर्वत पर चार वन हैं।	२५१
४०६	जलचर	४३५
३७४	जाङ्गमिक	३८६
२८१	जाति की व्याख्या और भेद	२५६

बोल न०	विषय	पृष्ठ
७४	जिन तीन	५३
३६३	जीत व्यवहार	३७७
७	(ख) जीव	४
१०६	जीव की अशुभ दीर्घायु के तीन कारण	७४
१०७	जीव की शुभ दीर्घायु के तीन कारण	७५
६६	जीव के तीन भेद	५०
३८७	जीव के पाँच भाव	४०७
५०	जीवाधिकरण	३०
२७६	जीवास्तिकाय	२५४
२७७	जीवास्तिकाय के पाँच भेद	२५६
३१३	जीविताशंसा प्रयोग	३१५
३६६	ज्ञान कुशील	३८४
३७५	ज्ञान के पाँच भेद	३६०
१२	ज्ञान के दो भेद	१०
६०	ज्ञान गर्भित वैराग्य	६५
१६७	ज्ञान दान	१५६
३६७	ज्ञान पुलाक	३८२
२४५	ज्ञान प्रायश्चित्त	२२३
८७	ज्ञान विराधना	६३
१२६	(ख) ज्ञानातिशय	६७
३२४	ज्ञानाचार	३३२
८६	ज्ञानाराधना	६३



बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
३७८	ज्ञानावरणीय की व्याख्या और उसके पाँच भेद	३६३	१६५	तप	१५५
६२	ज्ञानेन्द्र	६६	१६६	तप	१५५
३६६	उद्योतिपी देवों के पाँच भेद	४२३	३५१	तप	३६६
—०—			३२४	तप आचार	३३३
त			१६३	तप शूर	१५१
३५३	तज्जात संसृष्ट कल्पिक	३६८	३७६	तर्क	३६५
६३	तन्व की व्याख्या और भेद	४४	३७२	तापस	३८७
३०३	तत्प्रतिरूपक व्यवहार	२६७	३७४	तिरीड पट्ट	३८६
१३८	तत्काल उत्पन्न देवता चार कारणों से इच्छा करने पर भी मनुष्य लोक में नहीं आ सकता।	१०१	४४	तिरोभाव	२७
१३६	तत्काल उत्पन्न देवता मनु- ष्य लोक में आने की इच्छा करता हुआ चार बोलों से आने में समर्थ होता है।	१०२	३०६	तिर्यक् त्रिशा प्रमाणाति- क्रम	३०४
१४०	तत्काल उत्पन्न हुआ नैर- यिक मनुष्य लोक में आने की इच्छा करता है किन्तु चार बोलों से आने में असमर्थ है।	१०३	६५	तिर्यक् लोक	४६
८४	तदुभयधर पुरुष	६२	५६	तिर्यक् सामान्य	४१
८३	तदुभयागम	६१	३२२	तिर्यक् वेदिका	३३०
			१३३	तिर्यञ्च आयु वन्द्य के चार कारण	६६
			४०६	तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के पाँच भेद	४३५
			२४२	तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसर्ग के चार प्रकार	२१६
			१७७	तीर्थ की व्याख्या और उसके भेद	१३०
			३०७	तुच्छौपधि भक्षण	३०६
			३६०	तैजस वन्द्य नाम कर्म	४१६
			३८६	तैजस शरीर	४१४

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
३५१	त्याग -	३६६	३२४	दर्शनाचार	३२२
८	त्रस	५	८६	दर्शनाराधना	६३
२८१	त्रीन्द्रिय	२६०	६२	दर्शनेन्द्र	६६
७३	तीन अच्छेय	५३	२०४	दशवैकालिक सूत्र की व्याख्या और दश अध्ययनो के नाम तथा इनके विषय का संक्षिप्त परिचय	१७२
१२४	तीन का प्रत्युपकार दुःश- क्य है।	८७	२०५	दशा श्रुतस्कन्ध का संक्षिप्त विषय परिचय	१८०
१२६	तीन अर्थ योनि — ० — द	६०	१६६	दान	१५४
३८४	दग्धाक्षर पाच	४०६	१६७	दान के चार प्रकार	१५६
३	दण्ड	२	१६३	दान शूर	१५१
१२६	दण्ड	६०	३८८	दानान्तराय	४१०
३६	दण्ड के दो भेद	२३	३४१	दिगाचार्य	३५२
६६	दण्ड की व्याख्या और भेद	६६	३०६	दिशा परिमाण व्रत के पाँच अतिचार	३०३
३३०	दण्ड की व्याख्या और भेद	२६६	१२८	(क)दिशा परिमाण गुणव्रत	६१
२५६	दण्डायतिक	३७३	८०	त्रीपक समकित	५८
११	दर्शन	१०	६०	दुख गर्भित वैराग्य	६५
१६५	दर्शन	१५३	२५५	दुःखशय्या चार ,	२४०
३६६	दर्शन कुशील	३८४	४०२	दुःशीलता	४२६
७७	दर्शन के तीन भेद	४५	७५	दुःसंज्ञाय तीन	५४
३६७	दर्शन पुलाक	३८२	८	दुर्लभ बोधि	७
२४५	दर्शन प्रायश्चित्त	२२३	२८६	दुर्लभ बोधि के पाँच कारण	२६६
२८	दर्शन मोहनीय	२०	३०७	दुष्पक्वबौपधि भक्षण	३०६
८७	दर्शन विराधना	६३			
१६६	दर्शन के चार भेद	१५७			

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
५४	दुष्प्रत्याख्यान	३१	३६८	देवों की पाच परिचारणा	४२२
३५४	दृष्ट लाभिक	३६६	१५१	देश कथा चार	१०६
२६४	दृष्टिजा क्रिया	२७६	५२	देश बन्ध	३०
२६०	दृष्टि विपर्यास दण्ड	२७०	१६०	देश विरति सामायिक	१४४
८१	देवगुरु की वैशाष्ट्य	६०	४१८	देश विस्तार अनन्तक	४४२
६३	देव तत्त्व	४४	३१०	देशावकाशिक शिक्षा व्रत के पाँच अतिचार	३१०
१००	देवता की ऋद्धि के तीन भेद	७०	१८६	देशावकाशिक शिक्षा व्रत	१४०
१३६	देवताओं के चार भेद	१०१	२४४	दोष चार	०२१
१११	देवता की तीन अभिलाषाएँ	८०	२३३	दोष निर्घातन विनय के चार प्रकार	२१६
१३७	देवताओं की पहचान के चार बोल	१०१	४६	द्रव्य	२८
२६३	देवता का चार प्रकार का आहार	२४६	२१०	द्रव्य	१८६
११३	देवता के च्यवन ज्ञान के तीन बोल	८१	४१७	द्रव्य अनन्तक	४४१
५७	देवता के दो भेद	४०	२१	द्रव्य उनोदरी	१६
११२	देवता के पश्चात्ताप के तीन बोल	८०	६०	द्रव्य के दो भेद	४२
४०२	देव पाँच	४४५	२०६	द्रव्य निक्षेप	१८७
२४०	देव सम्बन्धी चार उपसर्ग	२१६	१०	द्रव्य समकित	८
४२२	देवाधिदेव	४४६	११६	द्रव्यानुपूर्वी के तीन भेद	८४
१३५	देव आयु बन्ध के चार कारण	१००	१७	द्रव्यार्थिक नय	१४
३३४	देवेन्द्रावग्रह	३४४	२११	द्रव्यानुयोग	१६०
			२३	द्रव्येन्द्रिय	१७
			२४	द्रव्येन्द्रिय के दो भेद	१७
			४१८	द्विधा अनन्तक	४४२
			३२२	द्विधा वेदिका	३३०

बोल नं०	विषय	पृष्ठ
२८१	द्वीन्द्रिय	२६०
३०५	द्विपद चतुष्पद प्रमाणा तिक्रम	३०२
२६६	द्वेष प्रत्यया	२८२
२६	द्वेष चन्धन	१८
—०—		
ध		
३०५	धन-धान्य-प्रमाणातिक्रम	३०१
२६४	धर्म किरियाणा	२४६
१८	धर्म की व्याख्या और उसके भेद	१४
६७	धर्म कथा	५६
३८१	धर्म कथा	३६८
१५३	धर्म कथा की व्याख्या और भेद	११२
२११	धर्म कथानुयोग	१६०
१६६	धर्म के चार प्रकार	१५४
७६	धर्म के तीन भेद	५४
६३	धर्म तत्त्व	४४
४२२	धर्मदेव	४४५
२१५	धर्म ध्यान	१६५
२२३	धर्म ध्यात की चार भाव- नाए	२०७
२२२	धर्म ध्यान रूपी प्रासाद पर चढ़ने के चार आलम्बन	२०६

२२१	धर्म ध्यान के चार लिङ्ग	२०५
२२०	धर्म ध्यान के चार प्रकार	२०१
२२४	धर्म ध्यान के चार भेद	२०८
१६४	धर्म पुरुषार्थ	१५१
१२४	धर्माचार का प्रत्युपकार दुःशक्य है ।	८८
२७६	धर्मास्तिकाय	२५४
२७७	धर्मास्तिकाय के पांच भेद	२५५
१६७	धर्मोकरण दान	१५७
४०८	धाय (धात्री) पांच	४३४
२००	धारणा	१५६
३६३	धारणा व्यवहार	३७६
३३३	धार्मिक पुरुष के पांच आलम्बन स्थान	३४३
३३०	धूम	३४०
४१३	ध्मात वायु	४३८
२१५	ध्यान की व्याख्या और भेद	१६३
६४	ध्रौव्य	४५

—०—

न

२०४	नन्दीसूत्र का विषय परिचय	१७८
४००	नक्षत्र संवत्सर	४२७
६८	नपुंसक वेद	४६
३७	नय	२४
२०८	नय	१८६

बोल नम्बर	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
१७	नय के दो भेद	१४	४०४	निमित्त	४३१
१३२	नरक आयु घन्ध के चार कारण	६६	४०५	निमित्त कथन	४३२
४२२	नरदेव	४४५	३५	निमित्त कारण	२३
८	नव प्रकार से संसारी जीव के दो दो भेद	४	४०५	निरनुकम्पता	४३२
११०	'नवीन उत्पन्न देवता के मनुष्य लोक में आने के तीन कारण	७६	३८४	निरयावलिया सूत्र के पाच वर्ग	३६६
४१७	नाम अनन्तक	४४१	३०	निरूपक्रम आयु	२१
२०६	नाम निक्षेप	१८७	२७	निरूपक्रम कर्म	१६
२५२	निकाचित की व्याख्या और भेद	२३६	३७२	निर्ग्रन्थ	३८७
३५२	निक्षिप्त चरक	३६७	३७०	निर्ग्रन्थ के पाँच भेद	३८५
२०८	निक्षेप	१८६	३६६	निर्ग्रन्थ पाच	३७६
२०६	निक्षेप चार	१८६	३५५	निर्विकृतक	३७०
३८०	निगमन	३६७	२४	निर्वृत्ति द्रव्येन्द्रिय	१७
६	निगोद	८	२८३	निर्वेद	२६४
१०४	निदान शल्य	७४	१५७	निर्वेदनी कथा की व्याख्या और भेद	११५
२६१	निद्रा	२७५	४५	निर्वृत्ति	२८
४१६	निद्रा	४४३	२०५	निशीथ सूत्र का संचिम्त विषय परिचय	१८२
४१६	निद्रा निद्रा	४४३	३६	निश्चय	२५
४२०	निद्रा से जगने के पाच कारण	४४४	१०	निश्चय समकित	६
२५१	निघत्ता की व्याख्या और भेद	२३६	३५८	निपद्या के पांच भेद	३७२
			४०५	निष्कृपता	४३२
			३५७	नैपथिक	३७२
			१०	नैसर्गिक समकित	६

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
२६५	नैसृष्टिकी (नेसृष्टिया)	२८०	३२१	परिग्रह विरमण रूप पंचम	
२६	नोकषाय मोहनीय	२१		महाव्रत की पाच भावनाए	३२६
—					
प					
२७४	पञ्च परमेष्ठी	२५२	१४२	परिग्रह संज्ञा	१०५
२७५	पञ्च कल्याणक	२५३	१४६	परिग्रह संज्ञा चार कारणों	
२८१	पञ्चेन्द्रिय	२६०		से उत्पन्न होती है।	१०६
२७२	पक्षी चार	२५१	२६४	परिच्छेद्य किरियाणा	२५६
१८५	पताका के समान श्रावक	१३६	३६२	परिज्ञा पाच	३७५
२२४	पदस्थ धर्मध्यान	२०८	२०१	परिणामिया ( परिणा-	
२१२	पद्य काव्य	१६०		मिकी )	१६०
२८५	पर पाषंडी प्रशसा	२६५	८	परित्त संसारी	६
२८५	पर पाषंडी सस्तव	२६५	३४५	परिमित पिण्ड पातिक	३७०
६	परमाणु	३	३८१	परिवर्तना	३६८
१२५	परमात्मा	६०	३१५	परिहार विशुद्धि चारित्र	३१८
३१३	परलोकाशसा प्रयोग	३१४	१२	परोक्ष	११
३०४	पर विवाह करण	२६६	१५	परोक्ष ज्ञान के दो भेद	१२
४०२	पर विस्मयोत्पादन	४३१	३७६	परोक्ष प्रमाण के पाच भेद	३६५
३१२	पर न्यपदेश	३१३	३५८	पर्यङ्का	३७२
३८०	परार्थानुमान के पांच अङ्ग	२६६	८	पर्याप्त	५
२४५	(ख)परिकुञ्चना प्रायश्चित्त	१२३	४७	पर्याय	२८
४६	परिग्रह	२६	१७	पर्यायार्थिक नय	१४
३०५	परिग्रह परिमाण व्रत के		१०८	पल्योपम की व्याख्या	
	पाच अतिचार	३००		और भेद	७५
३१६	परिग्रह विरमण महाव्रत	३२४	११६	पञ्चानुपूर्वी	८४
			२८०	पाच निर्याण मार्ग	२५६
			२८६	पाच आश्रव	१६८

वोल नं०	विषय	पृष्ठ	वोल नं०	विषय	पृष्ठ
३२८	पांच प्रत्याख्यान	३३६		परिमाण	४१६
२७६	पांच अस्तिकाय	२५३	३६५	पांच कामगुण	४२०
२६६	पांच संवर	२८५	३६६	पांच अनुत्तर विमान	४२०
३२३	पांच समिति की व्याख्या और उसके भेद	३३०	४००	पांच संवत्सर	४२४
३२७	पांच शौच	३३५	४०१	पांच अशुभ भावना	४२८
३२८	पांच प्रकार का प्रत्या- ख्यान	३३६	४०८	पांच धाय ( धात्री )	४३४
३२९	पांच प्रतिक्रमण	३३७	४१२	पांच स्थावर काय	४३७
३३४	पाँच अवग्रह	३४४	४१३	पांच प्रकार की अचित्त वायु	४३८
३३५	पांच महानदियों को एक मास में दो अथवा तीन वार पार करने के पांच कारण ।	३४६	४१४	पांच वर्ण	४३९
३४७	पांच अवन्दनीय साधु	३५७	४१५	पांच रम	४३९
३६२	पांच परिज्ञा	३७५	४१६	पांच प्रतिघात	४४०
३६३	पांच व्यवहार	३७५	४१७	पांच अनन्तक	४४१
३६४	पांच प्रकार के मुण्ड	३७८	४१८	पांच अनन्तक	४४२
२६५	पांच निर्ग्रन्थ	३७९	४१९	पांच निद्रा	४४२
३७२	पांच प्रकार के श्रमण	३८७	४२२	पांच देव	४४५
३८६	पांच बोल छद्मस्थ साक्षात् नहीं जानता	४०६	३४६	पारञ्चित प्रायश्चित्त के पांच बोल	३५६
३९२	पांच इन्द्रियों	४१८	२६३	पारिग्रहिकी	२७८
३९३	पांच इन्द्रियों के संस्थान	४१९	३८७	पारिणामिक	४०६
३९४	पांच इन्द्रियों का विषय		२६२	पारितापनिकी	२७७
			३४७	पासत्या	२५७
			३४८	पास जाकर वन्दना के पांच असमय	३६३
			३४९	पास जाकर वन्दना योग्य	

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
	समय के पाच बोल	३६४		वलयित है	८१
२२४	पिण्डस्थ धर्म ध्यान	२८८	३५४	पृष्ट लाभिक	३६६
१२२	पिता के तीन अङ्ग	८७	२६४	पृष्टिजा ( पुष्टिया )	२७६
४१३	पीडित वायु	४३६	३७४	पोतक	३८६
२६६	पुद्गल परिणाम चार	२४७	१०	पौद्गलिक समकित	१०
२७६	पुद्गलास्तिकाय	२५४	३११	पौषधोपवास का सम्यक्	
२७७	पुद्गलास्तिकाय के पांच भेद	२५६		अपालन	३२२
३८४	पुष्प चूलिया	४०१	१८६	पौषधोपवास शिक्षाव्रत	१४०
३८४	पुष्फिया	४०१	२४७	प्रकृति बन्ध	२३१
८४	पुरुष के तीन प्रकार	६१	४१६	प्रचला	३४३
६८	पुरुष वेद	४६	४१६	प्रचला प्रचला	४४३
१६४	पुरुषार्थ के चार भेद	१५१	४२१	प्रतान स्वप्न दर्शन	४४४
३६६	पुलाक	३७६	३८०	प्रतिज्ञा	३६६
३६७	पुलाक (प्रति सेवा पुलाक) के पाच भेद	३८२	३११	प्रतिपूर्ण (परिपूर्ण) पौषध व्रत के पाच अतिचार	३११
१२६	(ख) पूजातिशय	६७	३५७	प्रतिमा स्थायी	३७२
११६	पूर्वानुपूर्वी	८४	२४५	(ख)प्रतिसेवना प्रायश्चित्त	२२३
३५५	पूर्वाद्धिक	३७०	१२७	प्रतीति	६०
३८१	पृच्छना	३६०	१२	प्रत्यक्ष	११
२२५	पृथक्त्व वितर्क शुक्ल ध्यान	२०६	२०२	प्रत्यक्ष प्रमाण	१६०
११६	पृथ्वी के देशतः धूजने के तीन बोल	८२	८५	प्रत्यक्ष व्यवसाय	६२
११५	पृथ्वी तीन वलयों से		३७६	प्रत्यभिज्ञान	३६५
			५४	प्रत्याख्यान के दो भेद	३१
			३७०	प्रथम समय निर्ग्रन्थ	३८५
			५	प्रदेश	३



बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
४१७	प्रदेश अनन्तक	४४१	१६२	प्राद्वेपिकी	२७७
२४७	प्रदेश बन्ध	२३२	३५२	प्रान्त चरक	३६७
३७	प्रमाण	२३	३५६	प्रान्ताहार	३७१
२०२	प्रमाण चार	१६०	२४५ (क)	प्रायश्चित्त चार	२२२
४००	प्रमाण संवत्सर	४२५	२४५ (ख)	प्रायश्चित्त के अन्य	
११८	प्रमाणागुल	८३		प्रकार से चार भेद	२२३
२८६	प्रमाद	२६८	२६६	प्रेम प्रत्यया	२८२
२६१	प्रमाद पाच	२७०	३१०	प्रेष्यप्रयोग	३१०
२४६	प्रसोद भावना	२२६		—:०:—	
२६६	प्रायोगिकी क्रिया	२८२		फ	
२२	प्रवचन माता	१६	१७०	फूल के चार प्रकार	१२६
४५	प्रवृत्ति	२८	१७१	फूल की उपमा से पुरूप के	
१७६	प्रब्रज्या प्राप्त पुरुषो के चार			चार प्रकार	१२७
	प्रकार ।	१३०		—:०:—	
६१	प्रब्रज्या स्थविर	६६		ब	
३४१	प्रब्राजकाचार्य्य	३५२	३०१	वन्ध	२६१
४०४	प्रश्न	४३१	५२	वन्ध के दो भेद	३०
४०४	प्रश्नाप्रश्न	४३१	२६	वन्ध की व्याख्या और भेद	१८
३२६	प्रस्थापिता	३३५	३६६	वकुश	३८०
२६२	प्राणातिपातिकी क्रिया	२७७	३६८	वकुश के पाँच भेद	२८३
३१७	प्राणातिपात विरमण रूप		२५३	वन्ध	२३७
	प्रथम महाव्रत की पांच		२४७	वन्ध की व्याख्या और भेद	२३१
	भाषनाए	३२४	३६०	वन्धन नामकर्म के पाच	
२६४	प्रातीत्यिकी	२७६		भेद	४१५
८५	प्रात्ययिक व्यवसाय	६२	४१६	वन्धन प्रतिघात	४४०
			२४६	वन्धनोपक्रम	२३४

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
४१६	बल वीर्य्य पुरुषाकार परा- क्रम प्रतिघात	४४१	१३	भवप्रत्यय अवधि ज्ञान	११
३१०	बहिः पुद्गल प्रक्षेप	३११	८	भवसिद्धिक	७
१२५	बहिरात्मा	८६	३१	भवस्थिति	२२
	८ वादर	५	४२२	भव्य द्रव्य देव	४४५
२०१	बुद्धि के चार भेद	१५६	३७४	भाङ्गिक	३८६
२८१	बेहन्द्रिय	२६०	२६४	भाण्ड चार	२४६
३५१	ब्रह्मचर्य्य	३६६	१८४	भाई के समान श्रावक	१३८
३७३	ब्राह्मण वनीपक	३८८	२३८	भार प्रत्यवरोहणता विनय के चार भेद	२१८
—:—			१६६	भाव	१५६
भ			२१०	भाव	१८६
१५०	भक्त कथा चार	१०८	६२	भाव इन्द्र के तीन भेद	६६
३०१	भक्तपान व्यवच्छेद	२६३	२१	भाव ऊनीदरी	१६
३६४	से ३७१ भगवान् महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच बोल ३५० से ३५७ तक		२५५	भाव दुःख शय्या के चार प्रकार	२४०
३५६	भगवान् महावीर से उप- दिष्ट एव अनुमत पांच स्थान	३७३	४२२	भाव देव	४४६
१४४	भय संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है	१०६	१४१	भावनाचार	१०३
१४२	भय संज्ञा	१०५	२०६	भाव निक्षेप	१८८
१२४	भर्ता (सेठ) का प्रत्युपकार दुःशक्य है	८८	३२६	भाव प्रतिक्रमण	३३६
			१६८	भाव प्राण की व्याख्या और भेद	१५७
			३२८	भाव शुद्ध	३३७
			१०	भाव समकित	८
			२५	भावोन्द्रिय के दो भेद	१७
			२६६	भाषा के चार भेद	२४८
			३२३	भाषा समिति	३३१

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
३५५	भिन्न पिण्ड पातिक	३७०	३७५	मन पर्यय ज्ञान	३६१
४०६	मुज परिसर्प	४३६	१४	मन. पर्यय ज्ञान की व्याख्या	
४०४	भूति कर्म	४३१		और भेद	१२
१२६	भेद	६०	७४	मन पर्यय ज्ञानी जिन	५३
४१६	भोग प्रतिघात	४४०	३७८	मनः पर्यय ज्ञानावरणीय	३६४
३८८	भोगान्तराय	४११	५३	मरण के दो भेद	३१
—०—			३१३	मरणाशसाप्रयोग	३१५
म			७२	ममि कर्म	५२
४१०	मच्छ के पांच प्रकार	४३६	३६०	महानिर्जरा और महापर्यवसान के पांच बोल	३७४
४११	मच्छ की उपमा से भिन्ना लेने वाले भिन्नक के पांच प्रकार	४३७	३६१	महानिर्जरा और महापर्यवसान के पांच बोल	३७४
१५	मतिज्ञान (आभिनिवोधिक ज्ञान)	१२	३१६	महाव्रत की व्याख्या और भेद	३२१
२००	मतिज्ञान के चार भेद	१५८	५६	महासामान्य	४१
३७८	मतिज्ञानावरणीय	३६४	१२३	माता के तीन अङ्ग	८७
३१२	मत्सरता (मात्सर्य)	३१३	१२४	माता पिता का प्रत्युपकार दुःशक्य है ।	८७
२६१	मद्य	२७१	१८४	मातापिता के समान श्रावक	१३८
७१	मनुष्य के तीन भेद	५१	२४३	माध्यस्थ भावना	२२८
२४१	मनुष्य सम्बन्धी उपसर्ग के भी चार प्रकार	२१६	१५८	मान	११८
१३४	मनुष्य आयु बन्ध के चार कारण	१००	१६०	मान के चार भेद और उनकी उपमाएं	१२१
१२८	(ख) मनोगुप्ति	६२	१५८	माया	११८
३०६	मनोदुष्प्रणिधान	३०६	१६१	माया के चार भेद और उनकी उपमाएं	१२१
६५	मनोयोग	६८	२६३	माया प्रत्यया	२७८

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
१०४	माया शल्य	७३	२६४	मेघ किरियाणा	२४६
४०६	मार्ग दूषण	४३३	२४६	मैत्री भावना	२२४
४०६	मार्ग विप्रतिपत्ति	४३३	३१६	मैथुन विरमण महाव्रत	३२४
३५०	मार्दव	३६५	३२०	मैथुन विरमण रूप चतुर्थ	
३२५	मासिक उद्घातिक	३३४		महाव्रत की पांच भावनाएं	३२७
३२५	मासिक अनुद्घातिक	३३४	१४२	मैथुन संज्ञा	१०५
८४	मित्र के समान श्रावक	१३८	१४५	मैथुन संज्ञा चार कारणों	
२८६	मिथ्यात्व	२६८		से उत्पन्न होती है	१०६
२८८	मिथ्यात्व पाच	२६७	१६४	मोक्ष पुरुषार्थ	१५२
३२६	मिथ्यात्व प्रतिक्रमण	३३८	२७६	मोक्ष प्राप्ति के पांच कारण	२५७
७७	मिथ्या दर्शन	५५	१६५	मोक्ष मार्ग के चार भेद	१५३
२६३	मिथ्या दर्शनप्रत्यया	२७८	७६	मोक्ष मार्ग के तीन भेद	५७
१०४	मिथ्यादर्शन शल्य	७४	४०६	मोह	४३३
७७	मिश्र दर्शन	५५	६०	मोहगर्भित घैराग्य	६५
२६६	मिश्रभाषा	२४६	४०६	मोहजनन	४३३
३५०	मुक्ति	३६५	२८	मोहनीय कर्म की व्याख्या	
३८	मुख्य	२४		और भेद	१६
५५	मूल गुण	३२	३०८	मौख्य	३०७
२०४	मूल सूत्र चार	१६३	३५३	मौन चरक	३६८
३१६	मृषावाद विरमण महाव्रत	३२२		य	
३१८	मृषावाद विरमण रूप द्वितीय		३१५	यथाख्यात चारित्र	३२१
	महाव्रत की पांच भावनाएं	३२५	३४७	यथाच्छन्द	३६३
३०२	मृषोपदेश	२६५	४२१	यथातथ्य स्वप्न दर्शन	४४४
१७५	मेघ की उपमा से चार		७८	यथाप्रवृत्ति करण	५५
	दानी पुरुष	१२६	३६६	यथासूक्ष्म कुशील	३८४
१७३	मेघ की उपमा से पुरुष		३६७	यथासूक्ष्म पुलाक	३८२
	के चार प्रकार	१२७	३६८	यथा सूक्ष्म वकुश	३८३
१७२	मेघ चार	१२७	३७०	यथा सूक्ष्म निर्प्रन्थ	३८६
१७४	(क) मेघ के अन्य चार		४००	युग सवत्सर	४२५
	प्रकार	१२८	१६	युद्ध शूर	१५१

शील नं०	विषय	पृष्ठ	शील नं०	विषय	पृष्ठ
२८६	योग	२६६	२१८	रौद्र ध्यान के चार प्रकार	१६८
६५	योग की व्याख्या और भेद	६८	२१६	रौद्र ध्यान के चार प्रकार	१६८
३२६	योग प्रतिक्रमण	३३८	२१६	रौद्र ध्यान के चार लक्षण	२००
६७	योनि की व्याख्या और भेद	४७	—:०:—		
—:०:—			ल		
६८	रस गारव	७०	६२	लक्षणों की व्याख्या और भेद	४२
३६१	रसनेन्द्रिय	४१८	४००	लक्षण संवत्सर	४२७
४१५	रस पांच	४३६	१२०	लक्षणाभास की व्याख्या और भेद	८४
३०२	रहोऽभ्याख्यान	२६४	३५६	लगण्डशायी	३७३
२६	राग बन्धन	१८	२५	लघि भावेन्द्रिय	१७
१५२	राजकथा चार	११०	३५०	लाघव	३६५
१०१	राजा की ऋद्धि के तीन भेद	७१	३८८	लाभान्तराय	४१०
३३८	राजा के अन्तःपुर में साधु के प्रवेश करने के पाँच कारण	३४८	३६६	लिङ्ग कुशील	३८४
३३४	राजावग्रह	३४४	३६७	लिङ्ग पुलाक	३८२
७	(क) राशि की व्याख्या	४	३५२	लक्ष चरक	३६७
१२७	रुचि	६१	३५६	लक्षाहार	३७१
२२४	रूपस्थ धर्म ध्यान	२०८	६५	लोक की व्याख्या और भेद	४५
२२४	रूपातीत धर्म ध्यान	२०६	१६२	लोकवादी	१४६
३१०	रूपानुपात	३११	३४	लोकाकाश	२३
६०	रूपी	४२	२६८	लोकान्त से बाहर लीष और पुद्गल के न जा सकने के चार कारण	२४७
६१	रूपी के दो भेद	४२	१५८	लोम	११८
८०	रोचक समकित	५८	१६२	लोम के चार भेद और उनकी उपमाएँ	१२२
२१५	रौद्र ध्यान	१६४	—:०:—		
			व		
			१२८	(ख) वचन गुप्ति	६२

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
६५	वचन योग	६८	१५५	विज्ञेयणी कथा की	
३८४	वर्षिहृदसा	४०५		व्याख्या और भेद	११३
३०१	वध	२६२	२८५	विचिकित्सा	२६५
७०	वनस्पति के तीन भेद	५०	२०१	विणीया (वैनयिकी)बुद्धि	१५६
३७३	वनीपक की व्याख्या और भेद	३८७	२३४	विनय प्रतिपत्ति के चार प्रकार	२१६
६१	वयः स्थविर	६६	१६१	विनयवादी	१४७
३३७	वर्षावास अर्थात् चौमासे के पिछले ७० दिनों में विहार करने के पांच कारण	३४७	३२८	विनय शुद्ध	२२७
२३७	वर्ण सञ्चलनता विनय के चार प्रकार	२१७	२४६	विपरिणामना उपक्रम	२३५
३७४	वस्त्र के पांच भेद	३८६	४२१	विपरीत स्वप्न दर्शन	४४५
२१०	वस्तु के स्व-पर चतुष्टय के चार भेद	१८८	२२०	विपाक विचय	२०४
३०६	वाक् दुष्प्रणिधान	३०६	१४	त्रिपुलमति मनः पर्यय ज्ञान	१२
१२६(ख)	वागतिशय	६७	१२१	विपर्यय	८६
३८१	वाचना	३६८	११४	विमानों के तीन आधार	८१
२०७	वाचना के चार अपात्र	१८५	२६६	विरति	२८७
२०६	वाचना के चार पात्र	१८५	३५६	विरसाहार	३७१
३८२	वाचना देने के पांच बोल	३६८	८७	विराधना	६३
१६१	वादी के चार भेद	१४४	३०३	विरुद्ध राज्यातिक्रम	२६७
१६२	वादी चार	१४६	६७	विवृत्त योनि	४८
२६१	विकथा	२७६	४१	विशेष	२६
१४८	विकथा की व्याख्या और भेद	१०७	१८७	विश्राम चार	१४१
२३२	विज्ञेयणा विनय के चार प्रकार	२१५	२६१	विषय	२७२
			३५७	वीरासनिक	३७२
			३२४	वीर्याञ्जार	३३३
			३८८	वीर्यान्तराय	४११
			२०५	वृहत्कल्प सूत्र का संचित्त विषय परिचय	१८१

बोल नं०	विषय	पृष्ठ	बोल नं०	विषय	पृष्ठ
२८२	वेदक समकित	२६२	३१०	शब्दानुपात	३१०
६८	वेद की व्याख्या और भेद	४६	३८३	शम	२६३
५१	वेदगीय कर्म के दो भेद	३०	३८६	शरीर की व्याख्या और उसके भेद	४१२
३२२	वेदिका प्रतिलेखना के पांच भेद	३३०	४१३	शरीरानुगत वायु	४३८
३६०	वैक्रिय बन्धन नाम कर्म	४१६	१०४	शल्य तीन	७३
३८६	वैक्रिय शरीर	४१३	३७२	शाक्य	३०७
२६५	वैदारिणी	२८१	४१८	शाश्वत अनन्तक	४४२
५५	वैभाविक गुण	३३	४२३	शिक्षा प्राप्ति में बाधक पांच कारण	४४६
६०	वैराग्य की व्याख्या और उसके भेद	६५	१८६	शिक्षात्रत चार	१४०
५८	व्यङ्गनावग्रह	४०	६७	शीतयोनि	४८
२४४	व्यतिक्रम	२२१	६७	शीतोष्ण (मिश्र) योनि	४८
६४	व्यय	४५	१६६	शील	१५५
८५	व्यवसाय की व्याख्या और भेद	६२	२१५	शुक्ल ध्यान	१६६
३६७	व्यवसाय सभा	४२२	२२६	शुक्ल ध्यान की चार भावनाएँ	२१२
३६	व्यवहार	२५	२२७	शुक्ल ध्यान के चार आत्मम्वन	२१०
२०५	व्यवहार सूत्र का संक्षिप्त विषय परिचय	१८२	२२६	शुक्ल ध्यान के चार लिङ्ग	२११
३६३	व्यवहार पाँच	३७७	२२५	शुक्ल व्यान के चार भेद	२०६
२६६	व्यवहार भाषा	२४६	८	शुक्ल पक्षी	७
६	व्यवहार राशि	८	३५४	शुद्धैपणिक	३६६
१०	व्यवहार समकित	१०	१६३	शूर पुरुष के चार प्रकार	१५०
२४५ (क)	व्यक्त कृत्य प्रायश्चित्त	२२३	१२७	श्रद्धा	६०
	श		३२८	श्रद्धान शुद्ध	३३६
२८५	शका	२६५	१७८	श्रमण (समण, समन) की चार व्याख्याएँ	१३१
४००	शनैश्चर संवत्सर	४२८	८८	श्रमणोपासक (श्रावक) के तीन मनोरथ	६४
१६	शब्द रूप श्रुत धर्म	१५			

बोल न०	विषय	पृष्ठ	बोल न०	विषय	पृष्ठ
३७३	श्रमण वनीपक	३८६	१४२	सज्ञा की व्याख्या और	
१८४	श्रावक के चार प्रकार	१३८		भेद	१०४
१८५	श्रावक के अन्य चार प्रकार	१३६	८	सज्ञी	६
१८८	श्रावक के चार विश्राम	१४२	१५८	सज्वलन	११६
३१४	श्रावक के पांच अभिगम	३१५	१४५	सभोगी साधुओं को अलग करने के पांच बोल	३५६
३०१	से ३१२ तक श्रावक के धारह ब्रतों के अतिचार २६० से ३१४		४०६	सम्मोही भावना के पांच प्रकार	४३२
३७५	श्रुतज्ञान	३६०	६६	संयतासयती	५०
१५	श्रुतज्ञान	१३	६६	संयती	५०
१६	श्रुतज्ञान के दो भेद	१३	३५१	संयम	३६६
३०८	श्रुतज्ञानावरणीय	३६४	२६८	संयम पाच	२८४
१८	श्रुत धर्म	१५	३०८	सयुक्ताधिकरण	३०७
१६	श्रुत धर्म के दो भेद	१५	३३०	सयोजना	३३६
८१	श्रुत धर्म में राग	६०	२४५	(ख) संयोजना प्रायश्चित्त	२२३
२२१	श्रुत विनय के चार प्रकार	२१५	६४	संरम्भ	६७
३६३	श्रुत व्यवहार	३७५	३१३	सलेखनाके पांच अतिचार	३१४
१६०	श्रुत सामायिक	१४४	४००	सवत्सर पांच	४२४
५६	श्रेणी के दो भेद	३३	३६८	सवृत्त वक्रुश	३८३
३६२	श्रोत्रेन्द्रिय	४१८	६७	सवृत्त योनि	४८
३७३	श्रावनीपक	३८८	६७	सवृत्त विवृत्त (मिश्र) योनि	४८
	—:०:—		२८३	संवेग	२६४
	स		१५६	संवेगनी कथा की व्याख्या और भेद	११४
२५०	संक्रम ( संक्रमण ) की व्याख्या और उसके भेद	२३५	१२१	संशय	८५
७०	संख्यात जीविक वनस्पति	५०	३७१	सशुद्ध ज्ञान दर्शन धारी अरिहन्त जिन केवली	३८६
३५४	सख्या दत्तिक	३६६	३४७	संसक्त	३६२
३६१	सघात नाम कर्म के पांच भेद	४१६	४०५	ससक्त तप	४३२



श्लोक नं०	विषय	पृष्ठ
७ (ख) संसारी		४
८ ससारी के दो भेद		४
१३० ससारी के चार प्रकार		६७
३५३ ससृष्ट कल्पिक		३६८
२२० सस्थान विचय		२०४
५३ सकाम मरण		३१
३१२ सचित्त निक्षेप		३१३
३१२ सचित्त पिधान		३१३
३०७ सचित्त प्रतिबद्धाहार		३०५
६७ सचित्त योनि		४८
६७ सचित्तासचित्त (मिश्र) योनि		४८
३०७ सचित्ताहार		३०५
२५३ सत्ता		२३७
६४ सत्ता का स्वरूप		४४
३५१ सत्य		३६५
२६६ सत्य भाषा		२४६
३०२ सत्याणुव्रत (स्थूल मृषावाद विरमण व्रत) के पांच अतिचार		२६४
२६६ सत्यामृषा (मिश्र) भाषा		२४६
४०५ सदा विग्रह शीलता		४३२
१८६ सदहणा		१४२
२७० सद्भाव प्रतिषेध		२५०
२ समकित		२
८२ समकित की तीन शुद्धियाँ		६०
८० समकित के दो प्रकार से तीन भेद		५८
८१ समकित के तीन लिङ्ग		५६
२८५ समकित के पांच अतिचार		२६५

श्लोक नं०	विषय	पृष्ठ
२८४ समकित के पांच भूषण		२६४
२८२ समकित के पांच भेद		२६१
२८३ समकित के पाँच लक्षण		२६३
१० सम्यक्त्व के चार प्रकार से दो दो भेद		८
३५८ समपादयुता		३७२
७३ समय		५३
६४ समारम्भ		६७
१२१ समारोप का लक्षण और भेद		८५
२२ सति		१६
३२३ समिति पांच		३३०
२२५ समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती		२१०
२६६ समुदान क्रिया		२८२
३४१ समुदेशाचार्य्य		३५२
६६ सम्मूर्द्धिम		४७
४१३ सम्मूर्द्धिम वायु		४३६
१६० सम्यक्त्व समाएक		१४४
२६६ सम्यक्त्व		२८६
७६ सम्यग्ज्ञान		५७
७६ सम्यग्दर्शन		५७
७६ सम्यग्चारित्र्य		५७
७७ सम्यग्दर्शन		५५
५२ सर्वबन्ध		३०
१६० सर्वविरति		१४४
८६ सर्व विरति साधु के तीन मनोरथ		६४
४१८ सर्व विस्तार अनन्तक		४४२
३०२ सहसाभ्याख्यान		२६४
२३६ सहायता विनय के चार प्रकार		२१७

बोल नं०	विषय	पृष्ठ
२८८	साशयिक मिथ्यात्व	२६७
४०७	सासारिक निधि के पाच भेद	४३३
१०६	सागरोपम के तीन भेद	७८
३२	सागरोपम	२२
३३४	सागारी (शय्यादाता) अवग्रह	३४५
६८	साता गारव	७०
५१	सातावेदनीय	३०
३३४	साधर्मिक अवग्रह	३४१
२७४	साधु	२५३
३४०	साधु के द्वारा साध्वी को ग्रहण करने या सहारा देने के पाच बोल	३५१
३३६	साधु साध्वी के एकत्र स्थान शय्या निषद्या के पाच बोल	३४६
४२	साध्य	२७
३७४	सानक	३८६
१२६	साम	६०
२६४	सामन्वोपनिपातिकी क्रिया	२७६
४१	सामान्य	२६
५६	सामान्य के दो प्रकार से दो भेद	४१
३१५	सामायिक चारित्र	३१६
१६०	सामायिक की व्याख्या और उसके भेद	१४३
३०६	सामायिक व्रत के पांच अनिषार	३०६
१८६	सामायिक शिचा व्रत	१४०

बोल नं०	विषय	पृष्ठ
३०६	सामायिक स्मृत्यकरण	३०६
११७	सारी पृथ्वी धुजने के तीन बोल	८२
२८२	सास्वादन समकित	२६१
७	(ख) सिद्ध	४
२७४	सिद्ध	२५२
२५६	सुख शय्या चार	२४१
३६७	सुधर्मा सभा	४२१
५४	सुप्रत्याख्यान	३२
८	सुलभ बोधि	७
२८७	सुलभ बोधि के पाच बोल	२६६
८	सूक्ष्म	५
२२५	सूक्ष्म क्रिया अनिषर्ता शुक्ल ध्यान	२१०
३५	सूक्ष्म सम्पराय चारित्र	३२०
३८२	सूत्र की वाचना देने के पाँच बोल	३६८
१६	सूत्र श्रुत धर्म	१५
३८३	सूत्र सौखने के पांच स्थान	३६६
६१	सूत्र स्थविर	६६
८३	सूत्रागम	६०
३०	सोपक्रम आयु	२१
२७	सोपक्रम कर्म	१६
१८४	सौत के समान श्रावक	१३८
३०३	स्तेनप्रयोग	२६७
३०३	स्तेनाहृत	२६७
४१६	स्त्यानगृद्धि	४४३
१४६	स्त्री कथा के चार भेद	१०७
६८	स्त्री वेद	४६



## शुद्धि-पत्र

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह प्रथम भाग

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२	१७	अधिकार १	अधिकार १ गा. ३
६	२१	दुंहि	हुँति
६	२३	भावर्थ	भावार्थ
७	१८	श्रावक	श्रावक धर्म
८	१	समुद्धात	समुद्घात
१०	२३	पद २८	पद २६
२४	३	परिच्छेद १	परिच्छेद १ सू. २
२४	८	परिच्छेद ७	परिच्छेद ७ सू. १
२७	२	रहता ।	रहता । (रत्ना. परि. ३ सू. ११)
३०	५	अध्याय ६८	अध्याय ६ सू. ८
३१	२०	प्राण	मव प्राण
३२	५	प्राण	सव प्राण
३३	५	अध्य० २२	अध्य० १२
३३	७	आत्म विकाश	आत्म विकाम
३३	११	आत्म विकाश	आत्म विकाम
३५	१६	सिद्धान्तानुमान	सिद्धान्तानुसार
३६	१३	भाग	भाग गा० २ व्याख्या
३६	१८	आत्म विकाश	आत्म विकाम
३८	११	स्त्रीवेद	स्त्रीवेद
३६	१७	श्रेय	चय
४०	६	भूमिका	गा० २ व्याख्या
४०	७	११६	१२१
४१	८	तिर्यक्सामान्य	तिर्यक्सामान्य

पृष्ठ पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
. ४२	३ परिच्छेद ५	परिच्छेद ५ सू. ३-५ टीका.
४२	११ ५ वाँ	५ वाँ सू. ३-४
४२	१६ उद्देशा ५	उद्देशा ५ सू. ४५०
४४	१२ प्रकरण	प्रकाश
४५	१८ २१, २२, २३ की टीका २१, २२, की टीका पृ. ३१	
४४	१६ प्रकरण	प्रकाश
५२	२३ उद्देशा ३	उद्देशा १ मनुष्याधिकार
५३	१४ १६६	१६५
५६	२० में	से
५६	८ गा०	श्लोक
८३	१८ कोष	कोस
८४	५ जीवास्तिकाय	जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय
८४	१० अनानुपूर्वी	पूर्वानुपूर्वी
८४	११ पूर्वानुपूर्वी	अनानुपूर्वी
८७	१७ सवेरे ही सवेरे	सवेरे ही सवेरे
११४	६ दृष्टि	दृष्टि को
११८	१६ चार	चार चार
१४१	२ धम	धर्म
१६७	२१ कलभद्र	बलभद्र
१७०	२ समयं	समय
१७१	३ त्याग ने	त्यागने
१७७	५ उद्देशक	उद्देशक
१८३	१६ उपशमन	उपशमाना
१६४	६ आत्त	आत्त <sup>१</sup>
२०२	२ है	हैं

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
२०२	१३	जैसे-कि	जैसे कि-
२०३	१७	दुखों	दुःखों
२२६	२	विकाश	विकास
२२८	६	जावे	जावें
२३४	५	स्थिति	स्थिति
२४४	६	विद्यमान्	विद्यमान
२४४	१०	विद्यमान्	विद्यमान
२४६	११	तराजु	तराजू
२४८	१०	रुखे	रूखे
२६८	१७	(योग)	योग
३५३	११	ठहना	ठहरना
३५७	२२	या पामस्थ	या पाशस्थ
३७०	१६	डुकड़े	डुकड़े
३६६	३	उपग्रह	उपग्रह

### शुद्धि-पत्र

आभार प्रदर्शन और भूमिका में अशुद्धियाँ रह गई हैं, उनका

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६१	१४	किये	किये हैं
६१	१६	विन्डिङ्गस्	विन्डिङ्गस्
६२	१०	परामर्श	परामर्श
६३	१२	चत्तारी	चत्तारि
६४	६	सुएण	सुएण
६४	१०	वाहिरेण	वाहिरेण
६४	१०	मुत्तरूड	मुत्तरूड
६४	११	नाण	नाण

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६५	१८	आदि	अनादि
६८	६	पादोपगमन	पादोपगमन
६८	११	ऊल्लेख	उल्लेख
१००	१४	मीने	मीने


## शुद्धि-पत्र

अकारादयनुक्रमणिका का

पृष्ठ	पंक्ति	बोल नम्बर	अशुद्ध	शुद्ध
२	३२	११६	८	८४ पृष्ठ
४	३८	३६७	३६७	३६८ ( बोल )
५	८	२७७	२५४	२५५ पृष्ठ
६	१८	३०४	तीव्राभिलाष	तीव्राभिलाषा
११	३४	३३०	३३०	३३६ ( पृष्ठ )
१२	३३	२६५	२६५	१६५ ( बोल )
१५	१५	३३०	३३०	२६० ( बोल )
१५	१७	२५६	२५६	३५६ ( बोल )
१७	२६	१२४	धर्माचार	धर्माचार्य
२२	४३	३६८	२८३	३८३ पृष्ठ
२८	२५	१०	१०	६ पृष्ठ
२८	३७	३७२	३०७	३८७ पृष्ठ
२६	३३	१४५	१४५	३४५ बोल
३०	३६	×	×	२७३ (ख)
ममाधि के चार भेद २५१				
३१	१४	३४०	२५१	३५१ पृष्ठ
३२	३०	×	×	५५ बोल
३२	३०	×	५५	३३ पृष्ठ

ॐ श्री वर्द्धमान स्वामिने नम ॐ

# श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह



## मंगलाचरण

जयइ जग जीव जोणी वियाणओ, जग गुरु जगाणंदो ।  
जगणाहो जगवन्धु जयइ जगप्पियामहो भयवं ॥ १ ॥  
जयइ सुत्राणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ ।  
जयइ गुरु लोगाणं जयइ महप्पा महावीरो ।' २ ॥

( श्री नन्दी सूत्र )

भावार्थ:—सम्पूर्ण संसार और जीवों के उत्पत्ति के स्थान को जानने वाले तीर्थंकर सदा विजयवंत रहे । तीर्थंकर भगवान् जगत् के गुरु, जगत् को आध्यात्मिक आनन्द देने वाले, जगत् के नाथ, जगत् के बंधु तथा जगत् के पितामह है ॥ १ ॥

द्वादशाङ्ग रूप वाणी के प्रकट करने वाले, तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर, त्रिलोक के गुरु तथा महात्मा भगवान् महावीर स्वामी सदा विजयवंत रहे ।



## पहला बोल

( बोल सख्या १ से ६ तक )

- १ आत्मा—जो निरंतर ज्ञानादि पर्यायों को प्राप्त होता है वह आत्मा है। सब जीवों का उपयोग या चैतन्य रूप लक्षण एक है। अतः एक ही आत्मा कहा गया है।

( ठाणांग १, सूत्र २ )

- २—समकित—सर्वज्ञ द्वारा प्ररूपित पारमार्थिक जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना समकित है। समकित के कई प्रकार से भेद किये गये हैं। जैसे—

एगविह दुविह तिविहं, चउहा पंचविह दसविहं सम्मं ।  
दव्वाई कारगार्ई, उवसम भेएहिं वा सम्मं ॥ १ ॥

( प्रवचन सारोद्धारद्वारा १५६ ६४२ वीं गाथा )

अर्थात्—समकित के द्रव्य, भाव, उपशम आदि के भेद से एक दो तीन चार पांच तथा दस भेद होते हैं। ( इनका विस्तार आंग के बोलों में किया जायगा )

( तत्त्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय )

( पंचाशक अधिकार १ ) -

- ३—दण्डः—जिससे जीवों की हिंसा होती है। उसे दण्ड कहते हैं ( दण्ड दो प्रकार के हैं—द्रव्य और भाव । लकड़ी, शस्त्र आदि द्रव्य दण्ड हैं। और दुष्प्रयुक्त मन आदि भाव दण्ड है। )

( ठाणांग १ सूत्र ३ )

- ४—जम्बूद्वीपः—तिर्यक् लोक के असंख्यात द्वीप और समुद्रों के मध्य में स्थित और सब से छोटा, जम्बूद्वीप से उप-

लक्षित और मध्य में मेरु पर्वत से सुशोभित जम्बू द्वीप है । इसमें भरत, ऐरावत और महाविदेह ये तीन कर्म भूमि और हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, रम्यकवर्ष, देवकुरु और उत्तर कुरु, ये छः अकर्म भूमि क्षेत्र हैं । इसकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सत्ताईस योजन तीन कांस एक सौ अट्ठाईस धनुष तथा साढ़े तेरह अंगुल से कुछ अधिक है ।

( ठाणाग १ सूत्र ५२ )

( सभाष्य तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ३ सूत्र ६ )

५—प्रदेशः—स्कन्ध या देश में मिले हुए द्रव्य के अति सूक्ष्म ( जिसका दूसरा हिस्सा न हो सके ) विभाग को प्रदेश कहते हैं ।

( ठाणाग १ सूत्र ४५ )

६—परमाणुः—स्कन्ध या देश से अलग हुए पुद्गल के अति-सूक्ष्म निरंश भाग को परमाणु कहते हैं ।

( ठाणाग १ सूत्र ४५ )



## दूसरा बोल

( बोल नख्या ७ से ६२ तक )

७ ( क ) राशि की व्याख्या

राशिः—वस्तु के समूह को राशि कहते हैं ।

राशि के दो भेदः—

( १ ) जीव राशि ( २ ) अजीव राशि ।

( समवायाग १४६ )

७ ( ख ) जीवः—जो चेतनायुक्त हो तथा द्रव्य और भाव प्राण वाला हो उसे जीव कहते हैं । जीव के दो भेद हैं ।

( १ ) संसारी ( २ ) सिद्ध

संसारी—कर्मों के चक्र में फंस कर जो जीव चौबीस दण्डक और चार गतियों में परिभ्रमण करता है उसे संसारी कहते हैं ।

सिद्ध—सर्व कर्मों का क्षय करके जो जन्म मरण रूप संसार में मुक्त हो चुके हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं । सिद्धों में केवल भाव प्राण होते हैं ।

( ठाणाग २३ ४ सूत्र १०१ )

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय २ सूत्र १० )

८—नव प्रकार में संसारी जीव के दो दो भेदः—

१ त्रस

२ स्थावर

१ सूक्ष्म

२ वादर

१ पर्याप्त

२ अपर्याप्त

१ मंजी

२ असंजी

१ परित्त ( अन्य ) संसारी

२ अनंत संसारी

१ सुलभ बाधि

२ दुर्लभ बाधि

१ कृष्णपत्नी

२ शुक्रपत्नी

१ भवसिद्धिक

२ अभवसिद्धिक

१ आहारक

२ अनाहारक

त्रसः—त्रस नामकर्म के उदय से चलने फिरने वाले जीव को त्रस कहते हैं। अग्नि और वायु, गति की अपेक्षा त्रस माने गये हैं।

स्थावरः—स्थावर नाम कर्म के उदय से जो जीव पृथ्वी, पानी आदि एकेन्द्रिय में जन्म लेते हैं। उन्हें स्थावर कहते हैं।

( ठाणांग २ व. ४ सूत्र १०१ )

सूक्ष्मः—सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से जिन जीवों का शरीर अत्यंत सूक्ष्म अर्थात् चर्मचक्षु का अविषय हो उन्हें सूक्ष्म कहते हैं।

वादरः—वादर नाम कर्म के उदय से वादर अर्थात् स्थूल शरीर वाले जीव वादर कहलाते हैं।

( ठाणांग २ व. १ सूत्र ७३ )

पर्याप्तकः—जिस जीव में जितनी पर्याप्तियाँ सम्भव हैं। वह जब उतनी पर्याप्तियाँ पूरी कर लेता है तब उसे पर्याप्तक कहते हैं। एकेन्द्रिय जीव स्वयोग्य चारों पर्याप्तियाँ ( आहार, शरीर, इन्द्रिय, और श्वासाच्छ्वासा) पूरी करने पर, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय, उपर्युक्त चार और पांचवी भाषा पर्याप्ति पूरी करने पर तथा संज्ञी पंचेन्द्रिय उपर्युक्त पांच और छठी मनः पर्याप्ति पूरी करने पर पर्याप्तक कहे जाते हैं।

**अपर्याप्तकः**—जिस जीव की पर्याप्तियाँ पूरी न हों वह अपर्याप्तक कहा जाता है -।

जीव तीन पर्याप्तियां पूर्ण करके चौथी के अधूरी रहने पर ही मरते है पहले नहीं, क्योंकि आगामी भव की आयु बाध कर ही मृत्यु प्राप्त करते हैं और आयु का बाध उन्हीं जीवों को होता है जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय ये तीन पर्याप्तियाँ पूर्ण करली है।

( ठाणाग २ उ २ सूत्र ७६ )

**संज्ञीः**—जिन जीवों के मन हो वे संज्ञी है।

**असंज्ञीः**—जिन जीवों के मन नहीं हो वे असंज्ञी है।

( ठाणांग २ उ २ सूत्र ७६ )

**परित्त संसारीः**—जिन जीवों के भव परिमित हो गये हैं। वे परित्त संसारी हैं। अर्थात् अधिक से अधिक अर्द्धपुद्गल पगवर्तन काल के अंदर जो अवश्य मोक्ष में जावेंगे वे परित्त (अल्प) संसारी है।

( आतुर प्रत्याख्यान पयन्ना गा० ४३ )

**अनंत संसारीः**—जो जीव अनंत काल तक संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे अर्थात् जिन जीवों के भवों की संख्या सीमित नहीं हुई है वे अनंत संसारी है। यथाः—

जे पुण गुरुपडिणीया बहुमोहा, ससवला कुमीलाय।

असमाहिणा मरंनि उ, ते हुंहि अणंत संसारी ॥१॥

( आतुर प्रत्याख्यान पयन्ना गा० ४२ )

**भावर्थः**—गुरु के अवर्णवाद आदि कह कर प्रतिकूल आचरण करने वाले, बहुत मोह वाले, शबल दोष वाले, कुशीलिये और असेमाधि मरण से मरने वाले जीव अनंत संसारी होते हैं।

( ठाणाग २ उ २ सूत्र ७६ )

सुलभ बोधि:—परभव में जिन जीवों को जिन धर्म की प्राप्ति सुलभ हो उन्हें सुलभ बोधि कहते हैं ।

दुर्लभ बोधि:—जिन जीवों को जिनधर्म दुष्प्राप्य हो उन्हें दुर्लभ बोधि कहते हैं  
( ठाणाग २ उ० २ सूत्र ७६ )

कृष्ण पाक्षिक:—जिन जीवों के अर्द्धपुद्गल परावर्तन काल में अधिक काल तक संसार में परिभ्रमण करना बाकी है । वे कृष्णपाक्षिक कहे जाते हैं ।

शुक्ल पाक्षिक:—जिन जीवों का संसार परिभ्रमण काल अर्द्ध-पुद्गल परावर्तन या उससे कम बाकी रह गया है । वे शुक्ल पाक्षिक कहे जाते हैं ।

( ठाणाग २ उ० २ सूत्र ७६ )

( भगवती शतक १३ उद्देशा १ सूत्र ४७० )

भवसिद्धिक:—जिन जीवों में मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता होती है वे भवसिद्धिक कहलाते हैं ।

अभव सिद्धिक:—जिन जीवों में मोक्ष प्राप्ति की योग्यता नहीं है वे अभव सिद्धिक (अभव्य) कहलाते हैं ।

( ठाणाग २ उ० २ सूत्र ७६ )

( श्रावक प्रज्ञप्ति गाथा ६६—६७ )

आहारक:—जो जीव सचित्त, अचित्त और मिश्र अथवा अंज, लोम और प्रक्षेप आहार में से किसी भी प्रकार का आहार करता है । वह आहारक जीव है ।

अनाहारक:—जो जीव किसी भी प्रकार का आहार नहीं करता वह अनाहारक है ।

विग्रह भक्ति में रहा हुआ, केवली समुद्धात करने वाला, चौदहवें गुणस्थानवर्ती और सिद्ध ये चारों अनाहारक हैं ।

केवली समुद्रात के आठ समयों में से तीसरे, चौथे और पाँचवें समय में जीव अनाहारक रहता है ।

( ठाणांग २ उ० २ सूत्र ७६ )

६-निगोदः—साधारण नाम कर्म के उदय से एक ही शरीर को आश्रित करके जो अनंत जीव रहते हैं वे निगोद कहलाते हैं । निगोद के जीव एक ही साथ आहार ग्रहण करते हैं । एक साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं ।

निगोदके दो भेद हैं—(१) व्यवहार राशि (२) अव्यवहार राशि ।

व्यवहार राशिः—जिन जीवों ने एक बार भी निगोद अवस्था छोड़ कर दूसरी जगह जन्म लिया है वे व्यवहार राशि हैं ।

अव्यवहार राशिः—जिन जीवों ने कभी भी निगोद अवस्था नहीं छोड़ी है जो अनादि काल से निगोद में ही पड़े हुए हैं वे अव्यवहार राशि हैं ।

( आगमसार )

१०=सम्यक्त्य के चार प्रकार से दो दो भेद ।

१ द्रव्य सम्यक्त्व

२ भाव सम्यक्त्व

१ निश्चय सम्यक्त्व

२ व्यवहार सम्यक्त्व

१ नैसर्गिक सम्यक्त्व

२ आधिगमिक सम्यक्त्व

१ पौद्गलिक सम्यक्त्व

२ अपौद्गलिक सम्यक्त्व

द्रव्य सम्यक्त्वः—विशुद्ध किये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों को द्रव्य सम्यक्त्व कहते हैं ।

भावसम्यक्त्वः—जैसे उपनेत्र (चश्मे) द्वारा आंखें पदार्थों को स्पष्ट रूप से देख लेती है उसी तरह विशुद्ध किये हुए

पुद्गलों के द्वारा आत्मा की केवली प्ररूपित तत्त्वों में जो रुचि (श्रद्धा) होती है वृह भावसम्यक्त्व है ।

(प्रवचन सारोद्धार द्वार १४६ गाथा ६४२ टीका)

निश्चय सम्यक्त्वः—आत्मा का वह परिणाम जिसके होने से ज्ञान विशुद्ध होता है उसे निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं । अथवा अपनी आत्मा को ही देव, गुरु और धर्म ममभक्ता निश्चय सम्यक्त्व है ।

व्यवहार सम्यक्त्वः—सुदेव, सुगुरु और सुधर्म पर विश्वास करना व्यवहार सम्यक्त्व है ।

प्रवचन सारोद्धार द्वार १४६ गाथा ६४२ की टीका में निश्चय-सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व की व्याख्या यों दी है ।

१—देश, काल और संहनन के अनुसार यथाशक्ति शास्त्रोक्त मंयम पालन रूप मुनिभाव निश्चय सम्यक्त्व है ।

२—उपशमादे लिङ्ग से पहिचाना जाने वाला शुभ आत्म-परिणाम व्यवहार सम्यक्त्व है । इसी प्रकार सम्यक्त्व के कारण भी व्यवहार सम्यक्त्व ही है ।

( कर्मग्रन्थ पहला गाथा १५ वीं )

नैमर्गिक सम्यक्त्वः—पूर्व त्रयोपशम के कारण, बिना गुरु उपदेश के स्वभाव से ही जिनदृष्ट ( केवली भगवान् के देखे हुए ) भावों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और नाम आदि निक्षेपों की अपेक्षा से जान लेना, श्रद्धा करना निसर्ग समकित है । जैसे मरुदेवी माता की समकित । असूचा केवली ।



आधिगमिक सम्यक्त्वः - गुरु आदि के उपदेश से अथवा अद्भुत उपांग आदि के अध्ययन से जीवादि तत्त्वों पर रुचि-श्रद्धा होना आधिगमिक ( अभिगम ) सम्यक्त्व है ।

( ठाण्णाग २ उ० १ सूत्र ७० )

( पन्नवणा पहला पद सू० ३७ )

( तत्त्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय सू० ३ )

पौद्गलिक सम्यक्त्वः—क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को पौद्गलिक सम्यक्त्व कहते हैं क्योंकि क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में समकृत मोहनीय के पुद्गलों का वेदन होता है ।

अपौद्गलिक सम्यक्त्वः—क्षायिक और औपशमिक समकृत को अपौद्गलिक सम्यक्त्व कहते हैं । क्योंकि इनमें समकृत मोहनीय का सर्वथा नाश अथवा उपशम हो जाता है वेदन नहीं होता है ।

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १४६ गाथा ६४२ टीका )

११-उपयोगः—सामान्य या विशेष रूप से वस्तु को जानना उपयोग है । उपयोग के दो भेद है । (१) ज्ञान । (२) दर्शन ।

ज्ञानः—जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मों का जाति, गुण, क्रिया आदि का ग्राहक है वह ज्ञान कहा जाता है । ज्ञान को साकार उपयोग कहते हैं ।

दर्शनः—जो उपयोग पदार्थों के सामान्य धर्म का अर्थात् सत्ता का ग्राहक है । उसे दर्शन कहते हैं । दर्शन को निराकार उपयोग कहते हैं ।

( पन्नवणा पद २८ सू० ३१२ )

१२-ज्ञान के दो भेदः—(१) प्रत्यक्ष (२) परोक्ष ।

**प्रत्यक्षः—**इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना साक्षात् आत्मा से जो ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है । जैसे अवधिज्ञान, मनः-पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ।

( श्री नन्दीसूत्र सू० २ )

यह व्याख्या निश्चय दृष्टि से है । व्यावहारिक दृष्टि से तो इन्द्रिय और मन से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं ।  
**परोक्षज्ञान—**इन्द्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान हो वह परोक्ष ज्ञान है । जैसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञान ।

अथवा

जो ज्ञान अस्पष्ट हो ( विशद न हो ) । उसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं । जैसे स्मरण, प्रत्यभिज्ञान आदि ।

( ठाणांग २ उद्देशा १ सूत्र ७१ ) ( नन्दी सूत्र २ )

१३-अवधिज्ञान की व्याख्या और भेदः—

इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है । उसे अवधिज्ञान कहते हैं ।

अवधिज्ञान के दो भेदः—(१) भव प्रत्यय (२) क्षयोपशम प्रत्यय ।

**भवप्रत्यय अवधिज्ञानः—**जिस अवधिज्ञान के होने में भव ही कारण हो उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं । जैसे— नारकी और देवताओं को जन्म से मरण तक रहने वाला ही अवधिज्ञान होता है ।

**क्षयोपशम प्रत्यय अवधिज्ञानः—**ज्ञान, तप आदि कारणों से मनुष्य और तिर्यञ्चों को जो अवधिज्ञान होता है उसे

क्षयोपशम प्रत्यय अवधिज्ञान कहते हैं। यही ज्ञान गुण प्रत्यय या लब्धि प्रत्यय भी कहा जाता है।

( ठाणांग २ उद्देशा १ सूत्र ७४ )

१४—मनःपर्यय ज्ञान—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से मर्यादा पूर्वक जो ज्ञान-संज्ञी जीवों के मन में रहे हुए भावों को जानना है उसे मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं।

मनःपर्यय ज्ञान के दो भेदः—(१) ऋजुमति (२) विपुलमति।

ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञानः—दूसरे के मन में सोचे हुए भावों को सामान्य रूप से जानना ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान है। जैसे अमुक व्यक्ति ने घड़ा लाने का विचार किया है।

विपुलमति मनःपर्यय ज्ञानः—दूसरे के मन में सोचे हुए पदार्थ के विषय में विशेष रूप से जानना विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान है। जैसे अमुक ने जिस घड़े को लाने का विचार किया है वह घड़ा अमुक रङ्ग का, अमुक आकार वाला, और अमुक समय में बना है। इत्यादि विशेष पर्यायों—अवस्थाओं को जानना।

( ठाणांग २ उद्देशा १ सूत्र ७१ )

१५—परोक्ष ज्ञान के दो भेदः—

(१) आभिनिबोधिक ज्ञान ( मतिज्ञान ) (२) श्रुतज्ञान।

आभिनिबोधिक ज्ञानः—पांचों इन्द्रियों और मन के द्वारा योग्य देश में रहे हुए पदार्थ का जो ज्ञान होता है वह आभिनिबोधिक

ज्ञान या मतिज्ञान कहलाता है ।

( पत्रवर्णा पद २६ सू० ३१२ )

( ठाणांग २ उद्देशा १ सूत्र ७१ )

श्रुतज्ञानः—शास्त्रों को सुनने और पढ़ने से इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान हो वह श्रुतज्ञान है ।

( भगवती शतक = उद्देशा २ सूत्र ३१८ )

अथवा

मतिज्ञान के वाद में होने वाले एवं शब्द तथा अर्थ का विचार करने वाले ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते हैं । जैसे “घट” शब्द सुनने पर उसके बनाने वाले का उसके रङ्ग और आकार आदि का विचार करना ।

( नन्दी सूत्र १ )

( ठाणांग २ उद्देशा १ सूत्र ७१ )

( कर्म ग्रन्थ प्रथम भाग गा० ४ )

१६—श्रुतज्ञान के दो भेदः—

(१) अङ्गप्रविष्ट श्रुतज्ञान । (२) अंग बाह्य श्रुतज्ञान ।

अङ्गप्रविष्ट श्रुतज्ञान—जिन आगमों में गणधरों ने तीर्थङ्कर भगवान् के उपदेश को ग्रथित किया है । उन आगमों को अङ्गप्रविष्ट श्रुतज्ञान कहते हैं । आचाराङ्ग आदि बारह अङ्गों का ज्ञान अङ्ग प्रविष्ट श्रुतज्ञान है ।

अङ्गबाह्य श्रुतज्ञानः—द्वादशांगी के बाहर का शास्त्र ज्ञान अङ्ग बाह्य श्रुतज्ञान कहलाता है । जैसे दशवैकालिक, उत्तराध्ययन आदि ।

( नन्दी सूत्र ४४ )

( ठाणांग २ उद्देशा १ सूत्र ७१ )

१७- नय के दो भेद—

(१) द्रव्यार्थिक नय (२) पर्यायार्थिक नय ।

द्रव्यार्थिक नयः—जो पर्यायों को गौण मान कर द्रव्य को ही मुख्यतया ग्रहण करे उसे द्रव्यार्थिक नय कहते हैं ।

पर्यायार्थिक नयः—जो द्रव्य को गौण मान कर पर्यायों को ही मुख्यतया ग्रहण करे उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं ।

( प्रमाणनयनत्वालोकात्कारपरिच्छेद ७ )

१८—धर्म की व्याख्या और उसके भेदः—

(१) जो दुर्गति में गिरते हुए प्राणी को धारण करे और सुगति में पहुँचावे उसे धर्म कहते हैं ।

( दशवैकालिक अध्ययन १ गाथा १ की टीका )

अथवा—

(२) आगम के अनुसार इस लोक और परलोक के सुख के लिए हेय को छोड़ने और उपादेय को ग्रहण करने की जीव की प्रवृत्ति को धर्म कहते हैं ।

( धर्मसंग्रह अधि० १ गा० ३ टी० )

अथवा—

(३) वस्तु सहायो धम्मो, खन्ती पमुहो दसविहो धम्मो ।

जीवाणं रक्खणं धम्मो, रयणतयं च धम्मो ॥

(१) वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं । (२) दामा, निर्लोभता आदि दस लक्षण रूप धर्म हैं । (३) जीवों की रक्षा करना—वचाना यह भी धर्म है । (४) सम्यग् ज्ञान, सम्यक्-दर्शन और सम्यग्चारित्र रूप रत्नत्रय को भी धर्म कहते हैं ।

माराश—जिस अनुष्ठान या फार्म में निःश्रेयम्-कल्याण की प्राप्ति हो वही धर्म है ।

धर्म के दो भेद हैं । (१) श्रुतधर्म (२) चारित्र धर्म ।

श्रुतधर्म—अंग और उपांग रूप वाली को श्रुतधर्म कहते हैं । वाचना, पृच्छना, आदि स्वाध्याय के भेद भी श्रुत धर्म कहलाते हैं ।

चारित्र धर्मः—कर्मों के नाश करने की चेष्टा चारित्र धर्म है ।

अथवाः—

मूल गुण और उत्तरगुणों के समूह को चारित्र धर्म कहते हैं ।  
अर्थात् क्रिया रूप धर्म ही चारित्र धर्म है ।

( ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ७२ )

१९—श्रुतधर्म के दो भेदः—(१) सूत्रश्रुतधर्म (२) अर्थ श्रुत धर्म ।

सूत्र श्रुतधर्म—(शब्द रूप श्रुतधर्म) द्वादशांगी और उपांग आदि के मूलपाठ को सूत्रश्रुतधर्म कहते हैं ।

अर्थश्रुत धर्म—द्वादशांगी और उपांग आदि के अर्थ को अर्थ-श्रुत धर्म कहते हैं ।

( ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ७२ )

२०—चारित्र धर्म के दो भेदः—

(१) अगार चारित्र धर्म (२) अनगार चारित्र धर्म ।

अगार चारित्र धर्मः—अगारी (श्रावक) के देश विरति धर्म को अगार चारित्र धर्म कहते हैं ।

अनगार चारित्र धर्मः—अनगार (साधु) के सर्व विरति धर्म को अनगार चारित्र धर्म कहते हैं । सर्व विरति रूप धर्म में—तीन कण तीन योग से त्याग होता है ।

( ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ७२ )

२१—ऊनोदरी की व्याख्या और भेदः—भोजन आदि के परिमाण और क्रोध आदि के आवेग को कम करना ऊनोदरी है ।

ऊनोदरी के दो भेद (१) द्रव्य ऊनोदरी (२) भाव ऊनोदरी ।  
द्रव्य ऊनोदरीः—भंड उपकरण और आहार पानी का शास्त्र में जो परिमाण बतलाया गया है उसमें कमी करना द्रव्य ऊनोदरी है । अतिसरस और पौष्टिक आहार ऊनोदरी में वर्जनीय है ।

( भगवती शतक २५ उद्देशा ७ सू ८०२ )

भाव ऊनोदरीः—क्रोध, मान, माया और लोभ में कमी करना, अल्प शब्द बोलना, क्रोध के वश होकर भाषण न करना तथा हृदय में रहे हुए क्रोध को शान्त करना आदि भाव ऊनोदरी है ।

( भगवती शतक २५ उद्देशा ७ सू ८०२ )

२२—प्रवचन माताः—पांच समिति, तीन गुप्ति को प्रवचन माता कहते हैं । द्वादशांग रूप वाणी ( प्रवचन ) शास्त्र की जन्म दात्री होने से माता के समान यह माता है । इन्हीं आठ प्रवचन माता के अन्दर सारे शास्त्र समा जाते हैं ।

प्रवचन माता के दो भेद—(१) समिति (२) गुप्ति ।  
समितिः—प्राणातिपात से निवृत्त होने के लिए यतना पूर्वक मन, वचन, काया की प्रवृत्ति को समिति कहते हैं ।

गुप्तिः—मन, वचन, काया के शुभ और अशुभ व्यापार को रोकना या आते हुए नवीन कर्मों को रोकना गुप्ति है ।

( उत्तराध्ययन अध्ययन २४ गा १-२ )

२३-इन्द्रिय की व्याख्या और भेदः—इन्द्र अर्थात् आत्मा जिससे पहचाना जाय उसे इन्द्रिय कहते हैं। जैसे एकेन्द्रिय जीव स्पर्शनेन्द्रिय से पहचाना जाता है।

इन्द्रिय के दो भेदः—( १ ) द्रव्येन्द्रिय ( २ ) भावेन्द्रिय।

द्रव्येन्द्रियः—चक्षु आदि इन्द्रियों के बाह्य और आभ्यन्तर पौद्गलिक आकार ( रचना ) को द्रव्येन्द्रिय कहते हैं।

भावेन्द्रियः—आत्मा ही भावेन्द्रिय है। भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोग रूप होती है।

( पञ्चवर्णा पद १५ सू० १६१ टी० )

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय २ सू० १६ )

२४-द्रव्येन्द्रिय के दो भेदः—

( १ ) निवृत्ति द्रव्येन्द्रिय ( २ ) उपकरण द्रव्येन्द्रिय।

निवृत्ति द्रव्येन्द्रियः—इन्द्रियों के आकार विशेष को निवृत्ति द्रव्येन्द्रिय कहते हैं।

उपकरण द्रव्येन्द्रियः—दर्पण के समान अत्यन्त स्वच्छ पुद्गलों की रचना विशेष को उपकरण द्रव्येन्द्रिय कहते हैं। उपकरण द्रव्येन्द्रिय के नष्ट हो जाने पर आत्मा विषय को नहीं जान सकता।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय २ सूत्र १७ )

२५-भावेन्द्रिय के दो भेदः—( १ ) लब्धि ( २ ) उपयोग।

लब्धि भावेन्द्रियः—ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के क्षयोपशम होने पर पदार्थों के (विषय के) जानने की शक्ति को लब्धि-भावेन्द्रिय कहते हैं।



उपयोग भावेन्द्रियः—ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के त्रयोपशम होने पर पदार्थों के जानने रूप आत्मा के व्यापार को उपयोग भावेन्द्रिय कहते हैं ।

जैसे—कोई साधु मुनिराज द्रव्यानुयोग, चरितानुयोग, गणिता-  
नुयोग, धर्म कथानुयोग रूप चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं ।  
पर वे जिस समय द्रव्यानुयोग का व्याख्यान कर रहे हैं ।  
उस समय उनमें द्रव्यानुयोग उपयोगरूप से विद्यमान है ।  
एवं शेष अनुयोग लब्धि रूप से विद्यमान हैं ।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय २ सूत्र १८ )

२६—बन्ध की व्याख्या और भेदः—जिसके द्वारा कर्म और  
आत्मा चीर नीर की तरह एक रूप हो जाते हैं उसे बंध  
कहते हैं ।

बंध के दो भेदः—(१) राग बंध (२) द्वेष बंध ।

राग बंधः—जिससे जीव अनुरक्त-आसक्त होता है उसे राग-  
बंध कहते हैं । राग से होने वाले बंध को राग बंध  
कहते हैं ।

द्वेष बंध—द्वेष से होने वाला बंध द्वेषबंध कहलाता है ।

( ठाणांग २ उद्देशा ४ सूत्र ६६ )

२७—कर्म की व्याख्या और भेदः—जीव के द्वारा मिथ्यात्व,  
कपाय आदि हेतु से जो कार्मण वर्गणा ग्रहण की जाती  
है उसे कर्म कहते हैं । यह कार्मण वर्गणा एक प्रकार की  
अत्यन्त सूक्ष्म रज यानि पुद्गल स्कन्ध होती है । जिसे  
इन्द्रियाँ सूक्ष्मदर्शक यंत्र (माइक्रोस) कोप के द्वारा भी नहीं  
जान सकती हैं । सर्वज्ञ या परम अवधिज्ञानी ही उसे जान  
सकते हैं । ( कर्म ग्रंथ भाग १ गा० १ की व्याख्या )

कर्म के दो भेदः—(१) घाती कर्म (२) अघाती कर्म ।

(१) सोपक्रम कर्म (२) निरूपक्रम कर्म ।

घाती कर्मः—जो कर्म आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात करे वह घाती कर्म है । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय ये चार घाती कर्म हैं । इनके नाश हुए बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता ।

( हरिभद्रोपाष्टक ३० श्लोक १ )

अघाती कर्मः—जो कर्म आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात नहीं करते वे अघाती कर्म हैं । अघाती कर्मों का अमर आत्मा की वैभाविक प्रकृति, शरीर, इन्द्रिय, आयु आदि पर होता है । अघाती कर्म केवलज्ञान में बाधक नहीं होते । जब तक शरीर है तब तक अघाती कर्म भी जीव के साथ ही रहते हैं । वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र ये चारों अघाती कर्म हैं ।

( कम्मपयडि गा १ टीका पृष्ठ ६-१० )

सोपक्रम कर्मः—जिस कर्म का फल उपदेश आदि से शान्त हो जाय व सोपक्रम कर्म है ।

निरूपक्रम कर्मः—जो कर्म वंश के अनुसार ही फल देता है वह निरूपक्रम कर्म है । जैसे निकाचित कर्म ।

( धिपाक सूत्र अध्ययन ३ सू० २० टीका )

२८—मोहनीय कर्म की व्याख्या और भेदः—जो कर्म आत्मा की हित और अहित पहिचानने और तदनुसार आचरण करने की बुद्धि को 'मोहित ( नष्ट ) कर देता है । उसे

मोहनीय कर्म कहते हैं। जैसे मदिरा मनुष्य के सद् असद् विवेक को नष्ट कर देती है।

मोहनीय कर्म के दो भेदः—

(१) दर्शन मोहनीय (२) चारित्र मोहनीय।

दर्शन मोहनीयः—जो पदार्थ जैसा है उसे उसी रूप में समझना यह दर्शन है अर्थात् तत्त्वार्थ श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का गुण है। इस गुण के मोहित (घात) करने वाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते हैं। सामान्य उपयोग रूप दर्शन से यह दर्शन भिन्न है।

चारित्र मोहनीयः—जिसके द्वारा आत्मा अपने असली स्वरूप को पाता है उसे चारित्र कहते हैं। यह भी आत्मा का गुण है। इसको मोहित (घात) करने वाले कर्म को चारित्र मोहनीय कहते हैं।

(ठाण्णंग २ उद्देशा ४ सूत्र १०५)

(कर्मग्रन्थ पहला गाथा १३)

२६—चारित्र मोहनीय के दो भेदः—

(१) कषाय मोहनीय (२) नोकषाय मोहनीय।

कषाय मोहनीयः—कष अर्थात् जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति जिसके द्वारा हो वह कषाय है।

(कर्मग्रन्थ पहला गा० १७)

अथवा

आत्मा के शुद्ध स्वभाव को जो मलिन करता है उसे कषाय कहते हैं। कषाय ही कषाय मोहनीय है।

(पन्नवणा पद १४ टीका)

नोकपाय मोहनीयः—कपायों के उदय के साथ जिनका उदय होता है वे नोकपाय हैं। अथवा—कपायों को उभाड़ने वाले ( उत्तेजित करने वाले ) हास्यादि नवकको नोकपाय मोहनीय कहते हैं।

( कर्मग्रन्थ पहला गाथा १७ )

३०—आयु की व्याख्या और भेदः—जिसके कारण जीव भव विशेष में नियत शरीर में नियत काल तक रुका रहे उसे आयु कहते हैं।

आयु के दो भेदः—(१) सोपक्रम आयु (२) निरुपक्रम आयु।

सोपक्रम आयुः—जो आयु पूरी भोगे बिना कारण विशेष ( सात कारण ) से अकाल में टूट जाय वह सोपक्रम आयु है।

निरुपक्रम आयुः—जो आयु वंघ के अनुसार पूरी भोगी जाती है। बीच में नहीं टूटती वह निरुपक्रम आयु है। जैसे तीर्थङ्कर, देव, नारक आदि की आयु।

( सभाष्य तत्त्वार्थाधिगम अध्याय २ सू० ५२ )

( भगवती शतक २० उद्देशा १० सू० ६८५ )

३१—स्थिति की व्याख्या और भेदः—

काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं।

स्थिति के दो भेदः—(१) कायस्थिति (२) भवस्थिति।

काय स्थितिः—किसी एक ही काय ( निकाय ) में सर कर पुनः

उमी में जन्म ग्रहण करने की स्थिति को कायस्थिति कहते हैं। जैसे—पृथ्वी आदि के जीवों का पृथ्वी काय से चव कर पुनः असंख्यात काल तक पृथ्वी ही में उत्पन्न होना।

भवस्थितिः—जिस भव में जीव उत्पन्न होता है उसके उसी भव की स्थिति को भवस्थिति कहते हैं ।

( ठाणाग २ उद्देशा ३ सूत्र ८५ )

३२—काल के भेद और व्याख्याः—पदार्थों के बदलने में जो निमित्त हो उसे काल कहते हैं । अथवाः—समय के समूह को काल कहते हैं ।

काल की दो उपमायेंः—(१) पल्योपम (२) सागरोपम ।

पल्योपमः—पल्य अर्थात् कूप की उपमा से गिना जाने वाला काल पल्योपम कहलाता है ।

सागरोपमः—दस कोड़ा-कोड़ी पल्योपम को सागरोपम कहते हैं ।  
( ठाणाग २ उद्देशा ४ सूत्र ६६ )

३३—काल चक्र के दो भेदः—(१) उत्सर्पिणी (२) अवसर्पिणी ।  
उत्सर्पिणीः—जिस काल में आयु, शरीर, बल आदि की उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाय वह उत्सर्पिणी है । यह दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है ।

अवसर्पिणीः—जिस काल में आयु, बल, शरीर आदि भाव उत्तरोत्तर घटते जाय वह अवसर्पिणी है । यह भी दस कोड़ा-कोड़ी सागरोपम का होता है ।

( ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ७५ )

३४—आकाशः—जो जीव और पुद्गलों को रहने के लिए स्थान दे वह आकाश है ।

आकाश के दो भेदः—(१) लोकाकाश (२) अलीकाकाश ।

लोकाकाशः—जहां धर्मास्तिकाय आदि छः द्रव्य हों वह लोकाकाश है ।

अलोकाकाशः—जहां आकाश के सिवाय और कोई द्रव्य न हो वह अलोकाकाश है ।

( ठाण्णांग २ उद्देशा १ सूत्र ७४ )

३५-कारण के दो भेदः—

(१) उपादान कारण (२) निमित्त कारण ।

उपादान कारणः—(समवायी) जो कारण स्वयं कार्य्य रूप में परिणत होता है उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी, घड़े का उपादान कारण है । अथवा दूध, दही का उपादान कारण है ।

निमित्त कारणः—जो कारण कार्य्य के होने में सहायक हो और कार्य के हो जाने पर अलग हो जाय उसे निमित्त कारण कहते हैं । जैसे घड़े के निमित्त कारण चक्र (चाक्र), दण्ड आदि हैं ।

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा २०६६ )

३६-दण्ड के दो भेद—(१) अर्थ दण्ड (२) अनर्थ दण्ड ।

अर्थदण्डः—अपने और दूसरे के लिए त्रस और स्थावर जीवों की जो हिंसा होती है उसे अर्थदण्ड कहते हैं ।

अनर्थदण्डः—बिना किसी प्रयोजन के जीव हिंसा रूप कार्य्य करना अनर्थ दण्ड है ।

( ठाण्णांग २ उद्देशा १ सूत्र ६६ )

३७-प्रमाणः—अपना और दूसरे का निश्चय करने वाले सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं । प्रमाण ज्ञान वस्तु की सब

दृष्टि-विन्दुओं से जानता है अर्थात् वस्तु के सब अंशों को जानने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं ।

( प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद १ )

नयः—प्रमाण के द्वारा जानी हुई अनन्त-धर्मात्मक वस्तु के किसी एक अंश या गुण को मुख्य करके जानने वाले ज्ञान को नय कहते हैं । नयज्ञान में वस्तु के अन्य अंश या गुणों की ओर उपेक्षा या गौणता रहती है ।

( प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद ७ )

३८—मुख्यः—पदार्थ के अनेक धर्मों में से जिस समय जिस धर्म की विवक्षा होती है । उस समय वही धर्म प्रधान माना जाता है । इसी तरह अनेक वस्तुओं में विवक्षित वस्तु प्रधान होती है । प्रधान को ही मुख्य कहते हैं ।

गौणः—मुख्य धर्म के सिवाय सभी अविवक्षित धर्म गौण कहलाते हैं । इसी तरह अनेक वस्तुओं में से अविवक्षित वस्तु भी गौण कहलाती है । जैसेः—आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि अनन्त धर्म हैं । उनमें से जिस समय ज्ञान की विवक्षा होती है । उस समय ज्ञान मुख्य है और बाकी धर्म गौण हो जाते हैं ।

अथवा

“समयं गोयम ! मा प्रमायए”

अर्थात्ः— हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो । यह उपदेश भगवान् महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को सम्बोधित करते हुए फरमाया है । यह उपदेश मुख्य रूप

से गौतम स्वामी को है किन्तु गौण रूप से चतुर्विध श्रीसंघ को है। इसलिए, यहां गौतम स्वामी मुख्य है और चतुर्विध श्रीसंघ गौण है।

(तन्वार्थ सूत्र ३ वा अध्याय सूत्र ३१)

३६-निश्चयः—वस्तु के शुद्ध, मूल और वास्तविक स्वरूप को निश्चय कहते हैं। अर्थात् वस्तु का निजी स्वभाव जो सदा रहता है वह निश्चय है। जैसे निश्चय में कोयल का शरीर पाँचों वर्ण वाला है क्योंकि पाँच वर्णों के पुद्गलों से बना हुआ है। आत्मा सिद्ध स्वरूप है।

व्यवहारः—वस्तु का लोकसम्मत स्वरूप व्यवहार है। जैसे कोयल काली है। आत्मा मनुष्य, तिर्यञ्च रूप है। निश्चय में ज्ञान प्रधान रहता है और व्यवहार में क्रियाओं की प्रधानता रहती है। निश्चय और व्यवहार परस्पर एक दूसरे के सहायक (पूरक) हैं।

(विशेषावश्यक गाथा ३५८६)

(द्रव्यानुयोग तर्कणा अध्याय ८ श्लोक १)

४०-उत्सर्गः—सामान्य नियम को उत्सर्ग कहते हैं जैसे साधु को तीन करण और तीन योग से प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए।

(बृहत् कल्प वृत्ति सभाष्य वृ. नि गाथा ३१६)

अपवादः—मूल नियम की रक्षा के हेतु आपत्ति आने पर अन्य मार्ग ग्रहण करना अपवाद है। जैसे साधु का नदी पार करना आदि।

(बृहत् कल्प निर्यक्ति गा ३१६, म्यादाद कारिका ११ टी०)



४१—सामान्यः—वस्तु के जिस धर्म के कारण बहुत में पदार्थ एक ही सरीखे मालूम पड़े तथा एक ही शब्द से कहे जाय उसे सामान्य कहते हैं ।

विशेषः—सजातीय और विजातीय पदार्थों से भिन्नता का बोध कराने वाला धर्म विशेष कहा जाता है ।

जैसेः—मनुष्य, नरक, तिर्यञ्च आदि सभी जीव रूप से एक से हैं और एक ही जीव शब्द से कहे जा सकते हैं । इसलिए जीवत्व सामान्य है । यही जीवत्व जीव द्रव्य को दूसरे द्रव्यों से भिन्न करता है । इसलिए विशेष भी है । घटत्व सभी घटों में और गौत्व सभी गौत्रों में एकता का बोध कराता है । इसलिए ये दोनों सामान्य हैं । “यह घट” इसमें एतद् घटत्व सजातीय दूसरे घटों से और विजातीय पटादि पदार्थों से भेद कराता है । इसलिए यह विशेष है इसी तरह “चित्तकवरी” गाय में चित्तकवरापन सजातीय दूसरी लाल, पीली आदि गौत्रों से और विजातीय अश्वादि से भेद कराता है । इसलिए यह विशेष है ।

वास्तव में सभी धर्म सामान्य और विशेष दोनों कहे जा सकते हैं । अपने से अधिक पदार्थों में रहने वाले धर्म की अपेक्षा प्रत्येक धर्म विशेष हैं । न्यून वस्तुओं में रहने वाले की अपेक्षा सामान्य है । घटत्व पुद्गलत्व की अपेक्षा विशेष है और कृष्ण घटत्व की अपेक्षा सामान्य है ।

( स्याद्वादमञ्जरी कारिका ४ )

( प्रमाणनयतन्वालीकालङ्कार परिच्छेद ५ सू० १ )

४२-हेतु—जो साध्य के बिना न रहे उसे हेतु कहते हैं। जैसे अग्नि का हेतु धूम। धूम, बिना अग्नि के कभी नहीं रहता।

साध्य:—जो सिद्ध किया जाय वह साध्य है। साध्यवादी को इष्ट, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अबाधित और असिद्ध होना चाहिए। जैसे पर्वत में अग्नि है क्योंकि वहाँ धुआँ है। यहाँ अग्नि साध्य है। अग्निवादी को अभिमत है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित है और पर्वत में अभी तक सिद्ध नहीं की गई है। अतः असिद्ध भी है।

( रत्नाकरावतारिका परिच्छेद ३ सूत्र १४ )

४३-कार्य:—सम्पूर्ण कारणों का संयोग होने पर उनके व्यापार ( क्रिया ) के अनन्तर जो अवश्य होता है। उसे कार्य कहते हैं।

कारण—जो नियत रूपसे कार्य के पहले रहता हो और कार्य में साधक हो। अथवा:—जिसके न होने पर कार्य न हो उसे कारण कहते हैं। जैसे कुम्भकार, दण्ड, चक्र, चीवर और मिट्टी आदि घट के कारण हैं।

( न्यायकोष )

४४-आविर्भाव:—पदार्थ का अभिव्यक्त ( प्रकट ) होना आविर्भाव है।

तिरोभाव:—पदार्थ का अप्रकट रूप में रहना या होना तिरोभाव है। जैसे घास में घृत तिरोभाव रूप से विद्यमान है किन्तु मक्खन के अन्दर घृत का आविर्भाव है। अथवा सम्यग्दृष्टि

में केवल ज्ञान का तिरोभाव है । किन्तु तीर्थङ्कर भगवान् में केवल ज्ञान का आविर्भाव है ।

(न्यायक्रोप )

४५-प्रवृत्ति:—मन, वचन, काया को शुभाशुभ कार्य्य (व्यापार) में लगाना प्रवृत्ति है ।

निवृत्ति:—मन, वचन, काया को कार्य्य से हटा लेना निवृत्ति है ।

४६-द्रव्य—जिसमें गुण और पर्याय हों वह द्रव्य है ।

गुण:—जो द्रव्य के आश्रित रहता है वह गुण है । गुण सदैव द्रव्य के अन्दर ही रहता है । इसका स्वतन्त्र कोई स्थान नहीं है ।

( उत्तराध्ययन अध्यायन २८ गा० ६ )

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५ सूत्र १० )

४७-पर्याय:—द्रव्य और गुणों में रहने वाली अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं । जैसे, सोने के हार को तुड़वा कर कड़ बनवाये गये । सोना द्रव्य इन दोनों अवस्थाओं में कायम रहा किन्तु उसकी हालत बदल गई । हालत को ही पर्याय कहते हैं । पर्याय, गुण और द्रव्य दोनों में ही रहती है ।

( उत्तराध्ययन अध्यायन २८ सू० ६ )

४८-आधार:—जो वस्तु को आश्रय देवे वह आधार है । जैसे घड़ा घी का आधार है ।

आधेय:—आधार के आश्रय में जो वस्तु रहती है वह आधेय है । जैसे घड़े में घृत है । यहीं घड़ा आधार है और घृत (घी) आधेय ।

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १४०६ )

४६—आरम्भः—हिंसादिक सावद्य कार्य्य आरम्भ है ।

परिग्रहः—मूर्छा ( ममता ) को परिग्रह कहते हैं । धर्म साधन के लिए रक्खे हुए उपकरण को छोड़ कर सभी धन धान्य आदि ममता के कारण होने से परिग्रह हैं ।

यही कारण है कि धन धान्यादि बाह्य परिग्रह माने गये हैं और मूर्छा ( ममत्व-गृद्धि भाव ) आभ्यन्तर परिग्रह मानी गई है ।

( ठाणाग २ उद्देशा १ सूत्र ६४ )

इन आरम्भ परिग्रहों को ज्ञपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा में त्याग न करने से जीव केवली प्ररूपित धर्म सुनने एवं बोधि प्राप्त करने में, गृहस्थावास छोड़ कर साधु होने में, ब्रह्मचर्य्य पालन करने में, विशुद्ध संयम तथा संवर प्राप्त करने में, शुद्ध मति, श्रुति, अचधि, मनः पर्यव और केवल ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होता है । किन्तु आरम्भ परिग्रह को ज्ञ परिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से त्यागने वाला जीव उपर्युक्त ११ बोल प्राप्त करने में समर्थ होता है ।

( ठाणाग २ उ० १ सूत्र ६४-६५ )

५०—अधिकरण की व्याख्या और उसके भेदः—

कर्म बन्ध के साधन उपकरण या शस्त्र को अधिकरण कहते हैं ।

अधिकरण के दो भेदः—

( १ ) जीवाधिकरण ( २ ) अजीवाधिकरण ।

जीवाधिकरणः—कर्म बन्ध के साधन जीव या जीवगत कपायादि जीवाधिकरण हैं ।

अजीवाधिकरणः—कर्म बन्ध में निमित्त 'जड़ पुद्गल' अजीवाधिकरण हैं । जैसे शस्त्र आदि ।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६८ )

५१—वेदनीय कर्म के दो भेदः—

( १ ) साता वेदनीय ( २ ) असाता वेदनीय ।

साता वेदनीयः—जिस कर्म के उदय से आत्मा को अनुकूल विषयों की प्राप्ति हो। तथा शारीरिक और मानसिक सुख का अनुभव हो उसे साता वेदनीय कहते हैं ।

असाता वेदनीयः—जिस कर्म के उदय से आत्मा को अनुकूल विषयों की अप्राप्ति से और प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता है उसे असाता वेदनीय कहते हैं ।

( पञ्चवणा पद २३ सू० २६३ )

( कर्मग्रन्थ पहला भाग गा० १२ )

५२—बन्ध के दो भेदः—( १ ) सर्व बन्ध ( २ ) देश बन्ध ।

सर्वबन्ध—जो शरीर नये उत्पन्न होते हैं उनके आरम्भ काल में आत्मा को सर्व बन्ध होता है । अर्थात् नये शरीर का आत्मा के साथ बन्ध होने को सर्व बन्ध कहते हैं । औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर का उत्पत्ति के समय सर्व बन्ध होता है । यह बन्ध एक समय तक होता है ।

देशबन्धः—उत्पत्ति के बाद में जब तक शरीर स्थिर रहते हैं तब तक होने वाला बन्ध देशबन्ध है । तैजस और कार्मण्य शरीर की नवीन उत्पत्ति नहीं होती । अतः उनमें सदा देशबन्ध

ही होता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर में दोनों प्रकार का बन्ध होता है।

( कर्मग्रन्थ पहला गाथा ३५ व्याख्या )

५३—मरण के दो भेदः—

( १ ) सकाम मरण ( २ ) अकाम मरण ।

सकाम मरणः—विषय भोगों से निवृत्त होकर चारित्र में अनु-रक्त रहने वाली आत्मा की आकुलता रहित एवं संलेखना करने से, प्राणियों की हिंसा रहित जो मृत्यु होती है। वह सकाम मरण है। उक्त जीवों के लिए मृत्यु भयप्रद न होकर उत्सवरूप होती है। सकाममरण को परिद्धतमरण भी कहते हैं।

अकाम मरणः—विषय भोगों में गृद्ध रहने वाले अज्ञानी जीवों की न चाहते हुए भी अनिच्छापूर्वक जो मृत्यु होती है। वह अकाम मरण है। इसी को बाल मरण भी कहते हैं।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ५ गा० २ )

५४—प्रत्याख्यान के दो भेदः—

( १ ) दुष्प्रत्याख्यान ( २ ) सुप्रत्याख्यान ।

दुष्प्रत्याख्यानः—प्रत्याख्यान और उसके विषय का पूरा स्वरूप जाने बिना किया जाने वाला प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है। जैसे कोई कहे कि मैंने प्राण ( विकलेन्द्रिय ) भूत ( वनस्पति ) जीव ( पंचेन्द्रिय ) सच्च ( पृथ्वीकायादि चार स्थावर ) की हिंसा का प्रत्याख्यान किया है। पर उसे जीव, अजीव, त्रस स्थावर आदि का ज्ञान नहीं है तो उसके प्रत्याख्यान की बात कहना असत्य है। एवं वह उक्त

जीव हिंसा से निवृत्त नहीं है । अत एव उसका प्रत्याख्यान दुष्प्रत्याख्यान है ।

सुप्रत्याख्यानः—प्रत्याख्यान और उसके विषय का पूरा स्वरूप जानने वाले का प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है । जैसे उपरोक्त रीति से प्राण, भूत, जीव, सत्त्व की हिंसा का प्रत्याख्यान करने वाला पुरुष यदि जीव, त्रस, स्थावर आदि के स्वरूप का पूरा जानकार है तो उसके प्रत्याख्यान की बात कहना सत्य है और वह प्रत्याख्यान करने वाला जीवों की हिंसा से निवृत्त होता है । अत एव उसका प्रत्याख्यान सुप्रत्याख्यान है ।

( भगवती शतक ७ उद्देशा २ सूत्र २७१ )

५५—गुण के दो प्रकार से दो भेदः—

( १ ) मूल गुण ( २ ) उत्तर गुण ।

( १ ) स्वाभाविक गुण ( २ ) वैभाविक गुण ।

मूलगुणः—चारित्र्य रूपी वृत्त के मूल (जड़) के समान जो हों वे मूल गुण हैं । साधु के लिए पांच महाव्रत और श्रावक के लिए पांच अणुव्रत मूल गुण हैं ।

उत्तर गुण—मूल गुण की रक्षा के लिए चारित्र्य रूपी वृत्त की शाखा, प्रशाखावत् जो गुण हैं वे उत्तरगुण हैं । जैसे साधु के लिए पिण्डविशुद्धि, समिति, भावना, तप, प्रतिमा, अभिग्रह आदि । और श्रावक के लिए दिशाव्रत आदि ।

( सूयगढाग सूत्र अध्ययन १४ नियुक्ति गा० १२६ )

( पचाशक विवरण ५ गा० २ टीका )

स्वाभाविक गुणः—पदार्थों के निज गुणों को स्वाभाविक गुण कहते हैं। जैसे आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि गुण।

वैभाविक गुणः—अन्य द्रव्यों के सम्बन्ध से जो गुण हों और स्वाभाविक न हों वे वैभाविक गुण हैं। जैसे आत्मा के राग, द्वेष आदि। (द्रव्या० तर्कणा अध्या० २२ श्लो० ८)

५६—श्रेणी के दो भेदः—(१) उपशम श्रेणी (२) क्षपक श्रेणी।  
श्रेणीः—मोह के उपशम और क्षय द्वारा आत्मविकाश की ओर आगे बढ़ने वाले जीवों के मोह-कर्म के उपशम तथा क्षय करने के क्रम को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के दो भेद हैं।

(१) उपशम श्रेणी (२) क्षपक श्रेणी।

उपशम श्रेणीः—आत्मविकाश की ओर अग्रगामी जीवों के मोह उपशम करने के क्रम को उपशम श्रेणी कहते हैं।

उपशम श्रेणी का आरम्भ इस प्रकार होता हैः—उपशम श्रेणी को अंगीकार करने वाला जीव प्रशस्त अभ्यवसायों में रहा हुआ पहले एक साथ अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण काल में अनन्तानुबन्धी कपायों को उपशान्त करता है। इसके बाद अन्तर्मुहूर्त्त में एक साथ दर्शन मोह की तीनों प्रकृतियों का उपशम करता है। इसके बाद छठे और सातवें गुणस्थान में कई बार आने जाने के बाद वह जीव आठवें गुणस्थान में आता है। आठवें गुणस्थान में पहुँच कर श्रेणी का आरम्भ कर यदि पुरुष हो तो अनुदीर्ण नपुंसक वेद का उपशम करता है और फिर स्त्री वेद को दत्ता है। इसके बाद हास्यादि छः कपायों का उपशम कर पुरुष वेद का उपशम करता है।



यदि उपशम श्रेणी करने वाली स्त्री हो तो वह क्रमशः नपुंसक वेद, पुरुषवेद, हास्यादि छः एवं स्त्रीवेद का उपशम करती है। उपशम श्रेणी करने वाला यदि नपुंसक हो तो वह क्रमशः स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्यादि छः और नपुंसक वेद का उपशम करता है। इसके बाद अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण क्रोध का एक साथ उपशम कर आत्मा संज्वलन क्रोध का उपशम करता है। फिर एक साथ वह अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण मान का उपशम कर संज्वलन मान का उपशम करता है। इसी प्रकार जीव अप्रत्याख्यान माया और प्रत्याख्यानावरण माया का उपशम कर संज्वलन माया का उपशम करता है तथा अप्रत्याख्यान एवं प्रत्याख्यानावरण लोभ का उपशम कर अन्त में संज्वलन लोभ का उपशम शुरू करता है। संज्वलन लोभ के उपशम का क्रम यह है:—पहले आत्मा संज्वलन लोभ के तीन भाग करता है। उनमें दो भागोंका एक साथ उपशम कर जीव तीसरे भाग के पुनः संख्यात खंड करता है और उनका पृथक् पृथक् रूप से भिन्न २ काल में उपशम करता है। संख्यात खंडों में से जब अन्तिम खंड रह जाता है तब आत्मा उसे फिर असंख्यात खंडों में विभाजित करता है और क्रमशः एक एक समय में एक एक खंड का उपशम करता है। इस प्रकार वह आत्मा मोह की सभी प्रकृतियों का उपशम कर देता है।

अनन्तानुबन्धी कपाय और दर्शन मोह की सात प्रकृतियों का उपशम करने पर जीव अपूर्व करण

( निवृत्ति वादर ) नामक आठवें गुणस्थान वाला होता है । आठवें गुणस्थान से जीव अनिवृत्ति वादर नामक नवें गुणस्थान में आता है । वहां रहा हुआ जीव संज्वलन लोभ के तीसरे भाग के अन्तिम संख्यातवें खण्ड के सिवाय मोह की शेष सभी प्रकृतियों का उपशम करता है और दसवें सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान में आता है । इस गुणस्थान में जीव उक्त संज्वलन के लोभ के अन्तिम संख्यातवें खण्ड के असंख्यात खंड कर उनको उपशान्त कर देता है और मोह की सभी प्रकृतियों का उपशम कर ग्यारहवें उपशान्त मोह गुणस्थान में पहुंच जाता है । उक्त प्रकृतियों का उपशम काल सर्वत्र अन्तर्मुहूर्त्त है एवं सारी श्रेणी का काल परिमाण भी अन्तर्मुहूर्त्त ही है । ग्यारहवें गुणस्थान की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त्त परिमाण पूरी कर जीव उपशान्त मोह गुणस्थान से वापिस नीचे के गुणस्थानों में आता है ।

सिद्धान्तानुसान उपशम श्रेणी की समाप्ति कर वापिस लौटा हुआ जीव अप्रमत्त या प्रमत्त गुणस्थान में रहता है । पर कर्मग्रन्थ के मतानुसार उक्त जीव लौटता हुआ मिथ्यादृष्टि गुणस्थान तक भी पहुंच जाता है । यदि जीव श्रेणी में रहा हुआ ही काल करे तो अनुत्तर विमान में अविरत सम्यग्दृष्टि देवता होता है ।

उपशम श्रेणी का आरम्भ कौन करता है ? इस विषय में मतभेद है । कई आचार्यों का कथन है कि अप्रमत्त संयत उपशम श्रेणी का आरम्भ करता है तो कई

आचार्यों का यह कहना है कि अचिरत, देशविरत, प्रमत्त साधु, और अप्रमत्त साधु, इनमें से कोई भी इम श्रेणी को कर सकता है ।

कर्मग्रन्थ के मत से आत्मा एक भव में उत्कृष्ट दो बार उपशम श्रेणी करता है और सब भवों में उत्कृष्ट चार बार । कर्मग्रन्थ का यह भी मत है कि एक बार जिस जीव ने उपशम श्रेणी की है । वह जीव उसी जन्म में क्षपकश्रेणी कर मुक्त हो सकता है किन्तु जिसने एक भव में दो बार उपशम श्रेणी की है वह उसी भव में क्षपकश्रेणी नहीं कर सकता है । सिद्धान्त मत से तो जीव एक जन्म में एक ही श्रेणी करता है । इसलिए जिसने एक बार उपशम श्रेणी की है वह उसी भव में क्षपक श्रेणी नहीं कर सकता ।

( कर्मग्रन्थ दूसरा भाग )

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२८४ )

( द्रव्य लोक प्रकाश तीसरा सर्ग ११६६ से १२१५ )

( आवश्यक मलयगिरि गाथा ११६ से १२० )

( अर्द्ध मागधी कोप दूसरा भाग )

क्षपक श्रेणी:—आत्मविकाश की ओर अग्रगामी जीवों के सर्वथा मोह को निर्मूल करने के क्रमविशेष को क्षपकश्रेणी कहते हैं । क्षपकश्रेणी में मोहक्षय का क्रम यह है:—

सर्व प्रथम आत्मा अनन्तानुबन्धी कषाय-चतुष्टय का एक साथ क्षय करता है इसके बाद अनन्तानुबन्धी कषाय के अवशिष्ट अनन्तर्वे भाग को मिथ्यात्व में डाल कर दोनों का एक साथ क्षय करता है । इसी तरह सम्यग् मिथ्यात्व

और बाद में सम्यक्त्व मोहनीय का क्षय करता है। जिस जीव ने आयु बांध रखी है। वह यदि इस श्रेणी को स्वीकार करता है तो अपना अनन्तवां भाग मिथ्यात्व में छोड़ कर अनन्तानुबंधी का क्षय करके रुक जाता है। जब कभी मिथ्यात्व का उदय होने पर वह अनन्तानुबन्धी कपाय को बांधता है। क्योंकि अभी उसके बीज रूप मिथ्यात्व का नाश नहीं हुआ है। यदि मिथ्यात्व का भी क्षय कर चुका हो तो वह अनन्तानुबंधी कपाय को नहीं बांधता। अनन्तानुबन्धी कपाय के क्षीण होने पर शुभ परिणामसे गिरे बिना ही वह जीव मर जाय तो देवलोक में जाता है। इसी प्रकार दर्शन सप्तक (अनन्तानुबन्धी कपाय-चतुष्टय और दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियों) के क्षीण होने पर वह देवलोक में जाता है। यदि परिणाम गिर जाय और उसके बाद वह जीव काल करे तो परिणामानुसार शुभा-शुभ गति में जाता है। जिस जीव ने आयु बांध रखी है वह जीव अनन्तानुबन्धी का क्षय कर दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों का भी क्षय कर दे तो इसके बाद वह अवश्य विश्राम लेता है और जहां की आयु बांध रखी है वहां उत्पन्न होता है। जिस जीव ने आयु नहीं बांध रखी है वह इस श्रेणी को आरम्भ करे तो वह इसे समाप्त किये बिना विश्राम नहीं लेता। दर्शन सप्तक को क्षय करने के बाद जीव नरक, तिर्यञ्च और देव आयु का क्षय करता है। इसके बाद अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यानावरण कपाय की आठों प्रकृतियों का एक साथ क्षय करना शुरू करता है। इन आठों का पूरी तरह से क्षय करने नहीं पाता कि वह १६ प्रकृतियों का क्षय करता है। सोलह प्रकृतियाँ ये हैं:—

( १ ) नरकानुपूर्वी ( २ ) तिर्यञ्चानुपूर्वी ( ३ )  
 नरक गति ( ४ ) तिर्यञ्च गति ( ५ ) एकेन्द्रिय जाति  
 ( ६ ) द्वीन्द्रिय जाति ( ७ ) त्रीन्द्रिय जाति ( ८ ) चतु-  
 रिन्द्रिय जाति ( ९ ) आतप ( १० ) उद्योत ( ११ )  
 स्थावर ( १२ ) साधारण ( १३ ) सूक्ष्म ( १४ ) निद्रा-  
 निद्रा ( १५ ) प्रचलाप्रचला ( १६ ) स्त्यानगृद्धि निद्रा ।

इन सोलह प्रकृतियों का क्षय कर जीव अप्रत्या-  
 ख्यान और प्रत्याख्यानावरण कपाय की आठों प्रकृतियों  
 के अवशिष्ट अंश का क्षय करता है । इसके बाद  
 क्षपक श्रेणी का कर्त्ता यदि पुरुष हुआ तो वह क्रमशः  
 नपुंसक वेद, स्त्रीवेद, हास्यादि षट्क का क्षय करता है । इस  
 के बाद पुरुष वेद के तीन खण्ड करता है । इन तीन खण्डों  
 में से प्रथम दो खण्डों का एक साथ क्षय करता है और  
 तीसरे खण्ड को संज्वलन क्रोध में डाल देता है । नपुंसक  
 या स्त्री यदि श्रेणी करने वाले हों तो वे अपने अपने वेद  
 का क्षय तो अन्त में करते हैं और शेष दो वेदों में से  
 अघम वेद को प्रथम और दूसरे को उसके बाद क्षय करते  
 हैं । जैसा कि उपशम श्रेणी में बताया जा चुका है । इसके  
 बाद वह आत्मा संज्वलन, क्रोध, मान, माया और लोभ में  
 से प्रत्येक का पृथक् पृथक् क्षय करता है । पुरुष वेद की  
 तरह इनके भी प्रत्येक के तीन तीन खण्ड किये जाते हैं और  
 तीसरा खण्ड आगे वाली प्रकृतियों के खण्डों में मिलाया  
 जाता है । जैसे क्रोध का तीसरा खण्ड मान में, मान का

तीसरा खण्ड माया, में और माया का तीसरा खण्ड लोभ में मिलाया जाता है। लोभ के तीसरे खण्ड के संख्यात खण्ड करके एक एक को श्रेणीवर्ती जीव भिन्न २ काल में क्षय करता है। इन संख्यात खण्डों में से अन्तिम खण्ड के जीव पुनः असंख्यात खण्ड करता है और प्रति समय एक एक का क्षय करता है।

यहां पर सर्वत्र प्रकृतियों का क्षणकाल अन्तर्मुहूर्त्त जानना चाहिये। सारी श्रेणी का काल परिमाण भी असंख्यात लघु अन्तर्मुहूर्त्त परिमाण एक बड़ा अन्तर्मुहूर्त्त जानना चाहिये।

इस श्रेणी का आरंभ करने वाला जीव उत्तम संहनन वाला होता है तथा उसकी अवस्था आठ वर्ष से अधिक होती है। अचिरत्त, देशविरत्त, प्रमत्त, अप्रमत्त, गुणस्थान-वर्ती जीवों में से कोई भी विशुद्ध परिणाम वाला जीव इस श्रेणी को कर सकता है। पूर्वधर, अप्रमादी और शुक्ल ध्यान से युक्त होकर इस श्रेणी को शुरू करते हैं।

दर्शन सप्तक का श्रेय कर जीव आठवें गुण स्थान में आता है। इसके बाद संज्वलन लोभ के संख्यातवें खंड तक का क्षय जीव नवें गुणस्थान में करता है और इसके बाद असंख्यात खंड का क्षय दसवें गुणस्थान में करता है। दसवें गुणस्थान के अंत में मोह की २८ प्रकृतियों का क्षय कर ग्यारहवें गुणस्थान का, अतिक्रमण (उल्लंघन)

करता हुआ जीव बारहवें क्षीण मोह गुणस्थान में पहुँचता है ।

( विशेषावश्यक गाथा १३१३ )

( द्रव्यलोक प्रकाश तीसरा सर्ग

श्लोक १२१८ से १२३४ तक )

( कर्म ग्रन्थ दूसरा भाग, भूमिका )

( आवश्यक मलयगिरि गाथा ११६ से १२३ )

( अर्द्ध मागधी कोष भाग दूसरा ( खवर्ग )

५७:-देवता के दो भेद:- (१) कल्पोपपन्न (२) कल्पातीत ।  
कल्पोपपन्न:-जिन देवों में छोटे बड़े का भेद हो । वे कल्पोपपन्न देव कहलाते हैं । भवनपति से लेकर बारहवें देवलोक तक के देव कल्पोपपन्न हैं ।

कल्पातीत:-जिन देवों में छोटे बड़े का भेद न हो । जो सभी 'अहमिन्द्र' हैं । वे कल्पातीत हैं । जैसे नव ग्रैवेयक और अनुत्तर विमानवासी देव ।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ४ )

५८:-अवग्रह के दो भेद:- (१) अर्थावग्रह (२) व्यञ्जनावग्रह ।  
अर्थावग्रह:-पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं ।  
अर्थावग्रह में पदार्थ के वर्ण, गन्ध आदि का ज्ञान होता है ।  
इसकी स्थिति एक समय की है ।

व्यञ्जनावग्रह:-अर्थावग्रह से पहले होने वाला अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान व्यञ्जनावग्रह है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ सम्बन्ध होता है तब "किमपीदम्" (यह कुछ है) । ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है । यही ज्ञान अर्थावग्रह है । इससे पहले होने वाला अत्यन्त अस्पष्ट ज्ञान व्यञ्जनावग्रह

कहलाता है। दर्शन के बाद व्यञ्जनावग्रह होता है। यह चक्षु और मन को छोड़ कर शेष चार इन्द्रियों से ही होता है। इसकी जघन्य स्थिति आवलिका के असंख्यातर्षे भाग की है और उत्कृष्ट २ से ६ श्वासोच्छ्वास तक है।

( कर्म ग्रन्थ पहला भाग गाथा ४-५ ) ( नन्दी सूत्र २८ )

५६—सामान्य के दो प्रकार से दो भेदः—

(१) महा सामान्य (२) अवान्तर सामान्य।

(१) तिर्यक्सामान्य (२) ऊर्ध्वता सामान्य।

महा सामान्य ( पर सामान्य ) :—परम सत्ता जिसमें जीवाजीवादि सम्पूर्ण पदार्थों की एक सरूपता का बोध हो उसे महा-सामान्य कहते हैं। जैसे “सत्” कहने से सभी पदार्थों का बोध हो जाता है। इसका विषय सब से अधिक है। अतः इसे महासामान्य कहते हैं।

अवान्तर सामान्य ( अपर सामान्य या सामान्य विशेष ) :—महा सामान्य की अपेक्षा जिसका विषय कम हो किन्तु साथ ही जो सजातीय पदार्थों में एकता का बोध करावे। वह अवान्तर सामान्य है। जैसे जीवत्व सब जीवों में एकता का सूचक है किन्तु द्रव्यत्व आदि की अपेक्षा विशेष है।

( रत्ना० परि० ७ सू० १५-१६ )

तिर्यक्सामान्यः—भिन्न २ व्यक्तियों में रहने वाला साधारण धर्म तिर्यक् सामान्य है। जैसे काली, पीली, सफेद आदि गौश्रों में गोत्व।

ऊर्ध्वतासामान्यः—एक ही वस्तु की पूर्वापर पर्यायों में रहने वाला साधारण धर्म ऊर्ध्वता सामान्य है। जैसे कड़ा, कंकण,



माला आदि । एक ही सोने की क्रमिक अवस्थाओं में रहने वाला सुवर्णत्व ।

( प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद ५ वा )

६०—द्रव्य के दो भेदः—(१) रूपी (२) अरूपी ।

रूपीः—वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श जिसमें पाये जाते हों और जो मूर्च्छ हो उसे रूपी द्रव्य कहते हैं । पुद्गल द्रव्य ही रूपी होता है ।

अरूपीः—जिसमें वर्ण, गन्ध, रस, और स्पर्श न पाये जाते हों तथा जो अमूर्च्छ हो उसे अरूपी कहते हैं । पुद्गल के अतिरिक्त सभी द्रव्य अरूपी हैं ।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५ वा )

६१—रूपी के दो भेदः—(१) अष्टस्पर्शी (२) चतुःस्पर्शी ।

अष्ट स्पर्शीः—वर्ण, गन्ध, रस, तथा संस्थान के साथ जिसमें हल्का, भारी आदि आठों स्पर्श पाये जाते हों । उसे अष्ट स्पर्शी या अठफरसी कहते हैं ।

चतुःस्पर्शीः—वर्ण, गन्ध, रस तथा शीत, उष्ण, रुच और स्निग्ध ये चार स्पर्श जिसमें पाये जाते हों उसे चतुः स्पर्शी या चौफरसी कहते हैं ।

( भगवतो शतक १२ उद्देशा ५ )

६२—लक्षण की व्याख्या और भेद—बहुत से मिले हुए पदार्थों में से किसी एक पदार्थ के जुदा करने वाले को लक्षण कहते हैं ।

लक्षण के दो भेदः—(१) आत्म-भूत (२) अनात्म-भूत ।

आत्म-भूत लक्षणः—जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ हो उसे आत्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता। जीव का लक्षण चैतन्य।

अनात्म-भूत लक्षणः—जो लक्षण वस्तु के स्वरूप में मिला हुआ न हो उसे अनात्मभूत लक्षण कहते हैं। जैसे दण्डी पुरुष का लक्षण दण्ड। यहाँ दण्ड, पुरुष से अलग है। फिर भी वह दण्डी को अन्य पुरुषों से अलग कर उसकी पहिचान करा ही देता है।

( न्याय दीपिका प्रकाश १ )



## तीसरा बोल

—०—

( बोल सख्या ६३ से १२८ तक )

६३ तत्त्व की व्याख्या और भेदः—परमार्थ को तत्त्व कहते हैं ।

तत्त्व तीन हैंः—(१) देव, (२) गुरु, (३) धर्म ।

देवः—कर्म शत्रु का नाश करने वाले, अठारह दोष रहित, सर्वज्ञ, वीतराग, हितोपदेशक अरिहन्त भगवान् देव हैं ।

( योगशास्त्र प्रकाश २ श्लोक ४ मे ११ )

गुरुः—निर्ग्रन्थ (परिग्रह रहित) कनक, कामिनी के त्यागी, पंच महा-व्रत के धारक, पांच समिति, तीन गुप्ति युक्त, पट्काय के जीवों के रक्षक, सत्ताईस गुणों से भूषित और वीतराग की आज्ञानुसार विचरने वाले, धर्मोपदेशक साधु महात्मा गुरु हैं ।

( योगशास्त्र प्रकरण २ श्लोक ८ )

धर्मः—सर्वज्ञ भाषित, दयामय, विनयमूलक, आत्मा और कर्म का भेदज्ञान कराने वाला, मोक्ष तत्त्व का प्ररूपक शास्त्र धर्म तत्त्व है ।

नोटः—निश्चय में आत्मा ही देव है । ज्ञान ही गुरु है और उपयोग ही धर्म है ।

( धर्म संग्रह अधिकार २ श्लोक २१, २२, २३, की टीका )

( योगशास्त्र प्रकरण २ श्लोक ४ से ११ तक )

६४ः—सत्ता का स्वरूपः—सत्ता अर्थात् वस्तु का स्वरूप उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य रूप है । आवश्यक मलय गिरि द्वितीय खंड में सत्ता के लक्षण मेंः—

“उत्पण्णोइ वा विगमेइ वा धुवेइ वा” कहा है ।

उत्पादः—नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है ।

व्यय (विनाश)ः—विद्यमान पर्याय का नाश हो जाना व्यय है ।

ध्रौव्यः—द्रव्यत्व रूप शाश्वत अंश का सभी पर्यायोंमें अनुवृत्ति रूप से रहना ध्रौव्य है ।

उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का भिन्न २ स्वरूप होते हुए भी ये परस्पर सापेक्ष हैं । इसीलिए वस्तु द्रव्य रूप से नित्य और पर्याय रूप से अनित्य मानी गई है ।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५ वाँ सू० २६ )

६५—लोक की व्याख्या और भेदः—धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय से व्याप्त सम्पूर्ण द्रव्यों के आधार रूप चौदह राज्जु परिमाण आकाश खण्ड को लोक कहते हैं । लोक का आकार जामा पहन कर कमर पर दोनों हाथ रख कर चारों ओर घूमते हुए पुरुष जैसा है । पैर से कमर तक का भाग अधोलोक है । उसमें सात नरक हैं । नाभि की जगह मध्य लोक है । उसमें द्वीप समुद्र हैं । मनुष्य और तिर्यञ्चों की वस्ती है । नाभि के ऊपर का भाग ऊर्ध्वलोक है । उसमें गरदन से नीचे के भाग में चारह देवलोक हैं । गरदन के भाग में नव ग्रैवेयक हैं । मुँह के भाग में पांच अनुत्तर विमान हैं और मस्तक के भाग में सिद्ध शिला है ।

लोक का विस्तार मूल में सात राज्जु है । ऊपर क्रम से घटते हुए सात राज्जु की ऊँचाई पर विस्तार एक राज्जु है । फिर क्रम से बढ़ कर साढे नौ से साढे दस राज्जु की ऊँचाई पर विस्तार पांच राज्जु है । फिर क्रम से घट कर मूल से चौदह

राजू की ऊंचाई पर एक राजू का विस्तार है। ऊर्ध्व और अधो-दिशा में ऊंचाई चौदह राजू है।

लोक के तीन भेदः—

( १ ) ऊर्ध्वलोक, ( २ ) अधोलोक, ( ३ ) तिर्यक्लोक।

ऊर्ध्वलोकः—मेरु पर्वत के समतल भूमि भाग के नौ सौ योजन ऊपर ज्योतिष चक्र के ऊपर का सम्पूर्ण लोक ऊर्ध्वलोक है। इसका आकार मृदंग जैसा है। यह कुछ कम सात राजू परिमाण है।

अधोलोकः—मेरु पर्वत के समतल भूमि भाग के नौ सौ योजन नीचे का लोक अधोलोक है। इसका आकार उन्टा किये हुए शराव ( सकोरे ) जैसा है। यह कुछ अधिक सात राजू परिमाण है।

तिर्यक्लोकः—ऊर्ध्वलोक और अधोलोक के बीच में अठारह सौ योजन परिमाण तिर्छा रहा हुआ लोक तिर्यक्लोक है। इसका आकार झालर या पूर्ण चन्द्रमा जैसा है।

( लोक प्रकाश भाग २ सर्ग १२ )

( अभिधान राजेन्द्रकोष भाग ६ पृष्ठ ६६७ )

( भगवती शतक ११ उ० १० सू० ४२० )

६६—जन्म की व्याख्या और भेदः—पूर्व भव का स्थूल शरीर छोड़ कर जीव तैजस और कार्मण शरीर के साथ विग्रह गति द्वारा अपने नवीन उत्पत्ति स्थान में जाता है। वहां नवीन भव योग्य स्थूल शरीर के लिए पहले पहल आहार ग्रहण करना जन्म कहलाता है।

जन्म के तीन भेदः—

( १ ) सम्मूर्च्छिम, ( २ ) गर्भ, ( ३ ) उपपात ।

सम्मूर्च्छिम जन्मः—माता पिता के संयोग के बिना उत्पत्ति स्थान मे रहे हुए औदारिक पुद्गलों को शरीर के लिए ग्रहण करना सम्मूर्च्छिम जन्म कहलाता है ।

गर्भजन्मः—उत्पत्ति स्थान में रहे हुए पुरुष के शुक्र और स्त्री के शोणित के पुद्गलों को शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भजन्म है । अर्थात् माता पिता के संयोग होने पर जिसका शरीर बने उसके जन्म को गर्भ जन्म कहते हैं ।

गर्भ से होने वाले जीव तीन प्रकार के होते हैं ।

( १ ) अण्डज ( २ ) पोतज ( ३ ) जरायुज ।

उपपात जन्मः—जो जीव देवों की उपपात शय्या तथा नारक्रियों के उत्पत्ति (कुम्भी) स्थान में पहुँचते ही अन्तर्मुद्घूर्त् में वैक्रिय पुद्गलों को ग्रहण करके युवावस्था को पहुँच जाय उसके जन्म को उपपात जन्म कहते हैं ।

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय २ सूत्र ३२ )

६७—योनि की व्याख्या और भेदः—उत्पत्ति स्थान अर्थात् जिस स्थान में जीव अपने कार्मण शरीर को औदारिकादि स्थूल शरीर के लिए ग्रहण क्रिये हुए पुद्गलों के साथ एक-मेक कर देता है । उसे योनि कहते हैं ।

योनि के भेद इस प्रकार हैंः—

(१) सचित्त	(२) अचित्त	(३) सचित्ताचित्त
(१) शीत	(२) उष्ण	(३) शीतोष्ण
(१) संवृत्त	(२) विवृत्त	(३) संवृत्तविवृत्त ।

**सचित्त योनिः—**जो योनि जीव प्रदेशों में व्याप्त हो उसे सचित्त योनि कहते हैं ।

**अचित्त योनिः—**जो योनि जीव प्रदेशों से व्याप्त न हो उसे अचित्त योनि कहते हैं ।

**सचिचाचित्त योनिः—**जो योनि किसी भाग में जीवयुक्त हो और किसी भाग में जीव रहित हो उसे सचिचाचित्त योनि कहते हैं ।

देव और नारकियों की अचित्त योनि होती है । गर्भज जीवों की मिश्र योनि (सचिचाचित्त योनि) और शेष जीवों की तीनों प्रकार की योनियाँ होती हैं ।

**शीत योनिः—**जिस उत्पत्ति स्थान में शीत स्पर्श हो उसे शीत योनि कहते हैं ।

**उष्ण योनिः—**जिस उत्पत्ति स्थान में उष्ण स्पर्श हो वह उष्ण योनि है ।

**शीतोष्ण योनिः—**जिस उत्पत्ति स्थान में कुछ शीत और कुछ उष्ण स्पर्श हो उसे शीतोष्ण योनि कहते हैं ।

देवता और गर्भज जीवों के शीतोष्ण योनि, तेज-स्काय के उष्ण योनि, नारकीय जीवों के शीत और उष्ण योनि तथा शेष जीवों के तीनों प्रकार की योनियाँ होती हैं ।

**संवृत्त योनिः—**जो उत्पत्ति स्थान ढंका हुआ या दवा हुआ हो उसे संवृत्त योनि कहते हैं ।

**विवृत्त योनिः—**जो उत्पत्ति स्थान खुला हुआ हो उसे विवृत्त योनि कहते हैं ।

**संवृत्तविवृत्त योनिः—**जो उत्पत्ति स्थान कुछ ढंका हुआ और

कुछ खुला हुआ हो उसे संवृत्त विवृत्त योनि कहते हैं।  
नारक, देव और एकेन्द्रिय जीवों के संवृत्त, गर्भज जीवों  
के संवृत्त विवृत्त और शेष जीवों के विवृत्त योनि होती है।

( ठाण्णाग ३ उद्देशा १ सूत्र १४० )  
( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय २ सूत्र ३३ )

६८—वेद की व्याख्या और उसके भेदः—मैथुन करने की  
अभिलाषा को वेद ( भाव वेद ) कहते हैं। यह नोकपाय  
मोहनीय कर्म के उदय से होता है।

स्त्री पुरुष आदि के बाह्य चिन्ह द्रव्यवेद हैं। ये नाम  
कर्म के उदय से प्रकट होते हैं।

वेद के तीन भेदः—(१) स्त्री वेद (२) पुरुषवेद (३) नपुंसक वेद।

स्त्री वेद—जैसे पित्त के वश से मधुर पदार्थ की रुचि होती है।  
उसी प्रकार जिस कर्म के उदय से स्त्री को पुरुष के साथ  
रमण करने की इच्छा होती है। उसे स्त्री वेद कहते हैं।

पुरुष वेद—जैसे कफ के वश से खट्टे पदार्थ की रुचि होती है।  
वैसे ही जिस कर्म के उदय से पुरुष को स्त्री के साथ रमण  
करने की इच्छा होती है। उसे पुरुष वेद कहते हैं।

नपुंसक वेद—जैसे पित्त और कफ के वश से मद्य के प्रति  
रुचि होती है। उसी तरह जिस कर्म के उदय से नपुंसक  
को स्त्री और पुरुष दोनों के साथ रमण करने की अभिलाषा  
होती है। उसे नपुंसक वेद कहते हैं।



नोट—इन तीनों, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और ननुंसकवेद का स्वरूप समझाने के लिए क्रमशः करीषामि ( आर्ये की आग ) वृषामि और नगरदाह के दृष्टान्त दिये जाते हैं ।

( अम्बिवान राजेन्द्र शेष भाग ३ पृष्ठ १४२५ )

( बृहत्कल्प उद्देशा ४ ) ( कर्मग्रन्थ पहला भाग गाथा २२ )

६९—जीव के तीन भेद—

( १ ) संयत ( २ ) असंयत ( ३ ) मंयतामंयत ।

संयत—जो सर्व साधन व्यापार में निवृत्त हो गया है । ऐसे ऋते में चौदहवें गुणस्थानवर्ती, और मामाधिक आदि मंयम वाले प्राणु को संयत कहते हैं ।

असंयत—पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान वाले अकिरति जीव को असंयत कहते हैं ।

मंयतामंयत—जो कुछ अंशों में तो किरति का भोजन करता है और कुछ अंशों में नहीं करता ऐसे देशकिरति को अयान् षष्ठम गुणस्थानवर्ती प्राणु को मंयतामंयत कहते हैं ।

( मत्स्यगी शतक ३ उद्देशा ३ सूत्र २३७ )

७०—वनस्पति के तीन भेद—

( १ ) संख्यात जीविक ( २ ) असंख्यात जीविक

( ३ ) अनन्त जीविक ।

संख्यात जीविक—जिन वनस्पति में संख्यात जीव हों उन्हें संख्यात जीविक वनस्पति कहते हैं । जैसे नासि से लगा हुआ फूल ।

असंख्यात जीविकः—जिस वनस्पति में असंख्यात जीव हों उसे असंख्यात जीविक वनस्पति कहते हैं। जैसे निम्ब, आम आदि के मूल, कन्द, स्कन्ध, छाल, शाखा, अंकुर वगैरह। अनन्त जीविकः—जिस वनस्पति में अनन्त जीव हों उसे अनन्त जीविक वनस्पति कहते हैं। जैसे जमीकंद—आलू आदि।

( ठाणाग ३ उ० १ सूत्र १४१ )

७१—मनुष्य के तीन भेद—

(१) कर्म भूमिज (२) अकर्म भूमिज (३) अन्तर द्वीपिक।

कर्मभूमिज—कृषि (खेती), वाणिज्य, तप, संयम, अनुष्ठान वगैरह कर्म प्रधान भूमि को कर्म भूमि कहते हैं। पांच भरत पांच ऐरावत पांच महाविदेह क्षेत्र ये १५ क्षेत्र कर्म भूमि हैं। कर्म भूमि में उत्पन्न मनुष्य कर्म-भूमिज कहलाते हैं। ये असि, मसि और कृषि इन तीन कर्मों द्वारा निर्वाह करते हैं।

अकर्म भूमिज—कृषि (खेती), वाणिज्य, तप, संयम, अनुष्ठान वगैरह कर्म जहां नहीं होते उसे अकर्म भूमि कहते हैं। पांच हैमवत, पांच हैरएयवत, पांच हरिचर्प, पांच रम्यकवर्प, पांच देवकुरु और पांच उत्तरकुरु ये तीस क्षेत्र अकर्म भूमि हैं। इन क्षेत्रों में उत्पन्न मनुष्य अकर्म-भूमिज कहलाते हैं। यहां असि, मसि और कृषि का व्यापार नहीं होता। इन क्षेत्रों में दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। इन्हीं से अकर्म-भूमिज मनुष्य निर्वाह करते हैं। कर्म न करने से एवं कल्पवृक्षों द्वारा भोग प्राप्त होने से इन क्षेत्रों को भोग-भूमि और यहां के मनुष्यों को भोग-भूमिज कहते हैं। यहां स्त्री पुरुष

जोड़े से जन्म लेते हैं। इसलिये इन्हें जुगलिया भी कहते हैं।

अन्तर द्वीपिकः—लवण समुद्र में चुन्न हिमवन्त पर्वत के पूर्व और पश्चिम में दो दो दाढ़े हैं। इसी प्रकार शिखरी पर्वत के भी पूर्व और पश्चिम में दो दो दाढ़े हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सात द्वीप हैं। इस प्रकार दोनों पर्वतों की आठ दाढ़ों पर छप्पन द्वीप हैं। लवण समुद्र के बीच में होने से अथवा परस्पर द्वीपों में अन्तर होने से इन्हें अन्तरद्वीप कहते हैं। अकर्म भूमि की तरह इन अन्तर द्वीपों में भी कृषि, वाणिज्य आदि किसी भी तरह के कर्म नहीं होते। यहां पर भी कल्पवृक्ष होते हैं। अन्तर द्वीपों में रहने वाले मनुष्य अन्तरद्वीपिक कहलाते हैं। ये भी जुगलिया हैं।

( ठाणांग ३ उद्देशा १ सूत्र १३० )

( पन्नवणा प्रथम पद सू० ३७ )

( जीवाभिगम सूत्र प्रति० ३ सू० १०७ )

७२—कर्म तीनः—

(१) असि (२) मसि (३) कृषि ।

असिकर्मः—तलवार आदि शस्त्र धारण कर उससे आजीविका करना असिकर्म है। जैसे सेना की नौकरी।

मसिकर्मः—लेखन द्वारा आजीविका करना मसिकर्म है।

कृषिकर्मः—खेती द्वारा आजीविका करना कृषिकर्म है।

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग १ पृष्ठ ८४६ )

( जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३ उद्देशा ३ सू० १११ )

( तन्दुल वयाली पयन्ना सु० १४-१५ पृ० ४० )

७३—तीन अच्छेद्य —

(१) समय (२) प्रदेश (३) परमाणु ।

समय:—काल के अत्यन्त सूक्ष्म अंश को, जिसका विभाग न हो सके, समय कहते हैं ।

प्रदेश:—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय के स्कन्ध या देश से मिले हुए अतिसूक्ष्म निरवयव अंश को प्रदेश कहते हैं ।

परमाणु:—स्कन्ध या देश से अलग हुए निरंश पुद्गल को परमाणु कहते हैं ।

इन तीनों का छेदन, भेदन, दहन, ग्रहण नहीं हो सकता । दो विभाग न हो सकने से ये अविभागी हैं । तीन विभाग न हो सकने से ये मध्य रहित हैं । ये निरवयव हैं । इस लिए इनका विभाग भी संभव नहीं है ।

( ठाण्ण ३ उद्देशा २ सूत्र १६६ )

७४—जिन तीन:—

( १ ) अवधि ज्ञानी जिन ( २ ) मनःपर्यय ज्ञानी जिन  
( ३ ) केवल ज्ञानी जिन ।

राग द्वेष (मोह) को जीतने वाले जिन कहलाते हैं । केवल ज्ञानी तो सर्वथा राग द्वेष को जीतने वाले एवं पूर्ण निश्चय-प्रत्यक्ष ज्ञानशाली होने से साक्षात् (उपचार रहित) जिन हैं । अवधि ज्ञानी और मनःपर्यय ज्ञानी निश्चय-प्रत्यक्ष ज्ञान वाले होते हैं । इस लिए वे भी जिन सरीखे होने से

जिन कहलाते हैं । ये दोनों उपचार से जिन हैं और निश्चय-  
प्रत्यक्ष ज्ञान ही उपचार का कारण है ।

( ठाणांग ३ उद्देशा ४ सूत्र २२० )

७५—दुःसंज्ञाप्य तीनः—जो दुःख पूर्वक कठिनता से समझाये  
जाते हैं । वे दुःसंज्ञाप्य कहलाते हैं ।

दुःसंज्ञाप्य तीनः—( १ ) द्विष्ट ( २ ) मूढ ( ३ ) व्युद्ग्राहित ।

द्विष्टः—तत्त्व या व्याख्याता के प्रति द्वेष होने से जो जीव उपदेश  
अङ्गीकार नहीं करता वह द्विष्ट है । इस लिए वह दुःसंज्ञाप्य  
होता है ।

मूढः—गुण दोष का अज्ञान, अचिवेकी, मूढ़ पुरुष व्याख्याता  
के ठीक उपदेश का अनुसरण यथार्थ रूप से नहीं करता ।  
इस लिए वह दुःसंज्ञाप्य होता है ।

व्युद्ग्राहितः—कुव्याख्याता के उपदेश से विपरीत धारणा  
जिसमें जड़ पकड़ गई हो उसे समझाना भी कठिन है । इस  
लिए व्युद्ग्राहित भी दुःसंज्ञाप्य होता है ।

( ठाणांग ३ उद्देशा ४ सूत्र २०३ )

७६—धर्म के तीन भेद—

( १ ) श्रुत धर्म ( २ ) चारित्र धर्म

( ३ ) अस्तिकाय धर्म ।

नोट—बोल नम्बर १८ में श्रुतधर्म और चारित्र धर्म की  
व्याख्या दी जा चुकी है ।

अस्तिकाय धर्मः—धर्मास्तिकाय आदि को अस्तिकाय धर्म कहते हैं ।

( ठाणांग ३ उ० ३ सूत्र १८८ )

(१) सुअधीत, (२) सुध्यात और (३) सुतप के भेद से भी धर्म तीन प्रकार का है:—

(१) सुअधीत:—

काल विनय आदि की आराधना पूर्वक गुरु के पास से सूत्र रूप से पढा हुआ ज्ञान सुअधीत कहलाता है ।

(२) सुध्यात:—

गुरु के पास से उन्ही सूत्रों का अर्थ सुन कर हृदय में धारण करना सुध्यात कहलाता है ।

(३) सुतप:—

इहलोकादि की आशंका से रहित तप सुतप (सुतपस्थित) कहलाता है ।

( ठा० ३ उ० ४ सूत्र २१७ )

७७ दर्शन के तीन भेद —

(१) मिथ्या दर्शन (२) सम्यग् दर्शन (३) मिश्र दर्शन ।

(ठाणाग ३ सूत्र १८४)

मिथ्या दर्शन—मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से अदेव में देवबुद्धि और अधर्म में धर्मबुद्धि आदि रूप आत्मा के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं ।

( भगवती शतक ८ उद्देशा २ )

सम्यग् दर्शन—मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय उपशम या क्षयोपशम से आत्मा में जो परिणाम होता है उसे सम्यग् दर्शन कहते हैं । सम्यग् दर्शन हो जाने पर मति आदि अज्ञान भी सम्यग् ज्ञान रूप में परिणत हो जाते हैं ।

मिश्र दर्शन:—मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से आत्मा में कुछ अयथार्थ तत्त्व श्रद्धान होने को मिश्र दर्शन कहते हैं ।

( भ० श० ८ उ० २ सूत्र ३२० )

( ठा० ३ उ० ३ सूत्र १८४ )

७८—करण की व्याख्या और भेद:—आत्मा के परिणाम विशेष को करण कहते हैं । करण के तीन भेद:—

- ( १ ) यथाप्रवृत्तिकरण ( २ ) अपूर्वकरण  
( ३ ) अनिवृत्तिकरण ।

यथाप्रवृत्तिकरणः—आयु कर्म के सिवाय शेष सात कर्मों में प्रत्येककी स्थिति को अन्तः कोटाकोटि सागरोपम परिमाण रख कर बाकी स्थिति को क्षय कर देने वाले समकित के अनुकूल आत्मा के अध्यक्षवसाय विशेष को यथाप्रवृत्तिकरण कहते हैं ।

अन्तःकोड़ाकोड़ी (कोटाकोटि) का आशय एक कोड़ा-कोड़ी में पल्योपम के असंख्यातवें भाग न्यून स्थिति से है ।

अनादि कालीन मिथ्यात्वी जीव कर्मों की स्थिति को इस करण में उसी प्रकार घटाता है जिस प्रकार नदी में पड़ा हुआ पत्थर घिसते घिसते गोल हो जाता है अथवा घुणाक्षर न्याय से यानि घुण कीट से कुतराते कुतराते जिस प्रकार काठ में अक्षर बन जाते हैं ।

यथाप्रवृत्ति करण करने वाला जीव ग्रन्थिदेश-राग द्वेष की तीव्रतम गांठ के निकट आ जाता है पर उस गांठ का भेद नहीं कर सकता । अभव्य जीव भी यथाप्रवृत्ति करण कर सकते हैं ।

अपूर्व करणः—भव्य जीव यथाप्रवृत्ति करण से अधिक विशुद्ध परिमाण पा सकता है और शुद्ध परिणामों में रागद्वेष की तीव्रतम गांठ को छिन्न भिन्न कर सकता है । जिस परिणाम विशेष से भव्य जीव राग द्वेष की दुर्भेद्य ग्रन्थि को लांघ जाता है—नष्ट कर देता है । उस परिणाम को अपूर्व करण करते हैं ।

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२०२ से १२१८ )

नोटः—ग्रन्थिभेद के काल के विषय में मतभेद है । कोई आचार्य तो अपूर्व करण में ग्रन्थिभेद मानते हैं और कोई

अनिवृत्तिकरण में। और यह भी मन्तव्य है कि अपूर्वकरण में ग्रन्थि भेद आरम्भ होता है और अनिवृत्तिकरण में पूर्ण होता है। अपूर्वकरण दुबारा होता है या नहीं, इस विषय में भी दो मत हैं।

**अनिवृत्तिकरणः—**अपूर्वकरण परिणाम से जब राग द्वेष की गांठ टूट जाती है। तब तो और भी अधिक विशुद्ध परिणाम होता है। इस विशुद्ध परिणाम को अनिवृत्तिकरण कहते हैं। अनिवृत्तिकरण करने वाला जीव समकित को अवश्य प्राप्त कर लेता है।

(आवश्यक मलयगिरि गाथा १०६-१०७ टीका)

(विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२०२ से १२१८)

(प्रवचनसारोद्धार द्वार २२४ गाथा १३०२ टीका)

(कर्म ग्रन्थ दूसरा भाग गाथा २ टीका)

(आगमसार)

७६—मोक्ष मार्ग के तीन भेदः—

(१) सम्यग्दर्शन (२) सम्यग्ज्ञान (३) सम्यक् चारित्र।

**सम्यग्दर्शनः—**तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं। मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से यह उत्पन्न होता है।

**सम्यग्ज्ञानः—**प्रमाण और नय से होने वाला जीवादि तत्त्वों का यथार्थ ज्ञान सम्यग्ज्ञान है। वीर्यान्तराय कर्म के साथ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम होने से यह उत्पन्न होता है।

**सम्यग्चारित्रः—**संसार की कारणभूत हिंसादि क्रियाओं का त्याग करना और मोक्ष की कारणभूत सामायिक आदि



क्रियाओं का पालन करना सम्यग्चारित्र है। चारित्र मोहनीय के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से यह उत्पन्न होता है।

( उत्तराध्ययन अध्ययन २८ गाथा ३० )

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय १ सूत्र १ )

८०—समकित के दो प्रकार से तीन भेद—

- |            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| (१) कारक   | (२) रोचक    | (३) दीपक।        |
| (१) औपशमिक | (२) क्षायिक | (३) क्षायोपशमिक। |

**कारक समकितः**—जिस समकित के होने पर जीव सदनुष्ठान में श्रद्धा करता है। स्वयं सदनुष्ठान का आचरण करता है तथा दूसरों से करवाता है। वह कारक समकित है। यह समकित विशुद्ध चारित्र वाले के समझनी चाहिए।

**रोचक समकितः**—जिस समकित के होने पर जीव सदनुष्ठान में सिर्फ रुचि रखता है। परन्तु सदनुष्ठान का आचरण नहीं करता वह रोचक समकित है। यह समकित चौथे गुणस्थान-वर्ती जीव के जाननी चाहिए। जैसे श्रीकृष्णजी, श्रेणिक महाराज आदि।

**दीपक समकित**—जो मिथ्या दृष्टि स्वयं तत्त्वश्रद्धान से शून्य होते हुए दूसरों में उपदेशादि द्वारा तत्त्व के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करता है उसकी समकित दीपक समकित कहलाती है। दीपक समकितधारी मिथ्यादृष्टि जीव के उपदेश आदि रूप परिणाम द्वारा दूसरों में समकित उत्पन्न होने से उसके

परिणाम दूसरों की समकित में कारण रूप हैं । समकित के कारण में कार्य का उपचार कर आचार्यों ने इसे समकित कहा है । इस लिए मिथ्या दृष्टि में उक्त समकित होने के सम्बन्ध में कोई शंका का स्थान नहीं है ।

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा २६७५ पृष्ठ १०६४ )

( द्रव्य लोक प्रकाश तीसरा सर्ग ६६८ से ६७० )

( धर्मसग्रह अधिकार २ श्लो० २२ टी० पृ० ३६ )

( श्रावक प्रज्ञप्ति गा० ४६-५० )

औपशमिक समकित:—दर्शन मोहनीय की तीनों और अनन्तानुवन्धी की चारों प्रकृतियों के उपशम से होने वाला आत्मा का परिणाम औपशमिक समकित है । औपशमिक समकित सर्व प्रथम समकित पाने वाले तथा उपशम श्रेणी में रहे हुए जीवों के होता है ।

ज्ञायिक समकित:—अनन्तानुवन्धी चार कपायों के और दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों के क्षय होने पर जो परिणाम विशेष होता है वह ज्ञायिक समकित है ।

ज्ञायोपशमिक समकित:—उदय प्राप्त मिथ्यात्व के क्षय से और अनुदय प्राप्त मिथ्यात्व के उपशम से तथा समकित मोहनीय के उदय से होने वाला आत्मा का परिणाम ज्ञायोपशमिक सम्यक्त्व है ।

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ३ पृष्ठ ६६१ )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १४६ गाथा ६४३ से ६४५ )

( कर्म ग्रन्थ पहला भाग गाथा १५ )

८१-समकित के तीन लिंग:—

( १ ) श्रुत धर्म में राग ( २ ) चारित्र्य धर्म में राग

( ३ ) देव गुरु की वैयावच्च का नियम ।

श्रुत धर्म में रागः—जिस प्रकार तरुण पुरुष रङ्ग राग में अनुरक्त रहता है उससे भी अधिक शास्त्र-श्रवण में अनुरक्त रहना ।

चारित्र धर्म में रागः—जिस प्रकार तीन दिन का भूखा मनुष्य खीर आदि का आहार रुचि पूर्वक करना चाहता है उससे भी अधिक चारित्र धर्म पालने की इच्छा रखना ।

देवगुरु की वैयावच्च का नियमः—देव और गुरु में पुज्य भाव रखना और उनका आदर सत्कार रूप वैयावच्च का नियम करना ।

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १५८ गाथा ६२६ )

८२—समकित की तीन शुद्धियाँः—जिनेश्वर देव, जिनेश्वर देव द्वारा प्रतिपादित धर्म और जिनेश्वर देव की आज्ञानुसार विचरने वाले साधु । ये तीनों ही विश्व में सारभूत हैं । ऐसा विचार करना समकित की तीन शुद्धियाँ हैं ।

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १५८ गाथा ६३२ )

८३—आगम की व्याख्या और भेदः—राग-द्वेष रहित, सर्वज्ञ, हितोपदेशक महापुरुष के वचनों से होने वाला अर्थज्ञान आगम कहलाता है । उपचार से प्राप्त वचन भी आगम कहा जाता है ।

( प्रमाणनयतत्त्वालोकालङ्कार परिच्छेद ४ )

आगम के तीन भेदः—

(१) सूत्रागम            (२) अर्थागम            (३) तदुभयागम ।

सूत्रागमः—मूल रूप आगम को सूत्रागम कहते हैं ।

अर्थागमः—सूत्र-शास्त्र के अर्थ रूप आगम को अर्थागम कहते हैं ।

तदुभयागमः—सूत्र और अर्थ दोनों रूप आगम को तदुभयागम कहते हैं ।

( अनुयोगद्वार सूत्र १४४ )

आगम के तीन और भी भेद हैंः—

(१) आत्मागम (२) अनन्तरागम (३) परम्परागम ।

आत्मागमः—गुरु के उपदेश विना स्वयमेव आगम ज्ञान होना आत्मागम है । जैसेः—तीर्थङ्करों के लिए अर्थागम आत्मागम रूप है और गणधरों के लिए सूत्रागम आत्मागम रूप है ।

अनन्तरागमः—स्वयं आत्मागम धारी पुरुष से प्राप्त होने वाला आगमज्ञान अनन्तरागम है । गणधरों के लिए अर्थागम अनन्तरागम रूप है । तथा जम्बूस्वामी आदि गणधरों के शिष्यों के लिए सूत्रागम अनन्तरागम रूप है ।

परम्परागमः—साक्षात् आत्मागम धारी पुरुष से प्राप्त न होकर जो आगम ज्ञान उनके शिष्य प्रशिष्यादि की परम्परा से आता है वह परम्परागम है । जैसे जम्बूस्वामी आदि गणधर-शिष्यों के लिए अर्थागम परम्परागम रूप है तथा इनके परचात् के सभी के लिए सूत्र एवं अर्थ रूप दोनों प्रकार का आगम परम्परागम है ।

( अनुयोगद्वार प्रमाणाधिकार सूत्र १४४ )

८४—पुरुष के तीन प्रकारः—

(१) सूत्रधर (२) अर्थधर (३) तदुभयधर ।

सूत्रधरः—सूत्र को धारण करने वाले शास्त्र पाठक पुरुष को सूत्रधर पुरुष कहते हैं ।

अर्थधरः— शास्त्र के अर्थ को धारण करने वाले अर्थवेत्ता पुरुष को अर्थधर पुरुष कहते हैं ।

तदुभयधरः— सूत्र और अर्थ दोनों को धारण करने वाले शास्त्रार्थवेत्ता पुरुष को तदुभयधर पुरुष कहते हैं

( ठाणांग ३ उद्देशा ३ सूत्र १६६ )

८५—व्यवसाय की व्याख्या और भेदः—वस्तु स्वरूप के निश्चय को व्यवसाय कहते हैं ।

व्यवसाय के तीन भेदः—

(१) प्रत्यक्ष (२) प्रात्ययिक (३) आनुगमिक (अनुमान) ।

प्रत्यक्ष व्यवसायः—अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष व्यवसाय कहते हैं अथवा वस्तु के स्वरूप को स्वयं जानना प्रत्यक्ष व्यवसाय है ।

प्रात्ययिक व्यवसायः—इन्द्रिय एवं मन रूप निमित्त से होने वाला वस्तुस्वरूप का निर्णय प्रात्ययिक व्यवसाय कहलाता है। अथवा आप्त (वीतराग) के वचन द्वारा होने वाला वस्तु स्वरूप का निर्णय प्रात्ययिक व्यवसाय है ।

आनुगमिक व्यवसायः—साध्य का अनुसरण करने वाला एवं साध्य के विना न होने वाला हेतु अनुगामी कहलाता है । उस हेतु से होने वाला वस्तु स्वरूप का निर्णय आनुगमिक व्यवसाय है ।

( ठाणांग ३ उद्देशा ३ सूत्र १८५ )

८६—आराधना तीनः—अतिचार न लगाते हुए शुद्ध आचार का पालन करना आराधना है ।

आराधना के तीन भेदः—

(१) ज्ञानाराधना (२) दर्शनाराधना (३) चारित्र्याराधना ।

ज्ञानाराधना:—ज्ञान के काल, विनय, बहुमान आदि आठ आचारों का निर्दोष रीति से पालन करना ज्ञानाराधना है ।

दर्शनाराधना:—शंका, कांक्षा आदि समकित के अतिचारों को न लगाते हुए निःशंकित आदि समकित के आचारों का शुद्धता पूर्वक पालन करना दर्शनाराधना है ।

चारित्र्याराधना:—सामायिक आदि चारित्र्य में अतिचार न लगाते हुए निर्मलता पूर्वक उसका पालन करना चारित्र्याराधना है ।

( ठाण्णाग ३ उद्देशा ४ सूत्र १६५ )

८७-विराधना:—ज्ञानादि का सम्यक् रीति से आराधन न करना उनका खण्डन करना, और उन में दोष लगाना विराधना है ।

विराधना के तीन भेद:—

(१) ज्ञान विराधना (२) दर्शन विराधना

(३) चारित्र्य विराधना ।

ज्ञान विराधना:—ज्ञान एवं ज्ञानी की अशातना, अपलाप आदि द्वारा ज्ञान की खण्डना करना ज्ञान विराधना है ।

दर्शनविराधना:—जिन वचनों में शंका करने, आडम्बर देख कर अन्त्यमत की इच्छा करने, सम्यक्त्व धारी पुरुष की निन्दा करने, मिथ्यात्वी की प्रशंसा करने आदि से समकित की विराधना करना दर्शन विराधना है ।

चारित्र्य विराधना:—सामायिक आदि चारित्र्य की विराधना करना चारित्र्य विराधना है ।

( समवायांग सूत्र ३ )

८८—श्रमणोपासक-श्रावक के तीन मनोरथः—

- १—पहले मनोरथ में श्रावकजी यह भावना भावें कि कब वह शुभ समय प्राप्त होगा। जब मैं अन्य या अधिक परिग्रह का त्याग करूंगा।
- २—दूसरे मनोरथ में श्रावकजी यह चिन्तन करें कि कब वह शुभ समय प्राप्त होगा। जब मैं गृहस्थ्यावास को छोड़ कर मुँडित होकर प्रव्रज्या अंगीकार करूंगा।
- ३—तीसरे मनोरथ में श्रावकजी यह विचार करें कि कब वह शुभ अवसर प्राप्त होगा। जब मैं अन्त समय में संलेखना स्वीकार कर, आहार पानी का त्याग कर, पादोपगमन मरण अंगीकार कर जीवन-मरण की इच्छा न करता हुआ रहूंगा।

इन तीन मनोरथों का मन, वचन, काया से चिन्तन करता हुआ श्रमणोपासक ( श्रावक ) महानिर्जरा एवं महापर्यवसान ( प्रसप्त अन्त ) वाला होता है।

( ठाण्णं ३ उहेगा ४ सूत्र २१० )

८९—सर्व विरति साधु-के तीन मनोरथः—

- ( १ ) पहले मनोरथ में साधुजी यह विचार करें कि कब वह शुभ समय आवेगा। जिस समय मैं थोड़ा या अधिक शास्त्र ज्ञान सीखूंगा।
- ( २ ) दूसरे मनोरथ में साधुजी यह विचार करें कि कब वह शुभ समय आवेगा जब मैं एकल विहार की भिक्षु-प्रतिमा ( भिक्षु पटिमा ) अङ्गीकार कर विचरूंगा।

( ३ ) तीसरे मनोरथ में साधुजी यह चिन्तवन करें कि कब वह शुभ समय आवेगा जब मैं अन्त समय में संलेखना स्वीकार कर, आहार पानी का त्याग कर, पादोपगमन मरण अङ्गीकार कर, जीवन-मरण की इच्छा न करता हुआ विचरूँगा ।

इन तीन मनोरथों की मन, वचन, काया से चिन्तवना आदि करता हुआ साधु महानिर्जरा एवं महापर्यवसान ( प्रशस्त अन्त ) वाला होता है ।

( ठाणग ३ उद्देशा ४ सूत्र २१० )

६०—वैराग्य की व्याख्या और उसके भेदः—

पांच इन्द्रियों के विषय भोगों से उदासीन—विरक्त होने को वैराग्य कहते हैं । वैराग्य के तीन भेदः—

( १ ) दुःखगर्भित वैराग्य ( २ ) मोहगर्भित वैराग्य  
( ३ ) ज्ञानगर्भित वैराग्य ।

दुःखगर्भित वैराग्यः—किसी प्रकार का संकट आने पर विरक्त होकर जो कुटुम्ब आदि का त्याग किया जाता है । वह दुःखगर्भित वैराग्य है । यह जघन्य वैराग्य है ।

मोहगर्भित वैराग्यः—इष्ट जन के मर जाने पर मोहवश जो मुनि-व्रत धारण किया जाता है । वह मोहगर्भित वैराग्य है । यह मध्यम वैराग्य है ।

ज्ञानगर्भित वैराग्यः—पूर्व संस्कार अथवा गुरु के उपदेश से आत्म-ज्ञान होने पर इस असार संसार का त्याग करना ज्ञानगर्भित वैराग्य है । यह वैराग्य उत्कृष्ट है ।

( कर्त्तव्य कौमुदी दूसरा भाग पृष्ठ ७०-७१  
श्लोक ११८ से ११६ वैराग्य प्रकरण द्वितीय परिच्छेद )



६१—स्थविर तीन;—

( १ ) वयःस्थविर ( २ ) सूत्रस्थविर

( ३ ) प्रब्रज्या स्थविर ।

वयःस्थविर ( जाति स्थविर ) साठ वर्ष की अवस्था के साधु वयःस्थविर कहलाते हैं ।

सूत्रस्थविर;—श्रीस्थानांग (ठाणांग) और समवायांग सूत्र के ज्ञाता साधु सूत्रस्थविर कहलाते हैं ।

प्रब्रज्यास्थविर;—बीस वर्ष की दीक्षापर्याय वाले साधु प्रब्रज्या स्थविर कहलाते हैं ।

( ठाणांग ३ उद्देशा ३ सूत्र १५६ )

६२—भाव इन्द्र के तीन भेद;—

( १ ) ज्ञानेन्द्र ( २ ) दर्शनेन्द्र ( ३ ) चारित्रेन्द्र ।

ज्ञानेन्द्र;—अतिशयशाली, श्रुत आदि ज्ञानों में से किसी ज्ञान द्वारा वस्तु तत्त्व का विवेचन करने वाले, अथवा केवल ज्ञानी को ज्ञानेन्द्र कहते हैं ।

दर्शनेन्द्र;—द्वैयिक सम्यग्दर्शन वाले पुरुष को दर्शनेन्द्र कहते हैं ।

चारित्रेन्द्र;—यथाख्यात चारित्र वाले मुनि को चारित्रेन्द्र कहते हैं । वास्तविक-आध्यात्मिक ऐश्वर्य सम्पन्न होने से ये तीनों भावेन्द्र कहलाते हैं ।

( ठाणांग ३ उद्देशा १ सूत्र ११६ )

६३—एषणा की व्याख्या और भेद;—आहार, अधिकरण (वस्त्र, पात्र आदि साध में रखने की वस्तुएं ) शय्या (स्थानक,

पाट, पाटला ) इन तीनों वस्तुओं के शोधने में, ग्रहण करने में, अथवा उपभोग करने में, संयम धर्म पूर्वक संभाल रखना, इसे एषणासमिति कहते हैं ।

एषणासमिति के तीन भेदः—

(१) गवेषणैषणा (२) ग्रहणैषणा (३) ग्रासैषणा ।

गवेषणैषणाः—सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादना दोष, इन बत्तीस दोषों को टालकर शुद्ध आहारादि की खोज करना गवेषणैषणा है ।

ग्रहणैषणाः—एषणा के शंकित आदि दस दोषों को टाल कर शुद्ध अशनादि ग्रहण करना ग्रहणैषणा है ।

ग्रासैषणाः—गवेषणैषणा और ग्रहणैषणा द्वारा प्राप्त शुद्ध आहारादि को खाते समय मांडले के पांच दोष टालकर उपभोग करना ग्रासैषणा है ।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ गा० ११-१२ )

६४-करण के तीन भेदः—

(१) आरम्भ (२) संरम्भ (३) समारम्भ ।

( ठाणांग ३ सूत्र १२४ )

आरम्भः—पृथ्वी काय आदि जीवों की हिंसा करना आरम्भ कहलाता है ।

संरम्भः—पृथ्वी काय आदि जीवों की हिंसा विषयक मन में संक्रिष्ट परिणामों का लाना संरम्भ कहलाता है ।

समारम्भः—पृथ्वी काय आदि जीवों को सन्ताप देना समारम्भ कहलाता है ।

( ठाणांग ३ उद्देशा १ सूत्र १२४ )

६५—योग की व्याख्या और भेदः—

वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय होने पर मन, वचन, काया के निमित्त से आत्मप्रदेशों के चंचल होने को योग कहते हैं।

अथवाः—

वीर्यान्तराय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से उत्पन्न शक्ति विशेष से होने वाले साभिप्राय आत्मा के पराक्रम को योग कहते हैं।

( ठाणांग ३ उ० १ सूत्र १२४ टीका )

योग के तीन भेदः—

(१) मनोयोग (२) वचनयोग (३) काययोग।

मनोयोगः—नोइन्द्रिय मतिज्ञानावरण के क्षयोपशम स्वरूप आन्तरिक मनोलब्धि होने पर मनोवर्गणा के आलम्बन से मन के परिणाम की ओर झुके हुए आत्मप्रदेशों का जो व्यापार होता है उसे मनोयोग कहते हैं।

वचनयोगः—मति ज्ञानावरण, अक्षर श्रुत ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम से आन्तरिक वाग्लब्धि उत्पन्न होने पर वचन वर्गणा के आलम्बन से भाषापरिणाम की ओर अभिमुख आत्मप्रदेशों का जो व्यापार होता है। उसे वचनयोग कहते हैं।

काययोगः—औदारिक आदि शरीर वर्गणा के पुद्गलों के आलम्बन से होने वाले आत्मप्रदेशों के व्यापार को काय-योग कहते हैं।

( ठाणांग ३ उ० १ सूत्र १२४ )

( तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ६ सू० १ )

६६—दण्ड की व्याख्या और भेदः—जो चारित्र रूपी आध्यात्मिक ऐश्वर्य का अपहरण कर आत्मा को असार कर देता है। वह दण्ड है।

( समवायांग ३ )

अथवाः—

प्राणियों को जिससे दुःख पहुँचता है उसे दण्ड कहते हैं।  
( आचारांग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ४ उद्देशा १ सूत्र १२६ टी० )

अथवाः—

मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को दण्ड कहते हैं।  
( उत्तराध्ययन अध्य० १६ )

दण्ड के तीन भेदः—

(१) मनदण्ड (२) वचनदण्ड (३) कायादण्ड।

( समवायांग ३ )

( ठाणांग ३ उद्देशा १ सूत्र १२६ )

६७—कथा तीनः—

(१) अर्थकथा (२) धर्मकथा (३) काम कथा।

अर्थकथाः—अर्थ का स्वरूप एवं उपार्जन के उपायों को बतलाने वाली वाक्य पद्धति अर्थकथा है जैसे कामन्दकादि शास्त्र।

धर्मकथाः—धर्म का स्वरूप एवं उपायों को बतलाने वाली वाक्य-पद्धति धर्म कथा है। जैसे उत्तराध्ययन सूत्र आदि।

कामकथाः—काम एवं उस के उपायों का वर्णन करने वाली वाक्य पद्धति काम कथा है। जैसे वात्स्यायन कामसूत्र वगैरह।

( ठाणांग ३ उ० ३ सूत्र १८६ )

६८-गारव (गौरव) की व्याख्या और भेद:—

द्रव्य और भाव भेद से गौरव दो प्रकार का है। वज्रादि की गुरुता द्रव्य गौरव है। अभिमान एवं लोभ से होने वाला आत्मा का अशुभ भाव भाव गौरव (भाव गारव) है। यह संसार चक्र में परिभ्रमण कराने वाले कर्मों का कारण है।

गारव (गौरव) के तीन भेद:—

(१) ऋद्धि गौरव (२) रसगौरव (३) साता गौरव।

ऋद्धि गौरव:—राजा महाराजाओं से पूज्य आचार्य्यता आदि की ऋद्धि का अभिमान करना एवं उनकी प्राप्ति की इच्छा करना ऋद्धि गौरव है।

रसगौरव:—रसना इन्द्रिय के विषय मधुर आदि रसों की प्राप्ति से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना रसगौरव है।

सातागौरव:—साता-स्वस्थता आदि शारीरिक सुखों की प्राप्ति होने से अभिमान करना या उनकी इच्छा करना सातागौरव है।

( ठाणांग ३ उ० ४ सूत्र १२५ )

६९-ऋद्धि के तीन भेद:—

- (१) देवता की ऋद्धि (२) राजा की ऋद्धि
- (३) आचार्य की ऋद्धि।

( ठाणांग ३ उ० ४ सूत्र २१४ )

१००-देवता की ऋद्धि के तीन भेद:—

- (१) विमानों की ऋद्धि (२) विक्रिया करने की ऋद्धि
- (३) परिचारणा ( कामसेवन ) की ऋद्धि।

अथवा:—

- (१) सचित्त ऋद्धिः—अग्रमहिषी आदि सचित्त वस्तुओं की सम्पत्ति ।
- (२) अचित्त ऋद्धिः—वस्त्र आभूषण की ऋद्धि ।
- (३) मिश्र ऋद्धिः—वस्त्राभूषणों से अलंकृत देवी आदि की ऋद्धि ।

( ठाणांग ३ उ० ४ सूत्र २१४ )

१०१—राजा की ऋद्धि के तीन भेदः—

- (१) अति यान ऋद्धिः—नगर प्रवेश में तोरणवाजार आदि की शोभा, लोगों की भीड़ आदि रूप ऋद्धि अर्थात् नगर प्रवेश महोत्सव की शोभा ।
- (२) निर्याण ऋद्धिः—नगर से बाहर जाने में हाथियों की सजावट, सामन्त आदि की ऋद्धि ।
- (३) राजा के सैन्य, वाहन, खजाना और कोठार की ऋद्धि ।

अथवा:—

- (१) सचित्त ऋद्धि—पटरानी आदि अन्तःपुर ।
- (२) अचित्त ऋद्धि—वस्त्र, आभूषण आदि ।
- (३) मिश्र ऋद्धि—वस्त्राभूषणों से अलंकृत पटरानी आदि ।

( ठाणांग ३ उ० ४ सूत्र २१४ )

१०२—आचार्य्य की ऋद्धि के तीन भेदः—

- (१) ज्ञानऋद्धि (२) दर्शनऋद्धि (३) चारित्रऋद्धि ।
- (१) ज्ञान ऋद्धिः—विशिष्ट श्रुत की सम्पदा ।
- (२) दर्शन ऋद्धिः—आगम में शंका आदि से रहित होना तथा प्रवचन की प्रभावना करने वाले शास्त्रों का ज्ञान ।

(३) चारित्र ऋद्धिः--अतिचार रहित शुद्ध, उत्कृष्ट चारित्र का पालन करना ।

अथवाः--

सचित्त, अचित्त और मिश्र के भेद से भी आचार्य्य की ऋद्धि तीन प्रकार की है ।

(१) सचित्तऋद्धिः--शिष्य वगैरह ।

(२) अचित्तऋद्धिः--वस्त्र वगैरह ।

(३) मिश्रऋद्धिः--वस्त्र पहने हुए शिष्य वगैरह ।

(ठाणंग ३ उ० ४ सूत्र २१४)

१०३-आचार्य्य के तीन भेदः--

(१) शिल्पाचार्य्य (२) कलाचार्य्य (३) धर्माचार्य्य ।

शिल्पाचार्य्यः--लुहार, सुनार, शिलावट, सुथार, चितेरा इत्यादि के हुन्नर को शिल्प कहते हैं । इन शिल्पों में प्रवीण शिक्षक शिल्पाचार्य्य कहलाते हैं ।

कलाचार्य्यः--काव्य, नाट्य, संगीत, चित्रलिपि इत्यादि पुरुष की ७२ और स्त्रियों की ६४ कला को सीखाने वाले अध्यापक कलाचार्य्य कहलाते हैं ।

धर्माचार्य्यः--श्रुत चारित्र रूप धर्म का स्वयं पालन करने वाले, दूसरों को उसका उपदेश देने वाले, गच्छ के नायक, साधु मुनिराज धर्माचार्य्य कहलाते हैं ।

शिल्पाचार्य्य और कलाचार्य्य की सेवा इहलौकिक हित के लिए और धर्माचार्य्य की सेवा पारलौकिक हित-निर्जरा आदि के लिए की जाती है ।

शिल्पाचार्य और कलाचार्य की विनय भक्ति धर्माचार्य की विनय भक्ति से भिन्न प्रकार की है ।

शिल्पाचार्य और कलाचार्य को स्नान आदि कराना, उनके लिए पुष्प लाना, उनका मण्डन करना, उन्हें भोजन कराना, विपुल आजीविका योग्य प्रीतिदान देना और उनके पुत्र पुत्रियों का पालन पोषण करना, यह उनकी विनय-भक्ति का प्रकार है ।

धर्माचार्य को देखते ही उन्हें वन्दना, नमस्कार करना, उन्हें सत्कार सन्मान देना, यावत् उनकी उपासना करना, प्रासुक, एषणीय आहार पानी का प्रतिलांभ देना, एवं पीढ, फलग, शय्या, संथारे के लिए निमन्त्रण देना, यह धर्माचार्य की विनय भक्ति का प्रकार है ।

( रायप्रश्नीय सूत्र ७७ पृष्ठ १४२ )

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग २ पृष्ठ ३०३ )

१०४—शल्य तीनः—जिससे वाधा (पीड़ा) हो उसे शल्य कहते हैं । कांटा, भाला वगैरह द्रव्य शल्य हैं ।

भावशल्य के तीन भेदः—

( १ ) माया शल्य ( २ ) निदान ( नियाणा ) शल्य  
( ३ ) मिथ्या दर्शन शल्य ।

माया शल्यः—कपट भाव रखना माया शल्य है । अतिचार लगा कर माया से उसकी आलोचना न करना अथवा गुरु के समक्ष अन्य रूप से निवेदन करना, अथवा दूसरे पर झूठा आरोप लगाना माया शल्य है ।

( धर्मसंग्रह अध्याय ३ पृष्ठ ७६ श्लो० २७ )



निदान शल्यः—राजा, देवता आदि की ऋद्धि को देख कर या सुन कर मन में यह अच्यवसाय करना कि मेरे द्वारा आचरण किये हुए ब्रह्मचर्य, तप आदि अनुष्ठानों के फलस्वरूप मुझे भी ये ऋद्धियां प्राप्त हों । यह निदान (नियाणा) शल्य है ।  
मिथ्या दर्शन शल्यः—विपरीत श्रद्धा का होना मिथ्या दर्शन शल्य है ।

( धर्म० अधि० ३ पृ० ७६ श्लो० २७ ) ( समवायांग ३ )  
( ठाणांग ३ उ० ३ सूत्र १८२ )

१०५—अल्प आयु के तीन कारणः—

तीन कारणों से जीव अल्पायु फल वाले कर्म बांधते हैं ।

( १ ) प्राणियों की हिंसा करने वाला ।

( २ ) झूठ बोलने वाला ।

( ३ ) तथारूप ( साधु के अनुरूप क्रिया और वेश आदि से युक्त दान के पात्र ) श्रमण, माहण ( श्रावक ) को अप्राप्तुक, अकल्पनीय, अशन, पाण, खादिम, स्वादिम देने वाला जीव अल्पायु फल वाला कर्म बांधता है ।

( ठाणांग ३ उ० १ सूत्र १२५ )

( भगवती शतक ५ उद्देशा ६ सू० २०४ )

१०६—जीव की अशुभ दीर्घायु के तीन कारणः—तीन कारणों से जीव अशुभ दीर्घायु अर्थात् नरक आयु बांधते हैं ।

( १ ) प्राणियों की हिंसा करने वाला ।

( २ ) झूठ बोलने वाला ।

( ३ ) तथारूप श्रमण माहण की जाति प्रकाश द्वारा अवहेलना करने वाला, मन में निन्दा करने वाला, लोगों

के सामने निन्दा और गर्हणा करने वाला, अपमान करने वाला तथा अप्रीति पूर्वक अमनोज्ञ अशनादि बहराने वाला जीव अशुभ दीर्घायु फल वाला कर्म बांधता है ।

( ठाणांग ३ उ० १ सूत्र १२५ )

१०७-जीव की शुभ दीर्घायु के तीन कारणः—तीन कारणों से जीव शुभ दीर्घायु बांधता है ।

( १ ) प्राणियों की हिंसा न करने वाला ।

( २ ) झूठ न बोलने वाला ।

( ३ ) तथारूप श्रमण, माहण को वन्दना नमस्कार यावत् उनकी उपासना करके उन्हें किसी प्रकार के मनोज्ञ एवं प्रीतिकारक अशनादिक का प्रतिलाभ देने वाला अर्थात् बहराने वाला जीव शुभ दीर्घायु बांधता है ।

( भगवती शतक ५ उद्देशा ६ सूत्र २०४ )

( ठाणांग ३ उ० १ सूत्र १२५ )

१०८-पल्योपम की व्याख्या और भेदः—एक योजन लम्बे, एक योजन चौड़े और एक योजन गहरे गोलाकार कूप की उपमा से जो काल गिना जाय उसे पल्योपम कहते हैं ।

पल्योपम के तीन भेदः—

( १ ) उद्धार पल्योपम ( २ ) अद्वा पल्योपम

( ३ ) क्षेत्र पल्योपम ।

उद्धार पल्योपमः—उत्सेधांगुल परिमाण से एक योजन लम्बा, चौड़ा और गहरा कुआँ एक दो तीन यावत् सात दिन वाले देवकुरु उत्तरकुरु जुगलिया के बाल ( केश ) के अग्र-भागों से ठूस ठूस कर इस प्रकार भरा जाय कि वे बालाग्र

हवा से न उड़ सकें और आग से न जल सकें उनमें से प्रत्येक को एक एक समय में निकालते हुए जितने काल में वह कुंआ सर्वथा खाली हो जाय उस काल परिमाण को उद्धार पल्योपम कहते हैं। यह पल्योपम संख्यात समय परिमाण होता है।

उद्धार पल्योपम सूक्ष्म और व्यवहारिक के भेद से दो प्रकार का है:— उपरोक्त वर्णन व्यवहारिक उद्धार पल्योपम का है। उक्त बालाग्र के असंख्यात अदृश्य खंड किये जाय जो कि विशुद्ध लोचन वाले छत्रस्थ पुरुष के दृष्टिगोचर होने वाले सूक्ष्म पुद्गल द्रव्य के असंख्यातवें भाग एवं सूक्ष्म पनक (नीलण-फूलण) शरीर के असंख्यात गुणा हो। उन सूक्ष्म बालाग्र खण्डों से वह कुंआ ठूस ठूस कर भरा जाय और उनमें से प्रति-समय एक एक बालाग्र खण्ड निकाला जाय। इस प्रकार निकालते निकालते जितने काल में वह कुंआ सर्वथा खाली हो जाय उसे सूक्ष्म उद्धार पल्योपम कहते हैं। सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में संख्यात वर्ष कोटि परिमाण काल होता है।

अद्वा पल्योपम:—उपरोक्त रीति से भरे हुए उपरोक्त परिमाण के कूप में से एक एक बालाग्र सौ सौ वर्ष में निकाला जाय। इस प्रकार निकालते निकालते जितने काल में वह कुंआ सर्वथा खाली हो जाय उस काल परिमाण को अद्वा पल्योपम कहते हैं। यह संख्यात वर्ष कोटि परिमाण होता है। इसके भी सूक्ष्म और व्यवहार दो भेद हैं। उक्त स्वरूप व्यवहार अद्वा पल्योपम का है। यदि यही कूप उपरोक्त

सूक्ष्म बालाग्र खण्डों से भरा हो एवं उनमें से प्रत्येक बालाग्र खण्ड सौ सौ वर्ष में निकाला जाय । इस प्रकार निकालते निकालते वह कुंआ जितने काल में खाली हो जाय वह सूक्ष्म अद्वा पल्योपम है । सूक्ष्म अद्वा पल्योपम में असंख्यात वर्ष कोटि परिमाण काल होता है ।

क्षेत्र पल्योपमः—उपरोक्त परिमाण का कूप उपरोक्त रीति से बालाग्रों से भरा हो । उन बालाग्रों से जो आकाश प्रदेश छुए हुए हैं । उन छुए हुए आकाश प्रदेशों में से प्रत्येक को प्रति समय निकाला जाय । इस प्रकार सभी आकाश प्रदेशों को निकालने में जितना समय लगे वह क्षेत्र-पल्योपम है । यह काल असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी परिमाण होता है । यह भी सूक्ष्म और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है । उपरोक्त स्वरूप व्यवहार क्षेत्र पल्योपम का हुआ ।

यदि यही कुंआ बालाग्र के सूक्ष्म खण्डों से ठूस ठूस कर भरा हो । उन बालाग्र खण्डों से जो आकाश प्रदेश छुए हुए हैं और जो नहीं छुए हुए हैं । उन छुए हुए और नहीं छुए हुए सभी आकाश प्रदेशों में से प्रत्येक को एक एक समय में निकालते हुए सभी को निकालने में जितना काल लगे वह सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम है । यह भी असंख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी परिमाण होता है । व्यवहार क्षेत्र पल्योपम से असंख्यात गुणा यह काल जानना चाहिए ।

( अनुयोगद्वार सूत्र १३८ से १४०

पृष्ठ १७६ आगमोदय समिति )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १५८ गाथा १०१८ से १०२६ तक )

१०६—सागरोपम के तीन भेदः—

- (१) उद्धार सागरोपम (२) अद्वा सागरोपम ।  
(३) क्षेत्र सागरोपम ।

उद्धार सागरोपमः—उद्धार सागरोपम के दो भेदः—सूक्ष्म और व्यवहार । दस कोड़ा कोड़ी व्यवहार उद्धार पल्योपम का एक व्यवहार उद्धार सागरोपम होता है ।  
दस हजार कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम का एक सूक्ष्म उद्धार सागरोपम होता है ।

ढाई सूक्ष्म उद्धार सागरोपम या पच्चीस कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म उद्धार पल्योपम में जितने समय होते हैं । उतने ही लोक में द्वीप और समुद्र हैं ।

अद्वा सागरोपमः—अद्वा सागरोपम भी सूक्ष्म और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है ।

दस कोड़ा कोड़ी व्यवहार अद्वा पल्योपम का एक व्यवहार अद्वा सागरोपम होता है ।

दस कोड़ाकोड़ी सूक्ष्म अद्वा पल्योपम का एक सूक्ष्म अद्वा सागरोपम होता है ।

जीवों की कर्मस्थिति, कायस्थिति और भवस्थिति सूक्ष्म अद्वा पल्योपम और सूक्ष्म अद्वा सागरोपम में मापी जाती है ।

क्षेत्र सागरोपमः—क्षेत्र सागरोपम भी सूक्ष्म और व्यवहार के भेद से दो प्रकार का है ।

दस कोड़ा कोड़ी व्यवहार क्षेत्र पल्योपम का एक व्यवहार क्षेत्र सागरोपम होता है ।

दस कोड़ा कोड़ी सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम का एक सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम होता है ।

सूक्ष्म क्षेत्र पल्योपम और सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम से दृष्टिवाद में द्रव्य मापे जाते हैं । सूक्ष्म क्षेत्र सागरोपम से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस जीवों की गिनती की जाती है ।

( अनुयोगद्वार सू० १३८ से १४० पृष्ठ १७६ आगमोदय समिति )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १५६ गाथा १०२७ से १०३२ )

११०—नवीन उत्पन्न देवता के मनुष्य लोक में आने के तीन कारणः—देवलोक में नवीन उत्पन्न हुआ देवता तीन कारणों से दिव्य काम भोगों में मूर्छा, गृद्धि एवं आसक्ति न करता हुआ शीघ्र मनुष्य लोक में आने की इच्छा करता है और आ सकता है ।

(१) वह देवता यह सोचता है कि मनुष्य भव में मेरे आचार्य्य, उपाध्याय, प्रवर्चक, स्थविर, गणी, गणधर एवं गणावच्छेदक हैं । जिनके प्रभाव से यह दिव्य देव ऋद्धि, दिव्य देव द्युति और दिव्य देव शक्ति मुझे इस भव में प्राप्त हुई है । इसलिए मैं मनुष्य लोक में जाऊँ और उन पूज्य आचार्य्यादि को वन्दना नमस्कार करूँ, सत्कार सन्मान दूँ एवं कल्याण तथा मंगल रूप यावत् उनकी उपासना करूँ ।

(२) नवीन उत्पन्न देवता यह सोचता है कि सिंह की गुफा में कायोत्सर्ग करना दुष्कर कार्य्य है । किन्तु पूर्व उपशुक्त, अनुरक्त तथा प्रार्थना करनेवाली वैश्या के मन्दिर में रहकर ब्रह्मचर्य्य व्रत का पालन करना उससे भी अति दुष्कर

कार्य्य है। स्थूलभद्र मुनि की तरह ऐसी कठिन से कठिन क्रिया करने वाले ज्ञानी, तपस्वी, मनुष्य-लोक में दिखाई पड़ते हैं। इसलिये मैं मनुष्य लोक में जाऊँ और उन पूज्य मुनीश्वर को वन्दना नमस्कार करूँ यावत् उनकी उपासना करूँ।

(३) वह देवता यह सोचता है कि मनुष्य भव में मेरे माता पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधु आदि हैं। मैं वहाँ जाऊँ और उनके सन्मुख प्रकट होऊँ। वे मेरी इस दिव्य देव सम्बन्धी ऋद्धि, द्युति और शक्ति को देखें।

(ठाण्णंग ३ उद्देशा ३ सूत्र १७७)

१११—देवता की तीन अभिलाषायें:—

(१) मनुष्य भव (२) आर्य्य क्षेत्र (३) उत्तम कुल में जन्म।

(ठाण्णंग ३ उद्देशा ३ सूत्र १७८)

११२—देवता के पश्चात्ताप के तीन बोल:—

(१) मैं बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम से युक्त था। मुझे पठनोपयोगी सुकाल प्राप्त था। कोई उपद्रव भी न था। शास्त्र ज्ञान के दाता आचार्य, उपाध्याय महाराज विद्यमान थे। मेरा शरीर भी नीरोग था। इस प्रकार सभी सामग्री के प्राप्त होते हुए भी मुझे खेद है कि मैंने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े।

(२) खेद है कि परलोक से विमुख होकर ऐहिक सुखों में आसक्त हो, विषय पिपासु बन मैंने चिरकाल तक श्रमण (साधु) पर्याय का पालन नहीं किया।

(३) खेद है कि मैंने ऋद्धि, रस और साता गारव (गौरव) का

अभिमान किया । प्राप्त भोग सामग्री में मूर्च्छित रहा एवं अप्राप्त भोग सामग्री की इच्छा करता रहा । इस प्रकार मैं शुद्ध चरित्र का पालन न कर सका ।

उपरोक्त तीन बोलों का विचार करता हुआ देवता पश्चात्ताप करता है ।

( ठाण्णग ३ उ० ३ सू० १७८ )

११३-देवता के च्यवन-ज्ञान के तीन बोलः—

- (१) विमान के आभूषणों की कान्ति को फीकी देखकर ।
- (२) कल्पवृक्ष को मुरझाते हुए देख कर ।
- (३) तेज अर्थात् अपने शरीर की कान्ति को घटते हुए देखकर देवता को अपने च्यवन (मरण) के काल का ज्ञान होजाता है ।

( ठाण्णग ३ उद्देशा ३ सूत्र ७६ )

११४-विमानों के तीन आधारः—

- (१) घनोदधि (२) घनवाय (३) आकाश ।

इन तीन के आधार से विमान रहे हुए हैं । प्रथम दो कल्प—सौधर्म और ईशान देवलोक में विमान घनोदधि पर रहे हुए हैं । सनत्कुमार, -माहेन्द्र और ब्रह्मलोक में विमान घनवाय पर रहे हुए हैं । लान्तक, शुक्र और सहस्रार देवलोक में विमान घनोदधि और घनवाय दोनों पर रहे हुए हैं । इन के ऊपर के आणत, प्राणत, आरण, शच्युत, नव ग्रैवेयक और अनुत्तर विमान में विमान आकाश पर स्थित हैं ।

( ठाण्णग ३ सूत्र १८० )

११५-पृथ्वी तीन बलयों से बलयित है । एक एक पृथ्वी चारों तरफ दिशा विदिशाओं में तीन बलयों से घिरी हुई है ।



(१) घनोदधि बलय (२) घनवात बलय (३) तनुवात बलय।

( ठाणांग ३ उ० ४ सूत्र २२४ )

११६-पृथ्वी के देशतः धूजने के तीन बोलः—तीन कारणों से पृथ्वी का एक भाग विचलित हो जाता है।

(१) रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे वादर पुद्गलों का स्वाभाविक जोर से अलग होना या दूसरे पुद्गलों का आकर जोर से टकराना, पृथ्वी को देशतः विचलित कर देता है।

(२) महाऋद्धिशाली यावत् महेश नाम वाला महोरग जाति का व्यन्तर दर्पोन्मत्त होकर उछल कूद मचाता हुआ पृथ्वी को देशतः विचलित कर देता है।

(३) नाग कुमार और सुपर्ण कुमार जाति के भवनपति देवताओं के परस्पर संग्राम होने पर पृथ्वी का एक देश विचलित हो जाता है।

( ठाणांग ३ उद्देशा ४ सूत्र १६८ )

११७ सारी पृथ्वी धूजने के तीन बोलः—तीन कारणों से पूरी पृथ्वी विचलित होती है।

(१) रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे जब घनवाय चुब्ध हो जाती है तब उससे घनोदधि कम्पित होता है और उससे सारी पृथ्वी विचलित हो जाती है।

(२) महाऋद्धि सम्पन्न यावत् महाशक्तिशाली महेश नाम वाला देव तथारूप के श्रमण माहण को, अपनी ऋद्धि, द्युति, यश, बल, वीर्य, पुरुपाकार, पराक्रम दिखलाता हुआ सारी पृथ्वी को विचलित कर देता है।

(३) देवों और असुरों में संग्राम होने पर सारी पृथ्वी चलित होती है।

( ठाणांग ३ उद्देशा ४ सूत्र १६८ )

११८—अंगुल के तीन भेदः—

(१) आत्मांगुल (२) उत्सेधांगुल (३) प्रमाणांगुल ।

**आत्मांगुलः**—जिस काल में जो मनुष्य होते हैं । उनके अपने अंगुल को आत्मांगुल कहते हैं । काल के भेद से मनुष्यों की अवगाहना में न्यूनाधिकता होने से इस अंगुल का परिमाण भी परिवर्तित होता रहता है । जिस समय जो मनुष्य होते हैं उनके नगर, कानन, उद्यान, वन, तड़ाग, कूप, मकान आदि उन्हीं के अंगुल से अर्थात् आत्मांगुल ले नापे जाते हैं ।

**उत्सेधांगुलः**—आठ यवमध्य का एक उत्सेधांगुल होता है । उत्सेधांगुल से नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देवों की अवगाहना नापी जाती है ।

**प्रमाणांगुलः**—यह अंगुल सबसे बड़ा होता है । इस लिए इसे प्रमाणांगुल कहते हैं । उत्सेधांगुल से हजार गुणा प्रमाणांगुल जानना चाहिये । इस अंगुल से रत्नप्रभादिक नरक, भवनपतियों के भवन, कल्प, वर्षधर पर्वत, द्वीप आदि की लम्बाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, और परिधि नापी जाती है । शाश्वत वस्तुओं के नापने के लिए चार हजार कोष का योजन माना जाता है । इसका कारण यही है कि शाश्वत वस्तुओं के नापने का योजन प्रमाणांगुल से लिया जाता है । प्रमाणांगुल उत्सेधांगुल से हजार गुणा अधिक होता है । इसलिए इस अपेक्षा से प्रमाणांगुल का योजन उत्सेधांगुल के योजन से हजार गुणा बड़ा होता है ।

( अनुयोगद्वार सू० १३३ पृष्ठ १५७ से १७३ आगमोदय समिति )

११६—द्रव्यानुपूर्वी के तीन भेदः—

(१) पूर्वानुपूर्वी (२) पश्चानुपूर्वी (३) अनानुपूर्वी ।

पूर्वानुपूर्वीः—जिस क्रममें पहले से आरम्भ होकर क्रमशः गणना की जाती है वह पूर्वानुपूर्वी है । जैसेः—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय और काल ।

पश्चानुपूर्वीः—जिस क्रम में अन्त में आरम्भ कर उल्टे क्रम में गणना की जाती है उसे पश्चानुपूर्वी कहते हैं । जैसेः—काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और धर्मास्तिकाय ।

अनानुपूर्वीः—जिस में अनानुपूर्वी और पश्चानुपूर्वी के विषय अन्य क्रम होता है वह पूर्वानुपूर्वी है । जैसे एक, दो, तीन, चार, पांच और छः । इन छह अंकों को परस्पर गुणा करने से जो ७२० संख्या आती है । उतने ही छह द्रव्यों के भंग बनते हैं । इन ७२० भंगों में पहला भंग पूर्वानुपूर्वी का, अन्तिम भंग पश्चानुपूर्वी का और शेष ७१८ भंग अनानुपूर्वी के हैं ।

(अनुयोगद्वार सू० ६६ से ६८ आगनोदय  
सन्निति टीका पृष्ठ ७३ से ७५)

१२०—लक्षणाभास की व्याख्या और भेदः—मदोप लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं ।

लक्षणाभास के तीन भेदः—

( १ )-अव्याप्ति ( २ ) अतिव्याप्ति ( ३ ) अनुम्भव ।

अव्याप्तिः—लक्ष्य ( जिसका लक्षण किया जाय ) के एक देश

में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे:- पशु का लक्षण सींग।

अथवा

जीव का लक्षण पंचेन्द्रियपन।

अतिव्याप्ति:—लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे:- गौ का लक्षण सींग।

असम्भव:—लक्ष्य में लक्षण के सम्भव न होने को असम्भव दोष कहते हैं। जैसे:- अग्नि का लक्षण शीतलता।

( न्याय दीपिका प्रकाश १ )

१२१ समारोप का लक्षण और उसके भेद:—जो पदार्थ जिस स्वरूप वाला नहीं है उसे उस स्वरूप वाला जानना समारोप है। इसी को प्रमाणाभास कहते हैं।

समारोप के तीन भेद:—

( १ ) संशय ( २ ) विपर्यय ( ३ ) अनध्यवसाय।

संशय:—विरोधी अनेक पक्षों के अनिश्चयात्मक ज्ञान को संशय कहते हैं। जैसे:- रस्सी में “यह रस्सी है या सांप” अथवा सीप में “यह सीप है या चांदी” ऐसा ज्ञान होना। संशय का मूल यही है कि जानने वाले को अनेक पक्षों के सामान्य धर्म का ज्ञान तो रहता है परन्तु विशेष धर्मों का ज्ञान नहीं रहता।

उपरोक्त दोनों दृष्टान्तों में ज्ञाता को सांप और रस्सी का लम्बापन एवं सीप और चांदी की श्वेतता, चमक आदि सामान्य धर्म का तो ज्ञान है परन्तु दोनों को पृथक् करने

वाले विशेष घर्मों का ज्ञान न होने से उसका ज्ञान दोनों ओर झुक रहा है । यह तो निश्चित है कि एक वस्तु दोनों रूप तो हो नहीं सकती । वह कोई एक ही चीज होगी । इसी प्रकार जब हम दो या दो से अधिक विरोधी बातें सुनते हैं । तब ही संशय होता है । जैसे:- किसी ने कहा- जीव नित्य है । दूसरे ने कहा-जीव अनित्य है । दोनों विरोधी बातें सुन कर तीसरे को सन्देह हो जाता है ।

बहुतसी वस्तुएं नित्य हैं और बहुत सी अनित्य । जीव भी वस्तु होने से नित्य या अनित्य दोनों हो सकता है । इस प्रकार जब दोनों कोटियों में संदेह होता है तभी संशय होता है । द्रव्यत्व की अपेक्षा प्रत्येक वस्तु नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य । इस प्रकार भिन्न २ अपेक्षाओं से दोनों घर्मों के अस्तित्व का निश्चय होने पर संशय नहीं कहा जा सकता ।

विपर्ययः—विपरीत पक्ष के निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं । जैसे:- साँप को रस्ती समझना, सीप को चांदी समझना ।

अनव्यवसायः—“यह क्या है” ऐसे अस्पष्ट ज्ञान को अनव्यवसाय कहते हैं । जैसे:-मार्ग में चलते हुए पुरुष को ठस, कंकर आदि का स्पर्श होने पर “यह क्या है ?” ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है । वस्तु का स्पष्ट और निश्चित रूप से ज्ञान न होने से ही यह ज्ञान प्रमाणाभास माना गया है ।

( रत्नाकरावतारिका परिच्छेद १ सू० ७ से १४ )  
( न्यायं प्रतीप अ० ३ )

१२२—पिता के तीन अंग—सन्तान में पिता के तीन अंग होते हैं अर्थात् ये तीन अंग प्रायः पिता के शुक्र (वीर्य) के परिणाम स्वरूप होते हैं।

(१) अस्थि ( हड्डी ),

(२) अस्थि के अन्दर का रस,

(३) सिर, दाढ़ी, मूँछ, नख और कुक्षि आदि के बाल,

( ठाणांग ३ सूत्र २०६ )

१२३—माता के तीन अंगः—सन्तान में माता के तीन अंग होते हैं। अर्थात् ये तीन अंग प्रायः माता के रज के परिणाम स्वरूप होते हैं।

(१) मांस (२) रक्त (३) मस्तुलिङ्ग ( मस्तिष्क )

( ठाणांग ३ सूत्र २०६ )

१२४—तीन का प्रत्युपकार दुःशक्य हैः—

(१) माता पिता (२) भर्ता (स्वामी) (३) धर्माचार्य्य ।

इन तीनों का प्रत्युपकार अर्थात् उपकार का बदला चुकाना दुःशक्य है ।

माता पिताः—कोई कुलीन पुरुष सबेरे ही सबेरे शतपाक, सहस्रपाक जैसे—तैल से माता पिता के शरीर की मालिश करे। मालिश करके सुगन्धित द्रव्य का उबटन करे। एवं इस के बाद सुगन्धी, उष्ण और शीतल तीन प्रकार के जल से स्नान करावे। तत्पश्चात् सभी अलंकारों से उन के शरीर को भूषित करे। वस्त्र, आभूषणों से अलंकृत कर मनोज्ञ, अठारह प्रकार के व्यञ्जनों सहित भोजन करावे और इसके बाद उन्हें अपने कन्धों पर उठा कर फिरे। यावज्जीव ऐसा

करने पर भी वह पुरुष माता-पिता के महान् उपकार से उन्नत नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह केवली प्ररूपित धर्म कह कर, उस का बोध देकर माता पिता को उक्त धर्म में स्थापित कर दे तो वह माता पिता के परम उपकार का बदला चुका सकता है ।

भर्ता (स्वामी):—कोई समर्थ धनिकं पुरुषं, दुःखावस्था में पड़े हुए किसी असमर्थ दीन पुरुष को धनदान आदि से उन्नत कर दे । वह दीन पुरुष अपने उपकारी की सहायता से बढ़ कर उस के सन्मुख या परोक्ष में विपुल भोग सामग्री का उपभोग करता हुआ विचरे । इसके बाद यदि किसी समय में लाभान्तराय कर्म के उदय से वह भर्ता (उपकारी) पुरुष निर्धन हो जाय और वह सहायता की आशा से उस पुरुष के पास (जिसको कि उसने अपनी सम्पन्न अवस्था में धन आदि की सहायता से बढ़ाया था) जाय । वह भी अपने भर्ता (उपकारी) के महदुपकार को स्मरण कर अपना सर्वस्व उसे समर्पित कर दे । परन्तु इतना करके भी वह पुरुष अपने उपकारी के किये हुए उपकार से उन्नत नहीं हो सकता । परन्तु यदि वह उसे केवली भाषित धर्म कह कर एवं पूरी तरह से उसको बोध देकर धर्म में स्थापित कर दे तो वह पुरुष उस के उपकार से उन्नत हो सकता है ।

धर्माचार्य्यः—कोई पुरुष धर्माचार्य्य के समीप पाप कर्म से हटाने वाला एक भी धार्मिक सुवचन सुन कर हृदय में

धारण कर ले एवं इस के बाद यथासमय काल करके देवलोक में उत्पन्न हो। वह देवता धर्माचार्य्य के उपकार का ख्याल करके आवश्यकता पड़ने पर उन धर्माचार्य्य को दुर्भिक्ष वाले देश से दूसरे देश में पहुँचा देवे। निर्जन, भीषण अटवी में से उनका उद्धार करे। एवं दीर्घ काल के कुष्ठादि रोग एवं शूलादि आतङ्क से उनकी रक्षा करे। इतने पर भी वह देवता अपने परमोपकारी धर्माचार्य्य के उपकार का बदला नहीं चुका सकता। किन्तु यदि मोह कर्म के उदय से वह धर्माचार्य्य स्वयं केवली प्ररूपित धर्म से अष्ट हो जाय और वह देवता उन्हें केवली प्ररूपित धर्म का स्वरूप बता कर, बोध देकर उन्हें पुनः धर्म में स्थिर कर दे तो वह देवता धर्माचार्य्य के ऋण से मुक्त हो सकता है।

( ठाणाग ३ सूत्र १३५ )

१२५—आत्मा तीनः—

(१) वहिरात्मा (२) अन्तरात्मा (३) परमात्मा ।

वहिरात्माः—जिस जीव को सम्यग्ज्ञान के न होने से मोहवश शरीरादि बाह्य पदार्थों में आत्मबुद्धि हो कि “यह मैं ही हूँ, इन से भिन्न नहीं हूँ।” इस प्रकार आत्मा को देह के साथ जोड़ने वाला अज्ञानी आत्मा वहिरात्मा है।

अन्तरात्माः—जो पुरुष बाह्य भावों को पृथक् कर शरीर से भिन्न, शुद्ध ज्ञान-स्वरूप आत्मा में ही आत्मा का निश्चय करता है। वह आत्म-ज्ञानी पुरुष अन्तरात्मा है।



परमात्मा:—सकल कर्मों का नाश कर जिस आत्मा ने अपना शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्राप्त कर लिया है। जो ईश्वरराग और कृतकृत्य है ऐसी शुद्धात्मा परमात्मा है।

( परमात्म प्रकाश गाथा १३, १४, १५ )

१२६—तीन अर्थ योनि:—राजलक्ष्मी आदि की प्राप्ति के उपाय अर्थ योनि है। वे उपाय तीन हैं:—

(१) नाम (२) दण्ड (३) मेद।

नाम:—एक दूसरे के उपकार को दिखाना, गुरु कीर्तन करना, सम्बन्ध का कहना, मविष्य की आशा देना, मीठे वचनों से "मैं तुम्हारा ही हूँ।" इत्यादि कहकर आत्मा का अपेक्ष करना, इस प्रकार के प्रयोग नाम कहलाते हैं।

दण्ड:—वध, क्लेश, धन हरण आदि द्वारा शत्रु को वश करना दण्ड कहलाता है।

मेद:—जिस शत्रु को जीतना है, उस के पक्ष के लोगों का उस से स्नेह हटाकर उन में कलह पैदा कर देना तथा मय दिख कर फूट करा देना—मेद है।

( ज्ञानांग ३ सूत्र १२५ की टीका )

१२७—श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, श्रद्धा—जहाँ तक का प्रवेश न हो ऐसे धर्मास्तिकाय आदि पर व्याख्याता के कथन से विश्वास कर लेना—श्रद्धा है।

प्रतीति:—व्याख्याता से युक्तियों द्वारा ( गुण्यपाप आदि ) समझ कर विश्वास करना—प्रतीति है।

रुचिः—व्याख्याता द्वारा उपदिष्ट विषय में श्रद्धा करके उसके अनुसार तप, चारित्र आदि सेवन की इच्छा करना रुचि है।

( भगवती शतक १ उद्देशा ६ सूत्र ७७ )

१२८ (क) गुणव्रत की व्याख्या और भेदः—अणुव्रत के पालन में गुणकारी यानि उपकारक गुणों को पुष्ट करने वाले व्रत गुणव्रत कहलाते हैं।

गुण व्रत तीन हैंः—

(१) दिशिपरिमाण व्रत (२) उपभोग परिभोग परिमाणव्रत  
(३) अनर्थदण्ड विरमण व्रत।

दिशिपरिमाण व्रतः—पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे इन छह दिशाओं की मर्यादा करना एवं नियमित दिशा से आगे आश्रव सेवन का त्याग करना दिशिपरिमाण व्रत कहलाता है।

उपभोग परिभोग परिमाण व्रतः—भोजन आदि जो एक बार भोगने में आते हैं वे उपभोग हैं और बारबार भोगे जाने वाले वस्त्र, शय्या आदि परिभोग हैं। उपभोग परिभोग योग्य वस्तुओं का परिमाण करना, छब्बीस बोलों की मर्यादा करना एवं मर्यादा के उपरान्त उपभोग परिभोग योग्य वस्तुओं के भोगोपभोग का त्याग करना उपभोग परिभोग परिमाण व्रत है।

अनर्थदण्ड विरमण व्रतः—अपध्यान अर्थात् आर्त्तध्यान, रौद्र-ध्यान करना, अमाद पूर्वक प्रवृत्ति करना, हिंसाकारी शस्त्र देना एवं पाप कर्म का उपदेश देना ये सभी कार्य अनर्थ-दण्ड हैं। क्योंकि इनसे निष्प्रयोजन हिंसा होती है।

अनर्थ-दण्ड के इन कार्यों का त्याग करना अनर्थदण्ड विरमण व्रत है ।

( हरिभद्रियावश्यक अध्याय ६ पृष्ठ ८२६—८२६ )

१२८ (ख) गुप्ति की व्याख्या और भेदः—अशुभ योग से निवृत्त होकर शुभयोग में प्रवृत्ति करना गुप्ति है ।

अथवाः—

मोक्षाभिलाषी आत्मा का आत्म रक्षा के लिए अशुभ योगों का रोकना गुप्ति है ।

अथवाः—

आने वाले कर्म रूपी कचरे को रोकना गुप्ति है ।

गुप्ति के तीन भेदः—

(१) मनोगुप्ति (२) वचनगुप्ति (३) कायगुप्ति ।

मनोगुप्तिः—आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, संरम्भ, समारम्भ और आरम्भ सम्बन्धी संकल्प विकल्प न करना, परलोक में हितकारी धर्म ध्यान सम्बन्धी चिन्तवना करना, मध्यस्थ भाव रखना, शुभ अशुभ योगों को रोक कर योग निरोध अवस्था में होने वाली अन्तरात्मा की अवस्था को प्राप्त करना मनोगुप्ति है ।

वचनगुप्तिः—वचन के अशुभ व्यापार, अर्थात् संरम्भ समारम्भ और आरम्भ सम्बन्धी वचन का त्याग करना, विकथा न करना, मौन रहना, वचन गुप्ति है ।

कायगुप्तिः—खड़ा होना, बैठना, उठना, सोना, लांघना, सीधा चलना, इन्द्रियों को अपने अपने विषयों में लगाना, संरम्भ, समारम्भ आरम्भ में प्रवृत्ति करना, इत्यादि कायिक

व्यापारों में प्रवृत्ति न करना अर्थात् इन व्यापारों से निवृत्त होना कायगुप्ति है। अयतना का परिहार कर यतनापूर्वक काया से व्यापार करना एवं अशुभ व्यापारों का त्याग करना कायगुप्ति है।

( उक्त० अ० २४ गा० २०-२५ )

( ठा० ३ उ० १ सूत्र १२६ )

## चौथा बोल

( बोल संख्या १२६ से २७३ तक )

१२६-मोक्ष मार्ग के ४ बोल—(१) सम्यग्ज्ञान (२) सम्यग्दर्शन (३) सम्यक् चारित्र और (४) तप। ये ४ मोक्ष की प्राप्ति के उपाय हैं।

( उत्तराध्ययन अध्ययन २८ )

१२६- (अ)—धर्म चार प्रकार का है:—

(१) दान (२) शील (३) तप (४) भावना।

( सप्तति शतस्थान प्र० गा० ६६ )

१२६ (आ)—चार प्रकार के जीवों की दया—

(१) प्राण (२) भूत (३) जीव और (४) सत्व, इनका हनन न करना, इन पर अनुशासन न करना, इन्हें परिताप न देना और इन्हें प्राणों से वियुक्त न करना।

( अःचाराङ्ग अध्ययन ४ उ० १ सू० १२७ )

१२६ ( इ ) यतना के चार गुणः— ( १ ) यतना धर्म की जननी ( माता ) है। ( २ ) यतना धर्म की रक्षा करने वाली है। ( ३ ) यतना से तप की वृद्धि

होती है । ( ४ ) यतना एकान्त रूप से सुख देने वाली है ।

( प्रतिमा शतक )

१२६ (क)—चार मंगल रूप हैं, लोक में उत्तम हैं तथा शरण रूप हैं—

(१)—अरिहन्त, (२) सिद्ध,  
(३) साधु, (४) केवली प्ररूपित धर्म,

अरिहन्त—चार घाती कर्म रूप शत्रुओं का नाश करने वाले, देवेन्द्र कृत अष्ट महा प्रातिहार्यादि रूप पूजा को प्राप्त, सिद्धिगति के योग्य, केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन से त्रिकाल एवं लोक त्रय को जानने और देखने वाले, हितोपदेशक, सर्वज्ञ भगवान् अरिहन्त कहलाते हैं । अरिहन्त भगवान् के आठ महाप्रातिहार्य और चार मूलातिशय रूप बारह गुण हैं ।

सिद्धः—शुक्ल ध्यान द्वारा आठ कर्मों का नाश करने वाले, सिद्धशिला के ऊपर लोकाग्र में विराजमान, कृत कृत्य, मुक्तात्मा सिद्ध कहे जाते हैं । आठ कर्म का नाश होने से इन में आठ गुण प्रगट होते हैं ।

नोटः—सिद्ध भगवान् के आठ गुणों का वर्णन आठवें बोल में दिया जायगा ।

साधुः—सम्यग् ज्ञान, सम्यग् दर्शन, और सम्यग्-चारित्र्य द्वारा मोक्षमार्ग की आराधना करने वाले, प्राणी मात्र पर समभाव रखने वाले, षट्काया के रक्षक, आठ प्रवचन

माता के आराधक, पंच महाव्रतधारी मुनि साधु कहलाते हैं।  
आचार्य, उपाध्याय का भी इन्हीं में समावेश किया गया है।  
केवली प्ररूपित धर्मः—पूर्ण ज्ञान सम्पन्न केवली भगवान् से  
प्ररूपित श्रुत चारित्र रूप धर्म केवली प्ररूपित धर्म है।

ये चारों हित और सुख की प्राप्ति में कारण रूप हैं।  
अत एव मंगल रूप है। मंगल रूप होने से ये लोक में  
उत्तम हैं।

हरिभद्रीयावश्यक में चारों की लोकोत्तमता इस प्रकार  
बतलाई हैः—

औदयिक आदि छः भाव भावलोक रूप हैं। अरिहन्त  
भगवान् इन भावों की अपेक्षा लोकोत्तम हैं। अर्हन्तावस्था  
में प्रायः अघाती कर्मों की शुभ प्रकृतियों का उदय रहता है  
इस लिये औदयिक भाव उत्तम होता है। चारों घाती कर्मों  
के क्षय होने से क्षायिक भाव भी इन में सर्वोत्तम होता है।  
औपशमिक एवं क्षायोपशमिक भाव अरिहन्त में होते  
ही नहीं हैं। क्षायिक एवं औदयिक के संयोग से होने  
वाला सान्निपातिक भाव भी अरिहन्त में उत्तम होता  
है। क्योंकि क्षायिक और औदयिक भाव दोनों ही उत्तम  
ऊपर बताये जा चुके हैं। इस प्रकार अरिहन्त भगवान्  
भाव की अपेक्षा लोकोत्तम हैं। सिद्ध भगवान् क्षायिक भाव  
की अपेक्षा लोकोत्तम हैं। इसी प्रकार लोक में सर्वोच्च  
स्थान पर विराजने से क्षेत्र की अपेक्षा भी वे लोकोत्तम हैं।

साधु महात्माः—ज्ञान दर्शन चारित्र रूप भावों की उत्कृष्टता की अपेक्षा लोकोत्तम हैं—औपशमिक, क्षायोपशमिक, और क्षायिक इन भावों की अपेक्षा केवली प्ररूपित धर्म भी लोकोत्तम है ।

सांसारिक दुःखों से त्राण पाने के लिए सभी आत्मा उक्त चारों का आश्रय लेते हैं । इस लिए वे शरण रूप हैं ।  
यथाः—

“अरिहन्ते सरणं पवज्जामि, सिद्धे सरणं पवज्जामि ।  
साहू सरणं पवज्जामि, केवल्लिपण्णतं धम्मं सरणं पवज्जामि ।

बौद्ध साहित्य में बुद्ध धर्म और संघ शरण रूप माने गये हैं ।

यथाः—

बुद्धं सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि,  
संघ सरणं गच्छामि ।

( हरिभद्रीयावश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन पृष्ठ ५६६ )

१२६—(ख) अरिहन्त भगवान् के चार मूलातिशय—

- (१) अपायापगमातिशय ।
- (२) ज्ञानातिशय ।
- (३) पूजातिशय ।
- (४) वांगतिशय ।

अपायापगमातिशय—अपाय अर्थात् अठारह दोष एवं विघ्न बाधाओं का सर्वथा नाश हो जाना अपायापगमातिशय है ।

नोट:—१८ दोषों का वर्णन अठारहवें बोल में दिया जायगा ।

ज्ञानातिशय—ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न त्रिकाल एवं त्रिलोक के समस्त द्रव्य एवं पर्यायों को हस्तामलकवत् जानना, संपूर्ण, अव्यावाध, अप्रतिपाती ज्ञान का धारण करना ज्ञानातिशय है ।

पूजातिशय—अरिहन्त तीन लोक की समस्त आत्माओं के लिए पूज्य हैं तथा इन्द्रकृत अष्ट महा प्रातिहार्यादि रूप पूजा से पूजित हैं । त्रिलोक पूज्यता एवं इन्द्रादिकृत पूजा ही पूजातिशय है ।

भगवान् के चौंतीस अतिशय, अपायापगमातिशय एवं पूजातिशय रूप ही हैं ।

वागतिशय—अरिहन्त भगवान् रागद्वेष से परे होते हैं, एवं पूर्ण ज्ञान के धारक होते हैं । इसलिए उनके वचन सत्य एवं परस्पर वाधा रहित होते हैं । वाणी की यह विशेषता ही वचनातिशय है । भगवान् की वाणी के पैंतीस अतिशय वागतिशय रूप ही हैं ।

( स्याद्वादमञ्जरी कारिका १ टीका )

१३०—संसार के चार प्रकार:—

(१) प्राण (२) भूत (३) जीव (४) सत्त्व ।

प्राण:—विकलेन्द्रिय अर्थात् द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीवों को प्राण कहते हैं ।



भूतः—वनस्पति काय को भूत कहते हैं ।

जीवः—पञ्चेन्द्रिय प्राणियों को जीव कहते हैं ।

सत्त्वः—पृथ्वी काय, अप्काय, तेउकाय और वायुकाय इन चार स्थावर जीवों को सत्त्व कहते हैं ।

( ठाणांग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३० )

श्री भगवती सूत्र शतक २ उद्देशा १ सूत्र ८८ में जीव के प्राण, भूत, जीव, सत्त्व आदि छः नाम भिन्न भिन्न धर्मों की विवक्षा से दिये हैं । विज्ञ और वेद ये दो नाम वहां अधिक हैं । जैसे किः—

प्राणः—प्राणवायु को खींचने और बाहर निकालने अर्थात् श्वासोच्छ्वास लेने के कारण जीव को प्राण कहा जाता है ।

भूतः—तीनों कालों में विद्यमान होने से जीव को भूत कहा जाता है ।

जीवः—जीता है अर्थात् प्राण धारण करता है और आयु कर्म तथा जीवत्व का अनुभव करता है इसलिए यह जीव है ।

सत्तः—(सक्त, शक्त, अथवा सत्त्व) जीव शुभाशुभ कर्मों के साथ सम्बद्ध है । अच्छे और बुरे काम करने में समर्थ है या सत्ता वाला है । इसलिए इसे सत्त (क्रमशः—सक्त, शक्त, सत्त्व) कहा जाता है ।

विज्ञः—कड़वे, कपड़े, खट्टे, मीठे रसों को जानता है इसलिए जीव विज्ञ कहलाता है ।

वेदः—जीव सुख दुःखों का भोग करता है इसलिए वह वेद कहलाता है ।

( भगवती शतक २ उद्देशा १ सूत्र ८८ )

१३१—गति की व्याख्या:—

गति नामक नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय गति कहलाती है ।

गति के चार भेद:—

( १ ) नरक गति ( २ ) तिर्यञ्च गति ।

( ३ ) मनुष्य गति ( ४ ) देव गति ।

( पत्रवर्णा पद २३ उद्देशा २ सू० २६३ )  
( कर्मग्रन्थ भाग ४ गाथा १० )

१३२—नरक आयु बन्ध के चार कारण:—

( १ ) महारम्भ ( २ ) महापरिग्रह ।

( ३ ) पञ्चेन्द्रिय वध ( ४ ) कुणिमाहार ।

महारम्भ:—बहुत प्राणियों की हिंसा हो, इस प्रकार. तीव्र परिणामों से कषाय पूर्वक प्रवृत्ति करना महारम्भ है ।

महापरिग्रह:—वस्तुओं पर अत्यन्त मूर्छा, महा परिग्रह है ।

पञ्चेन्द्रिय वध:—पञ्चेन्द्रिय जीवों की हिंसा करना पञ्चेन्द्रिय वध है ।

कुणिमाहार:—कुणिमा अर्थात् मांस का आहार करना ।

इन चार कारणों से जीव नरकायु का बन्ध करता है ।

( ठाणग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३७३ )

१३३—तिर्यञ्च आयु बन्ध के चार कारण:—

- (१) मायाः—अर्थात् कुटिल परिणामों वाला—जिसके मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो । विपकुम्भ-पयोमुख की तरह ऊपर से मीठा हो, दिल से अनिष्ट चाहने वाला हो ।
- (२) निकृत्ति वालाः—ढोंग करके दूसरों को ठगने की चेष्टा करने वाला ।
- (३) झूठ बोलने वाला ।
- (४) झूठे तोल झूठे माप वाला । अर्थात् खरीदने के लिए बढ़े और बेचने के लिए छोटे तोल और माप रखने वाला जीव तिर्यञ्च गति योग्य कर्म बान्धता है ।

( ठाणांग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३७३ )

१३४—मनुष्य आयु बन्ध के चार कारणः—

- (१) भद्र प्रकृति वाला ।
- (२) स्वभाव से विनीत ।
- (३) दया और अनुकम्पा के परिणामों वाला ।
- (४) मत्सर अर्थात् ईर्ष्या-डाह न करने वाला जीव मनुष्य आयु योग्य कर्म बँधता है ।

( ठाणांग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३७३ )

१३५—देव आयु बन्ध के चार कारणः—

- (१) सराग संयम वाला ।
- (२) देश विरति श्रावकपना ।
- (३) अकाम निर्जरा अर्थात् अनिच्छा पूर्वक पराधीनता आदि कारणों से कर्मों की निर्जरा करने वाला ।

(४) बालभाव से चिवेक के बिना अज्ञान पूर्वक काया क्लेश आदि तप करने वाला जीव देवायु के योग्य कर्म बांधता है ।

( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३७३ )

१३६—देवताओं के चार भेदः—

(१) भवनपति (२) व्यन्तर (३) ज्योतिष (४) वैमानिक ।

(उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा १०२)

१३७—देवताओं की पहिचान के चार बोलः—

(१) देवताओं की पुष्पमालायें नहीं कुम्हलार्तीं ।

(२) देवता के नेत्र निर्निमेष होते हैं। अर्थात् उनके पलक नहीं गिरते ।

(३) देवता का शरीर नीरज अर्थात् निर्मल होता है ।

(४) देवता भूमि से चार अंगुल ऊपर रहता है। वह भूमि का स्पर्श नहीं करता ।

( व्यवहार भाष्य ३० २ गा० ३०४ )

(अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ४-पुष्ठ २६१०)

१३८—तत्काल उत्पन्न देवता चार कारणों से इच्छा करने पर भी मनुष्य लोक में नहीं आ सकता ।

(१) तत्काल उत्पन्न देवता दिव्यकाम भोगों में अत्यधिक मोहित और गृद्ध हो जाता है। इस लिए मनुष्य सम्बन्धी काम भोगों से उसका मोह छूट जाता है और वह उनकी चाह नहीं करता ।

(२) वह देवता दिव्य काम भोगों में इतना मोहित और गृद्ध हो जाता है कि उसका मनुष्य सम्बन्धी प्रेम देवता सम्बन्धी प्रेम में परिणत हो जाता है ।

(३) वह तत्काल उत्पन्न देवता “मैं मनुष्य लोक में जाऊँ, अभी जाऊँ” ऐसा सोचते हुए विलम्ब कर देता है। क्योंकि वह देव कार्यों के पराधीन हो जाता है और मनुष्य सम्बन्धी कार्यों से स्वतन्त्र हो जाता है। इसी बीच उसके पूर्व भव के अल्प आयु वाले स्वजन, परिवार आदि के मनुष्य अपनी आयु पूरी कर देते हैं।

(४) देवता को मनुष्य लोक की गन्ध प्रतिकूल और अत्यन्त अमनोज्ञ मालूम होती है। वह गन्ध इस भूमि से, पहले दूसरे आरे में चार सौ योजन और शेष आरों में पांच सौ योजन तक ऊपर जाती है।

(ठाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२३)

१३६—तत्काल उत्पन्न देवता मनुष्य लोक में आने की इच्छा करता हुआ चार बोलों से आने में समर्थ होता है।

नोट:—इसके पहले के तीन बोल तो बोल नम्बर ११० में दिये जा चुके हैं।

(४) दो मित्रों या सम्बन्धियों ने मरने से पहले परस्पर प्रतिज्ञा की कि हममें से जो देवलोक से पहले चवेगा। दूसरा उसकी सहायता करेगा। इस प्रकार की प्रतिज्ञा में बद्ध होकर स्वर्ग से चवकर मनुष्य भव में उत्पन्न हुए अपने साथी की सहायता करने के लिए वह देवता मनुष्य लोक में आने में समर्थ होता है।

(ठाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२३)

१४०—तत्काल उत्पन्न हुआ नैरयिक मनुष्य लोक में आने की इच्छा करता है। किन्तु चार बोलों से आने में असमर्थ है।

(१) नवीन उत्पन्न हुआ नैरयिक नरक में प्रबल वेदना का अनुभव करता हुआ मनुष्य लोक में शीघ्र आने की इच्छा करता है। पर आने में असमर्थ है।

(२) नवीन उत्पन्न नैरयिक नरक में परमाधामी देवताओं से सताया हुआ मनुष्य लोक में शीघ्र ही आना चाहता है। परन्तु आने में असमर्थ है।

(३) तत्काल उत्पन्न नैरयिक नरक योग्य अशुभ नाम कर्म, असाता वेदनीय आदि कर्मों की स्थिति क्षय हुए बिना, विपाक भोगे बिना और उक्त कर्म प्रदेशों के आत्मा से अलग हुए बिना ही मनुष्य लोक में आने की इच्छा करता है। परन्तु निकाचित कर्म रूपी जंजीरों से बंधा होने के कारण आने में असमर्थ है।

(४) नवीन उत्पन्न नैरयिक नरक आयु कर्म की स्थिति पूरी हुए बिना, विपाक भोगे बिना और आयु कर्म के प्रदेशों के आत्मा से पृथक् हुए बिना ही मनुष्य लोक में आना चाहता है। पर नरक आयु कर्म के रहते हुए वह आने में असमर्थ है।

( ठाण्णाग ४ उ० १ सूत्र २४५ )

१४१—भावना चारः—

- (१) कन्दर्प भावना । (२) आभियोगिकी भावना ।  
(३) किल्त्रिपिकी भावना । (४) आसुरी भावना ।

**कन्दर्प भावनाः**—कन्दर्प करना अर्थात् अटाड्डहास करना, जोर से बात चीत करना, काम कथा करना, काम का उपदेश देना और उसकी प्रशंसा करना, कौत्कुच्य करना ( शरीर और वचन से दूसरे को हंसाने की चेष्टा करना ) विस्मयोत्पादक शील स्वभाव रखना, हास्य तथा विविध विकथाओं से दूसरों को विस्मित करना कन्दर्प भावना है ।

**आभियोगिकी भावनाः**—सुख, मधुरादि रस और उपकरण आदि की ऋद्धि के लिए वशीकरणादि मंत्र अथवा यंत्र मंत्र (गंडा, तावीज) करना, रक्षा के लिए भस्म, मिट्टी अथवा सूत्र से वसति आदि का परिवेष्टन रूप भूति कर्म करना आभियोगिकी भावना है ।

**क्लिषिकी भावनाः**—ज्ञान, केवल ज्ञानी पुरुष, धर्माचार्य्य संघ और साधुओं का अवर्णवाद बोलना तथा माया करना क्लिषिकी भावना है ।

**आसुरी भावनाः**—निरंतर क्रोध में भरे रहना, पुष्ट कारण के बिना भूत, भविष्यत् और वर्तमान कालीन निमित्त बताना आसुरी भावना है ।

इन चार भावनाओं से जीव उस उस प्रकार के देवों में उत्पन्न कराने वाले कर्मबांधता है । अर्थात् इन भावनाओं वाला जीव यदि कदाचित् देवगति प्राप्त करे तो हीन कोटि का देव होता है ।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ३६ गाथा २६१ से २६४ )

१४२—संज्ञा की व्याख्या और भेदः—

**चैतनाः**—ज्ञान का, असातावेदनीय और मोहनीय कर्म के उदय से पैदा होने वाले विकार से युक्त होना संज्ञा है ।

संज्ञा के चार भेद हैं—

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| (१) आहार संज्ञा ।  | (२) भय संज्ञा ।      |
| (३) मैथुन संज्ञा । | (४) परिग्रह संज्ञा । |

आहार संज्ञा:—तैजस शरीर नाम कर्म और क्षुधा वेदनीय के उदय से कवलादि आहार के लिए आहार योग्य पुद्गलों को ग्रहण करने की जीव की अभिलाषा को आहार संज्ञा कहते हैं ।

भय संज्ञा:—भय मोहनीय के उदय से होने वाला जीव का त्रास-रूप परिणाम भय संज्ञा है । भय से उद्भ्रांत जीव के नेत्र और मुख में विकार, रोमाञ्च, कम्पन आदि क्रियाएँ होती हैं ।

मैथुन संज्ञा:—वेद मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली मैथुन की इच्छा मैथुन संज्ञा है ।

परिग्रह संज्ञा:—लोभ मोहनीय के उदय से उत्पन्न होने वाली सचित्त आदि द्रव्यों को ग्रहण रूप आत्मा की अभिलाषा अर्थात् तृष्णा को परिग्रह संज्ञा कहते हैं ।

१४३—आहार संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है:—

- (१) पेट के खाली होने से ।
- (२) क्षुधा वेदनीय कर्म के उदय से ।
- (३) आहार कथा सुनने और आहार के देखने से ।
- (४) निरन्तर आहार का स्मरण करने से ।

इन चार बोलों से जीव के आहार संज्ञा उत्पन्न होती है ।

( प्रवचन मारोद्धार द्वार १४५ गाथा ६२३ टीका )



१४४—भय संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है:—

- (१) सत्त्व अर्थात् शक्ति हीन होने से ।
- (२) भय मोहनीय कर्म के उदय से ।
- (३) भय की बात सुनने, भयानक वस्तुओं के देखने आदि से ।
- (४) इह लोक आदि भय के कारणों को याद करने से ।  
इन चार बोलों से जीव को भय संज्ञा उत्पन्न होती है ।

१४५—मैथुन संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है ।

- (१) शरीर के खूब हृष्टपुष्ट होने से ।
- (२) वेद मोहनीय कर्म के उदय से ।
- (३) काम कथा श्रवण आदि से ।
- (४) सदा मैथुन की बात सोचते रहने से ।  
इन चार बोलों से मैथुन संज्ञा उत्पन्न होती है ।

१४६—परिग्रह संज्ञा चार कारणों से उत्पन्न होती है:—

- (१) परिग्रह की वृत्ति होने से ।
- (२) लोभ मोहनीय कर्म के उदय होने से ।
- (३) सचित्त, अचित्त और मिश्र परिग्रह की बात सुनने और देखने से ।
- (४) सदा परिग्रह का विचार करते रहने से ।  
इन चार बोलों से परिग्रह संज्ञा उत्पन्न होती है ।

( बोल नम्बर १४२ से १४६ तक के लिए प्रमाण )

( ठाणांग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३५६ )

( अभिधान राजेन्द्र कोष ७ वां भाग पृष्ठ ३०० )

( प्रवचन सारोद्धार द्वा० १४५ गाथा ६२३ )

१४७—चार गति में चार संज्ञाओं का अल्प बहुत्व ।

सब से थोड़े नैरयिक मैथुन संज्ञा वाले होते हैं । आहार संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । परिग्रह संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । और भय संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं ।

तिर्यञ्च गति में सब से थोड़े परिग्रह संज्ञा वाले हैं । मैथुन संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । भय संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । और आहार संज्ञा वाले उनसे भी संख्यात गुणा हैं ।

मनुष्यों में सब से थोड़े भय संज्ञा वाले हैं । आहार संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । परिग्रह संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । मैथुन संज्ञा वाले उनमें भी संख्यात गुणा हैं ।

देवताओं में सब से थोड़े आहार संज्ञा वाले हैं । भय संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । मैथुन संज्ञा वाले उनसे संख्यात गुणा हैं । और परिग्रह संज्ञा वाले उनसे भी संख्यात गुणा हैं ।

( पत्रवर्णा संज्ञा पद = सू० १४८ )

१४८—विकथा की ज्याख्या और भेदः—

संयम में बाधक चारित्र्य विरुद्ध कथा को विकथा कहते हैं ।  
विकथा के चार भेद हैंः—

(१) स्त्री कथा (२) भक्तकथा (३) देशकथा (४) राजकथा ।

( वाणानु ४ उ० २ सूत्र २८२ )

१४९—स्त्रीकथा के चार भेदः—

(१) जातिकथा (२) कुल कथा (३) रूप कथा (४) वेश कथा ।  
स्त्री की जाति कथा—ब्राह्मण आदि जाति की स्त्रियों की प्रशंसा या निन्दा करना ।

स्त्री की कुल कथा—उग्र कुल आदि की स्त्रियों की प्रशंसा या निन्दा करना ।

स्त्री की रूप कथा—अन्ध्र आदि देश की स्त्रियों के रूप का वर्णन करना, अथवा भिन्न भिन्न देशों की स्त्रियों के भिन्न भिन्न अङ्गों की प्रशंसा या निन्दा करना ।

स्त्री की वेश कथा—स्त्रियों के वेशीवन्ध और पहनाव आदि की प्रशंसा या निन्दा करना—जैसे अमुक देश की स्त्री के वेश में यह विशेषता है या न्यूनता है? अमुक देश की स्त्रियाँ सुन्दर केश संवारती हैं । इत्यादि ।

( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ )

स्त्री कथा करने और सुनने वालों को मोह की उत्पत्ति होती है । लोक में निन्दा होती है । सूत्र और अर्थ ज्ञान की हानि होती है । ब्रह्मचर्य में दोष लगता है । स्त्रीकथा करने वाला संयम से गिर जाता है । कुलिङ्गी हो जाता है या साधु वेश में रह कर अनाचार सेवन करता है ।

( निशीथ चूर्णि उद्देशा १ गा० १२१ )

( ठाणाग ४ उ० २ सू० २८२ )

१५०—भक्त (भात) कथा चार ।

(१) आवाप कथा (२) निर्वाप कथा ।

(३) आरम्भ कथा (४) निष्ठान कथा ।

(१) भोजन की आवाप कथा—भोजन बनाने की कथा । जैसे इस मिठाई को बनाने में इतना घी, इतनी चीनी, आदि सामग्री लगेगी ।

(२) भोजन निर्वाप कथा—इतने पक्क, अपक्क अन्न के भेद हैं । इतने व्यंजन होते हैं । आदि कथा करना निर्वाप कथा है ।

- (३) भोजन की आरम्भ कथा—इतने जीवों की इसमें हिंसा होगी। इत्यादि आरम्भ की कथा करना आरम्भ कथा है।  
 (४) भोजन की निष्ठान कथा—इस भोजन में इतना द्रव्य लगेगा आदि कथा निष्ठान कथा है।

(ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २२२ टीका)

भक्तकथा अर्थात् आहार कथा करने से गृद्धि होती है। और आहार विना किए ही गृद्धि—आसक्ति से साधु को इङ्गल आदि दोष लगते हैं। लोगों में यह चर्चा होने लगती है कि यह साधु अजितेन्द्रिय है। इन्होंने खाने के लिए संयम लिया है। यदि ऐसा न होता तो ये साधु आहार कथा क्यों करते ? अपना स्वाध्याय, ध्यान आदि क्यों नहीं करते ? गृद्धि भाव से पट् जीव निकाय के वध की अनुमोदना लगती है। तथा आहार में आसक्त साधु एषणा-शुद्धि का विचार भी नहीं कर सकता। इस प्रकार भक्त कथा के अनेक दोष हैं।

(ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २२२ टीका)

(निशीथ चूर्णि उद्देशा १ गाथा १२४)

१५१—देशकथा चार

- (१) देश विधि कथा (२) देश विकल्प कथा।  
 (३) देश छंद कथा (४) देश नेपथ्य कथा।

देश विधि कथा—देश विशेष के भोजन, मणि, भूमि, आदि की रचना तथा वहां भोजन के प्रारम्भ में क्या दिया जाता है, और फिर क्रमशः क्या क्या दिया जाता है ? आदि कथा करना देश विधि कथा है।

देश विकल्प कथा—देश विशेष में धान्य की उत्पत्ति तथा वहां के वप्र, कूप, देवकुल, भवन आदि का वर्णन करना देश विकल्प कथा है।

देश छंद कथा—देश विशेष की गम्य, अगम्य, विषयक बात करना। जैसे लाट देश में मामा या मासी की लड़की का सम्बन्ध किया जा सकता है और दूसरे देशों में नहीं। इत्यादि कथा करना देश छन्द कथा है।

देशनेपथ्य कथा—देश विशेष के स्त्री पुरुषों के स्वाभाविक वेश तथा शृङ्गार आदि का वर्णन करना। देश नेपथ्य कथा है।

(ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टीका)

देश कथा करने से विशिष्ट देश के प्रति राग या दूसरे देश से अरुचि होती है। रागद्वेष से कर्मबन्ध होता है। स्वपक्ष और परपक्ष वालों के साथ इस सम्बन्ध में वाद-विवाद खड़ा हो जाने पर झगड़ा हो सकता है। देश वर्णन सुनकर दूसरा साधु उस देश को विविध गुण सम्पन्न सुनकर वहां जा सकता है। इस प्रकार देश कथा से अनेक दोषों की संभावना है।

(निशीथ चूर्ण उद्देशा १ गाथा १२७)

(ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टीका)

१५२—राजकथा चारः—

- (१) राजा की अतियान कथा (२) राजा की निर्याण कथा
- (३) राजा के बलवाहन की कथा (४) राजा के क्रोध और कोठार की कथा।

राजा की अतियान कथा—राजा के नगर प्रवेश तथा उस समय की विभूति का वर्णन करना, अतियान कथा है।

राजा की निर्याण कथा—राजा के नगर से निकलने की बात करना तथा उस समय के ऐश्वर्य का वर्णन करना निर्याण कथा है ।

राजा के बल वाहन की कथा—राजा के अश्व, हाथी आदि सेना, और रथ आदि वाहनों के गुण और परिमाण आदि का वर्णन करना बल वाहन कथा है ।

राजा के कोप और कोठार की कथा—राजा के खजाने और धान्य आदि के कोठार का वर्णन करना, धन धान्य आदि के परिमाण का कथन करना, कोप और कोठार की कथा है ।

( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टी० )

उपाश्रय में बैठे हुए साधुओं को राज कथा करते हुए सुन कर राजपुरुष के मन में ऐसे विचार आ सकते हैं कि ये वास्तव में साधु नहीं हैं ? सच्चे साधुओं को राजकथा से क्या प्रयोजन ? मालूम होता है कि ये गुप्तचर या चोर हैं । राजा के अमुक अश्व का हरण हो गया था, राजा के स्वजन को किसी ने मार दिया था । उन अपराधियों का पता नहीं लगा । क्या ये वे ही तो अपराधी नहीं हैं ? अथवा ये उक्त काम करने के अभिलाषी तो नहीं हैं ? राजकथा सुनकर किसी राजकुल में दीक्षित साधु को भुक्त भोगों का स्मरण हो सकता है । अथवा दूमरा साधु राजक्रुद्धि सुन कर निराणा कर सकता है । इस प्रकार राजकथा के ये तथा और भी अनेक दोष हैं ।

( ठा० ४ उ० २ सू० २८२ टी० )

( निशीथ चूर्णि उद्देशा १ गा० १३० )

१५३—धर्मकथा की व्याख्या और भेदः—

दया, दान, क्षमा आदि धर्म के अंगों का वर्णन करने वाली और धर्म की उपादेयता बताने वाली कथा धर्मकथा है। जैसे उत्तराध्ययन आदि ?

धर्मकथा के चार भेदः—

- (१) आक्षेपणी (२) विक्षेपणी ।  
(३) संवेगनी (४) निर्वेदनी ।

( ठाण्णांग ४ उद्देशा २ सूत्र २८२ )

१५४—आक्षेपणी कथा की व्याख्या और भेदः—

श्रोताको मोह से हटा कर तत्त्व की ओर आकर्षित करने वाली कथा को आक्षेपणी कथा कहते हैं। इसके चार भेद हैंः—

(१) आचार आक्षेपणी, (२) व्यवहार आक्षेपणी ।  
(३) प्रज्ञप्ति आक्षेपणी, (४) दृष्टिवाद आक्षेपणी ।  
(१) केश लोच, अस्नान आदि आचार के अथवा आचारांग सूत्र के व्याख्यान द्वारा श्रोता को तत्त्व के प्रति आकर्षित करने वाली कथा आचार आक्षेपणी कथा है ।

(२) किसी तरह दोष लगाने पर उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त अथवा व्यवहार सूत्र के व्याख्यान द्वारा तत्त्व के प्रति आकर्षित करने वाली कथा को व्यवहार आक्षेपणी कथा कहते हैं ।

(३) संशय युक्त श्रोता को मधुर वचनों से समझा कर या प्रज्ञप्ति सूत्र के व्याख्यान द्वारा तत्त्व के प्रति झुकाने वाली कथा को प्रज्ञप्ति आक्षेपणी कथा कहते हैं ।

(४) श्रोता का ख्याल रखते हुए सात नर्यों के अनुसार सूक्ष्म जीवादि तत्त्वों के कथन द्वारा अथवा दृष्टिवाद के व्याख्यान द्वारा तत्त्व के प्रति आकृष्ट करने वाली कथा दृष्टिवाद आक्षेपणी कथा है ।

( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २८२ टी० )

भाव तमः अर्थात् अज्ञानान्धकार विनाशक ज्ञान, सर्व विरति रूप चारित्र, तप, पुरुषकार और समिति, गुप्ति का उपदेश ही इस कथा का सार है ।

शिष्य को सर्व प्रथम आक्षेपणी कथा कहनी चाहिए आक्षेपणी कथा से उपदिष्ट जीव सम्यक्त्व लाभ करता है ।

( दशवैकालिक नियुक्ति अध्ययन ३ गा० १६४-१६५ )

१५५-विक्षेपणी कथा की व्याख्या और भेदः—

श्रोता को कुमार्ग से सन्मार्ग में लाने वाली कथा विक्षेपणी कथा है । सन्मार्ग के गुणों को कह कर या उन्मार्ग के दोषों को बता कर सन्मार्ग की स्थापना करना विक्षेपणी कथा है ।

(१) अपने सिद्धान्त के गुणों का प्रकाश कर, पर-सिद्धान्त के दोषों को दिखाने वाली प्रथम विक्षेपणी कथा है ।

(२) पर-सिद्धान्त का कथन करते हुए स्व-सिद्धान्त की स्थापना करना द्वितीय विक्षेपणी कथा है ।

(३) पर-सिद्धान्त में घुणाक्षर-न्याय से जितनी बातें जिनागम सदृश हैं । उन्हें कह कर जिनागम विपरीत वाद के दोष दिखाना अथवा आस्तिक वादी का अभिप्राय



बता कर नास्तिकवादी का अभिप्राय बतलाना तृतीय विक्षेपणी कथा है ।

- (४) पर-सिद्धान्त में बने हुए जिनागम विपरीत मिथ्यावाद का कथन कर, जिनागम सदृश बातों का वर्णन करना अथवा नास्तिकवादी की दृष्टि का वर्णन कर आस्तिकवादी की दृष्टि बताना चौथी विक्षेपणी कथा है ।

आक्षेपणी कथा से सम्यक्त्व लाभ के पश्चात् ही शिष्य को विक्षेपणी कथा कहनी चाहिये । विक्षेपणी कथा से सम्यक्त्व लाभ की भजना है । अनुकूल रीति से ग्रहण करने पर शिष्य का सम्यक्त्व दृढ़ भी हो सकता है । परन्तु यदि शिष्य को मिथ्याभिनिवेश हो तो वह पर-समय ( पर-सिद्धान्त ) के दोषों को न समझ कर गुरु को पर-सिद्धान्त का निन्दक समझ सकता है । और इस प्रकार इस कथा से विपरीत असर होने की सम्भावना भी रहती है ।

( ठाणांग ४ उ० २ सूत्र० २८२ टीका )

( दशवैकालिक अध्ययन ३ नि० गा० १६७-१६८ की टीका )

- १५६—संवेगनी कथा की व्याख्या और भेदः—जिस कथा द्वारा विपाक की विरसता बता कर श्रोता में वैराग्य उत्पन्न किया जाता है । वह संवेगनी कथा है ।

संवेगनी कथा के चार भेदः—

(१) इहलोक संवेगनी (२) परलोक संवेगनी ।

(३) स्वशरीर संवेगनी (४) पर शरीर संवेगनी ।

- (१) इहलोक संवेगनीः—यह मनुष्यत्व कदली स्तम्भ के समान असार है, अस्थिर है । इत्यादि रूप मनुष्य जन्म का

- स्वरूप बता कर वैराग्य पैदा करने वाली कथा इहलोक संवेगनी कथा है ।
- (२) परलोक संवेगनी:—देवता भी ईर्ष्या, विषाद, भय, वियोग आदि विविध दुःखों से दुःखी हैं। इत्यादि रूप से परलोक का स्वरूप बता कर वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा परलोक संवेगनी कथा है ।
- (३) स्वशरीर संवेगनी:—यह शरीर स्वयं अशुचि रूप है । अशुचि से उत्पन्न हुआ है । अशुचि विषयों से पोषित हुआ है । अशुचि से भरा है और अशुचि परम्परा का कारण है । इत्यादि रूप से मानव शरीर के स्वरूप को बता कर वैराग्य भाव उत्पन्न करने वाली कथा स्वशरीर संवेगनी कथा है ।
- (४) पर शरीर संवेगनी:—किसी मुर्दे शरीर के स्वरूप का कथन कर वैराग्य भाव दिखाने वाली कथा पर शरीर संवेगनी कथा है ।

नोट:—इसी कथा का नाम संवेजनी और संवेदनी भी है । संवेजनी का अर्थ संवेगनी के समान ही है । संवेदनी का अर्थ है ऊपर लिखी बातों से इहलोकादि वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराना ।

( ठाणांग ४ उ० २ सूत्र २२२ टी० )

१५७—निर्वेदनी कथा की व्याख्या और भेद:—

इहलोक और परलोक में पाप, पुण्य के शुभाशुभ फल को बता कर संसार से उदासीनता उत्पन्न करने वाली कथा निर्वेदनी कथा है ।

- (१) इस लोक में किये हुए दुष्ट कर्म, इसी भव में दुःख रूप फल देने वाले होते हैं। जैसे चोरी, पर स्त्री गमन आदि दुष्ट कर्म। इसी प्रकार इस लोक में किये हुए सुकृत इसी भव में सुख रूप फल देने वाले होते हैं। जैसे तीर्थङ्कर भगवान् को दान देने वाले पुरुष को सुवर्णवृष्टि आदि सुख रूप फल यहीं मिलता है। यह पहली निर्वेदनी कथा है।
- (२) इस लोक में किये हुए दुष्ट कर्म परलोक में दुःख रूप फल देते हैं। जैसे महारम्भ, महा-परिग्रह आदि नरक योग्य अशुभ कर्म करने वाले जीव को परभव अशुभ नरक में अपने किये हुए दुष्ट कर्मों का फल भोगना पड़ता है इसी प्रकार इस भव में किये हुए शुभ कार्यों का फल परलोक में सुख रूप फल देने वाला होता है। जैसे सुसाधु इस लोक में पाले हुए निरतिचार चारित्र का सुख रूप फल परलोक में पाते हैं। यह दूसरी निर्वेदनी-कथा है।
- (३) परलोक ( पूर्वभव ) में किये हुए अशुभ कर्म इस भव में दुःख रूप फल देते हैं। जैसे परलोक में किये हुए अशुभ कर्म के फल स्वरूप जीव इस लोक में हीन कुल में उत्पन्न होकर बालपन से ही कुष्ठ (कोढ़) आदि दुष्ट रोगों से पीड़ित और दारिद्र्य से अभिभूत देखे जाते हैं। इसी प्रकार परलोक में किये हुए-शुभ कर्म इस भव में सुखरूप फल देने वाले होते हैं। जैसे पूर्व भव में शुभ कर्म करने वाले जीव इस भव में तीर्थङ्कर रूप से जन्म लेकर सुखरूप फल पाते हैं। यह तीसरी निर्वेदनी कथा है।

(४) परलोक (पूर्व भव) में किये हुए अशुभ कर्म परलोक (आगामी भव) में दुःखरूप फल देते हैं। जैसे पूर्व भव में किये हुए अशुभ कर्मों से जीव कौवे, गीध आदि के भव में उत्पन्न होते हैं। उनके नरक योग्य कुछ अशुभ कर्म बंधे हुए होते हैं और अशुभ कर्म करके वे यहाँ नरक योग्य अधूरे कर्मों को पूर्ण कर देते हैं और इस के बाद नरक में जाकर दुःख भोगते हैं। इसी प्रकार परलोक में किये हुए शुभ कर्म परलोक (आगामी भव) में सुखरूप फल देने वाले होते हैं। जैसे देव भव में रहा हुआ तीर्थङ्कर का जीव पूर्व भव के तीर्थङ्कर प्रकृति रूप शुभ कर्मों का फल देव भव के बाद तीर्थङ्कर जन्म में भोगेगा। यह चौथी निर्वेदनी कथा है।

(ठाण्णग ४ उ० २ सूत्र २२२ टीका)

१५८—कपाय की व्याख्या और भेदः—

कपाय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ रूप आत्मा के परिणाम विशेष जो सम्यक्त्व देशविरति, सर्वविरति और यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। वे कपाय कहलाते हैं।

कपाय के चार भेदः—

(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ।

(१) क्रोधः—क्रोध मोहनीय के उदय से होने वाला, कृत्य अकृत्य के विवेक को हटाने वाला, प्रज्वलन स्वरूप आत्मा के परिणाम को क्रोध कहते हैं। क्रोधवश जीव किसी की

घात सहन नहीं करता और बिना विचारे अपने और पराए अनिष्ट के लिए हृदय में और बाहर जलता रहता है।

(२) मानः—मान मोहनीय कर्म के उदय से जाति आदि गुणों में अहंकार बुद्धिरूप आत्मा के परिणाम को मान कहते हैं। मान वश जीव में छोटे बड़े के प्रति उचित नम्र भाव नहीं रहता। मानी जीव अपने को बड़ा समझता है। और दूसरों को तुच्छ समझता हुआ उनकी अवहेलना करता है। गर्व वश वह दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर सकता।

(३) मायाः—माया मोहनीय कर्म के उदय से मन, वचन, काया की कुटिलता द्वारा परवञ्चना अर्थात् दूसरे के साथ कपटाई, ठगाई, दगारूप आत्मा के परिणाम विशेष को माया कहते हैं।

(४) लोभ—लोभ मोहनीय कर्म के उदय से द्रव्यादि विषयक इच्छा, मूर्च्छा ममत्व भाव, एवं-तृष्णा अर्थात् असन्तोष रूप आत्मा के परिणाम विशेष को लोभ कहते हैं।

प्रत्येक कषाय के चार भेद हैं—

(१) अनन्तानुबन्धी (२) अप्रत्याख्यान।

(३) प्रत्याख्यानावरण (४) संज्वलन।

अनन्तानुबन्धीः—जिस कषाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करता है। उस कषाय को अनन्तानुबन्धी कषाय कहते हैं। यह कषाय सम्यक्त्व का घात करता है। एवं जीवन पर्यन्त बना रहता है। इस कषाय से जीव नरक गति योग्य कर्मों का बन्ध करता है।

अप्रत्याख्यान—जिस कषाय के उदय से देश विरति रूप अल्प (थोड़ा सा भी) प्रत्याख्यान नहीं होता उसे अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं । इस कषाय से श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं होती । यह कषाय एक वर्ष तक बना रहता है और इससे तिर्यञ्च गति योग्य कर्मों का बन्ध होता है ।

प्रत्याख्यानावरणः—जिस कषाय के उदय से सर्व विरति रूप प्रत्याख्यान रुक जाता है अर्थात् साधु धर्म की प्राप्ति नहीं होती । वह प्रत्याख्यानावरण कषाय है । यह कषाय चार मास तक बना रहता है । इस के उदय से मनुष्य गति योग्य कर्मों का बन्ध होता है ।

संज्वलनः—जो कषाय परिषह तथा उपसर्ग के आजाने पर यतियों को भी थोड़ा सा जलाता है । अर्थात् उन पर भी थोड़ा सा असर दिखाता है । उसे संज्वलन कषाय कहते हैं । यह कषाय सर्व विरति रूप साधु धर्म में बाधा नहीं पहुँचाता । किन्तु सब से ऊँचे यथाख्यात चारित्र में बाधा पहुँचाता है । यह कषाय दो मास तक बना रहता है और इससे देव-गति योग्य कर्मों का बन्ध होता है ।

उपर जो कषायों की स्थिति एवं नरकादि गति दी गई है । वह बाहुल्यता की अपेक्षा से हैं । क्योंकि बाहुबलि मुनि को संज्वलन कषाय एक वर्ष तक रहा था और प्रसन्न-चन्द्र राजर्षि के अनन्तानुबन्धी कषाय अन्तर्मुहूर्त्त तक ही रहा था । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कषाय के रहते हुए

मिथ्या दृष्टियों का नवग्रैवेयक तक में उत्पन्न होना शास्त्र में वर्णित है ।

( पञ्चवणा पद १४ सूत्र १८ पद २३ सूत्र २६३ टीका )  
( ठाणांग ४ उ० १ सूत्र २४६ टीका )

१५६-क्रोध के चार भेद और उनकी उपमाएँ ।

(१) अनन्तानुबन्धी क्रोध, (२) अप्रत्याख्यान क्रोध ।  
(३) प्रत्याख्यानावरण क्रोध, (४) संज्वलन क्रोध ।

अनन्तानुबन्धी क्रोध—पर्वत के फटने पर जो दरार होती है ।

उसका मिलना कठिन है । उसी प्रकार जो क्रोध किसी उपाय से भी शान्त नहीं होता । वह अनन्तानुबन्धी क्रोध है ।

अप्रत्याख्यान क्रोध—छूखे तालाब आदि में मिट्टी के फट जाने पर दरार हो जाती है । जब वर्षा होती है । तब वह फिर मिल जाती है । उसी प्रकार जो क्रोध विशेष परिश्रम से शान्त होता है । वह अप्रत्याख्यान क्रोध है ।

प्रत्याख्यानावरण क्रोध—बालू में लकीर खींचने पर कुछ समय में हवा से वह लकीर वापिस भर जाती है । उसी प्रकार जो क्रोध कुछ उपाय से शान्त हो । वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध है ।

संज्वलन क्रोध—पानी में खींची हुई लकीर जैसे खींचने के साथ ही मिट जाती है । उसी प्रकार किसी कारण से उदय में आया हुआ जो क्रोध, शीघ्र ही शान्त हो जावे । उसे संज्वलन क्रोध कहते हैं ।

( पञ्चवणा पद १४ सूत्र १८ )  
( ठाणांग ४ उ० १ सूत्र २४६ टीका )  
( कर्मग्रन्थ प्रथम भाग गा० १६ )  
( ठाणांग ४ उ० २ सू० २६३ टी० )

१६०—मान के चार भेद और उनकी उपमाएं ।

(१) अनन्तानुबन्धी मान (२) अप्रत्याख्यान मान ।

(३) प्रत्याख्यानावरण मान (४) संज्वलन मान ।

अनन्तानुबन्धी मान—जैसे पत्थर का खम्भा अनेक उपाय करने पर भी नहीं नमता । उसी प्रकार जो मान किसी भी उपाय से दूर न किया जा सके वह अनन्तानुबन्धी मान है ।

अप्रत्याख्यान मान—जैसे—हड्डी अनेक उपायों से नमती है । उसी प्रकार जो मान अनेक उपायों और अति परिश्रम से दूर किया जा सके । वह अप्रत्याख्यान मान है ।

प्रत्याख्यानावरण मान—जैसे—काष्ठ, तैल वगैरह की मालिश से नम जाता है । उसी प्रकार जो मान थोड़े उपायों से नमाया जा सके, वह प्रत्याख्यानावरण मान है ।

संज्वलन मान—जैसे—लता या तिनका बिना मेहनत के सहज ही नम जाता है । उसी प्रकार जो मान सहज ही छूट जाता है । वह संज्वलन मान है ।

( पञ्चवर्णापद १४ सूत्र १५८ )

( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २६३ )

( कर्मग्रन्थ प्रथम भाग गा० १६ )

१६१—माया के चार भेद और उनकी उपमाएं—

(१) अनन्तानुबन्धी माया (२) अप्रत्याख्यान माया ।

(३) प्रत्याख्यानावरण माया (४) संज्वलन माया ।

अनन्तानुबन्धी माया—जैसे—बांस की कठिन जड़ का टेढ़ापन किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता । उसी प्रकार जो माया किसी भी प्रकार दूर न हो, अर्थात् सरलता रूप में परिणत न हो । वह अनन्तानुबन्धी माया है ।



अप्रत्याख्यान माया—जैसे—मेंढे का टेढ़ा सींग अनेक उपाय करने पर बड़ी मुश्किल से सीधा होता है। उसी प्रकार जो माया अत्यन्त परिश्रम से दूर की जा सके। वह अप्रत्याख्यान माया है।

प्रत्याख्यानावरण माया—जैसे—चलते हुए बैल के मूत्र की टेढ़ी लकीर सूख जाने पर पवनादि से मिट जाती है। उसी प्रकार जो माया सरलता पूर्वक दूर हो सके, वह प्रत्याख्यानावरण माया है।

संज्वलन माया—झीले जाते हुए बांस के छिलके का टेढ़ापन बिना प्रयत्न के सहज ही मिट जाता है। उसी प्रकार जो माया बिना परिश्रम के शीघ्र ही अपने आप दूर हो जाय। वह संज्वलन माया है।

( पन्नवणा पद १४ सूत्र १८८ )

( ठाणांग ४ उ० २ सूत्र २६३ )

( कर्म ग्रन्थ प्रथम भाग गा० २० )

१६२—लोभ के चार भेद और उनकी उपमाएं:—

(१) अनन्तानुबन्धी लोभ (२) अप्रत्याख्यान लोभ।

(३) प्रत्याख्यानावरण लोभ (४) संज्वलन लोभ।

अनन्तानुबन्धी लोभ—जैसे किरमची रङ्ग किसी भी उपाय से नहीं छूटता, उसी प्रकार जो लोभ किसी भी उपाय से दूर न हो। वह अनन्तानुबन्धी लोभ है।

अप्रत्याख्यान लोभ:—जैसे गाड़ी के पहिए का कीटा (खञ्जन) परिश्रम करने पर अतिकष्ट पूर्वक छूटता है।

उसी प्रकार जो लोभ अति परिश्रम से कष्ट पूर्वक दूर किया जा सके । वह अप्रत्याख्यान लोभ है ।

प्रत्याख्यानावरण लोभः—जैसे—दीपक का काजल साधारण परिश्रम से छूट जाता है । उसी प्रकार जो लोभ कुछ परिश्रम से दूर हो । वह प्रत्याख्यानावरण लोभ है ।

संज्वलन लोभः—जैसे हब्दी का रंग सहज ही छूट जाता है । उसी प्रकार जो लोभ आसानी से स्वयं दूर हो जाय वह संज्वलन लोभ है ।

( ठाणाग ४ उ० २ सूत्र २६३ )

( पन्नवणा पद १४ सूत्र १८८ )

( कर्म ग्रन्थ प्रथम भाग गाथा २० )

१६३—किस गति में किस कपाय की अधिकता होती हैः—

(१) नरक गति में क्रोध की अधिकता होती है ।

(२) तिर्यञ्च गति में माया अधिक होती है ।

(३) मनुष्य गति में मान अधिक होता है ।

(४) देव गति में लोभ की अधिकता होती है ।

( पन्नवणा पद १४ सूत्र १८८ )

१६४—क्रोध के चार प्रकारः—

(१) आमोग निवर्तित (२) अनामोग निवर्तित ।

(३) उपशान्त (४) अनुपशान्त ।

आमोग निवर्तितः—पुष्ट कारण होने पर यह सोच कर कि ऐसा किये बिना इसे शिक्षा नहीं मिलेगी । जो क्रोध किया जाता है । वह आमोग निवर्तित क्रोध है ।

अथवा:—

क्रोध के विपाक को जानते हुए जो क्रोध किया जाता है ।  
वह अनाभोग निवर्तित क्रोध है ।

अनाभोग निवर्तित:—जब कोई पुरुष यों ही गुण दोष का  
विचार किये बिना परवश होकर क्रोध कर बैठता है अथवा  
क्रोध के विपाक को न जानते हुए क्रोध करता है तो उस  
का क्रोध अनाभोग निवर्तित क्रोध है ।

उपशान्त:—जो क्रोध सत्ता में हो, लेकिन उदयावस्था में न हो  
वह उपशान्त क्रोध है ।

अनुपशान्त:—उदयावस्था में रहा हुआ क्रोध अनुपशान्त  
क्रोध है ।

इसी प्रकार मान, माया और लोभ के भी चार २ भेद हैं ।

(ठाण्णग ४ उ० १ सूत्र २४६)

१६५—क्रोध की उत्पत्ति के चार स्थान:—चार कारणों से  
क्रोध की उत्पत्ति होती है ।

(१) क्षेत्र अर्थात् नैरिये आदि का अपना अपना उत्पत्ति  
स्थान ।

(२) सचेतनादि वस्तु अथवा वास्तुधर ।

(३) शरीर ।

(४) उपकरण ।

-इन्हीं चार बोलों का आश्रय लेकर मान, माया,  
और लोभ की भी उत्पत्ति होती है ।

( ठाण्णग ४ उ० १ सूत्र २४६ )

१६६—कषाय की ऐहिक हानियाँ—

क्रोध आदि चार कषाय संसार के मूल का सिंचन करने वाले हैं। इन के सेवन से जीव को ऐहिक और पारलौकिक अनेक दुःख होते हैं। यहां ऐहिक हानियाँ बतलाई जाती हैं।

क्रोध प्रीति को नष्ट करता है। मान विनय का नाश करता है। माया मित्रता का नाश करने वाली है। लोभ उपरोक्त प्रीति, विनय और मित्रता सभी को नष्ट करने वाला है।

( दशवैकालिक अध्ययन ८ गाथा ३८ )

१६७—कषाय जीतने के चार उपाय—

(१) शान्ति और क्षमा द्वारा क्रोध को निष्फल करके दवा देना चाहिए।

(२) मृदुता, कोमल वृत्ति द्वारा मान पर विजय प्राप्त करनी चाहिए।

(३) ऋजुता-सरल भाव से माया का मर्दन करना चाहिए।

(४) सन्तोष रूपी शस्त्र से लोभ को जीतना चाहिए।

( दशवैकालिक अध्ययन ८ गाथा ३९ )

१६८—कुम्भ की चौभङ्गी—

(१) मधु कुम्भ मधु पिधान (२) मधु कुम्भ विष पिधान।

(३) विष कुम्भ मधु पिधान (४) विष कुम्भ विष पिधान।

(१) मधु कुम्भ मधु पिधान:—एक कुम्भ ( घड़ा ) मधु से भरा हुआ होता है और मधु के ही ढकने वाला होता है।

(२) मधु कुम्भ विष पिधान:—एक कुम्भ मधु से भरा

होता है और उस का ढकना विष का होता है ।

(३) विष कुम्भ मधु पिधान—एक कुम्भ विष से भरा होता है और उस का ढकना मधु का होता है ।

(४) विष कुम्भ विष पिधान—एक कुम्भ विष से भरा हुआ होता है और उसका ढकना भी विष का ही होता है ।

( ठाणांग ४, ७० ४ सूत्र ३६० )

१६६—कुम्भ की उपमा से चार पुरुष—

(१) किसी पुरुष का हृदय निष्पाप और अकलुष होता है और वह मधुरभाषी भी होता है । वह पुरुष मधु कुम्भ मधु पिधान जैसा है ।

(२) किसी पुरुष का हृदय तो निष्पाप और अकलुष होता है । परन्तु वह कटुभाषी होता है । वह मधु कुम्भ विष पिधान जैसा है ।

(३) किसी पुरुष का हृदय कलुषता पूर्ण है । परन्तु वह मधुरभाषी होता है । वह पुरुष विष कुम्भ मधु पिधान जैसा है ।

(४) किसी पुरुष का हृदय कलुषता पूर्ण है और वह कटुभाषी भी है । वह पुरुष विष कुम्भ विष पिधान जैसा है ।

( ठाणांग ४ ३० ४ सूत्र ३६० )

१७०—फूल के चार प्रकार—

(१) एक फूल सुन्दर परन्तु सुगन्ध हीन होता है । जैसे आकुली, रोहिड़ आदि का फूल ।

(२) एक फूल सुगन्ध युक्त होता है पर सुन्दर नहीं होता । जैसे वकुल और मोहनी का फूल ।

(३) एक फूल सुगन्ध और रूप दोनों से युक्त होता है ।  
जैसे—जाति पुष्प, गुलाब का फूल आदि ।

(४) एक फूल गन्ध और रूप दोनों से हीन होता है । जैसे  
वेर का फूल, धतूरे का फूल ।

(ठाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२०)

१७१—फूल की उपमा से पुरुष के चार प्रकारः—

(१) एक पुरुष रूप सम्पन्न है । परन्तु शील सम्पन्न नहीं ।  
जैसे—ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ।

(२) एक पुरुष शील सम्पन्न है । परन्तु रूप सम्पन्न नहीं ।  
जैसे—हरिकेशी मुनि ।

(३) एक पुरुष रूप और शील दोनों से ही सम्पन्न होता  
है । जैसे—भरत चक्रवर्ती ।

(४) एक पुरुष रूप और शील दोनों से ही हीन होता है ।  
जैसे—काल सौकरिक कसाई ।

(ठाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२०)

१७२—मेघ चारः—

(१) कोई मेघ गर्जते हैं पर वरसते नहीं ।

(२) कोई मेघ गर्जते नहीं हैं पर वरसते हैं ।

(३) कोई मेघ गर्जते भी हैं और वरसते भी हैं ।

(४) कोई मेघ न गर्जते हैं और न वरसते हैं ।

( ठाणांग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३४६ )

१७३—मेघ की उपमा से पुरुष के चार प्रकारः—

(१) कोई पुरुष दान, ज्ञान, व्याख्यान और अनुष्ठान  
आदि की कोरी बातें करते हैं पर करते कुछ नहीं ।

- (२) कोई पुरुष उक्त कार्यों के लिए अपनी बड़ाई-तो नहीं करते पर कार्य करने वाले होते हैं।
- (३) कोई पुरुष उक्त कार्यों के विषय में डोंग भी हांकते हैं और कार्य भी करते हैं।
- (४) कोई पुरुष उक्त कार्यों के लिये न डोंग हांकते हैं और न कुछ करते ही हैं।

(ठायाग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३४६)

१७७-(क) मेघ क अन्य चार प्रकार:—

- (१) पुष्कर संवर्तक (२) प्रद्युम्न (३) जीमूत (४) जिह्व ।
- (१) पुष्कर संवर्तक:—जो एक बार बरस कर दस हजार वर्ष के लिए पृथ्वी को सिन्धु कर देता है।
- (२) प्रद्युम्न:—जो एक बार बरस कर एक हजार वर्ष के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बना देता है।
- (३) जीमूत:—जो एक बार बरस कर दस वर्ष के लिए पृथ्वी को उपजाऊ बना देता है।
- (४) जिह्व:—जो मेघ कई बार बरसने पर भी पृथ्वी को एक वर्ष के लिए भी नियम पूर्वक उपजाऊ नहीं बनाता।

इसी तरह पुरुष भी चार प्रकार के हैं। एक पुरुष एक ही बार-उपदेश देकर सुनने वाले के दुर्गुणों को हमेशा के लिए छुड़ा देता है वह पहले मेघ के समान है। उससे उत्तरोत्तर कम प्रभाव वाले वक्ता, दूसरे और तीसरे मेघ सरीखे हैं। बार बार उपदेश देने पर भी जिनका असर

नियमपूर्वक न हो अर्थात् कभी हो और कभी न हो । वह चौथे मेघ के समान है ।

दान के लिए भी यही बात है । एक ही बार दान देकर हमेशा के लिए याचक के दारिद्र्य को दूर करने वाला दाता प्रथम मेघ सदृश है । उससे कम शक्ति वाले दूसरे और तीसरे मेघ के समान हैं । किन्तु जिसके अनेक बार दान देने पर भी थोड़े काल के लिए भी अर्थी (याचक) की आवश्यकताएं नियमपूर्वक पूरी न हो ऐसा दानी जिह्न मेघ के समान है ।

( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३४७ )

१७४(ख)—अन्य प्रकार से मेघ के चार भेदः—

- (१) कोई मेघ क्षेत्र में बरसता है, अक्षेत्र में नहीं बरसता ।
- (२) कोई मेघ क्षेत्र में नहीं बरसता, अक्षेत्र में बरसता है ।
- (३) कोई मेघ क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में बरसता है ।
- (४) कोई मेघ क्षेत्र और अक्षेत्र दोनों में ही नहीं बरसता ।

( ठाणाग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३४६ )

१७५—मेघ की उपमा से चार दानी पुरुष—

- (१) कोई पुरुष पात्र को दान देते हैं पर कुपात्र को नहीं देते ।
- (२) कोई पुरुष पात्र को तो दान नहीं देते, पर कुपात्र को देते हैं ।
- (३) कोई पुरुष पात्र और कुपात्र दोनों को दान देते हैं ।



(४) कोई पुरुष पात्र और कुपात्र दोनों को ही दान नहीं देते हैं ।

( ठाणांग ४ च्छेसा ४ सूत्र ३५६ )

१७६—प्रव्रज्या प्राप्त पुरुषों के चार प्रकारः—

(१) कोई पुरुष सिंह की तरह उन्नत भावों से दीक्षा लेकर सिंह की तरह ही उग्र विहार आदि द्वारा उसे पालते हैं ।

(२) कोई पुरुष सिंह की तरह उन्नत भावों से दीक्षा लेकर शृगाल की तरह दीन वृत्ति से उसका पालन करते हैं ।

(३) कोई पुरुष शृगाल की तरह दीन वृत्ति से दीक्षा लेकर सिंह की तरह उग्र विहार आदि द्वारा उसे पालते हैं ।

(४) कोई पुरुष शृगाल की तरह दीन वृत्ति से दीक्षा लेकर शृगाल की तरह दीन वृत्ति से ही उसका पालन करते हैं ।

( ठाणांग ४ च्छेसा ४ सूत्र ३२७ )

१७७—तीर्थ की व्याख्या और उसके भेदः—

सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यग्चारित्र आदि गुण रत्नों को धारण करने वाले प्राणी समूह को तीर्थ कहते हैं । यह तीर्थ ज्ञान, दर्शन, चारित्र द्वारा संसार समुद्र से जीवों को तिराने वाला है । इस लिए इसे तीर्थ कहते हैं ।

तीर्थ के चार प्रकारः—

(१) साधु ।

(२) साध्वी ।

(३) श्रावक ।

(४) श्राविका ।

साधुः—पंच महाव्रतधारी, सर्व विरति को साधु कहते हैं ।

ये तपस्वी होने से श्रमण कहलाते हैं । शोभन, निदान रूप पाप से रहित चित्त वाले होने से भी श्रमण कहलाते हैं । ये ही स्वजन, परजन, शत्रु, मित्र, मान, अपमान आदि में समभाव रखने के कारण समण कहलाते हैं ।

इसी प्रकार साध्वी का स्वरूप है । श्रमणी और समणी इनके नामान्तर हैं ।

श्रावकः—देश विरति को श्रावक कहते हैं । सम्यग्दर्शन को प्राप्त किये हुए, प्रति दिन प्रातःकाल साधुओं के समीप प्रमाद रहित होकर श्रेष्ठ चारित्र्य का व्याख्यान सुनते हैं । वे श्रावक कहलाते हैं ।

अथवाः—

“श्रा” अर्थात् सम्यग् दर्शन को धारण करने वाले ।

“ व ” अर्थात् गुणवान्, धर्म क्षेत्रों में धनरूपी बीज को बोने वाले, दान देने वाले ।

“क” अर्थात् क्लेश युक्त, कर्म रज का निराकरण करने वाले जीव “श्रावक” कहलाते हैं ।

“श्राविका” का भी यही स्वरूप है ।

( ठाणांग ४ सूत्र ३६३ टीका )

१७८—श्रमण ( समण, समन ) की चार व्याख्याएं ।

(१) जिस प्रकार मुझे दुःख अप्रिय है । उसी प्रकार सभी जीवों को दुःख अप्रिय लगता है । यह समझ कर तीन करण, तीन योग से, जो किसी जीव की हिंसा नहीं करता

एवं जो सभी जीवों को आत्मवत् समझता है । वह समण कहलाता है ।

(२) जिसे संसार के सभी प्राणियों में न किसी पर राग है और न किसी पर द्वेष । इस प्रकार समान मन (मध्यस्थ भाव ) वाला होने से साधु स-मन कहलाता है ।

(३) जो शुभ द्रव्य मन वाला है और भाव से भी जिसका मन कभी पापमय नहीं होता । जो स्वजन, परजन एवं मान, अपमान में एक सी वृत्ति वाला है । वह श्रमण कहलाता है ।

(४) जो सर्प, पर्वत, अग्नि, सागर, आकाश, वृक्ष पंक्ति, अमर, मृग, पृथ्वी, कमल, सूर्य एवं पवन के समान होता है । वह श्रमण कहलाता है ।

दृष्टान्तों के साथ दार्ष्टान्तिक इस तरह घटाया जाता है ।

सर्प जैसे चूहे आदि के बनाये हुए बिल में रहता है उसी प्रकार साधु भी गृहस्थ के बनाये हुए घर में वास करता है । वह स्वयं घर आदि नहीं बनाता ।

पर्वत जैसे आंधी और बवंडर से कभी विचलित नहीं होता । उसी प्रकार साधु भी परिषह और उपसर्ग द्वारा विचलित नहीं होता हुआ संयम में स्थिर रहता है ।

अग्नि जैसे तेजोमय है तथा कितना ही भक्ष्य पाने पर भी वह तृप्त नहीं होती । उसी प्रकार मुनि भी तप से तेजस्वी होता है एवं शास्त्र ज्ञान से कभी सन्तुष्ट नहीं होता । हमेशा विशेष शास्त्र ज्ञान सीखने की इच्छा रखता है ।

सागर जैसे गंभीर होता है। रत्नों के निधान से भरा होता है एवं मर्यादा का त्याग करने वाला नहीं होता। उसी प्रकार मुनि भी स्वभाव से गंभीर होता है। ज्ञानादि रत्नों से पूर्ण होता है एवं कैसे भी संकट में मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता।

आकाश जैसे निराधार होता है। उसी प्रकार साधु भी आलम्बन रहित होता है।

वृक्ष पंक्ति जैसे सुख और दुःख में कभी विकृत नहीं होती। उसी प्रकार समता भाव वाला साधु भी सुख दुःख के कारण विकृत नहीं होता।

अमर जैसे फूलों से रस ग्रहण करने में अनियत वृत्ति वाला होता है तथा स्वभावतः पुष्पित फूलों को कष्ट न पहुँचाता हुआ अपनी आत्मा को वृत्त कर लेता है। इसी प्रकार साधु भी गृहस्थों के यहां से आहार लेने में अनियत वृत्ति वाला होता है। गृहस्थों द्वारा अपने लिये बनाये हुए आहार में से, उन्हें असुविधा न हो, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपना निर्वाह करता है।

जैसे मृग वन में हिंसक प्राणियों से सदा शङ्कित एवं त्रस्त रहता है। उसी प्रकार साधु भी दोषों से शङ्कित रहता है।

पृथ्वी जैसे सब कुछ सहने वाली है। उसी प्रकार साधु भी सब दुःखों को सहने वाला होता है।

कमल जैसे जल और पंक में रहता हुआ भी उन से सर्वथा पृथक् रहता है। उसी प्रकार साधु संसार में रहता हुआ भी निर्लिप्त रहता है।

सूर्य जैसे सब पदार्थों को सम भाव से प्रकाशित करता है। उसी प्रकार साधु भी धर्मास्तिकायादि रूप लोक का समान रूप से ज्ञान द्वारा प्रकाशन करता है।

जैसे पवन अप्रतिबन्ध गति वाला है। उसी प्रकार साधु भी मोह ममता से दूर रहता हुआ अप्रतिबन्ध विहारी होता है।

(अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ७ 'समण' शब्द पृष्ठ ४०४)  
 (दशवैकालिक अथर्व २ नि० गा० १५४ से १५७ की टीका पृष्ठ ८३)  
 (अनुयोगद्वार "निचेपाविकार" सूत्र १५० गा० १२६ से १३२)

१७६—चार प्रकार का संयम—

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (१) मन संयम ।   | (२) वचन संयम ।   |
| (३) काया संयम । | (४) उपकरण संयम । |

मन, वचन, काया के अशुभ व्यापार का निरोध करना और उन्हें शुभ व्यापार में प्रवृत्त करना मन, वचन और काया का संयम है। बहुमूल्य वस्त्र आदि उपकरणों का परिहार करना उपकरण संयम है।

(ठाणांग ४ उद्देशा २ सूत्र ३१०)

१८०—चार महाव्रत—

भरत, ऐरावत क्षेत्रों में पहले एवं चौबीसवें तीर्थङ्करों के सिवाय शेष २२ तीर्थङ्कर भगवान् चार महाव्रत रूप धर्म की प्ररूपणा करते हैं। इसी प्रकार महाविदेह क्षेत्र में भी अरिहन्त भगवान् चार महाव्रत रूप धर्म फरमाते हैं। चार महाव्रत ये हैं:—

- १—सर्व प्राणातिपात से निवृत्ति ।
- २—सर्व मृपावाद से निवृत्ति ।
- ३—सर्व अदत्तादान से निवृत्ति ।
- ४—सर्व परिग्रह से निवृत्ति ।

सर्वथा मैथुन निवृत्ति रूप महाव्रत का परिग्रह निवृत्ति व्रत में ही समावेश किया जाता है। क्योंकि अपरिग्रहीत स्त्रियों का उपभोग नहीं होता।

( ठाणग ४ उ० १ सूत्र २६६ )

१८१—ईर्या समिति के चार कारण:—

- |              |            |
|--------------|------------|
| (१) आलम्बन । | (२) काल ।  |
| (३) मार्ग ।  | (४) यतना । |

(१) आलम्बन:—साधु को ज्ञान, दर्शन, चारित्र का आलम्बन लेकर गमन करना चाहिए। विना उक्त आलम्बनों के बाहर जाना साधु के लिए निषिद्ध है।

(२) काल:—ईर्या समिति का काल तीर्थङ्कर भगवान् ने दिन का बताया है। रात्रि में दिखाई न देने से पुष्ट

आलम्बन के बिना जाने की भगवान् की आज्ञा नहीं है ।

(३) मार्गः—कुपथ में चलने से आत्मा और संयम की विराधना होती है । इसलिये कुपथ का त्याग कर सुपथ-राजमार्ग आदि में साधु को चलना चाहिए ।

(४) यतनाः—द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से यतना के चार भेद हैं ।

द्रव्य यतनाः—द्रव्य से दृष्टि द्वारा जीवादि पदार्थों को देख कर संयम तथा आत्मा की विराधना न हो । इस प्रकार साधु को चलना चाहिए ।

क्षेत्र यतनाः—क्षेत्र से युग प्रमाण अर्थात् चार हाथ प्रमाण (६६ अंगुल) आगे की भूमि को देखते हुए साधु को चलना चाहिए ।

काल यतनाः—काल से जब तक चलता फिरता रहे । तब तक यतना से चले फिरे । दिन को देख कर और रात्रि को पूंज कर चलना चाहिए ।

भाव यतनाः—भाव से सावधानी पूर्वक चित्त को एकाग्र रखते हुए जाना चाहिए । ईर्या में उपघात करने वाले पांच इन्द्रियों के विषय तथा पांच प्रकार के स्वाध्याय को वर्जना चाहिए ।

( उत्तराख्ययन सूत्र अध्ययन २४ गा० ४ में = )

१८२—स्थण्डिल के चार भांगे:—

मल मूल आदि त्याग करने अर्थात् परिठवने की जगह को स्थण्डिल कहते हैं । स्थण्डिल ऐसा होना चाहिए जहां स्व, पर और उभय-पक्ष वालों का न तो आना जाना है और न संलोक । अर्थात् न दूर से उनकी दृष्टि ही पड़ती है । उसके चार भांगे हैं ।—

- (१) जहां स्व, पर और उभय पक्ष वालों का न आना जाना है और न दूर से उनकी नजर ही पड़ती है ।
- (२) जहां पर उनका आना जाना तो नहीं है पर दूर से उनकी दृष्टि पड़ती है ।
- (३) जहां उनका आना जाना तो है किन्तु दूर से उनकी नजर नहीं पड़ती ।
- (४) जहां उनका आना जाना है और दूर से नजर भी पड़ती है ।

इन चार भागों में पहला भाग परिठवने के लिए शुद्ध है । शेष अशुद्ध हैं ।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ गा० १६ )

१८३—चार कारणों से, साध्वी से आलाप संलाप करता हुआ साधु 'अकेला साधु अकेली स्त्री के साथ खड़ा न रहे, न बात-चीत करे, विशेष कर साध्वी के साथ'—इस निर्ग्रन्थाचार का अतिक्रमण नहीं करता ।

- (१) प्रश्न पूछने योग्य साधर्मिक गृहस्थ पुरुष के न होने पर आर्या से मार्ग पूछता हुआ ।
- (२) आर्या को मार्ग बतलाता हुआ ।



(३) आर्या को आहारादि देता हुआ ।

(४) आर्या को अशंनादि दिलाता हुआ ।

( ठाणंग ४ उ० २ सूत्र २६० )

१८४—श्रावक के चार प्रकारः—

(१) माता-पिता समान (२) भाई समान ।

(३) मित्र समान (४) सौत समान ।

(१) माता-पिता के समानः—विना अपवाद के साधुओं के प्रति एकान्त रूप से वत्सल भाव रखने वाले श्रावक माता-पिता के समान हैं ।

(२) भाई के समानः—तत्त्व विचारणा आदि में कठोर वचन से कभी साधुओं से अप्रीति होने पर भी शेष प्रयोजनों में अतिशय वत्सलता रखने वाले श्रावक भाई के समान हैं ।

(३) मित्र के समानः—उपचार सहित वचन आदि द्वारा साधुओं से जिनकी प्रीति का नाश हो जाता है और प्रीति का नाश हो जाने पर भी अपेक्षित में उपेक्षा करने वाले श्रावक मित्र के समान हैं ।

मित्र की तरह दोषों को ढकने वाले और गुणों का प्रकाश करने वाले श्रावक मित्र के समान हैं ।

( टब्बा )

(४) सौत के समानः—साधुओं में सदा दोष देखने वाले और उनका अपकार करने वाले श्रावक सौत के समान हैं ।

( ठाणंग ४ उ० ३ सूत्र ३२१ )

१८५—श्रावक के अन्य चार प्रकार—

- (१) आदर्श समान (२) पताका समान ।  
 (३) स्थाणु समान (४) खर कण्टक समान ।

(१) आदर्श समान श्रावकः—जैसे दर्पण समीपस्थ पदार्थों का प्रतिबिम्ब ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो श्रावक साधुओं से उपदिष्ट उत्सर्ग, अपवाद आदि आगम सम्बन्धी भावों को यथार्थ रूप से ग्रहण करता है। वह आदर्श ( दर्पण ) समान श्रावक है।

(२) पताका समान श्रावक—जैसे अस्थिर पताका जिस दिशा की वायु होती है। उसी दिशा में फहराने लगती है। उसी प्रकार जिस श्रावक का अस्थिर ज्ञान विचित्र देशना रूप वायु के प्रभाव से देशना के अनुसार बदलता रहता है अर्थात् जैसी देशना सुनता है। उसी की ओर झुक जाता है। वह पताका समान श्रावक है।

(३) स्थाणु ( खम्भा ) समान श्रावक—जो श्रावक गीतार्थ की देशना सुन कर भी अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ता। वह श्रावक अनमन शील ( अपरिवर्तन शील ) ज्ञान सहित होने से स्थाणु के समान है।

(४) खर कण्टक समान श्रावक—जो श्रावक, समझाये जाने पर भी अपने दुराग्रह को नहीं छोड़ता, बल्कि समझाने वाले को कठोर वचन रूपी कांटों से कष्ट पहुँचाता है। जैसे बबूल आदि का कांटा उसमें फंसे हुए वस्त्र को फाड़ता है और साथ ही छुड़ाने वाले

पुरुष के हाथों में चुभकर उसे दुःखित करता है ।

( ढाणाग ४ व० ३ सूत्र ३२१ )

१८६—शिक्षा व्रत चारः—

बार बार सेवन करने योग्य अभ्यास प्रधान व्रतों को शिक्षाव्रत कहते हैं । ये चार हैं—

- (१) सामायिक व्रत                      (२) देशावकाशिक व्रत ।  
(३) पौषधोपवास व्रत                (४) अतिथि संविभाग व्रत ।

(१) सामायिक व्रतः—सम्पूर्ण सावध व्यापार का त्याग कर आर्त्तध्यान, रौद्र ध्यान दूर कर धर्म ध्यान में आत्मा को लगाना और मनोवृत्ति को संभाव में रखना सामायिक व्रत है । एक सामायिक का काल दो घड़ी अर्थात् एक मुहूर्त्त है । सामायिक में ३२ दोषों को वर्जना चाहिए । ( आव० हरि० अ० ६ पृ० ८३१ )  
( पंचा० १ गा० २५ से २६ )

(२) देशावकाशिक व्रतः—छठे व्रत में जो दिशाओं का परिमाण किया है । उसका तथा सन्न व्रतों का प्रति-दिन संकोच करना देशावकाशिक व्रत है । देशावकाशिक व्रत में दिशाओं का संकोच कर लेने पर मर्यादा के बाहर की दिशाओं में आश्रव का सेवन न करना चाहिये तथा मर्यादित दिशाओं में जितने द्रव्यों की मर्यादा की है । उसके उपरान्त द्रव्यों का उपभोग न करना चाहिए । ( पचा० १ गा० २७ से २८ )

( आव० हरि० अ० ६ पृ० ८३४ )

(३) पौषधोपवास व्रतः—एक दिन रात अर्थात् आठ पहर के लिए चार आहार, मणि, सुवर्ण तथा आभूषण,

पुष्पमाला, सुगंधित चूर्ण आदि तथा सकल सावध व्यापारों को त्याग कर धर्मस्थान में रहना और धम-ध्यान में लीन रह कर शुभ भावों से उक्त काल को व्यतीत करना पौषधोपवास व्रत है। इस व्रत में पौषध के १८ दोषों का त्याग करना चाहिए।

( पचा० १ गा० २६ से ३० ) ( आव० हरि० अ० ६ पृ० ८३ )

(४) अतिथि संविभाग व्रतः— पंच महाव्रतधारी साधुओं को उनके कल्प के अनुसार निर्दोष अशन, पान, स्वाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादपोञ्चन, पीठ, फलक, शय्या, संस्तारकं, औषध और भेषज यह चौदह प्रकार की वस्तु निष्काम बुद्धि पूर्वक आत्म कल्याण की भावना से देना तथा दान का संयोग न मिलने पर मदा ऐसी भावना रखना अतिथि संविभाग व्रत है।

( पचा० १ गा० ३१-३२ )

( प्रथम पचाशक गाथा, २५ से ३० तक )

( हरिभद्रियावश्यक प्रत्याख्यानाध्ययन पृष्ठ ८३६ )

१८७—विश्राम चारः—

भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले पुरुष के लिए चार विश्राम होते हैं।

(१) भार को एक कंधे से दूसरे कंधे पर लेना एक विश्राम है।

(२) भार रख कर टट्टी पेशाव करना दूसरा विश्राम है।

(३) नागकुमार सुपर्णकुमार आदि के देहरे में या अन्य स्थान पर रात्रि के लिए विश्राम करना तीसरा विश्राम है।

(४) जहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँच कर सदा के लिए विश्राम करना चौथा विश्राम है।

( ठाण्णांग ४ उ० ३ सूत्र ३१४ )

१८८—श्रावक के चार विश्रामः—

(१) पाँच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिखाव्रत एवं अन्य त्याग प्रत्याख्यान का अंगीकार करना पहला विश्राम है।

(२) सामायिक, देशावकाशिक व्रतों का पालन करना तथा अन्य ग्रहण किए हुए व्रतों में रक्खी हुई मर्यादा का प्रतिदिन संकोच करना, एवं उन्हें सम्यक् पालन करना दूसरा विश्राम है।

(३) अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन प्रतिपूर्णा पौषध व्रत का सम्यक् प्रकार पालन करना तीसरा विश्राम है।

(४) अन्त समय में संलेखना अंगीकार कर, आहार पानी का त्याग कर, निश्चेष्ट रहते हुए और मरण की इच्छा न करते हुए रहना, चौथा विश्राम है।

( ठाण्णांग ४ उ० ३ सूत्र ३१४ )

१८९—सद्दहणा चारः—

(१) परमार्थ का अर्थात् जीवादि तत्त्वों का परिचय करना।

(२) परमार्थ अर्थात् जीवादि के स्वरूप को भली प्रकार जानने वाले आचार्य्य आदि की सेवा करना।

(३) जिन्होंने सम्यक्त्व का वमन कर दिया है ऐसे निह्नुवादि की संगति का त्याग करना ।

(४) कुदृष्टि अर्थात् कुदर्शनियों की संगति का त्याग करना ।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २८ गाथा २८ )

( धर्म संग्रह अधिकार २ श्लोक २२ टीका पृ० ८३ )

१६०—सामायिक की व्याख्या और उसके भेदः—

सामायिकः—सर्व सावध व्यापारों का त्याग करना और निरवध व्यापारों में प्रवृत्ति करना सामायिक है ।

( धर्म रत्न प्रकरण )

( धर्म संग्रह अधि० २ श्लोक ३७ टीका पृ० ८३ )

अथवाः—

सम अर्थात् रागद्वेष रहित पुरुष की प्रतिक्षण कर्म निर्जरा से होने वाली अपूर्व शुद्धि सामायिक है । सम-अर्थात् ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति सामायिक है ।

अथवाः—

सम का अर्थ है जो व्यक्ति रागद्वेष से रहित होकर सर्व प्राणियों को आत्मवत् समभक्ता है । ऐसी आत्मा को सम्यग्ज्ञान, सम्यग् दर्शन और सम्यग् चारित्र की प्राप्ति होना सामायिक है । ये ज्ञानादि रत्नत्रय भवाटवी भ्रमण के दुःख का नाश करने वाले हैं । कल्पवृक्ष, कामधेनु और चिन्तामणि से भी बढ़ कर हैं और अनुपम सुख के देने वाले हैं ।

सामायिक के चार भेदः—

- (१) सम्यक्त्व सामायिक (२) श्रुत सामायिक ।  
 (३) देशविरति सामायिक (४) सर्व विरति सामायिक ।

(१) सम्यक्त्व सामायिकः—देव नारकी की तरह निसर्ग अर्थात् स्वभाव से होने वाला एवं अधिगम अर्थात् तीर्थङ्करादि के समीप धर्म श्रवण से होने वाला तत्त्वश्रद्धान सम्यक्त्व सामायिक है ।

(२) श्रुत सामायिकः—गुरु के समीप में सूत्र, अर्थ या इन दोनों का विनयादि पूर्वक अध्ययन करना श्रुत सामायिक है ।

(३) देशविरति सामायिकः—श्रावक का अणुव्रत आदि रूप एक देश विषयक चारित्र, देशविरति सामायिक है ।

(४) सर्वविरति सामायिकः—साधु का पंच महाव्रत रूप सर्व-विरति चारित्र, सर्वविरति सामायिक है ।

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा २६७३ से २६७७ )

१६१ वादी के चार भेदः —

- (१) क्रिया वादी । (२) अक्रिया वादी ।  
 (३) विनय वादी । (४) अज्ञान वादी ।

क्रियावादीः—इसकी भिन्न २ व्याख्याएं हैं। यथाः—

- (१) कर्त्ता के बिना क्रिया संभव नहीं है। इसलिए क्रिया के कर्त्ता रूप से आत्मा के अस्तित्व को मानने वाले क्रियावादी हैं ।

(२) क्रिया ही प्रधान है और ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार क्रिया को प्रधान मानने वाले क्रियावादी हैं।

(३) जीव अजीव आदि पदार्थों के अस्तित्व को एकान्त रूप से मानने वाले क्रियावादी हैं। क्रियावादी के १८० प्रकार हैं:—

जीव, अजीव, आश्रव, वंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन नव पदार्थों के स्व और पर से १८ भेद हुए। इन अठारह के नित्य, अनित्य रूप से ३६ भेद हुए। इन में से प्रत्येक के काल, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा की अपेक्षा पांच-पांच भेद करने से १८० भेद हुए। जैसे—जीव, स्व रूप से काल की अपेक्षा नित्य है। जीव, स्व रूप से काल की अपेक्षा अनित्य है। जीव पर रूप से काल की अपेक्षा नित्य है। जीव पर रूप से काल की अपेक्षा अनित्य है। इस प्रकार काल की अपेक्षा चार भेद हैं। इसी प्रकार नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा की अपेक्षा जीव के चार चार भेद होंगे। इस तरह जीव आदि नव तत्त्वों के प्रत्येक के बीस बीस भेद हुए और कुल १८० भेद हुए।

अक्रियावादी:—अक्रियावादी की भी अनेक व्याख्याएं हैं।

यथा:—

(१) किसी भी अनवस्थित पदार्थ में क्रिया नहीं होती है।

यदि पदार्थ में क्रिया होगी तो वह अनवस्थित न



होगा । इस प्रकार पदार्थों को अनवस्थित मान कर उनमें क्रिया का अभाव मानने वाले अक्रियावादी कहलाते हैं ।

(२) क्रिया की क्या जरूरत है ? केवल चित्त' की पवित्रता होनी चाहिए । इस प्रकार - ज्ञान ही से मोक्ष की मान्यता वाले अक्रियावादी कहलाते हैं ।

(३) जीवादि के अस्तित्व को न मानने वाले अक्रियावादी कहलाते हैं । अक्रियावादी के ८४ भेद हैं । यथा:—

जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों के स्व और पर के भेद से १४ भेद हुए । काल, यदृच्छा, नियति, स्वभाव, ईश्वर और आत्मा इन छहों की अपेक्षा १४ भेदों का विचार करने से ८४ भेद होते हैं । जैसे—जीव स्वतः काल से नहीं है । परतः काल से नहीं है । इस प्रकार काल की अपेक्षा जीव के दो भेद हैं । काल की तरह यदृच्छा, नियति आदि की अपेक्षा भी जीव के दो दो भेद होंगे । इस प्रकार जीव के १२ भेद हुए । जीव की तरह शेष तत्त्वों के भी वारह वारह भेद हैं । इस तरह कुल ८४ भेद हुए ।

अज्ञानवादी:— जीवादि अतीन्द्रिय पदार्थों को जानने वाला कोई नहीं है । न उनके जानने से कुछ सिद्धि ही होती है । इसके अतिरिक्त समान अपराध में ज्ञानी को अधिक दोष माना है और अज्ञानी को कम । इसलिए अज्ञान ही श्रेय रूप है । ऐसा मानने वाले अज्ञानवादी है ।

अज्ञानवादी के ६७ भेद हैं । यथा:—

जीव, अजीव, आश्रव, बन्ध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा, और मोक्ष इन नव तत्त्वों के सद्, असद्, सदसद्, अवक्तव्य, सदवक्तव्य, असदवक्तव्य, सदसदवक्तव्य, इन सात भागों से ६३ भेद हुए और उत्पत्ति के सद्, असद् और अवक्तव्य की अपेक्षा से चार भंग हुए । इस प्रकार ६७ भेद अज्ञानवादी के होते हैं । जैसे जीव-सद् है यह कौन जानता है ? और इसके जानने का क्या प्रयोजन है ?

विनयवादी:—स्वर्ग, अपवर्ग, आदि के कल्याण की प्राप्ति विनय से ही होती है । इसलिए विनय ही श्रेष्ठ है । इस प्रकार विनय को प्रधान रूप से मानने वाले विनयवादी कहलाते हैं ।

विनयवादी के ३२ भेद हैं:—

देव, राजा, यति, ज्ञाति, स्थविर, अधम, माता और पिता, इन आठों का मन, वचन, काया और दान, इन चार प्रकारों से विनय होता है । इस प्रकार आठ को चार से गुणा करने से ३२ भेद होते हैं ।

( भगवती शतक ३० उद्देशा १ सूत्र ८२४ की टीका )  
( आचाराग प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्ययन १ उद्देशा १ सूत्र ३ टीका )  
(सूयगडागे प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्ययन १२)

ये चारों वादी मिथ्या दृष्टि हैं ।

क्रियावादी जीवादि पदार्थों के अस्तित्व को ही मानते हैं । इस प्रकार एकान्त अस्तित्व को मानने से इनके मत

में पर-रूप की अपेक्षा से नास्तित्व नहीं माना जाता। पर-रूप की अपेक्षा से वस्तु में नास्तित्व न मानने से वस्तु में स्व-रूप की तरह पर-रूप का भी अस्तित्व रहेगा। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में सभी वस्तुओं का अस्तित्व रहने से एक ही वस्तु सर्व-रूप हो जायगी। जो कि प्रत्यक्ष बाधित है। इस प्रकार क्रियावादियों का मत मिथ्यात्व पूर्ण है।

अक्रियावादी जीवादि पदार्थ नहीं हैं। इस प्रकार असद्-भूत अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। इस लिए वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। एकान्त रूप से जीव के अस्तित्व का प्रतिषेध करने से उनके मत में निषेध कर्त्ता का भी अभाव हो जाता है। निषेध कर्त्ता के अभाव से सभी का अस्तित्व स्वतः सिद्ध हो जाता है।

अज्ञानवादी अज्ञान को श्रेय मानते हैं। इसलिए वे भी मिथ्या दृष्टि हैं और उनका कथन स्ववचन बाधित है। क्योंकि "अज्ञान श्रेय है" यह बात भी वे बिना ज्ञान के कैसे जान सकते हैं? और बिना ज्ञान के वे अपने मत का समर्थन भी कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार अज्ञान की श्रेयता बताते हुए उन्हें ज्ञान का आश्रय लेना ही पड़ता है।

विनयवादीः—केवल विनय से ही स्वर्ग, मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले विनयवादी मिथ्या दृष्टि हैं। क्योंकि ज्ञान और क्रिया दोनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केवल ज्ञान या केवल क्रिया से नहीं। ज्ञान को छोड़ कर एकान्त रूप से केवल

क्रिया के एक अङ्ग का आश्रय लेने से वे सत्यमार्ग से परे हैं ।

( सूयगडाग प्रथम श्रुतस्कन्ध अध्ययन १२ टीका )

१६२-वादी चारः—

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| (१) आत्मवादी । | (२) लौकवादी ।    |
| (३) कर्मवादी । | (४) क्रियावादी । |

(१) आत्मवादीः—जो नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य, देवगति आदि भाव दिशाओं तथा पूर्व, पश्चिम आदि द्रव्य दिशाओं में आने जाने वाले अक्षणिक अमूर्त आदि स्वरूप वाले आत्मा को मानता है, वह आत्मवादी है और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला है ।

जो उक्त स्वरूप वाले आत्मा को नहीं मानते । वे अनात्मवादी हैं । सर्व व्यापी, एकान्त नित्य या क्षणिक आत्मा को मानने वाले भी अनात्मवादी ही हैं । क्योंकि सर्व व्यापी, नित्य या क्षणिक आत्मा मानने पर उसका पुनर्जन्म सम्भव नहीं है ।

(२) लोकवादीः—आत्मवादी ही वास्तव में लोकवादी है । लोक अर्थात् प्राणीगण को मानने वाला लोकवादी है अथवा विशिष्ट आकाश खण्ड जहाँ जीवों का गमनागमन संभव है । ऐसे लोक को मानने वाला लोकवादी है । लोकवादी अनेक आत्माओं का अस्तित्व स्वीकार करता है क्योंकि आत्माद्वैत के एकात्म-वाद के साथ लोक का स्वरूप और

लोक में जीवों का गमनागमन आदि बातों का मेल नहीं खाता ।

(३) कर्मवादी:—जो आत्मवादी और लोकवादी है, वही कर्मवादी है । ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का अस्तित्व मानने वाला कर्मवादी कहलाता है । उसके अनुसार आत्मा मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग से गति, शरीर आदि के योग्य कर्म बाधता है और फिर स्वकृत कर्मानुसार भिन्न २ योनियों में उत्पन्न होता है । यह च्छा, नियति और ईश्वर जगत् की विचित्रता करने वाले हैं और जगत् चलाने वाले हैं । ऐसा मानने वाले यह च्छा, नियति और ईश्वरवादी के मतों को कर्मवादी असत्य समझता है ।

(४) क्रियावादी:—जो कर्मवादी है । वही क्रियावादी है । अर्थात् कर्म के कारण भूत आत्मा के व्यापार यानि क्रिया को मानने वाला है । कर्म कार्य्य है और कार्य्य का कारण है योग । अर्थात् मन, वचन और काया का व्यापार । इस लिए जो कर्म रूप कार्य्य को मानता है । वह उसके कारण रूप क्रिया को भी मानता है । सांख्य लोग आत्मा को निष्क्रिय अर्थात् क्रिया रहित मानते हैं । वह मत क्रियावादीयों के मतानुसार अप्रमाणिक है ।

(आचारांग श्रुतस्कन्ध १ अध्या० १ उद्देशा १ सू० ५ की टीका)

१६३—शूर पुरुष के चार प्रकार:—

(१) क्षमा शूर ।

(२) तप शूर ।

(३) दान शूर ।

(४) युद्ध शूर ।

(१) क्षमा शूर अरिहन्त भगवान् होते हैं। जैसे भगवान् महावीर स्वामी।

(२) तप शूर अनगार होते हैं। जैसे धन्नाजी और दृढ-प्रहारी अनगार। दृढ प्रहारी ने चोर अवस्था में दृढ प्रहार आदि से उपार्जित कर्मों का अन्त दीक्षा लेकर तप द्वारा छः मास में कर दिया। द्रव्य शत्रुओं की तरह भाव शत्रु अर्थात् कर्मों के लिए भी उसने अपने आपको दृढप्रहारी सिद्ध कर दिया।

(३) दान शूर वैश्रमण देवता होते हैं। ये उत्तर दिशा के लोकपाल हैं। ये तीर्थङ्कर भगवान् के जन्म और पारणों आदि के समय रत्नों की वृष्टि करते हैं।

(४) युद्ध शूर वासुदेव होते हैं। जैसे-कृष्ण महाराज। कृष्ण जी ने ३६० युद्धों में विजय प्राप्त की थी।

(ठाण्णाग ४ उद्देशा ३ सूत्र ३१७)

१६४—पुरुषार्थ के चार भेदः—

पुरुष का प्रयोजन ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ चार हैः—

(१) धर्म। (२) अर्थ।

(३) काम। (४) मोक्ष।

(१) धर्मः—जिससे सब प्रकार के अभ्युदय एवं मोक्ष की सिद्धि हो, वह धर्म है। धर्म पुरुषार्थ अन्य सब पुरुषार्थों की प्राप्ति का मूल कारण है। धर्म से पुण्य एवं निर्जरा होती है। पुण्य से अर्थ और काम की प्राप्ति तथा निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषाभिमानि सभी पुरुषों को सदा धर्म की आराधना करनी चाहिये।

- (२) अर्थः—जिससे सब प्रकार के लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि होवह अर्थ है। अभ्युदय के चाहने वाले गृहस्थ को न्याय पूर्वक अर्थ का उपार्जन करना चाहिये। स्वामी द्रोह, मित्र द्रोह, विश्वास घात, जूआ, चोरी आदि निन्दनीय उपायों का आश्रय न लेते हुए अपने जाति, कुल की मर्यादा के अनुसार नीति पूर्वक उपार्जित अर्थ (धन) इहलोक और परलोक दोनों में हितकारी होता है। न्यायोपार्जित धन का सत्कार्य में व्यय हो सकता है। अन्यायोपार्जित धन इहलोक और परलोक दोनों में दुःख का कारण होता है।
- (३) कामः—मनोज्ञ विषयों की प्राप्ति द्वारा इन्द्रियों का तृप्त होना काम है। अमर्यादित और स्वच्छन्द कामाचार का सर्वत्र निषेध है।
- (४) मोक्षः—राग द्वेष द्वारा उपार्जित कर्म-बंधन से आत्मा को स्वतन्त्र करने के लिये संवर और निर्जरा में उद्यम करना मोक्ष पुरुषार्थ है।

इन चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ माना गया है। इसी के आराधक पुरुष उत्तम पुरुष माने जाते हैं।

जो मोक्ष की परम उपादेयता स्वीकार करते हुए भी मोह की प्रबलता से उसके लिये उचित प्रयत्न नहीं कर सकते तथा धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों में अविरोध रीति से उद्यम करते हैं। वे मध्यम पुरुष हैं। जो मोक्ष और धर्म की उपेक्षा करके केवल अर्थ और काम

पुरुषार्थ में ही अपनी शक्ति का व्यय करते हैं। वे अधम पुरुष हैं। वे लोग बीज को खा जाने वाले किमान परिवार के सदस्य हैं। जो भविष्य में धर्मोपाजित पुण्य के नष्ट हो जाने पर दुःख भोगते हैं।

( पुरुषार्थ दिग्दर्शन के आधार से )

१६५—मोक्षमार्ग के चार भेदः—

- |                 |               |
|-----------------|---------------|
| ( १ ) ज्ञान ।   | ( २ ) दर्शन । |
| ( ३ ) चारित्र । | ( ४ ) तप ।    |

(१) ज्ञानः—ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय या क्षयोपशम से उत्पन्न होकर वस्तु के स्वरूप को यथार्थ जानने वाला मति आदि पांच भेद वाला आत्मपरिणाम ज्ञान कहलाता है। यह सम्यग्ज्ञान रूप है।

(२) दर्शनः—दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने पर वीतराग प्ररूपित नव तत्त्व आदि भावों पर रुचि एवं श्रद्धा होने रूप आत्मा का शुभ भाव दर्शन कहलाता है। यही दर्शन सम्यग्दर्शन रूप है।

(३) चारित्रः—चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने पर सत्क्रिया में प्रवृत्ति और असत्क्रिया से निवृत्ति कराने वाला, सामायिक, छेदोपस्थापनिक, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सम्पराय और यथाख्यात स्वरूप पांच भेद वाला आत्मा का शुभ परिणाम चारित्र है। यह चारित्र सम्यग् चारित्र रूप है एवं जीव को मोक्ष में पहुँचाने वाला है।

नोटः—ज्ञान, दर्शन और चारित्र की व्याख्या ७६ वें बोल में भी दी गई है।



(४) तपः—पूर्वोपाजित कर्मों को क्षय करने वाला, बाह्य और आभ्यन्तर भेद वाला आत्मा का विशेष व्यापार तप कहलाता है ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये चारों मिल कर ही मोक्ष का मार्ग है । पृथक् पृथक् नहीं । ज्ञान द्वारा आत्मा जीवादि तत्त्वों को जानता है । दर्शन द्वारा उन पर श्रद्धा करता है । चारित्र की सहायता से आते हुए नवीन कर्मों को रोकता है एवं तप द्वारा पूर्व संचित कर्मों का क्षय करता है ।

( उत्तराध्ययन अध्ययन २८ गा० २ )

१६६—धर्म के चार प्रकारः—

(१) दान ।

(२) शील ।

(३) तप ।

(४) भावना (भाव) ।

जैसा कि सचरीसय ठाणावृत्ति १४१ वें द्वार पृ० ७० में कहा हैः—

दाणं शीलं च तवो भावो, एवं चउच्चिहो धम्मो ।

सन्व जिणेहिं भण्णिओ, तहा दुहा सुयचारितेहिं ॥२६६॥

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४ पृष्ठ २२८६ )

दानः—स्व और पर के उपकार के लिए अर्थी अर्थात् जरूरत वाले पुरुष को जो दिया जाता है । वह दान कहलाता है । अभय-दान, सुपात्रदान, अनुकम्पा दान, ज्ञानदान आदि दान के अनेक भेद हैं । इनका पालन करना दान धर्म कहलाता है ।

( सूयगडाग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ६ गाथा २३ )

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ४ पृष्ठ २४८६ )

( पचाशक ६ वीं पचाशक गाथा ६ )

दान के प्रभाव से धन्नाजी और शालिभद्रजी ने अखुट लक्ष्मी पाई और भोग भोगे । शालिभद्रजी सर्वार्थ सिद्ध से आकर सिद्धि ( मोक्ष ) पावेंगे और धन्नाजी तो सिद्ध हो चुके । यह जान कर प्रत्येक व्यक्ति को सुपात्र दान आदि दान धर्म का सेवन करना चाहिए ।

२—शील (ब्रह्मचर्य्य):—दिव्य एवं औदारिक कामों का तीन करण और तीन योग से त्याग करना शील है अथवा मैथुन का त्याग करना शील है । शील का पालन करना शील धर्म है । शील सर्व विरति और देश विरति रूप से दो प्रकार का है । देव मनुष्य और तिर्यञ्च मन्वन्धी मैथुन का सर्वथा तीन करण, तीन योग से त्याग करना, सर्व विरति शील है । स्वदार संतोष और परस्त्री विवर्जन रूप ब्रह्मचर्य्य एक देश शील है ।

शील के प्रभाव से सुदर्शन सेठ के लिए शूली का सिंहासन हो गया । कलावती के कटे हुए हाथ नवीन उत्पन्न होगये । इस लिए शुद्ध शील का पालन करना चाहिये ।

( धर्म सप्र० अधि० २ श्लो० २८ टीका पृ० ६६ )

३—तपः—जो आठ प्रकार के कर्मों एवं शरीर की सात धातुओं को जलाता है । वह तप है । तप बाह्य और आभ्यन्तर रूप से दो प्रकार का है । अनशन, ऊनोदरी, भिक्षाचर्या, रस-परित्याग, कायक्लेश और प्रतिसंलीनता ये ६ बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग ये ६ आभ्यन्तर तप हैं ।

( भगवती शतक २५ उद्देशा ७ )

( उत्तराध्ययन अध्ययन ३० )

तप के प्रभाव से धन्नाजी, दृढ प्रहारी, हरिकेशी मुनि और ढंढण जी प्रमुख मुनीश्वरों ने सकल कर्मों का क्षय कर सिद्ध पद को प्राप्त किया। इस लिए तप का सेवन करना चाहिए।

४—भावना (भाव):—मोक्षाभिलाषी आत्मा अशुभ भावों को दूर कर मन को शुभ भावों में लगाने के लिए जो संसार की अनित्यता आदि का विचार करता है, वही भावना है। अनित्य, अशरण आदि वारह भावनाएं हैं। मैत्री, प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ ये भी चार भावनाएं हैं। व्रतों को निर्मलता से पालन करने के लिए व्रतों की पृथक् २ भावनाएं बतलाई गई हैं। मन को एकाग्र कर इन शुभ भावनाओं में लगा देना ही भावना धर्म है।

भावना के प्रभाव से मरुदेवी माता, भरत चक्रवर्ती प्रसन्न चन्द्र राजर्षि, इलायची कुमार, कपिल मुनि, स्कन्धक, प्रमुख मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुए। इस लिए शुभ भावना भावनी चाहिए।

( धर्म० संग्र० अधि० ३ श्लोक ४७ )

( अभिधान राजेन्द्र कोष भाग ५ पृ० १५८५ )

१६७.—दान के चार प्रकार:—

(१) ज्ञानदान।

(२) अभयदान।

(३) धर्मोपकरण दान।

(४) अनुकम्पा दान।

ज्ञानदान:—ज्ञान पढाना, पढ़ने और पढ़ाने वालों की सहायता करना आदि ज्ञानदान है।

अभयदानः—दुःखों से भयभीत जीवों को भय रहित करना, अभयदान है।

धर्मोपकरण दानः—छः काय के आरंभ से निवृत्त, पञ्च महा-व्रतधारी साधुओं को आहार पानी, वस्त्र, पात्र आदि धर्म सहायक धर्मोपकरण देना धर्मोपकरण दान है।

अनुकम्पा दानः—अनुकम्पा के पात्र दीन, अनाथ, रोगी, संकट में पड़े हुए व्यक्तियों को अनुकम्पा भाव से दान देना अनुकम्पा दान है।

( धर्मरत्न प्रकरण गा० ७० टीका )

१६८—भाव प्राण की व्याख्या और भेदः—

भाव प्राणः—आत्मा के निज गुणों को भाव प्राण कहते हैं।

भाव प्राण चार प्रकार के होते हैंः—

(१) ज्ञान। (२) दर्शन।

(३) सुख। (४) वीर्य।

सकल कर्म से रहित सिद्ध भगवान् इन्हीं चार भाव प्राणों से युक्त होते हैं।

( पन्नवणा पट १ सू० १ टीका )

१६९—दर्शन के चार भेदः—

(१) चक्षु दर्शन। (२) अचक्षु दर्शन।

(३) अवधि दर्शन। (४) केवल दर्शन।

चक्षु दर्शनः—चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर चक्षु द्वारा जो पदार्थों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है। उसे चक्षु दर्शन कहते हैं।

अचक्षु दर्शनः—अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर चक्षु के सिवाय शेष, स्पर्श, रसना, घ्राण और श्रोत्र

इन्द्रिय तथा मन से जो पदार्थों के सामान्य धर्म का प्रतिभास होता है। उमे अचक्षु दर्शन कहते हैं।

**अवधि दर्शनः—**अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा को रूपी द्रव्य के सामान्य धर्म का जो बोध होता है। उसे अवधि दर्शन कहते हैं।

**केवलदर्शनः—**केवल दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने पर आत्मा द्वारा संसार के सकल पदार्थों का जो सामान्य ज्ञान होता है। उसे केवल दर्शन कहते हैं।

( ठाण्णांग ४ उद्देशा ४ सूत्र ३६५ )

( कर्म ग्रन्थ ४ गाथा १२ )

२००—मति ज्ञान के चार भेदः—

(१) अवग्रह ।

(२) ईहा ।

(३) अवाय ।

(४) धारणा ।

**अवग्रहः—**इन्द्रिय और पदार्थों के योग्य स्थान में रहने पर सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के बाद होने वाले अवान्तर सत्ता सहित वस्तु के सर्व प्रथम ज्ञान को अवग्रह कहते हैं। जैसे—दूर से किसी चीज का ज्ञान होना ।

**ईहाः—**अवग्रह से जाने हुए पदार्थ के विषय में उत्पन्न हुए संशय को दूर करते हुए विशेष की जिज्ञासा को ईहा कहते हैं। जैसे—अवग्रह से किसी दूरस्थ चीज का ज्ञान होने पर संशय होता है कि यह दूरस्थ चीज मनुष्य है या स्थाणु ? ईहा ज्ञानवान् व्यक्ति विशेष धर्म विषयक विचारणा द्वारा इस संशय को दूर करता है और यह जान लेता है कि यह मनुष्य होना चाहिए। यह ज्ञान दोनों पक्षों में रहने वाले

संशय को दूर कर एक ओर झुकता है। परन्तु इतना कमजोर होता है कि ज्ञाता को इमसे पूर्ण निश्चय नहीं होता और उसको तद्विषयक निश्चयात्मक ज्ञान की आकांक्षा बनी ही रहती है।

अवायः—ईहा से जाने हुए पदार्थों में 'यह वही है, अन्य नहीं है' ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। जैसे—यह मनुष्य ही है।

धारणाः—अवाय से जाना हुआ पदार्थों का ज्ञान इतना दृढ़ हो जाय कि कालान्तर में भी उसका विस्मरण न हो तो उसे धारणा कहते हैं।

( ठाणाग ४ व० ४ सूत्र ३६४ )

२०१—बुद्धि के चार भेद—

(१) औत्पातिकी।

(२) वैनयिकी।

(३) कार्मिकी।

(४) पारिणामिकी।

औत्पातिकीः—नटपुत्र रोह की बुद्धि की तरह जो बुद्धि बिना देखे सुने और सोचे हुये पदार्थों को सहसा ग्रहण करके कार्य को सिद्ध कर देती है। उसे औत्पातिकी बुद्धि कहते हैं।

( नन्दी सूत्र की कथा )

वैनयिकीः—नैमित्तिक सिद्ध पुत्र के शिष्यों की तरह गुरुओं की सेवा शुश्रूषा से प्राप्त होने वाली बुद्धि वैनयिकी है।

कार्मिकीः—कर्म अर्थात् सतत अभ्यास और विचार से विस्तार को प्राप्त होने वाली बुद्धि कार्मिकी है। जैसे—सुनार, किसान आदि कर्म करते करते अपने धन्धे में उत्तरोत्तर विशेष दक्ष हो जाते हैं।

**पारिणामिकी:**—अति दीर्घ काल तक पूर्वापर पदार्थों के देखने आदि से उत्पन्न होने वाला आत्मा का धर्म परिणाम कहलाता है। उस परिणाम कारणात् बुद्धि को पारिणामिकी कहते हैं। अर्थात् वयोवृद्ध व्यक्ति को बहुत काल तक संसार के अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि पारिणामिकी बुद्धि कहलाती है।

( ठाण्णग ४ उ० ४ सूत्र ३६४ )

( नन्दी सूत्र २६ गा० ६१ )

२०२—प्रमाण चारः—

(१) प्रत्यक्ष ।

(२) अनुमान ।

(३) उपमान ।

(४) आगम ।

(१) प्रत्यक्षः—अक्ष शब्द का अर्थ आत्मा और इन्द्रिय है। इन्द्रियों की सहायता के बिना जीव के साथ सीधा सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे अवधिज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, और केवल ज्ञान। इन्द्रियों से सीधा सम्बन्ध रखने वाला अर्थात् इन्द्रियों की सहायता द्वारा जीव के साथ सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे इन्द्रिय प्रत्यक्ष-निश्चय में अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ही प्रत्यक्ष है और व्यवहार में इन्द्रियों की सहायता से होने वाला ज्ञान भी प्रत्यक्ष है।

(२) अनुमानः—लिंग अर्थात् हेतु के ग्रहण और सम्बन्ध अर्थात् व्याप्ति के स्मरण के पश्चात् जिससे पदार्थ का ज्ञान होता है। उसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। अर्थात् साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं।

उपमान—जिसके द्वारा सदृशता से उपमेय पदार्थों का ज्ञान होता है । उसे उपमान प्रमाण कहते हैं । जैसे गवय गाय के समान होता है ।

आगम—शास्त्र द्वारा होने वाला ज्ञान आगम प्रमाण कहलाता है ।

( भगवती शतक ५ उद्देशा ४ सूत्र १६३ )  
( अनुयोग द्वार सूत्र १४४ )

२०३—उपमा संख्या की व्याख्या और भेदः—

उपमा संख्याः—उपमा से वस्तु के निर्णय की उपमा संख्या कहते हैं ।

उपमा संख्या के चार भेदः—

- (१)—सत् की सत् से उपमा ।
- (२)—सत् की असत् से उपमा ।
- (३)—असत् की सत् से उपमा ।
- (४)—असत् की असत् से उपमा ।

सत् की सत् से उपमा—सत् अर्थात् विद्यमान पदार्थ की विद्यमान पदार्थ से उपमा दी जाती है । जैसे—विद्यमान तीर्थङ्कर के वक्षस्थल की विशालता के लिये विद्यमान नगर के दरवाजे से उपमा दी जाती है । उनकी भुजाएं अर्गला के समान एवं शब्द देव दुन्दुभि के समान कहा जाता है ।

सत् की असत् से उपमाः—विद्यमान वस्तु की अविद्यमान वस्तु से उपमा दी जाती है । जैसेः—विद्यमान नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव की आयु पल्योपम और सागरोपम परिमाण



आयु को अविद्यमान योजन परिमाण रूप के बालाग्रादि से उपमा दी जाती है ।

असत् की सत् से उपमा:—अविद्यमान वस्तु की विद्यमान वस्तु से उपमा दी जाती है । जैसे:—वसन्त के समय में जीर्ण प्रायः, पका हुआ, शाखा से चलित, काल प्राप्त, गिरते हुए पत्र की किसलय (नवीन उत्पन्न पत्र) के प्रति उक्ति:—

“जैसे तुम हो वैसे हम भी थे और तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे” इत्यादि ।

उपरोक्त वार्तालाप किसलय और जीर्णपत्र के बीच में न कभी हुआ और न होगा । भव्य जीवों को सांसारिक समृद्धि से निर्वेद हो । इस आशय से इस वार्तालाप की कल्पना की गई है ।

“जैसे तुम हो वैसे हम भी थे” इस वाक्य में किसलय पत्र से वर्तमान अवस्था की उपमा दी गई है । किसलय उपमान है जो कि विद्यमान है और पाण्डु पत्र की अतीत किसलय अवस्था उपमेय है । जो कि अभी अविद्यमान है । इस प्रकार यहाँ असत् की सत् से उपमा दी गई है ।

“तुम भी हमारी तरह हो जाओगे” इस वाक्य में भी पाण्डु पत्र की वर्तमान अवस्था से किसलय पत्र की भविष्य कालीन अवस्था की उपमा दी गई है । पाण्डुपत्र उपमान है जो कि विद्यमान है । किसलय की भविष्यकालीन पाण्डु अवस्था उपमेय है । जो कि अभी मौजूद नहीं है । इस प्रकार यहाँ पर भी असत् की सत् से उपमा दी गई है ।

असत् की असत् से उपमा:—अविद्यमान वस्तु की अविद्यमान वस्तु से उपमा दी जाती है। जैसे:—यह कहना कि गधे का सींग शश (खरगोश) के सींग जैसा है। यहाँ उपमान गधे का सींग और उपमेय शश का सींग दोनों ही असत् हैं।

( अनुयोगद्वार सूत्र १४६ पृष्ठ २३१-२३२ )

२०४—चार मूल सूत्र—

- (१) उत्तराध्ययन सूत्र । (२) दशवैकालिक सूत्र ।  
(३) नन्दी सूत्र । (४) अनुयोग द्वार सूत्र ।

(१) उत्तराध्ययन—इस सूत्र में विनयश्रुत आदि ३६ उत्तर अर्थात् प्रधान अध्ययन हैं। इसलिए यह सूत्र उत्तराध्ययन कहलाता है अथवा आचाराङ्ग सूत्र के बाद में यह सूत्र पढ़ाया जाता है। दशवैकालिक सूत्र बनने से पहले यह आचारांग के बाद पढ़ाया जाता था। शक्यम्भव स्वामी द्वारा दशवैकालिक बन जाने के बाद यह दशवैकालिक के बाद पढ़ाया जाता है। वास्तव में यह साधु का आचार जानने के बाद पढ़ाया जाना चाहिये। दशवैकालिक में साधु का आचार होने से उसके बाद पढ़ने की परिपाटी प्रचलित है।

( उत्तराध्ययन नियुक्ति गा० ३ टीका ।

इसलिये यह उत्तराध्ययन कहलाता है। यह सूत्र अङ्गवाह्य कालिक श्रुत है। कालिक सूत्र दिन अथवा रात्रि के पहले या पिछले पहर में ही पढ़ा जाता है। इस सूत्र के ३६ अध्ययन निम्नलिखित हैं:—

(१) विनयश्रुत:—विनीत के लक्षण, अविनीत के लक्षण और

उसका परिणाम, साधक का कठिन कर्त्तव्य, गुरुधर्म, शिष्य-  
शिक्षा, चलते, उठते, बैठते तथा भिक्षा लेने के लिये जाते  
हुए साधु का आचरण ।

- (२) परिपहः—भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार  
के आये हुए आकस्मिक संकटों के समय भिक्षु किस प्रकार  
सहिष्णु एवं शान्त बना रहे आदि बातों का स्पष्ट उल्लेख ।
- (३) चतुरंगीयः—मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा, संयम में पुरुषार्थ  
करना, इन चार आत्म विकाश के अङ्गों का क्रमपूर्वक निर्देश,  
संसार चक्र में फिरने का कारण, धर्म कौन पाल सकता है ?  
शुभ कर्मों का सुन्दर परिणाम ।
- (४) असंस्कृतः—जीवन की चंचलता, दुष्ट कर्म का दुःखद परि-  
णाम, कर्मों के करने वाले को ही उनके फल भोगने पड़ते  
हैं । प्रलोभनों में जागृति, स्वच्छन्द वृत्ति की रोकने में ही  
मुक्ति है ।
- (५) अकाममरणीयः—अज्ञानी का ध्येय शून्य मरण, क्रूरकर्मों का  
विलाप, भोगों की आसक्ति का दुष्परिणाम, दोनों प्रकार के  
रोगों की उत्पत्ति, मृत्यु के समय दुराचारी की स्थिति, गृहस्थ  
साधक की योग्यता । सच्चे संयम का प्रतिपादन, सदाचारी  
की गति, देवगति के सुखों का वर्णन, संयमी का सफल मरण ।
- (६) लुल्लकनिर्ग्रन्थः—धन, स्त्री, पुत्र, परिवार आदि सब कर्मों से

पीड़ित मनुष्य को शरणभूत नहीं होते। बाह्य परिग्रह का त्याग, जगत् के सर्व प्राणियों पर मैत्री भाव, आचारशून्य वाग्-वैदग्ध्य एवं विद्वत्ता व्यर्थ है। संयमी की परिमितता।

- (७) एलकः—भोगी की वक्रे के साथ तुलना, अधम गति में जाने वाले जीव के विशिष्ट लक्षण, लेश मात्र भूल का अति दुःखद परिणाम, मनुष्य जीवन का कर्त्तव्य, काम भोगों की चंचलता।
- (८) कापिलिकः—कपिल मुनि के पूर्व जन्म का वृत्तान्त, शुभ भावना के अंकुर के कारण पतन में से विकास, भिक्षुकों के लिए इनका सदुपदेश, सूक्ष्म अहिंसा का सुन्दर प्रतिपादन, जिन विद्याओं से मुनि का पतन हो उनका त्याग, लोभ का परिणाम, वृष्णा का हृवहू चित्र, स्त्री संग का त्याग।
- (९) नमि प्रव्रज्याः—निमित्त मिलने से नमि राजा का अभि-निष्क्रमण, नमि राजा के निष्क्रमण से मिथिला नगरी में हाहाकार, नमि राजा के साथ इन्द्र का तात्त्विक प्रश्नोत्तर और उनका सुन्दर समाधान।
- (१०) द्रुमपत्रकः—वृक्ष के पके हुए पत्र से मनुष्य जीवन की तुलना, जीवन की उत्क्रान्ति का क्रम, मनुष्य जीवन की दुर्लभता, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न २ आयु स्थिति का परिमाण, गौतम स्वामी को उद्देश कर भगवान् महावीर स्वामी का अप्रमत्त रहने का उपदेश, गौतम स्वामी पर उसका प्रभाव, और उनको निर्वाण की प्राप्ति होना।

- (११) बहुश्रुतपूज्यः—ज्ञानी एवं अज्ञानी के लक्षण, सच्चे ज्ञानी की मनोदशा, ज्ञान का सुन्दर परिणाम, ज्ञानी की सर्वोच्च उपमा ।
- (१२) हरिकेशीयः—जातिवाद का खण्डन, जाति मद का दुष्परिणाम, तपस्वी की त्याग दशा, शुद्ध तपश्चर्या का दिव्य प्रभाव, सच्ची शुद्धि किस में है ?
- (१३) चित्त संभूतीयः—संस्कृति एवं जीवन का सम्बन्ध, प्रेम का आकर्षण, चित्त और संभूति इन दोनों भाइयों का पूर्व इतिहास, छोटी सी वासना के लिए भोग, पुनर्जन्म क्यों ? प्रलोभन के प्रबल निमित्त मिलने पर भी त्यागी की दशा, चित्त और संभूति का परस्पर मिलना, चित्त मुनि का उपदेश, संभूति का न मानना, निदान (नियाणा) का दुष्परिणाम, संभूति का घोर दुर्गति में जाकर पड़ना ।
- (१४) इषुकारीयः—ऋणानुबन्ध किसे कहते हैं ? छः साथी जीवों का पूर्ण वृत्तान्त और इषुकार नगर में उनका पुनः इकट्ठा होना, संस्कार की स्फूर्ति, परम्परागत मान्यताओं का जीवन पर प्रभाव, गृहस्थाश्रम किस लिए ? सच्चे वैराग्य की कसौटी, आत्मा की नित्यता का मार्मिक वर्णन । अन्त में पुरोहित के दो पुत्र, पुरोहित एवं उसकी पत्नी, इषुकार राजा और रानी इन छः ही जीवों का एक दूसरे के निमित्त से संसार का त्याग और मुक्ति प्राप्ति ।
- (१५) स भिक्षुः—आदर्श भिक्षु कैसा हो ? इसका स्पष्ट तथा हृदयस्पर्शी वर्णन ।

(१६) ब्रह्मचर्य समाधि के स्थानः—

मन, वचन, काया से शुद्ध ब्रह्मचर्य किस तरह पाला जा सकता है ? उसके लिए दस हितकारी वचन । ब्रह्मचर्य की क्या आवश्यकता है ? ब्रह्मचर्य पालन के फल आदि का विस्तृत वर्णन ।

(१७) पाप श्रमणीयः—

पापी श्रमण किसे कहते हैं ? श्रमण जीवन को दूषित करने वाले छत्तमात्तिस्त्रत्तम दोषों का भी चिकित्सा-पूर्ण वर्णन ।

(१८) संयतीयः—

कंपिलपुर नगर के राजा संयति का शिकार के लिए उद्यान में जाना, मृग पर बाण चलाना, एक छोटे से मौज मजा में पश्चात्ताप का होना, गर्दभाली मुनि के उपदेश का प्रभाव, संयति राजा का गृह त्याग, संयति तथा क्षत्रिय मुनि का समागम, जैन शासन की उत्तमता किस में है ? शुद्ध अन्तःकरण से पूर्व-जन्म का स्मरण होना, चक्रवर्ती की अनुपम विभूति के धारक अनेक महापुरुषों का आत्म सिद्धि के लिए त्याग मार्ग का अनुसरण कर आत्मकल्याण करना । उन सब की नामावली ।

(१९) मृगापुत्रीयः—

सुग्रीव नगर के कलभद्र राजा के तरुण युवराज मृगापुत्र को एक मुनि के देखने से भोग विलासों से वैराग्यभाव का पैदा होना, पुत्र का कर्त्तव्य, माता-पिता का वात्सल्य भाव, दीक्षा लेने के लिए आज्ञा प्राप्त करते

समय उसकी तात्त्विक चर्चा, पूर्व जन्मों में नीच गतियों में भोगे हुए दुःखों की वेदना का वर्णन, आदर्श त्याग, संयम स्वीकार कर सिद्ध गति को प्राप्त करना ।

(२०) महानिर्ग्रन्थीयः—

श्रेणिक महाराज और अनाथी मुनि का आश्चर्य-कारक संयोग, अशरण भावना, अनाथता और सनाथता का विस्तृत वर्णन, कर्म का कर्त्ता तथा भोक्ता आत्मा ही हैं । इसकी प्रतीति, आत्मा ही अपना शत्रु और आत्मा ही अपना मित्र है । सन्त के समागम से मगधपति को पैदा हुआ आनन्द ।

(२१) समुद्रपालीयः—

चम्पा नगरी में रहने वाले, भगवान् महावीर के शिष्य पालित श्रावक का चरित्र, उसके पुत्र समुद्रपाल को एक चोर की दशा देखते ही उत्पन्न हुआ वैराग्यभाव, उनकी अडिग तपश्चर्या, त्याग का वर्णन ।

(२२) रथनेमीयः—

भगवान् अरिष्टनेमि का पूर्व जीवन, तरुण वय में ही योग संस्कार की जागृति, विवाह के लिए जाते हुए मार्ग में एक छोटा सा निमित्त मिलना । यानि दीन एवं मूक पशु पक्षियों से भरे हुए बाड़े को देख कर तथा ये वरातियों के भोजनार्थ मारे जावेंगे ऐसा सारथी से जानकर उन पर कल्याण कर, उन्हें बंधन से मुक्त करवाना, पश्चात् वैराग्य भाव का उत्पन्न होना, संयम स्वीकार करना, क्षीरत्न राजीमती का अभिनिष्क्रमण

रथनेमि तथा राजीमती का एकान्त में आकस्मिक मिलन, रथनेमि का कामातुर होना, राजीमती की अडिगता, राजीमती के उपदेश से संयम से विचलित रथनेमि का पुनः संयम में स्थिर होना, स्त्रीशक्ति का ज्वलन्त दृष्टान्त । 6

(२३) केशी गौतमीयः—

श्रावस्ती नगरी में महा मुनि केशी श्रमण से ज्ञानी मुनि गौतम स्वामी का मिलना, गम्भीर प्रश्नोत्तर, समय धर्म की महत्ता, प्रश्नोत्तरों से सब का समाधान और केशी श्रमण का भगवान् महावीर द्वारा प्ररूपित आचार का ग्रहण ।

(२४) समितियाँः—

आठ प्रवचन माताओं का वर्णन, सावधानी एवं संयम का सम्पूर्ण वर्णन, कैसे चलना, बोलना, भिक्षा प्राप्त करना, व्यवस्था रखना, मन, वचन और काय संयम की रक्षा आदि का विस्तृत वर्णन ।

(२५) यज्ञीयः—

याजक कौन है ? यज्ञ कौनसा ठीक है ? अग्नि कैसी होनी चाहिए ? ब्राह्मण किसे कहते हैं ? वेद का असली रहस्य, सच्चा यज्ञ, जातिवाद का पूर्ण खंडन, कर्मवाद का मंडन, श्रमण, मुनि, तपस्वी, किसे कहते हैं ? संसार रूपी रोग की सच्ची चिकित्सा, सच्चे उपदेश का प्रभाव ।

(२६) समाचारीः—

साधक भिक्षु की दिनचर्या, उसके दस भेदों का वर्णन, दिवस का समय विभाग, समय धर्म को पहिचान कर काम



करने की शिक्षा, सावधानता रखने परं विशेष जोर, घड़ी विना दिवस तथा रात्रि जानने की समय पद्धति ।

(२७) खलुङ्गीयः—

गणधर गर्गाचार्य का साधक जीवन, गलियार वैंलों के साथ शिष्यों की तुलना, स्वच्छन्दता का दुष्परिणाम, शिष्यों की आवश्यकता कहीं तक है ? गर्गाचार्य का अपने सब शिष्यों को निरासक्त भाव से छोड़ कर एकान्त आत्म-कल्याण करना ।

(२८) मोक्षमार्ग गतिः—

मोक्षमार्ग के साधनों का स्पष्ट वर्णन, संसार के समस्त तत्त्वों के सात्त्विक लक्षण, आत्म विकास का मार्ग सरलता से कैसे मिल सकता है ?

(२९) मम्यक्त्व पराक्रमः—

जिज्ञासा की सामान्य भूमिका से लेकर अन्तिम साध्य (मोक्ष) प्राप्ति तक होने वाली समस्त भूमिकाओं का मार्मिक एवं सुन्दर वर्णन, उत्तम ७३ बोलों की पृच्छा, उनके गुण और लाभ ।

(३०) तपोमार्गः—

कर्मरूपी ईंधन को जलाने वाली अग्नि कौन सी है ? तपश्चर्या का वैदिक, वैज्ञानिक, तथा आध्यात्मिक इन तीन दृष्टियों से निरीक्षण, तपश्चर्या के भिन्न २ प्रकार के प्रयोगों का वर्णन और उनका शारीरिक तथा मानसिक प्रभाव ।

(३१) चरण विधि:—

यह संसार पाठ सीखने की शाला है । प्रत्येक वस्तु में कुछ ग्रहण करने योग्य, कुछ त्याग ने योग्य, और कुछ उपेक्षणीय गुण हुआ करते हैं । उनमें से यहाँ एक से लेकर तेतीस संख्या तक की वस्तुओं का वर्णन किया गया है । उपयोग यही धर्म है ।

(३२) प्रमाद स्थान:—

प्रमाद स्थानों का चिकित्सा पूर्ण वर्णन, व्याप्त दुःख से छूटने का एक मार्ग, तृष्णा, मोह और क्रोध का जन्म कहाँ से ? राग तथा द्वेष का मूल क्या है ? मन तथा इन्द्रियों के असंयम के दुष्परिणाम, मुमुक्षु की कार्य दिशा ।

(३३) कर्म प्रकृति:—

जन्म मरण के दुःखों का मूल कारण क्या है ? आठ कर्मों के नाम, भेद, उपभेद, तथा उनकी भिन्न भिन्न स्थिति एवं परिणाम का संक्षिप्त वर्णन ।

(३४) लेश्या:—

सूक्ष्म शरीर के भाव अथवा शुभाशुभ कर्मों के परिणाम, छः लेश्याओं के नाम, रंग, रस, गन्ध, स्पर्श, परिणाम, लक्षण, स्थान, स्थिति, गति, जघन्य, उत्कृष्ट स्थिति आदि का विस्तृत वर्णन । किन किन दोषों एवं गुणों से असुन्दर एवं सुन्दर भाव पैदा होते हैं । स्थूल क्रिया से सूक्ष्म मन का सम्बन्ध, क्लृपित अथवा अप्रसन्न मन का आत्मा पर

क्या असर पड़ता है ? मृत्यु से पहले जीवन कार्य के फल का विचार ।

(३५) अणुगाराध्ययनः—

गृह-संसार का मोह, संयमी की जवाबदारी, त्याग की सावधानता, प्रलोभन तथा दोष के निमित्त मिलने पर समभाव कौन रख सकता है ? निरासक्ति की वास्तविकता, शरीर ममत्व का त्याग ।

(३६) जीवाजीव विभक्तिः—

सम्पूर्ण लोक के पदार्थों का विस्तृत वर्णन, मृत्ति की योग्यता, संसार का इतिहास, शुद्ध चैतन्य की स्थिति, संसारी जीवों की भिन्न भिन्न गतियों में क्या दशा होती है ? एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पञ्चेन्द्रिय जीवों के भेद प्रभेदों का विस्तृत वर्णन, जड़ पदार्थों का वर्णन, सब की पृथक् पृथक् स्थिति, जीवात्मा पर आत्मा का क्या असर पड़ता है ? फल हीन तथा सफल मृत्यु की साधना की कल्पित तथा सुन्दर भावना का वर्णन ।

इन सब बातों का वर्णन कर भगवान् महावीर स्वामी का मोक्ष गमन ।

(२) दशवैकालिक सूत्रः—

शक्यंभव स्वामी ने अपने पुत्र मनक शिष्य की केवल छः मास आयु शेष जान कर विकाल अर्थात् दोपहर से लगा कर थोड़ा दिन शेष रहने तक चौदह पूर्व तथा अज्ञ शास्त्रों से दस अध्ययन निकाले । इस लिए यह सूत्र दशवैकालिक

कहा जाता है। आत्म प्रवाद पूर्व में से “छिज्जीवणीय” अध्ययन, कर्म प्रवाद में से पिण्डैपणा, सत्य प्रवाद में से वाक्यशुद्धि, और प्रथम, द्वितीय आदि अध्ययन नववें प्रत्याख्यान पूर्व की तीसरी वस्तु से उद्धृत किये गये हैं। इस सूत्र में दस अध्ययन और दो चूलिकार्यें हैं। यह सूत्र उत्कालिक है। जिस सूत्र के पढ़ने में समय का कोई बन्धन नहीं है। उसे उत्कालिक सूत्र कहते हैं।

अध्ययनों के नाम इस प्रकार हैं:—

( १ ) द्रुमपुष्पिका:—

धर्म की वास्तविक व्याख्या, सामाजिक, राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक दृष्टियों से उसकी उपयोगिता और उसका फल, भिक्षु तथा भ्रमर जीवन की तुलना, भिक्षु की भिक्षा वृत्ति सामाजिक जीवन पर भार रूप न होने का कारण।

( २ ) श्रामण्य पूर्वक:—

वासना एवं विकल्पों के अधीन हो कर क्या साधुता की आराधना हो सकती है? आदर्श त्यागी कौन? आत्मा में बीज रूप में छिपी हुई वासनाओं से जब चित्त चंचल हो उठे तब उसे रोकने के सरल एवं सफल उपाय, रथनेमि और राजीमती का मार्मिक प्रसङ्ग, रथनेमि की उद्दीप्त काम वासना, किन्तु राजीमती की निश्चलता, प्रबल प्रलोभनों में से रथनेमि का उद्धार, स्त्री शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण।

## ( ३ ) जुल्लकाचारः—

सिद्ध के संयमी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए महर्षियों द्वारा प्ररूपित चिकित्सा पूर्ण ५२ निषेधात्मक नियमों का निदर्शन, अपने कारण किसी जीव को थोड़ा सा भी कष्ट न पहुँचे उस वृत्ति से जीवन निर्वाह करना । आहार शुद्धि, अपरिग्रह बुद्धि, शरीर सत्कार का त्याग, गृहस्थ के साथ अति परिचय बढ़ाने का निषेध, अनुपयोगी वस्तुओं तथा क्रियाओं का त्याग ।

## ( ४ ) षड् जीवनिकाः—

गद्य विभागः—श्रमण जीवन की भूमिका में प्रवेश करने वाले साधक की योग्यता कैसी और कितनी होनी चाहिए ? श्रमण जीवन की प्रतिज्ञा के कठिन व्रतों का सम्पूर्ण वर्णन, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक पालने के लिए जागृत वीर साधक की प्रबल अभिलाषा ।

पद्य विभागः—काम करने पर भी पापकर्म का बन्ध न होने के सरल मार्ग का निर्देश, अहिंसा एवं संयम में विवेक की आवश्यकता, ज्ञान से लेकर मुक्त होने तक की समस्त भूमिकाओं का क्रम पूर्वक विस्तृत वर्णन, कौन सा साधक दुर्गति अथवा सुगति को प्राप्त होता है । साधक के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं ?

## ( ५ ) पिरडैषणाः—

प्रथम उद्देशकः—भिक्षा की व्याख्या, भिक्षा का अधिकारी कौन ? भिक्षा की गवेषणा करने की विधि, किस मार्ग से किस

तरह गमनागमन किया जाय ? चलने, बोलने आदि क्रियाओं में कितना सावधान रहना चाहिए ? कहाँ से भिक्षा प्राप्त की जाय और किस प्रकार प्राप्त की जाय ? गृहस्थ के यहाँ जाकर किस तरह से खड़ा होना चाहिए ? निर्दोष भिक्षा किसे कहते हैं ? कैसे दाता से भिक्षा लेनी चाहिए ? भोजन किस तरह करना चाहिए ? प्राप्त भोजन में किस तरह सन्तुष्ट रहा जाय ? इत्यादि बातों का स्पष्ट वर्णन है ।

द्वितीय उद्देशकः—

भिक्षा के समय ही भिक्षा के लिए जाना चाहिए। थोड़ी सी भी भिक्षा का असंग्रह। किसी भी भेदभाव के बिना शुद्ध आचरण एवं नियम वाले घरों से भिक्षा लेना, रस वृत्ति का त्याग

(६) धर्मार्थकामाध्ययनः—

मोक्षमार्ग का साधन क्या है ? भ्रमण जीवन के लिए आवश्यक १८ नियमों का मार्मिक वर्णन, अहिंसा पालन किस लिए ? सत्य तथा असत्य व्रत की उपयोगिता कैसी और कितनी है ? मैथुन वृत्ति से कौन कौन से दोष पैदा होते हैं ? ब्रह्मचर्य की आवश्यकता। परिग्रह की मार्मिक व्याख्या, रात्रि भोजन किस लिए वर्ज्य है ? सूक्ष्म जीवों की दया किस जीवन में कितनी शक्य है ? भिक्षुओं के लिए कौन कौन से पदार्थ अकल्प्य हैं ? शरीर-सत्कार का त्याग क्यों करना चाहिए ?

## (७) वाक्य शुद्धि:—

वचन शुद्धि की आवश्यकता, वाणी क्या चीज है? वाणी के अतिव्यय से हानि, भाषा के व्यवहारिक प्रकार, उनमें से कौन कौन सी भाषाएं वर्ज्य हैं और किस लिये? कैसी सत्य वाणी बोलनी चाहिए? किसी का दिल न दुखे और व्यवहार भी चलता रहे तथा संयमी जीवन में वाक्क न हो ऐसी विवेक पूर्ण वाणी का उपयोग।

## (८) आचरण प्रणिधि:—

सद् गुणों की सच्ची लगन किसे लगती है? सदाचार मार्ग की कठिनता, साधकमिन्न २ कठिनताओं को किस प्रकार पार करे? क्रोधादि आत्मरिपुओं को किस प्रकार जीता जाय? मानसिक, वाचिक, तथा कायिक ब्रह्मचर्य की रक्षा। अभिमान कैसे दूर किया जाय? ज्ञान का सदुपयोग। साधु को आदरणीय एवं त्याज्य क्रियाएं, साधु जीवन की समस्याएं और उनका निराकरण।

## (९) विनय समाधि:—

प्रथम उद्देशक—विनय की व्यापक व्याख्या, गुरुकुल में गुरुदेव के प्रति श्रमण साधक सदा भक्ति भाव रखे। अविनीत साधक अपना पतन स्वयमेव किस तरह करता है? गुरु को वय अथवा ज्ञान में छोटा जान कर उनकी अविनय करने का भयंकर परिणाम। ज्ञानी साधक के लिये भी गुरुभक्ति की आवश्यकता, गुरुभक्त शिष्य का विकास। विनीत साधक के विशिष्ट लक्षण।

द्वितीय उद्देशकः—वृत्त के विकास के समान आध्यात्मिक मार्ग के विकास की तुलना, धर्म से लेकर उसके अन्तिम परिणाम तक का दिग्दर्शन, विनय अविनय के परिणाम। विनय के शत्रुओं का मार्मिक वर्णन।

तृतीय उद्देशकः—पूज्यता की आवश्यकता है क्या? आदर्श पूज्यता कौनसी है? पूज्यता के लिये आवश्यक गुण। विनीत साधक अपने मन, वचन और काया का कैसा उपयोग करे?

चतुर्थ उद्देशकः—समाधि की व्याख्या, और उसके चार साधन, आदर्श ज्ञान, आदर्श विनय, आदर्श तप और आदर्श आचार की आराधना किस प्रकार की जाय? उनकी साधना में आवश्यक जागृति।

(१०) भिक्षु नामः—

सच्चा त्याग भाव कब पैदा होता है? कनक तथा कामिनी के त्यागी साधक की जवाबदारी, यति जीवन पालने की प्रतिज्ञाओं पर दृढ़ कैसे रहा जाय? त्याग का सम्बन्ध बाह्य वेश से नहीं किन्तु आत्म विकास के साथ है। आदर्श भिक्षु की क्रियाएं।

(११) रति वाक्य ( प्रथम चूलिका )—

गृहस्थ जीवन की अपेक्षा साधु जीवन क्यों महत्त्वपूर्ण है? भिक्षु परम पूज्य होने पर भी शासन के नियमों को पालने के लिये बाध्य है। वासना मय संस्कारों का जीवन पर असर, संयम से चलित चित्त रूपी घोड़े



को रोकने के अठारह उपाय, संयमी जीवन से पतित साधु की भयंकर परिस्थिति । उनकी भिन्न २ जीवों के साथ तुलना, पतित साधु का पश्चात्ताप, संयमी के दुःख की क्षण भङ्गुरता और अष्ट जीवन की भयंकरता, मन स्वच्छ रखने का उपदेश ।

(१२) विविक्त चर्या ( द्वितीय चूलिका )—

एकान्त चर्या की व्याख्या, संसार के प्रवाह में बहते हुए जीवों की दशा, इस प्रवाह के विरुद्ध जाने का अधिकारी कौन है ? आदर्श एक चर्या, तथा स्वच्छन्दी एक चर्या की तुलना, आदर्श एक चर्या के आवश्यक गुण तथा नियम । एकान्त चर्या का रहस्य और उसकी योग्यता का अधिकार, मोक्ष फल की प्राप्ति ।

(१३) नन्दी सूत्रः—

नन्दी शब्द का अर्थ मंगल या हर्ष है । हर्ष, प्रमोद और मंगल का कारण होने से और पांच ज्ञान का स्वरूप बताने वाला होने से यह सूत्र-नन्दी कहा जाता है । इस सूत्र के कर्त्ता देव-वाचक क्षमा श्रमण कहे जाते हैं । इस सूत्र का एक ही अध्ययन है । इसके आरम्भ में स्थविरावली कही गई है । इसके बाद श्रोताओं के दृष्टान्त दिए गए हैं । बाद में पांच ज्ञान का स्वरूप प्रतिपादन किया गया है । टीका में औत्पातिकी आदि चारों बुद्धियों की रोचक कथाएं दी गई हैं । द्वादशाङ्ग की हुण्डी और कालिक, उत्कालिक शास्त्रों के नाम भी इसमें दिए गए हैं । यह सूत्र उत्कालिक है ।

( ४ ) अनुयोगद्वारः—अणु अर्थात् संचित सूत्र को महान् अर्थ के साथ जोड़ना अनुयोग है अथवा अध्ययन के अर्थ-व्याख्यान की विधि को अनुयोग कहते हैं । जिस प्रकार द्वार, नगर-प्रवेश का साधन है । द्वार न होने से नगर में प्रवेश नहीं हो सकता । एक दो द्वार होने से नगर दुःख से प्रवेश योग्य होता है । परन्तु चार द्वार एवं उपद्वार वाले नगर में प्रवेश सुगम है । उसी प्रकार शास्त्र रूपी नगर में प्रवेश करने के भी चार द्वार (साधन) हैं । इन द्वारों एवं उपद्वारों से शास्त्र के जटिल अर्थ में सुगमता के साथ गति हो सकती है । इस सूत्र में शास्त्रार्थ के व्याख्यान की विधि के उपायों का दिग्दर्शन है । इसी लिये इसका नाम अनुयोग-द्वार दिया गया है । यों तो सभी शास्त्रों का अनुयोग होता है । परन्तु यहां आवश्यक के आधार से अनुयोग द्वार का वर्णन है । इसमें अनुयोग के मुख्य चार द्वार बतलाये गये हैं:—

( १ ) उपक्रम ( २ ) निक्षेप ( ३ ) अनुगम ( ४ ) नय ।

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के भेद से तथा आनुपूर्वी नाम प्रमाण, वक्तव्यता, अर्थाधिकार और समवतार के भेद से उपक्रम के छः भेद हैं । आनुपूर्वी के दस भेद बताये गये हैं । इसी प्रकार नाम के भी एक दो यावत् दस नाम इस प्रकार दस भेद हैं । इन नामों में एक दो आदि भेदों का वर्णन करते हुए स्त्री, पुरुष, नपुंसक, लिङ्ग, आगम, लोप, प्रकृति, विकार, छः भाव, सात स्वर, आठ विभक्ति, नव रस,

आदि का वर्णन है। प्रमाण वर्णन के प्रसंग में व्याकरण के तद्धित, समास आदि का वर्णन दिया गया है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव प्रमाण के भेदों का स्वरूप बताते हुए, धान्य का मान, हाथ दण्ड, धनुष आदि का नाप, गुंजा, काकिणी, माशे आदि का तोल, अंगुल, नारकादि की अव-  
गणहना, समय, आवलिका, पल्योपम, सागरोपम आदि नरकादि की स्थिति, द्रव्य एवं शरीर का वर्णन, बद्ध, मुक्त, औदारिक, वैक्रियक आदि का अधिकार, प्रत्यक्ष अनुमान, आगम, उपमान, प्रमाण, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, गुणप्रमाण, नय प्रमाण, संख्या प्रमाण आदि अनेक विषयों का वर्णन है। इसमें संख्य, असंख्य और अनन्त संख्याओं का अधिकार भी है। आगे वक्तव्यता, अर्थाधिकार और सम-  
वतार का वर्णन दिया गया है। बाद में अनुयोग के शेष द्वार, निक्षेप, अनुगम, और नयों का वर्णन है। यह सूत्र उत्कालिक है।

२०५—छेद सूत्र चारः—

(१) दशाश्रुत स्कंध ।

(२) बृहत्कल्प सूत्र ।

(३) निशीथ सूत्र ।

(४) व्यवहार सूत्र ।

(१) दशाश्रुत स्कंधः—इस सूत्र का विषय यों तो अन्य सूत्रों में प्रतिपादित है। फिर भी शिष्यों की सुगमता के लिए प्रत्याख्यान पूर्व से उद्धृत कर दस अध्ययन रूप इस सूत्र की रचना की गई है। इसके रचयिता भद्रबाहु स्वामी हैं। ऐसा टीकाओं से ज्ञात होता है। इस सूत्र के दस

अध्ययन होने से इसका नाम दशाश्रुत स्कन्ध है। पहली दशा में असमाधि के स्थानों का वर्णन है। दूसरी दशा में इक्कीस शवल दोष दिये गये हैं। तीसरी दशा में तेतीस अशातनाएं प्रतिपादित हैं। चौथी दशा में आचार्य्य की आठ सम्पदाओं का वर्णन है और आचार, श्रुत, विज्ञेपणा एवं दोष निर्घातन रूप चार विनय तथा चार विनय प्रतिपत्ति का कथन है। पांचवीं दशा में दस चित्त समाधि आदि का वर्णन है। छठी दशा में श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएं और सातवीं दशा में साधु की चारह प्रतिमाएं तथा प्रतिमाधारी साधु के कर्त्तव्याकर्त्तव्य वर्णित है। आठवीं दशा में पंचकल्याण का वर्णन दिया गया है। नववीं दशा में तीस महा मोहनीय कर्म के बोल और उनके त्याग का उपदेश है। दशवीं दशा में नव निदान (नियाणा) का सविस्तर वर्णन एवं निदान न करने का उपदेश है। यह कालिक सूत्र है।

- (२) बृहत्कल्प सूत्र—कल्प शब्द का अर्थ मर्यादा है। साधु धर्म की मर्यादा का प्रतिपादक होने से यह बृहत्कल्प के नाम से कहा जाता है। पाप का विनाशक, उत्सर्ग अपवाद रूप मार्गों का दर्शक, साधु के विविध आचार का प्ररूपक, इत्यादि अनेक बातों को बतलाने वाला होने से इसे बृहत्कल्प कहा जाता है। इसमें आहार, उपकरण क्रिया-क्लेश, गृहस्थों के यहाँ जाना, दीक्षा, प्रायश्चित्त, परिहार विशुद्धि चारित्र्य, दूसरे गच्छ में जाना, विहार, वाचना

स्थानक, सहायता देना और समझाना, इत्यादि विषयक साध्वाचार का कथन है। यह कालिक सूत्र है।

(३) निशीथ सूत्र—निशीथ शब्द का अर्थ है प्रच्छन्न अर्थात् छिपा हुआ। इस शास्त्र में सब को न बताने योग्य बातों का वर्णन है। इसलिए इस सूत्र का नाम निशीथ है। अथवा जिस प्रकार निशीथ अर्थात् कतक वृक्ष के फल को पानी में डालने से मैल नीचे बैठ जाता है। उसी प्रकार इस शास्त्र के अध्ययन से भी आठ प्रकार के कर्मरूपी पंक का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हो जाता है। इस लिए इसे निशीथ कहते हैं। यह सूत्र नववें प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्तु के बीसवें प्राभृत से उद्धृत किया गया है। इस सूत्र में बीस उद्देशे हैं। पहले उद्देशे में गुरु मासिक प्रायश्चित्त, दूसरे से पांचवें उद्देशे तक लघुमासिक प्रायश्चित्त, छठे से ग्यारहवें उद्देशे तक गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त, बारहवें से उन्नीसवें उद्देशे तक लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का वर्णन है। बीसवें उद्देशे में प्रायश्चित्त की विधि बतलाई गई है। यह कालिक सूत्र है।

(४) व्यवहार सूत्रः—जिसे जो प्रायश्चित्त आता है। उसे वह प्रायश्चित्त देना व्यवहार है। इस सूत्र में प्रायश्चित्त का वर्णन है। इस लिए इस सूत्र को व्यवहार सूत्र कहते हैं। इस सूत्र में दस उद्देशे हैं। पहले उद्देशे में निष्कपट और सकपट आलोचना का प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त के भांगे एकल विहारी साधु, शिथिल होकर वापिस आच्छ में आने वाले, गृहस्थ होकर पुनः

साधु बनने वाले, परमत का परिचय करने वाले, आलोचना सुनने के अधिकारी, इत्यादि विषयों का वर्णन है। दूसरे उद्देशे में दो या अधिक समान समाचारी वाले दोषी साधुओं की शुद्धि, सदोषी, रोगी आदि की वैयावृत्य, अनवस्थितादि का पुनः संयमारोपण, अभ्याख्यान चढ़ाने वाले, गच्छ को त्याग कर फिर गच्छ में आने वाले, एक पाक्षिक साधु और साधुओं का परस्पर संभोग इत्यादि विषयक वर्णन है। तीसरे उद्देशे में सच्छाधिपति होने वाले साधु, पदवी धारक के आचार, थोड़े काल के दीक्षित की पदवी, युवा साधु को आचार्य्य, उपाध्याय आदि से अलग रहने का निषेध, गच्छ में रह कर तथा छोड़ कर अनाचार सेवन करने वाले को सामान्य साधु एवं पदवीधारी को पद देने वाकत काल मर्यादा के साथ विधि निषेध, मृपावादी को पद देने का निषेध आदि का वर्णन है।

चौथे उद्देशे में आचार्य्य आदि पदवी धारक का परिवार एवं ग्रामानुग्राम विचरते हुए उन का परिवार, आचार्य्य आदि की मृत्यु पर आचार्य्य आदि स्थापन कर रहना, न रहने पर दोष, युवाचार्य्य की स्थापना, भोगावली कर्म उपशमान, बड़ी दीक्षा देना, ज्ञानादि के निमित्त अन्त्यगच्छ में जाना, स्थविर की आज्ञा बिना विचरने का निषेध, गुरु को कैसे रहना, दो साधुओं के समान होकर रहने का निषेध, आदि बातों का वर्णन है। पांचवें उद्देशे में साध्वी का आचार, सूत्र भूलने पर भी स्थविर को पद की योग्यता, साधु साध्वी के १२ सम्भोग, प्रायश्चित्त

देने के योग्य आचार्य्य आदि एवं साधु-साध्वी के परस्पर वैयावृत्य आदि बातों का वर्णन है। छठे उद्देशे में सम्बन्धियों के यहाँ जाने की विधि, आचार्य्य उपाध्याय के अतिशय, पठित अपठित साधु सम्बन्धी, खुले एवं ढके स्थानक में रहने की विधि, मैथुन की इच्छा का प्रायश्चित्त, अन्य गच्छ से आये हुए साधु साध्वी इत्यादि विषयक वर्णन है।

सातवें उद्देशे में संभोगी साधु साध्वी का पारस्परिक आचार, किस अवस्था में किस साधु को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष में विसंभोगी करना, साधु का साध्वी को दीक्षा देना, साधु साध्वी की आचार भिन्नता, रक्तादि के अस्वाध्याय, साधु साध्वी को पदवी देने का काल, एका-एक साधु साध्वी की मृत्यु होने पर साधर्मिक साधुओं का कर्त्तव्य साधु के रहने के स्थान को बेचने या भाड़े देने पर शय्यातर सम्बन्धी विवेक, राजा का परिवर्त्तन होने पर नवीन राज्याधिकारियों से आज्ञा मांगना, आदि बातों का वर्णन है।

आठवें उद्देशे में चौमासे के लिए शय्या, पाट, पाटलादि मांगने की विधि, स्थविर की उपाधि, प्रतिहारी पाट पाटले लेने की विधि, भूले उपकरण ग्रहण करने एवं अन्य के लिए उपकरण मांगने की विधि का वर्णन है। नववें उद्देशे में शय्यातर के पाहुने आदि का आहारादि ग्रहण तथा साधु की प्रतिमाओं की विधि का वर्णन है। दसवें उद्देशे में यवमध्य एवं वज्रमध्य प्रतिमाओं की विधि, पांच व्यवहार, विविध चौभङ्गियाँ, बालक को दीक्षा देने की विधि, दीक्षा लेने के

बाद कव सूत्र पढाना, दस प्रकार की वैयावच्च से महानिर्जरा एवं प्रायश्चित्त का स्पष्टीकरण इत्यादि विषयों का वर्णन है। यह सूत्र कालिक है।

२०६—वाचना के चार पात्रः—

- (१) विनीत ।
  - (२) क्षीरादि विगयों में आसक्ति न रखने वाला ।
  - (३) क्रोध को शान्त करने वाला ।
  - (४) अमायी, माया-कपट न करने वाला ।
- ये चार व्यक्ति वाचना के पात्र हैं ।

( ठाणांग ४ उ० ३ सू० ३२६ )

२०७—वाचना के चार अपात्रः—

- (१) अविनीत ।
  - (२) विगयों में आसक्ति रखने वाला ।
  - (३) अशान्त (क्रोधी) ।
  - (४) मायावी (छल करने वाला) ।
- ये चार व्यक्ति वाचना के अयोग्य हैं ।

( ठाणांग ४ उद्देशा ३ सूत्र ३२६ )

२०८—अनुयोग के चार द्वारः—

- |              |               |
|--------------|---------------|
| (१) उपक्रम । | (२) निक्षेप । |
| (३) अनुगम ।  | (४) नय ।      |

(१) उपक्रमः—दूर रही हुई वस्तु को विभिन्न प्रतिपादन प्रकारों से समीप लाना और उसे निक्षेप योग्य करना उपक्रम कहलाता है अथवा प्रतिपाद्य वस्तु को निक्षेप योग्य करने वाले गुरु के वचनों को उपक्रम कहते हैं ।



- (२) निक्षेपः—प्रतिपाद्य वस्तु का स्वरूप ममभाने के लिए नाम, स्थापना आदि भेदों से स्थापन करना निक्षेप है ।
- (३) अनुगमः—सूत्र के अनुकूल अर्थ का कथन अनुगम कहलाता है अथवा सूत्र का व्याख्यान करने वाला वचन अनुगम कहलाता है ।
- (४) नय—अनन्त धर्म वाली वस्तु के अनन्त धर्मों में से इतर धर्मों में उपेक्षा रखते हुए विवक्षित धर्म रूप एकांश को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय कहलाता है ।

निक्षेप की योग्यता को प्राप्त वस्तु का निक्षेप किया जाता है । इस लिए निक्षेप की योग्यता कराने वाला उपक्रम प्रथम दिया गया है और उसके बाद निक्षेप । नामादि भेदों से व्यवस्थापित पदार्थों का ही व्याख्यान होता है । इस लिए निक्षेप के बाद अनुगम दिया गया है । व्याख्यात वस्तु ही नयों से विचारी जाती है, इसलिए अनुगम के पश्चात् नय दिया गया है । इस प्रकार अनुयोग व्याख्यान का क्रम होने से प्रस्तुत चारों द्वारों का उपरोक्त क्रम दिया गया है ।

( अनुयोग द्वार सूत्र ५६ )

२०६:—निक्षेप चारः—

यावन् मात्र पदार्थों के जितने निक्षेप हो सकें उतने ही करने चाहिए । यदि विशेष निक्षेप करने की शक्ति न हो तो चार निक्षेप तो अवश्य ही करने चाहियें ।

इनके चार भेद नीचे दिये जाते हैं:—

- (१) नाम निक्षेप । (२) स्थापना निक्षेप ।  
(३) द्रव्य निक्षेप । (४) भाव निक्षेप ।

**नाम निक्षेप:**—लोक व्यवहार चलाने के लिए किसी दूसरे गुणादि निमित्त की अपेक्षा न रख कर किसी पदार्थ की कोई संज्ञा रखना नाम निक्षेप है। जैसे—किसी बालक का नाम महावीर रखना। यहां बालक में वीरता आदि गुणों का ख्याल किए बिना ही “महावीर” शब्द का संकेत किया गया है। कई नाम गुण के अनुसार भी होते हैं। किन्तु नाम निक्षेप गुण की अपेक्षा नहीं करता।

**स्थापना निक्षेप:**—प्रतिपाद्य वस्तु के सदृश अथवा विसदृश आकार वाली वस्तु में प्रतिपाद्य वस्तु की स्थापना करना स्थापना निक्षेप कहलाता है। जैसे—जम्बू द्वीप के चित्र को जम्बू द्वीप कहना या शतरंज के मोहरों को हाथी, घोड़ा, वजीर, आदि कहना।

**द्रव्य निक्षेप:**—किसी पदार्थ की भूत और भविष्यत् कालीन पर्याय के नाम का वर्तमान काल में व्यवहार करना द्रव्य निक्षेप है। जैसे—राजा के मृतक शरीर में “यह राजा है” इस प्रकार भूत-कालीन राजा पर्याय का व्यवहार करना, अथवा भविष्य में राजा होने वाले युवराज को राजा कहना।

कोई शास्त्रादि का ज्ञाता जब उस शास्त्र के उपयोग से शून्य होता है। तब उसका ज्ञान द्रव्य ज्ञान कहलायेगा।

“अनुपयोगो द्रव्यमिति वचनात्”

अर्थात् उपयोग न होना द्रव्य है । जैसे-सामायिक का ज्ञाता जिस समय सामायिक के उपयोग में शून्य है । उस समय उसका सामायिक ज्ञान द्रव्य सामायिक ज्ञान कहलायेगा ।

भाव निक्षेपः—पर्याय के अनुसार वस्तु में शब्द का प्रयोग करना भाव निक्षेप है । जैसे-राज्य करते हुए मनुष्य को राजा कहना । सामायिक के उपयोग वाले को सामायिक का ज्ञाता कहना ।

( अनुयोगद्वार सूत्र 'निक्षेपाधिकार' सू० १५० )

( न्यायप्रदीप अ० ६ )

२१०—वस्तु के स्व पर चतुष्टय के चार भेदः—

(१) द्रव्य (२) क्षेत्र (३) काल (४) भाव ।

जैन दर्शन अनेकान्त दर्शन है । इसके अनुसार वस्तु में अनेक धर्म रहते हैं एवं अपेक्षा भेद से परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों का भी एक ही वस्तु में सामञ्जस्य होता है । जैसे-अस्तित्व और नास्तित्व । ये दोनों धर्म यों तो परस्पर विरुद्ध हैं । परन्तु अपेक्षा भेद से एक ही वस्तु में सिद्ध हैं । जैसे-घट पदार्थ स्व चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति धर्म वाला है और पर चतुष्टय की अपेक्षा नास्ति धर्म वाला है । स्व चतुष्टय से वस्तु के निजी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव लिये जाते हैं और पर चतुष्टय से परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव लिये जाते हैं ।

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की सामान्य व्याख्या सोदाहरण निम्न प्रकार से है ।

**द्रव्यः**—गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं—जैसे-जड़ता आदि घट के गुणों के समूह रूप से घट है । परन्तु चैतन्य आदि जीव के गुणों के समूह रूप से वह नहीं है । इस प्रकार घट स्व द्रव्य की अपेक्षा से अस्ति धर्म वाला है एवं पर द्रव्य (जीव द्रव्य) की अपेक्षा से वह नास्ति धर्म वाला है ।

**क्षेत्रः**—निश्चय से द्रव्य के प्रदेशों को क्षेत्र कहते हैं । जैसे-घट के प्रदेश घट का क्षेत्र हैं और जीव के प्रदेश जीव का क्षेत्र हैं । घट अपने प्रदेशों में रहता है । इस लिए वह स्व क्षेत्र की अपेक्षा सत् एवं जीव प्रदेशों में-न रहने से जीव के क्षेत्र की अपेक्षा से असत् है । व्यवहार में वस्तु के आधार भूत आकाश प्रदेशों को जिन्हें वह अवगाहती है, क्षेत्र कहते हैं । जैसे-व्यवहार दृष्टि से क्षेत्र की अपेक्षा घट अपने क्षेत्र में रहता है । पर क्षेत्र की अपेक्षा जीव के क्षेत्र में वह नहीं रहता है ।

**कालः**—वस्तु के परिणामन को काल कहते हैं । जैसे-घट स्वकाल से वसन्त ऋतु का है और शिशिर ऋतु का नहीं है ।

**भावः**—वस्तु के गुण या स्वभाव को भाव कहते हैं । जैसे-घट स्वभाव की अपेक्षा से जलधारण स्वभाव वाला है किन्तु वस्त्र की तरह आवरण स्वभाव वाला नहीं है अथवा घटत्व की अपेक्षा सद् रूप और घटत्व की अपेक्षा असद् रूप है ।

इस प्रकार प्रत्येक वस्तु स्व चतुष्टय की अपेक्षा सद्-  
रूप एवं पर चतुष्टय की अपेक्षा असद् रूप है।

( न्यायप्रदीप अध्याय ७ )

( रत्नाकरावतारिका परिच्छेद ४ सूत्र १५ की टीका )

२११—अनुयोग के चार भेदः—

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (१) चरण करणानुयोग । | (२) धर्म कथानुयोग । |
| (३) गणितानुयोग ।    | (४) द्रव्यानुयोग ।  |

चरण करणानुयोगः—व्रत, श्रमण धर्म, संयम, वैयावृत्य, गुप्ति, क्रोधनिग्रह आदि चरण हैं। पिरण्ड विशुद्धि, समिति, पडिमा आदि करण हैं। चरण करण का वर्णन करने वाले आचाराङ्गादि शास्त्रों को चरण करणानुयोग कहते हैं।

धर्म कथानुयोगः—धर्म कथा का वर्णन करने वाले ज्ञाताधर्म-कथाङ्ग, उत्तराध्ययन आदि शास्त्र धर्म कथानुयोग हैं।

गणितानुयोगः—सूर्यप्रज्ञप्ति आदि गणित प्रधान शास्त्र गणितानुयोग कहलाते हैं।

द्रव्यानुयोगः—द्रव्य, पर्याय आदि का व्याख्यान करने वाले दृष्टिवाद आदि द्रव्यानुयोग हैं।

( दशवैकालिक सूत्र सटीक नियुक्ति गार्था ३ पृष्ठ ३ )

२१२—काव्य के चार भेदः—

- (१) गद्य (२) पद्य (३) कथ्य (४) गेय ।

गद्यः—जो काव्य छन्द बद्ध न हो वह गद्य काव्य है।

पद्यः—छन्द बद्ध पद्य काव्य है।

कथ्यः—कथा प्रधान कथ्य काव्य है।

गेयः—गायन के योग्य काव्य को गेय कहते हैं।

कथ्य और गेय काव्य का गद्य और पद्य में समावेश हो जाने पर भी कथा और गान धर्म की प्रधानता होने से ये अलग गिनाए गए हैं ।

( ठाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३७६ )

२१३— चार शुभ और चार अशुभ गणः—

तीन अक्षर के समूह को गण कहते हैं । आदि मध्य और अन्त अक्षरों के गुरु लघु के विचार से गणों के आठ भेद हैं ।

नीचे लिखे सूत्र से आठ गण सरलता से याद किए जा सकते हैं ।

“य मा ता रा ज भा न स ल ग म्”

य (यगण)	मा (मगण)
ता (तगण)	रा (रगण)
ज (जगण)	भा (भगण)
न (नगण)	स (सगण)

ये आठ गण हैं ।

‘ल’ लघु के लिए और ‘ग’ गुरु के लिए है ।

जिस गण को जानना हो, ऊपर के सूत्र में गण के अक्षर के साथ आगे के दो और अक्षर मिलाने से वह गण बन जायगा । जैसे—यगण पहचानने के लिए ‘य’ के आगे के दो अक्षर और मिलाने से यमाता हुआ । इसमें ‘य’ लघु है, ‘मा’ और ‘ता’ गुरु हैं । अर्थात् आदि अक्षर के लघु और शेष दो अक्षरों के गुरु होने से यगण (155) होता है ।

यदि नगण जानना हो, तो न के आगे के दो अक्षर "स ल" मिलाने से "नसल" हुआ अर्थात् जिसमें तीनों अक्षर लघु हों, वह नगण जानना चाहिए ।

संक्षेप में यों कह सकते हैं कि भगण में आदि गुरु, जगण में मध्य गुरु और सगण में अन्त गुरु और शेष अक्षर लघु होते हैं । (S) यह निशान गुरु का है और (I) यह निशान लघु का है । जैसे—

भगण	SI	यथा:—भारत ।
जगण	ISI	यथा:—वरात ।
सगण	IIS	यथा:—भरती ।

यगण में आदि लघु, रगण में मध्य लघु और तगण में अन्त लघु और शेष अक्षर गुरु होते हैं:—

यगण	ISS	यथा:—वराती ।
रगण	SIS	यथा:—भारती ।
तगण	SSI	यथा:—मायालु ।

मगण में तीनों अक्षर गुरु और नगण में तीनों अक्षर लघु होते हैं । जैसे:—

मगण	SSS	यथा:—जामाता ।
रगण	III	यथा:—भरत ।

संक्षेप में इन आठ गणों का लक्षण - इस प्रकार बतलाया गया है । यथा:—

आदिमध्यावसानेषु, भजसा यान्ति गौरवम् ।

यरता लाघवं यान्ति, मनौ तु गुरु लाघवम् ॥१॥

अर्थात्:—भगण, जगण और सगण, आदि मध्य और अव-  
सान (अन्त) में गुरु होते हैं और यगण, रगण और  
तगण आदि मध्य, अवसान में लघु होते हैं। मगण सर्व-  
गुरु और नगण सर्व लघु है।

पिङ्गल शास्त्र के अनुसार इन आठ गणों में यगण  
मगण, भगण और नगण ये शुभ और जगण, रगण, सगण  
और तगण ये अशुभ माने गये हैं। ( सरल पिङ्गल )

नोट:—दग्धाक्षर पांच हैं। वे बोल नं० ३८५ में दिये गये हैं।

२१४—चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं:—

विषय को प्राप्त करके अर्थात् विषय से सम्बद्ध हो  
कर उसे जानने वाली इन्द्रिया प्राप्यकारी कहलाती हैं।  
प्राप्यकारी इन्द्रियां चार हैं:—

- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| (१) श्रोत्रेन्द्रिय । | (२) घ्राणेन्द्रिय ।   |
| (३) रसनेन्द्रिय ।     | (४) स्पर्शनेन्द्रिय । |

( ठाणंग ४ उ० ३ सूत्र ३३६ )

नोट—वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक और सांख्य  
दर्शन सभी इन्द्रियों को प्राप्यकारी मानते हैं। बौद्ध दर्शन  
में श्रोत्र और चक्षु अप्राप्यकारी, और शेष तीन इन्द्रियों  
प्राप्यकारी मानी गई हैं। जैन दर्शन के अनुसार चक्षु अप्रा-  
प्यकारी और शेष चार इन्द्रियां प्राप्यकारी हैं।

( रत्नाकरायतारिका परिच्छेद २ सू० ५ टीका

२१५:—ध्यान की व्याख्या और भेद:—

ध्यान:—एक लक्ष्य पर चित्त को एकाग्र करना ध्यान है।

अथवा छद्मस्थों का अन्तर्गृह्य परिमाण एकवस्तु में चित्त



को स्थिर रखना ध्यान कहलाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ध्यान के संक्रमण होने पर ध्यान का प्रवाह चिर काल तक भी हो सकता है। जिन भगवान् का तो योगों का निरोध करना ध्यान कहलाता है। ध्यान के चार भेद हैं:—

(१) आर्त्तध्यान । (२) रौद्रध्यान ।

(३) धर्मध्यान । (४) शुक्रध्यान ।

(१) आर्त्तध्यान—ऋत अर्थात् दुःख के निमित्त या दुःख में होने वाला ध्यान आर्त्तध्यान कहलाता है अथवा आत्त अर्थात् दुःखी प्राणी का ध्यान आर्त्तध्यान कहलाता है ।

(ठाणांग ४ व० १ सूत्र २४७)

अथवा:—

मनोज्ञ वस्तु के वियोग एवं अमनोज्ञ वस्तु के संयोग आदि कारण से चित्त की ध्वराहट आर्त्तध्यान है ।

(समवायाग सूत्र समवाय ४)

अथवा:—

जीव मोहवश राज्य का उपभोग, शयन, आसन, वाहन, स्त्री, गंध, माला, मणि, रत्न विभूषणों में जो अतिशय इच्छा करता है। वह आर्त्तध्यान है ।

(दशवैकालिक सूत्र अध्ययन १ नि० गा० ४८ की टीका

(२) रौद्रध्यान:—हिंसा, भूँट, चोरी, धन आदि की रक्षा में मन को जोड़ना रौद्रध्यान है । 'समवायांग सूत्र समवाय ४)

अथवा:—

हिंसादि विषय का अतिक्रूर परिणाम रौद्रध्यान है ।

(ठाणांग ४ व० १ सूत्र २४७)

अथवा:—

हिंसोन्मुख आत्मा द्वारा प्राणियों को रुलाने वाले व्यापार का चिन्तन करना रौद्रध्यान है ।

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६ गा० २७१ टी० )

अथवा:—

छेदना, भेदना, काटना, मारना, वध करना, प्रहार करना, दमन करना, इनमें जो राग करता है और जिसमें अनुकम्पा भाव नहीं है । उस पुरुष का ध्यान रौद्रध्यान कहलाता है ।

( दशवैकालिक सूत्र अध्ययन १ नि० गा० ४८ टीका )

(३) धर्मध्यान:—धर्म अर्थात् आज्ञादि पदार्थ स्वरूप के पर्यालोचन में मन को एकाग्र करना धर्मध्यान है ।

( सप्तषायांग सूत्र समवाय ४ )

अथवा:—

श्रुत और चारित्र धर्म के सहित ध्यान, धर्मध्यान कहलाता है ।

( षाष्ठांग ४ उ० १ सूत्र २४७ )

अथवा:—

सुत्रार्थ की साधना करना, महाव्रतों को धारण करना, बन्ध और मोक्ष तथा गति-आगति के हेतुओं का विचार करना, पञ्च इन्द्रियों के विषयों से निवृत्ति और प्राणियों में दया भाव, इनमें मन की एकाग्रता का होना धर्मध्यान है ।

( दशवैकालिक सूत्र अध्ययन १ नि० गा० ४८ टीका )

अथवा:—

जिन भगवान् और साधु के गुणों का कथन करने वाला, उनकी प्रशंसा करने वाला, विनीत, श्रुतशील और संयम में अनुरक्त आत्मा धर्मध्यानी है। उमका ध्यान धर्मध्यान कहलाता है।

(आवश्यक हरि० अध्ययन ४ ध्यानशतक गा० ६८)

शुक्ल ध्यान:—पूर्व विषयक श्रुत के आधार से मन की अत्यन्त स्थिरता और योग का निरोध शुक्लध्यान कहलाता है।

(समवायांग सूत्र समवाय ४)

अथवा:—

जो ध्यान आठ प्रकार के मल को दूर करता है। अथवा जो शोक को नष्ट करता है। वह ध्यान शुक्ल ध्यान है।

(ठाणांग ४ सूत्र २४०)

पर अवलम्बन बिना शुक्ल—निर्मल आत्मस्वरूप की तन्मयता पूर्वक चिन्तन करना शुक्लध्यान कहलाता है।

(आगमसार)

अथवा:—

जिस ध्यान में विषयों का सम्बन्ध होने पर भी वैराग्य बल से चित्त बाहरी विषयों की ओर नहीं जाता तथा शरीर का छेदन भेदन होने पर भी स्थिर हुआ चित्त ध्यान से लेश मात्र भी नहीं डिगता। उसे शुक्लध्यान कहते हैं।

(कर्त्तव्य कौमुदी दूसरा भाग श्लोक २११)

(आव० हरि० अ० ४ ध्यान शतक पृ० ५८२)

२१६—आर्त्तध्यान के चार प्रकार:—

(१) अमनोज्ञ वियोग चिन्ता:—अमनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, विषय एवं उनकी साधनभूत वस्तुओं का संयोग

होने पर उनके वियोग (हटाने) की चिन्ता करना तथा भविष्य में भी उनका संयोग न हो, ऐसी इच्छा रखना आर्त्त ध्यान का प्रथम प्रकार है। इस आर्त्त ध्यान का कारण द्वेष है।

(२) मनोज्ञ संयोग चिन्ता:—पांचों इन्द्रियों के मनोज्ञ विषय एवं उनके साधन रूप माता, पिता, भाई, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन, तथा साता वेदना के संयोग में, उनका वियोग (अलग) न होने का अव्यवसाय करना तथा भविष्य में भी उनके संयोग की इच्छा करना आर्त्त ध्यान का दूसरा प्रकार है। राग इसका मूल कारण है।

(३) रोग चिन्ता:—शूल, सिर दर्द आदि रोग आतङ्क के होने पर उनकी चिकित्सा में व्यग्र प्राणी का उनके वियोग के लिए चिन्तन करना तथा रोगादि के अभाव में भविष्य के लिए रोगादि के संयोग न होने की चिन्ता करना आर्त्त ध्यान का तीसरा प्रकार है।

(४) निदान (नियाणा)—देवेन्द्र, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव के रूप गुण और ऋद्धि को देख या सुन कर उनमें आसक्ति लाना और यह सोचना कि मैंने जो तप संयम आदि धर्म कृत्य किये हैं। उनके फल स्वरूप मुझे भी उक्त गुण एवं ऋद्धि प्राप्त हो। इस प्रकार अधम निदान की चिन्ता करना आर्त्त ध्यान का चौथा प्रकार है। इस आर्त्त ध्यान का मूल कारण अज्ञान है। क्योंकि अज्ञानियों के सिवाय औरों को सांसारिक सुखों में आसक्ति नहीं होती। ज्ञानी पुरुषों के चित्त में तो सदा मोक्ष की लगन ही बनी रहती है।

राग द्वेष और मोह से युक्त प्राणी का यह चार प्रकार का आर्त्तध्यान संसार को बढ़ाने वाला और सामान्यतः तिर्यश्च गति में ले जाने वाला है ।

( ठाणाग ४ उ० १ सू० २४७ )

(हरि० आवश्यक अध्ययन ४ ध्यान शतक गा० ६ से ६)

२१७—आर्त्तध्यान के चार लिङ्गः—

(१) आक्रन्दन । (२) शोचन ।

(३) परिदेवना । (४) तेपनता ।

ये चार आर्त्तध्यान के चिह्न हैं ।

ऊँचे स्वर से रोना और चिल्लाना आक्रन्दन है ।

आँखों में आंसू लाकर दीनभाव धारण करना शोचन है ।

बार बार क्लिष्ट भाषण करना, विलाप करना परिदेवना है ।

आंसू गिराना तेपनता है ।

इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग और वेदना के निमित्त से ये चार चिह्न आर्त्तध्यानी के होते हैं ।

( हरि० आवश्यक अध्ययन ४ ध्यानशतक गा० १५ पृष्ठ ५८७ )

( ठाणाग ४ उद्देशा १ सूत्र २४७ )

( भगवती शतक २५ उद्देशा ७ सू० ८०३ )

२१८—रौद्रध्यान के चार प्रकारः—

(१) हिंसानुबन्धी । (२) मृषानुबन्धी ।

(३) चौर्यानुबन्धी । (४) संरक्षणानुबन्धी ।

हिंसानुबन्धीः—प्राणियों को चाबुक, लता आदि से मारना, कील आदि से नाक वगैरह बाँधना, रस्सी, जंजीर आदि से बाँधना, अग्नि में जलाना, डाम लगाना, तलवार आदि से

प्राण वध करना अथवा उपरोक्त व्यापार न करते हुए भी क्रोध के वश होकर निर्दयता पूर्वक निरन्तर इन हिंसाकारी व्यापारों को करने का चिन्तन करना हिंसानुबन्धी रौद्र-ध्यान है ।

मृपानुबन्धी:—मायावी—दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति करने वाले तथा छिप कर पापाचरण करने वाले पुरुषों के अनिष्ट सूचक वचन, असभ्य वचन, असत् अर्थ का प्रकाशन, सत् अर्थ का अपलाप, एवं एक के स्थान पर दूसरे पदार्थ आदि का कथन रूप असत्य वचन, एवं प्राणियों के उपघात करने वाले वचन कहना या कहने का निरन्तर चिन्तन करना मृपानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

चौर्यानुबन्धी:—तीव्र क्रोध एवं लोभ से व्यग्र चित्त वाले पुरुष की प्राणियों के उपघातक, अनार्यकाम जैसे—पर द्रव्य हरण आदि में निरन्तर चित्तवृत्ति का होना, चौर्यानुबन्धी रौद्र-ध्यान है ।

संरक्षणानुबन्धी:—शब्दादि पांच विषय के साधन रूप धन की रक्षा करने की चिन्तना करना, एवं न मालूम दूसरा क्या करेगा, इम आशंका से दूसरों का उपघात करने की कपायमयी चित्त वृत्ति रखना, संरक्षणानुबन्धी रौद्र-ध्यान है ।

हिंसा, मृपा, चौर्य, एवं संरक्षण, स्वयं करना दूसरों से कराना, एवं करते हुए की अनुमोदना (प्रशंसा) करना, इन तीनों कारण विषयक चिन्तना करना रौद्रध्यान है । राग

द्वेष एवं मोह से आकुल जीव के यह चारों प्रकार का रौद्रध्यान होता है। यह ध्यान संसार को बढ़ाने वाला एवं नरक गति में ले जाने वाला है।

( ठाण्णं ४ ६० १ सूत्र २४७ )

२१६-रौद्रध्यान के चार लक्षणः—

(१) ओसन्न दोष (२) बहुदोष, ( बहुलदोष ),  
(३) अज्ञान दोष ( नानादोष ) (४) आमरणान्त दोष।

(१) ओसन्न दोषः—रौद्रध्यानी हिंसादि से निवृत्त न होने से बहुलता पूर्वक हिंसादि में से किसी एक में प्रवृत्ति करता है। यह ओसन्न दोष है।

(२) बहुल दोषः—रौद्रध्यानी सभी हिंसादि दोषों में प्रवृत्ति करता है। वह बहुल दोष है।

(३) अज्ञान दोषः—अज्ञान से कुशास्त्र के संस्कार से नरकादि के कारण अधर्म स्वरूप हिंसादि में धर्म बुद्धि से उन्नति के लिए प्रवृत्ति करना, अज्ञान दोष है।

अथवाः—

नानादोष—विविध हिंसादि के उपायों में अनेक वाग प्रवृत्ति करना नानादोष है।

(४) आमरणान्त दोषः—मरण पर्यन्त क्रूर हिंसादि कार्यों में अनुताप ( पछतावा ) न होना, एवं हिंसादि में प्रवृत्ति करते रहना आमरणान्त दोष है। जैसे-काल सौकरिक कमाई।

( आव० हरि० अ० ४ ध्यान शतक गा० २६ पृ० ५६० )

( ठाण्णं ४ ६० १ सूत्र २४७ ) ( मग० ज० २५ ६० ७ सूत्र २०३ )

कठोर एवं संक्लिष्ट परिणाम वाला रौद्रध्यानी दूसरे के दुःख से प्रसन्न होता है । ऐहिक एवं पारलौकिक भय से रहित होता है । उसके मन में अनुकम्पा भाव लेश मात्र भी नहीं होता । अकार्य करके भी उसे पश्चात्ताप नहीं होता । पाप करके भी वह प्रसन्न होता है ।

( हरि० आवश्यक अध्ययन ४ )

२२० धर्मध्यान के चार प्रकार—

- (१) आज्ञा विचय । (२) अपाय विचय ।  
(३) विपाक विचय । (४) संस्थान विचय ।

(१) आज्ञा विचय—सूक्ष्म तत्त्वों के उपदर्शक होने से अति निपुण, अनादि, अनन्त, प्राणियों के वास्ते हितकारी, अनेकान्त का ज्ञान कराने वाली, अमूल्य, अपरिमित, जैनेतर प्रवचनों से अपराभूत, महान् अर्थवाली, महाप्रभाव शाली एवं महान् विषय वाली, निर्दोष, नयभंग एवं प्रमाण से गहन, अतएव अकुशल जनों के लिए दुर्ज्ञेय ऐसी जिनाज्ञा ( जिन प्रवचन ) को सत्य मान कर उस पर श्रद्धा करे एवं उसमें प्रतिपादित तत्त्वों का चिन्तन और मनन करे । वीतराग के प्रतिपादित तत्त्व के रहस्य को समझाने वाले, आचार्य्य महाराज के न होने से, ज्ञेय की गहनता से अर्थात् ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से और मति दौर्वल्य से जिन प्रवचन प्रतिपादित तत्त्व सम्यग् रूप से समझ में न आवे अथवा किसी विषय में हेतु उदाहरण के संभव न होने से वह बात समझ में न आवे तो यह विचार करे



कि ये वचन वीतराग, सर्वज्ञ भगवान् श्री जिनेश्वर द्वारा कथित हैं। इसलिए सर्व प्रकारेण सत्य ही है। इस में सन्देह नहीं। अनुपकारी जन के उपकार में तत्पर रहने वाले, जगत में प्रधान, त्रिलोक एवं त्रिकाल के ज्ञाता, राग द्वेष और मोह के विजेता, श्री जिनेश्वर देव के वचन सत्य ही होते हैं क्योंकि उनके असत्य कथन का कोई कारण ही नहीं है। इस तरह भगवद् भाषित प्रवचन का चिंतन तथा मनन करना एवं गूढ़ तत्त्वों के विषयों में सन्देह न रखते हुए उन्हें दृढ़ता पूर्वक सत्य समझना और वीतराग के वचनों में मन को एकाग्र करना आज्ञाविचय नामक धर्मध्यान है।

- (२) अपाय विचय—राग द्वेष, कषाय, मिथ्यात्व, अनिरति आदि आश्रव एवं क्रियाओं से होने वाले ऐहिक, पारलौकिक कुफल और हानियों का विचार करना। जैसे-कि महाव्याधि से पीड़ित पुरुष को अपथ्य अन्न की इच्छा जिस प्रकार हानिप्रद है। उसी प्रकार प्राप्त हुआ राग भी जीव के लिए दुःखदायी होता है।

प्राप्त हुआ द्वेष भी प्राणी को उसी प्रकार तपा देता है। जैसे-कोटर में रही हुई अग्नि वृक्ष को शीघ्र ही जला डालती है।

सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग देव ने दृष्टि राग आदि भेदों वाले राग का फल परलोक में दीर्घ संसार बतलाया है।

द्वेषरूपी अग्नि से संतप्त जीव इस लोक में भी दुःखित रहता है और परलोक में भी वह पापी नरकाग्नि में जलता है।

वश में न किये हुए क्रोध और मान एवं बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों कषाय संसार रूपी वृत्त के मूल का सिंचन करने वाले हैं अर्थात् संसार को बढ़ाने वाले हैं ।

प्रशम आदि गुणों से शून्य एवं मिथ्यात्व से मूढ मतिवाला पापी जीव इस लोक में ही नरक सदृश-दुःखों को पाता है ।

क्रोध आदि सभी दोषों की अपेक्षा अज्ञान अधिक दुःखदायी है क्योंकि अज्ञान से आच्छादित जीव अपने हिताहित को भी नहीं पहिचानता ।

प्राणिवध से निवृत्त न होने से जीव यहीं पर अनेक दूषणों का शिकार होता है । उसके परिणाम इतने क्रूर हो जाते हैं कि वह लोक निन्दित स्वपुत्र वध, जैसे जघन्य ( नीच ) कृत्य भी कर बैठता है ।

इसी प्रकार आश्रव से अर्जित पापकर्मों से जीव चिर-काल तक नरकादि नीच गतियों में भ्रमण करता हुआ अनेक अपायों (दुखों) का भाजन होता है ।

कायिकी आदि क्रियाओं में वर्तमान जीव इस लोक एवं परलोक में दुःखी होते हैं । ये क्रियाएं संसार को बढ़ाने वाली कही गई हैं ।

इस प्रकार राग द्वेष कषाय आदि के अपायों के चिंतन करने में मन को एकाग्र करना अपाय विचय धर्मध्यान है ।

इन दोषों से होने वाले कुफल का चिन्तन करने वाला

जीव इन दोषों से अपनी आत्मा की रक्षा करने में सावधान रहता है एवं इससे दूर रहता हुआ आत्म कल्याण का साधन करता है ।

(३)—विपाक विचय—शुद्ध आत्मा का स्वरूप ज्ञान, दर्शन, सुख आदि रूप है । फिर भी कर्मवश उसके निजी गुण दबे हुए हैं एवं वह सांसारिक सुख दुःख के द्वन्द में रही हुई चार गतियों में भ्रमण कर रही है । संपत्ति, विपत्ति, संयोग, वियोग आदि से होने वाले सुख दुःख जीव के पूर्वोपाजित शुभाशुभ कर्म के ही फल हैं । आत्मा ही अपने कृत कर्मों से सुख दुःख पाता है । स्वोपाजित कर्मों के सिवाय और कोई भी आत्मा को सुख दुःख देने वाला नहीं है । आत्मा की भिन्न २ अवस्थाओं में कर्मों के भिन्न २ फल हैं । इस प्रकार कषाय एवं योग जनित शुभाशुभ कर्म प्रकृति बन्ध, स्थिति बन्ध, अनुभाग बन्ध, प्रदेश बन्ध, उदय, उदीरणा, सत्ता, इत्यादि कर्म विषयक चिन्तन में मन को एकाग्र करना विपाक विचय धर्मध्यान है ।

(४)—संस्थान विचय — धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य एवं उन की पर्याय, जीव अजीव के आकार, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, लोक का स्वरूप, पृथ्वी, द्वीप, सागर, नरक, विमान, भवन आदि के आकार, लोक स्थिति, जीव की गति, आगति, जीवन, मरण आदि सभी सिद्धान्त के अर्थ का चिन्तन करे तथा जीव एवं उसके कर्म से पैदा किए हुए

जन्म, जरा एवं मरण रूपी जल से परिपूर्ण क्रोधादि कपाय रूप पाताल वाले, विविध दुःख रूपी नक्र मकर से भरे हुए, अज्ञान रूपी वायु से उठने वाली, संयोग वियोगरूप लहरों सहित इस अनादि अनन्त संसार सागर का चिन्तन करे। इस संसार सागर को तिराने में समर्थ, सम्यग्दर्शन रूपी मजवृत्त बन्धनों वाली, ज्ञान रूपी नाविक से चलाई जाने वाली चारित्र रूपी नौका है। संवर से निश्छिद्र, तप रूपी पवन से वेग को प्राप्त, वैराग्य मार्ग पर रही हुई एवं अपध्यान रूपी तरंगों से न डिगने वाली बहुमूल्य शील रत्न से परिपूर्ण नौका पर चढ़ कर मुक्ति रूपी व्यापारी शीघ्र ही बिना विघ्नों के निर्वाण रूपी नगर को पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वे अज्ञय, अव्यावाध, स्वाभाविक, निरुपम सुख पाते हैं। इत्यादि रूप से सम्पूर्ण जीवादि पदार्थों के विस्तार वाले, सब नय समूह रूप सिद्धान्तोक्त अर्थ के चिन्तन में मन को एकाग्र करना संस्थान विचय धर्मध्यान है।

( ठाण्णाग ४ उ० १ सूत्र २५७ टी० )

( अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ४ काण शब्द )

२२१—धर्मध्यान के चार लिङ्गः—

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| (१) आज्ञा रुचि । | (२) निसर्ग रुचि ।            |
| (३) सूत्र रुचि । | (४) अवगाढरुचि (उपदेश रुचि) । |

(१) आज्ञा रुचिः—सूत्र में प्रतिपादित अर्थों पर रुचि धारण करना आज्ञा रुचि है।

- (२) निसर्ग रुचिः—स्वभाव से ही विना किसी उपदेश के जिन-भाषित तत्त्वों पर श्रद्धा करना निसर्ग रुचि है ।
- (३) सूत्र रुचिः—सूत्र अर्थात् आगम द्वारा वीतराग प्ररूपित द्रव्यादि पदार्थों पर श्रद्धा करना सूत्र रुचि है ।
- (४) अवगाढ रुचि (उपदेश रुचि):—द्वादशाङ्ग का विस्तार-पूर्वक ज्ञान करके जो जिन प्रणीत भावों पर श्रद्धा होती है । वह अवगाढ रुचि है अथवा साधु के समीप रहने वाले को साधु के सूत्रानुसारी उपदेश से जो श्रद्धा होती है । वह अवगाढ रुचि (उपदेश रुचि) है ।

तात्पर्य यह है कि तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यक्त्व ही धर्म ध्यान का लिङ्ग है ।

जिनेश्वर देव एवं साधु मुनिराज के गुणों का कथन करना, भक्तिपूर्वक उनकी प्रशंसा और स्तुति करना, गुरु आदि का विनय करना, दान देना, श्रुत शील एवं संयम में अनुराग रखना—ये धर्मध्यान के चिह्न हैं । इनसे धर्मध्यानी पहिचाना जाता है ।

( ठाण्णग ४ उ० १ सूत्र २४७ टी० )

( अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ४ काण शब्द )

२२२—धर्मध्यान रूपी प्रासाद ( महल ) पर चढ़ने के चार आलम्बनः—

(१) वाचना ।

(२) पृच्छना ।

(३) परिवर्तना ।

(४) अनुप्रेक्षा ।

(१) वाचना—निर्जरा के लिए शिष्य को सूत्र आदि पढाना वाचना है ।

(२) पृच्छना—सूत्र आदि में शङ्का होने पर उसका निवारण करने के लिए गुरु महाराज से पूछना पृच्छना है ।

(३) परिवर्तना—पहले पढे हुए सूत्रादि भूल न जाएं इस लिए तथा निर्जरा के लिए उनकी आवृत्ति करना, अभ्यास करना परिवर्तना है ।

(४) अनुप्रेक्षा—सूत्र अर्थ का चिन्तन एवं मनन करना अनुप्रेक्षा है ।

( म० श० २५ उ० ७ सू० ८०३ ) ( ठाणाग ४ उ० १ सूत्र २४७ टीका )

( उव० सू० २० ) ( आव० हरि० श्र० ४ ध्यानशतक गा० ४२ पृ० ५६४ )

२२३—धर्मध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ:—

(१) एकत्व भावना । (२) अनित्यत्व भावना ।

(३) अशरण भावना । (४) संसार भावना ।

(१) एकत्व भावना—“इस संसार में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है और न मैं ही किसी का हूँ” । ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो भविष्य में मेरा होने वाला हो अथवा मैं जिस का बन सकूँ” । इत्यादि रूप से आत्मा के एकत्व अर्थात् अमहायपन की भावना करना एकत्व भावना है ।

(२) अनित्यत्व भावना—“शरीर अनेक विघ्न बाधाओं एवं रोगों का स्थान है । सम्पत्ति विपत्ति का स्थान है । संयोग के साथ वियोग है । उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पदार्थ नश्वर है । इस प्रकार शरीर, जीवन तथा संसार के सभी पदार्थों के अनित्य स्वरूप पर विचार करना अनित्यत्व भावना है ।

(३) अशरण भावना—जन्म, जरा, मृत्यु के भय से पीडित, व्याधि एवं वेदना से व्यथित, इस संसार में आत्मा का त्राण रूप कोई नहीं है । यदि कोई आत्मा का त्राण करने

वाला है तो जिनेन्द्र भगवान् के प्रवचन ही एक त्राण शरण रूप है। इस प्रकार आत्मा के त्राण व शरण के अभाव की चिन्ता करना अशरण भावना है।

- (४) संसार भावना—इस संसार में माता बन कर वही जीव, पुत्री, बहिन एवं स्त्री बन जाता है और पुत्र का जीव पिता, भाई, यहाँ तक कि शत्रु बन जाता है। इस प्रकार चार गति में, सभी अवस्थाओं में संसार के विचित्रता पूर्ण स्वरूप का विचार करना संसार भावना है।

( भग० श० २५ उ० ७ सूत्र ८०३ ) ठाणाग ४ उ० १ सूत्र २४७ टी० )

( उव० सू० २० ) ( आव० हरि० ध्यानश० गा० ६५ टी० पृ० ६०३ )

२२४—धर्मध्यान के चार भेदः—

(१) पिण्डस्थ ।

(२) पदस्थ ।

(३) रूपस्थ ।

(४) रूपातीत ।

- (१) पिण्डस्थ—पार्थिवी, आग्नेयी, आदि पांच धारणाओं का एकाग्रता से चिन्तन करना पिण्डस्थ ध्यान है।
- (२) पदस्थ—नाभि में सोलह पांखड़ी के, हृदय में चौबीस पांखड़ी के तथा मुख पर आठ पांखड़ी के कमल की कल्पना करना और प्रत्येक पांखड़ी पर वर्णमाला के अ आ इ ई आदि अक्षरों की अथवा पञ्च परमेष्ठी मंत्र के अक्षरों की स्थापना करके एकाग्रता पूर्वक उनका चिन्तन करना अर्थात् किसी पद के आश्रित होकर मन को एकाग्र करना पदस्थ ध्यान है।
- (३) रूपस्थ—शास्त्रोक्त अरिहन्त भगवान् की शान्त दशा को हृदय में स्थापित करके स्थिर चित्त से उसका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है।

(४) रूपातीत—रूप रहित निर्जन निर्मल सिद्ध भगवान् का आलंबन लेकर उसके साथ आत्मा की एकता का चिन्तन करना रूपातीत ध्यान है ।

(ज्ञानार्णव प्रकरण ३७ से ४०)

(योगशास्त्र प्रकाश ७ से १०)

(कर्त्तव्य कौमुदी भाग २ श्लोक २८७ से २०६ पृष्ठ १२७ से २८)

२२५ शुक्ल ध्यान के चार भेद—

(१) पृथक्त्व वितर्क सविचारी ।

(२) एकत्व वितर्क अविचारी ।

(३) सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती ।

(४) समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती ।

(१) पृथक्त्व वितर्क सविचारी—एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का पृथक् पृथक् रूप से विस्तार पूर्वक पूर्वगत श्रुत के अनुसार द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक आदि नयों से चिन्तन करना पृथक्त्व वितर्क सविचारी है। यह ध्यान विचार सहित होता है। विचार का स्वरूप है अर्थ, व्यञ्जन (शब्द) एवं योगों में संक्रमण। अर्थात् इस ध्यान में अर्थ से शब्द में, और शब्द से अर्थ में, और शब्द से शब्द में, अर्थ से अर्थ में एवं एक योग से दूसरे योग में संक्रमण होता है।

पूर्वगत श्रुत के अनुसार त्रिविध नयों से पदार्थों की पर्यायों का भिन्न भिन्न रूप से चिन्तन रूप यह शुक्ल ध्यान पूर्वधारी को होता है और मरुदेवी माता की तरह जो पूर्वधर नहीं हैं, उन्हें अर्थ, व्यञ्जन एवं योगों में परस्पर संक्रमण रूप यह शुक्ल ध्यान होता है।



- (२) एकत्व वितर्क अविचारी—पूर्वगत श्रुत का आधार लेकर उत्पाद आदि पर्यायों के एकत्व अर्थात् अभेद से किसी एक पदार्थ अथवा पर्याय का स्थिर चित्त से चिन्तन करना एकत्व वितर्क है। इस ध्यान में अर्थ, व्यञ्जन एवं योगों का संक्रमण नहीं होता। निर्वात गृह में रहे हुए दीपक की तरह इस ध्यान में चित्त विक्षेप रहित अर्थात् स्थिर रहता है।
- (३) सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती—निर्वाण गमन के पूर्व केवली भगवान् मन, वचन, योगों का निरोध कर लेते हैं और अर्द्ध काययोग का भी निरोध कर लेते हैं। उस समय केवली के कायिकी उच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रिया ही रहती है। परिणामों के विशेष बढ़े चढ़े रहने से यहाँ से केवली पीछे नहीं हटते। यह तीसरा सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती शुक्लध्यान है।
- (४) समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती—शैलेशी अवस्था को प्राप्त केवली सभी योगों का निरोध कर लेता है। योगों के निरोध से सभी क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं। यह ध्यान सदा बना रहता है। इस लिए इसे समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती शुक्लध्यान कहते हैं।

पृथक्त्व वितर्क सविचारी शुक्लध्यान सभी योगों में होता है। एकत्व वितर्क अविचार शुक्लध्यान किसी एक ही योग में होता है। सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती शुक्लध्यान केवल काय योग में होता है। चौथा समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपाती शुक्लध्यान अयोगी को ही होता है। छद्मस्थ

के मन को निश्चल करना ध्यान कहलाता है और केवली की काया को निश्चल करना ध्यान कहलाता है ।

(आवश्यक अध्ययन ४ ध्यान शतक गाथा ७७ से ८२)

(कर्त्तव्य कौमुदी भाग २ श्लोक २११-२१६)

(ठाणांग ४ उ० १ सूत्र २४७)

(ज्ञानार्णव प्रकरण ४२)

२२६ शुक्लध्यान के चार लिङ्गः—

(१) अव्यथ ।

(२) असम्मोह ।

(३) विवेक ।

(४) व्युत्सर्ग ।

(१) शुक्लध्यानी परिपद् उपसर्गों से डर कर ध्यान से चलित नहीं होता । इसलिए वह अव्यथ लिङ्ग वाला है ।

(२) शुक्लध्यानी को सूक्ष्म अत्यन्त गहन विषयों में अथवा देवादि कृत माया में सम्मोह नहीं होता । इस लिए वह असम्मोह लिङ्ग वाला है ।

(३) शुक्लध्यानी आत्मा को देह से भिन्न एवं सब संयोगों को आत्मा से भिन्न समझता है । इस लिए वह विवेक लिङ्ग वाला है ।

(४) शुक्लध्यानी निःसंग रूप से देह एवं उपाधि का त्याग करता है । इस लिए वह व्युत्सर्ग लिङ्ग वाला है ।

(आवश्यक अध्ययन ४ ध्यान शतक)

(ठाणांग ४ उ० १ सूत्र २४७)

२२७—शुक्ल ध्यान के चार आलम्बनः—

जिन मत में प्रधान क्षमा, मार्दव, आर्जव, मुक्ति, इन चारों आलम्बनों से जीव शुक्ल ध्यान पर चढ़ता है ।

क्रोध न करना, उदय में आये हुए क्रोध को दवाना, इस प्रकार क्रोध का त्याग क्षमा है ।

मान न करना, उदय में आये हुए मान को विफल करना, इस प्रकार मान का त्याग मर्दव है ।

माया न करना:—उदय में आई हुई माया को विफल करना, (रोकना) । इस प्रकार माया का त्याग—आर्जव (सरलता) है ।

लोभ न करना:—उदय में आये हुए लोभ को विफल करना (रोकना) । इस प्रकार लोभ का त्याग—मुक्ति (शौच निर्लोभता) है ।

( ठाण्णग ४ उ० १ सूत्र २४७ )

( आवश्यक अध्ययन ४ ध्यान शतक गाथा ६६ पृ० ६०६ )

( उववाई सूत्र २० )

२२८—शुक्ल ध्यानी की चार भावनाएं:—

- (१) अनन्त वर्तितानुप्रेक्षा । (२) विपरिणामानुप्रेक्षा ।  
(३) अशुभानुप्रेक्षा । (४) अपायानुप्रेक्षा ।

(१) अनन्त वर्तितानुप्रेक्षा:—मव परम्परा की अनन्तता की भावना करना—जैसे यह जीव अनादि काल से संसार में चकर लगा रहा है । समुद्र की तरह इस संसार के पार पहुँचना, उसे दुष्कर हो रहा है और वह नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव भवों में लगातार एक के बाद दूसरे में विना विश्राम के परिभ्रमण कर रहा है । इस प्रकार की भावना अनन्त-वर्तितानुप्रेक्षा है ।

- (२) विपरिणामानुप्रेक्षा—वस्तुओं के विपरिणामन पर विचार करना । जैसे—सर्वस्थान अशाश्वत हैं । क्या यहाँ के और क्या देवलोक के । देव एवं मनुष्य आदि की ऋद्धियाँ और सुख अस्थायी हैं । इस प्रकार की भावना विपरिणामानुप्रेक्षा है ।
- (३) अशुभानुप्रेक्षा:—संसार के अशुभ स्वरूप पर विचार करना । जैसे कि इस संसार को धिक्कार है जिसमें एक सुन्दर रूप वाला अभिमानी पुरुष मर कर अपने ही मृत शरीर में कृमि (कीड़े) रूप से उत्पन्न हो जाता है । इत्यादि रूप से भावना करना अशुभानुप्रेक्षा है ।
- (४) अपायानुप्रेक्षा:—आश्रवों से होने वाले, जीवों को दुःख देने वाले, विविध अपायों का चिन्तन करना, जैसे वश में नहीं किये हुए क्रोध और मान, बढ़ती हुई माया और लोभ ये चारों कषाय संसार के मूल को सींचने वाले हैं । अर्थात् संसार को बढ़ाने वाले हैं । इत्यादि रूप से आश्रव से होने वाले अपायों की चिन्तना अपायानुप्रेक्षा है ।

( ठाणाग ४ उ० १ सूत्र २४७ )

(आवश्यक अध्ययन ४ ध्यानशतक गा० ८८ पृ० ६०८)

( भगवती शतक २५ उद्देशा ७ सू० ८०३ )

( उववाई सूत्र तप अधिकार सू० २० )

२२६—चार विनय प्रतिपत्तिः—

आचार्य्य शिष्य को चार प्रकार की प्रतिपत्ति सिखा कर उन्नत होता है ।

विनय प्रतिपत्ति के चार प्रकारः—

- (१) आचार विनय ।
- (२) श्रुत विनय ।
- (३) विक्षेपणा विनय ।
- (४) दोष निर्घातन विनय ।

( दशा श्रुतस्कन्ध दशा ४ )

२३०—आचार विनय के चार प्रकारः—

- (१) संयम समाचारी ।      (२) तप समाचारी ।
  - (३) गण समाचारी ।      (४) एकाकी विहार समाचारी ।
- (१) संयम समाचारीः—संयम के भेदों का ज्ञान करना, सतरह प्रकार के संयम को स्वयं पालन करना, संयम में उत्साह देना, संयम में शिथिल होने वाले को स्थिर करना संयम समाचारी है ।
- (२) तप समाचारी—तप के बाह्य और आभ्यन्तर भेदों का ज्ञान करना, स्वयं तप करना, तप करने वालों को उत्साह देना, तप में शिथिल होते हों, उन्हें स्थिर करना तप समाचारी है ।
- (३) गण समाचारी—गण (समूह) के ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की वृद्धि करते रहना, सारणा, धारणा आदि द्वारा भली भांति रक्षा करना, गण में स्थित रोगी, बाल, वृद्ध एवं दुर्बल साधुओं की यथोचित व्यवस्था करना गण समाचारी है ।
- (४) एकाकी विहार समाचारी—एकाकी विहारप्रतिमा का भेदोपभेद सहित सांगोपाङ्ग ज्ञान करना, उसकी विधि को ग्रहण करना, स्वयं एकाकी विहार प्रतिमा का अंगीकार करना

एवं दूसरे को ग्रहण करने के लिये उत्साहित करना आदि एकाकी विहार समाचारी है।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३१—श्रुतविनय के चार प्रकार—

(१) मूलसूत्र पढ़ाना।

(२) अर्थ पढ़ाना।

(३) हित वाचना देना अर्थात् शिष्य की योग्यता के अनुसार सूत्र अर्थ उभय पढ़ाना।

(४) निःशेष वाचना देना अर्थात् नय प्रमाण आदि द्वारा व्याख्या करते हुए शास्त्र की समाप्ति पर्यन्त वाचना देना।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३२—विज्ञेयपणा विनय के चार प्रकार—

(१) जिसने पहले धर्म नहीं जाना है। एवं सम्यग् दर्शन का लाभ नहीं किया है, उसे प्रेमपूर्वक सम्यग्दर्शन रूप धर्म दिखा कर सम्यक्त्व धारी बनाना।

(२) जो सम्यक्त्व धारी है, उसे सर्व विरति रूप चारित्र धर्म की शिक्षा देकर सहधर्मी बनाना।

(३) जो धर्म से भ्रष्ट हुए हों, उन्हें धर्म में स्थिर करना।

(४) चारित्र धर्म की जैसे वृद्धि हो, वैसी प्रवृत्ति करना। जैसे एषणीय आहार ग्रहण करना, अनेपणीय आहार का त्याग करना, एवं चारित्र धर्म की वृद्धि के लिये हितकारी, सुखकारी, इहलोक, परलोक में समर्थ, कल्याणकारी एवं मोक्ष में ले जाने वाले अनुष्ठान के लिए तत्पर रहना।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३३—दोषनिर्घातनं विनय के चार प्रकारः—

- (१) मीठे वचनों से क्रोध त्यागने का उपदेश देकर क्रोधी के क्रोध को शान्त करना।
- (२) दोषी पुरुष के दोषों को दूर करना।
- (३) उचित कांचा वाले की कांचा को अभिलषित वस्तु की प्राप्ति द्वारा या अन्य वस्तु दिखा कर निवृत्त करना।
- (४) क्रोध, दोष, कांचा आदि में प्रवृत्ति न करते हुए आत्मा को सुमार्ग पर लगाना।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३४—विनय प्रतिपत्ति के चार प्रकार—

- (१) उपकरणोत्पादनता।
- (२) सहायता।
- (३) वर्ण संज्वलनता (गुणानुवादकता)।
- (४) भार प्रत्यवरोहणता।

गुणवान् शिष्य की उपरोक्त चार प्रकार की विनय प्रतिपत्ति है।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३५—अनुत्पन्न उपकरणोत्पादन विनय के चार प्रकारः—

- (१) अनुत्पन्न अर्थात् अप्राप्त आवश्यक उपकरणों को सम्यक् प्रकार एपणा शुद्धि से प्राप्त करना।
- (२) पुराने उपकरणों की यथोचित रक्षा करना, जीर्ण वस्त्रों को सीना, सुरक्षित स्थान में रखना आदि।
- (३) देशान्तर से आया हुआ अथवा समीपस्थ स्वधर्मी अल्प उपधि वाला हो तो उसे उपधि देकर उसकी सहायता करना।
- (४) यथाविधि आहार पानी एवं वस्त्रादि का विभाग करना, ग्लान, रोगी आदि कारणिक साधुओं के लिये उनके योग्य

वस्त्रादि उपकरण जुटाना ।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३६—सहायता विनय के चार प्रकारः—

- (१) अनुकूल एवं हितकारी वचन बोलना—गुरु की आज्ञा को आदर पूर्वक सुनना एवं विनय के साथ अङ्गीकार करना ।
- (२) काया से गुरु की अनुकूलता पूर्वक सेवा करना अर्थात् गुरु जिस अङ्ग की सेवा करने के लिए फरमावे उस अङ्ग की काया से विनय भक्ति पूर्वक सेवा करना ।
- (३) जिस प्रकार सामने वाले को सुख पहुँचे, उसी प्रकार उनके अङ्गोपाङ्गादि की वैयावृत्त करना ।
- (४) सभी बातों में कुटिलता त्याग कर सरलता पूर्वक अनुकूल प्रवृत्ति करना ।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३७—वर्ण मञ्जलनता विनय के चार प्रकारः—

- (१) भव्य जीवों के समीप आचार्य्य महाराज के गुण, जाति आदि की प्रशंसा करना ।
- (२) आचार्य्य आदि के अपयश कहने वाले के कथन का युक्ति आदि से खण्डन कर उसे निरुत्तर करना ।
- (३) आचार्य्य महाराज की प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद देकर उसे उत्साहित करना, प्रसन्न करना ।
- (४) इङ्गित ( आकार ) द्वारा आचार्य्य महाराज के भाव जान कर उनकी इच्छानुसार स्वयं भक्तिपूर्वक सेवा करना ।

( दशाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )



२३८—भार प्रत्यवरोहणता विनय के चार प्रकार:—

- (१) क्रोधादि वश गच्छ से बाहर जाने वाले शिष्य को मीठे वचनों से समझा बुझा कर पुनः गच्छ में रखना ।
- (२) अव्युत्पन्न एवं नव दीक्षित शिष्य को ज्ञानादि आचार तथा भिन्नाचारी बगैरह का ज्ञान सिखाना ।
- (३) साधर्मिक अर्थात् समान श्रद्धा एवं समान समाचारी बान्हे ग्लान हों अथवा ऐसे ही गाढ़ागाढ़ी कारणों से आहारादिके बिना दुःख पा रहे हों, उनके आहार आदि लाने, वैद्य से बतवाई हुई औषधि करने, उबटन करने, मंथारा विज्ञान, पडिलेहना करने आदि में यथाशक्ति तत्पर रहना ।

- (४) साधर्मियों में परस्पर विरोध उत्पन्न होने पर राग द्वेष का त्याग कर, किसी भी पक्ष का ग्रहण न करते हुए मध्यम्य भाव से सम्यग् न्याय संगत व्यवहार का पालन करते हुए उस विरोध के क्षमापन एवं उपशम के लिए नर्द्व उद्यत रहना और यह भावना करते रहना कि किसी प्रकार ये मेरे साधर्मिक बन्धु राग द्वेष, कलह एवं कृपाय से रहित हों। इनमें परस्पर “तू तू, मैं मैं” न हों। ये संवर एवं ममाधि की बहुलता वाले हों, अप्रमादी हों एवं संयम तथा तप से अपनी आत्मा को भावते हुए विचरें ।

( उजाश्रुत स्कन्ध दशा ४ )

२३९—उपसर्ग चार:—

- (१) देव सम्बन्धी ।
- (३) मनुष्य सम्बन्धी ।

(३) तिर्यञ्च सम्बन्धी ।

(४) आत्मसंवेदनीय ।

( ठाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१ )

( सूयगडांग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ३ उ० १ टीका निर्युक्ति गाथा ४८ )

२४०—देव सम्बन्धी चार उपसर्ग—

देव चार प्रकार से उपसर्ग देते हैं ।

(१) हास्य ।

(२) प्रद्वेष ।

(३) परीक्षा ।

(४) विमात्रा ।

विमात्रा का अर्थ है विविध मात्रा अर्थात् कुछ हास्य, कुछ प्रद्वेष, कुछ परीक्षा के लिए उपसर्ग देना अथवा हास्य से प्रारम्भ कर द्वेष से उपसर्ग देना आदि ।

( ठाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१ )

( सूयगडांग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ३ उ० १ टीका निर्युक्ति गाथा ४८ )

२४१—मनुष्य सम्बन्धी उपसर्ग के भी चार प्रकार—

(१) हास्य ।

(२) प्रद्वेष ।

(३) परीक्षा ।

(४) कुशील प्रति सेवना ।

( ठाणाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१ )

( सूयगडांग श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ३ उ० १ टीका निर्युक्ति गाथा ४८ )

२४२—तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसर्ग के चार प्रकार—

तिर्यञ्च चार बातों से उपसर्ग देते हैं ।

- (१) भय से ।
- (२) प्रद्वेष से ।
- (३) आहार के लिये ।
- (४) संतान एवं अपने लिए रहने के स्थान की रक्षा के लिए ।

(ठाण्णाग ४ उ० ४ सूत्र ३६१)

(सूयगडाग सूत्र श्रुतस्कन्ध १ अध्ययन ३ उ० १ टी० नि० गा० ४८)

२४३—आत्मसंवेदनीय उपसर्ग के चार प्रकारः—

अपने ही कारण से होने वाला उपसर्ग आत्म-संवेदनीय है । इसके चार भेद हैं ।

- |               |              |
|---------------|--------------|
| (१) घट्टन ।   | (२) प्रपतन । |
| (३) स्तम्भन । | (४) श्लेषण । |
- (१) घट्टनः—अपने ही अङ्ग यानि अंगुली आदि की रगड़ से होने वाला घट्टन उपसर्ग है । जैसे—आँखों में धूल पड़ गई । आँख को हाथ से रगड़ा । डममे आँख दुःखने लग गई ।
- (२) प्रपतनः—बिना यतना के चलते हुए गिर जाने से चोट आदि का लग जाना ।
- (३) स्तम्भनः—हाथ पैर आदि अवयवों का सुन्न हो जाना ।
- (४) श्लेषणः—अंगुली आदि अवयवों का आपस में चिपक जाना । वात, पित्त, कफ एवं सन्निपात (वात, पित्त, कफ

का मंयोग.) से होने वाला उपसर्ग श्लेषण है ।

ये सभी आत्मसंवेदनीय उपसर्ग हैं ।

( ठाणांग ४ उ० ४ सूत्र ३६१ )

( सूयगंडांग सूत्र श्रुतस्कन्ध-१, अ० ३, उ० १ टीका निर्युक्ति गा० ४८)

२४४—दोष चार—

(१) अतिक्रम ।

(२) व्यति क्रम ।

(३) अतिचार ।

(४) अनाचार ।

अतिक्रमः—लिए हुए व्रत पञ्चकखाण या प्रतिज्ञा को भंग करने का संकल्प करना या भङ्ग करने के संकल्प अथवा कार्य का अनुमोदन करना अतिक्रम है ।

व्यतिक्रमः—व्रत भङ्ग करने के लिए उद्यत होना व्यतिक्रम है ।

अतिचारः—व्रत अथवा प्रतिज्ञा भङ्ग करने के लिए सामग्री एकत्रित करना तथा एक देश से व्रत या प्रतिज्ञा खंडित करना अतिचार है ।

अनाचारः—सर्वथा व्रत को भङ्ग करना अनाचार है ।

आधा कर्मी आहार की अपेक्षा अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार का स्वरूप इस प्रकार हैः—

साधु का अनुरागी कोई श्रावक आधाकर्मी आहार तैयार कर साधु को निमन्त्रण देता है । उस निमन्त्रण की स्वीकृति कर आहार लाने के लिए उठना, पात्र लेकर गुरु के पास आज्ञादि लेने पर्यन्त अतिक्रम दोष है । आधाकर्मी ग्रहण करने के लिए उपाश्रय से बाहर पैर रखने से लेकर घर में प्रवेश करने, आधाकर्मी आहार लेने के लिए झोली

खोल कर पात्र फैलाने तक व्यतिक्रम दोष है। आधाकर्मि आहार ग्रहण करने से लेकर वापिस उपाश्रय में आने, गुरु के समक्ष आलोचना करना एवं खाने की तैयारी करने तक अतिचार दोष है। खा लेने पर अनाचार दोष लगता है।

( पिरण्ड नियुक्ति गा० १८२ )

अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार में उत्तरोत्तर दोष की अधिकता है। क्योंकि एक से दूसरे का प्रायश्चित्त अधिक है।

मूल गुणों में अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार से चारित्र में मलीनता आती है और उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण आदि से शुद्धि हो जाती है। अनाचार से मूल गुण सर्वथा भङ्ग हो जाते हैं। इसलिये नये सिरे से उन्हें ग्रहण करना चाहिए। उत्तर गुणों में अतिक्रमादि चारों से चारित्र की मलीनता होती है परन्तु व्रत भङ्ग नहीं होते।

( धर्म समग्र अधिकार ३ श्लोक ५३ टी० पृ० १३६ )

२४५ (क):—प्रायश्चित्त चारः—

सञ्चित पाप को छेदन करना—प्रायश्चित्त है।

अथवाः—

अपराध-मलीन चित्त को प्रायः शुद्ध करने वाला जो कृत्य है वह प्रायश्चित्त है।

प्रायश्चित्त चार प्रकार के हैंः—

- (१) ज्ञान प्रायश्चित्त । (२) दर्शन प्रायश्चित्त ।  
(३) चारित्र प्रायश्चित्त । (४) व्यक्तकृत्य प्रायश्चित्त ।

ज्ञान प्रायश्चित्तः—पाप को छेदने एवं चित्त को शुद्ध करने वाला होने से ज्ञान ही प्रायश्चित्त रूप है । अतः इसे ज्ञान प्रायश्चित्त कहते हैं । अथवा ज्ञान के अतिचारों की शुद्धि के लिए जो आलोचना आदि प्रायश्चित्त कहे गये हैं, वह ज्ञान प्रायश्चित्त है । इसी प्रकार दर्शन और चारित्र प्रायश्चित्त का स्वरूप भी समझना चाहिये ।

व्यक्तकृत्यप्रायश्चित्तः—गीतार्थ मुनि छोटे बड़े का विचार कर जो कुछ करता है, वह सभी पाप विशोधक है इस लिए व्यक्त अर्थात् गीतार्थ का जो कृत्य है, वह व्यक्त-कृत्य प्रायश्चित्त है ।

(ठाण्ण ४ उ० १ सूत्र २६३ )

२४५ (ख) प्रायश्चित्त के अन्य प्रकार से चार भेदः—

- (१) प्रतिसेवना प्रायश्चित्त । (२) संयोजना प्रायश्चित्त ।  
(३) आरोपणा प्रायश्चित्त । (४) परिकुञ्चना प्रायश्चित्त ।

(१) प्रतिसेवना प्रायश्चित्तः—प्रतिषिद्ध का सेवन करना अर्थात् अकृत्य का सेवन करना प्रतिसेवना है । इसमें जो आलोचन आदि प्रायश्चित्त है, वह प्रतिसेवना प्रायश्चित्त है ।

(२) संयोजना प्रायश्चित्तः—एक जातीय अतिचारों का मिल जाना संयोजना है । जैसे कोई साधु शय्यातर पिण्ड लाया, वह भी गीले हाथों से, वह भी सामने लाया हुआ और वह भी आधाकर्मी । इसमें जो प्रायश्चित्त होता है । वह संयोजना प्रायश्चित्त है ।

(३) आरोपणा प्रायश्चित्त—एक अपराध का प्रायश्चित्त करने पर बार बार उसी अपराध को सेवन करने

में विजातीय प्रायश्चित्त का आरोप करना आगेपगत प्रायश्चित्त है। जैसे एक अपराध के लिये पाँच दिन का प्रायश्चित्त आया। फिर उन्नीस दिन करने पर दस दिन का, फिर नेत्रन करने पर १५ दिन का इस प्रकार ३ मान तक लगातार प्रायश्चित्त देना। छः मान में अधिक न्य का प्रायश्चित्त नहीं दिया जाता।

- (४) परिकुञ्चना प्रायश्चित्त—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा अपराध को छिपाना या उसे दूसरा न्य देना परिकुञ्चना है। इसका प्रायश्चित्त परिकुञ्चना प्रायश्चित्त कहलाता है।

(आशौं ४ ३० १ सूत्र २६३।

२४६—चार भावना—

(१) मैत्री भावना। (२) प्रमोद भावना।

(३) करुणा भावना। (४) मान्यस्थ भावना।

- (१) मैत्री भावना:—विश्व के समस्त प्राणियों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना, वैर भाव का सर्वथा त्याग करना मैत्री भावना है। वैर भाव दुःख, चिन्ता और मय का स्यात है। यह राग द्वेष को बढ़ाता है एवं चिन्त को विक्षिप्त रखता है। उसके विपरीत मैत्री-भाव चिन्ता एवं मय को मिटा कर अपूर्व शान्ति और मुक्त का देने वाला है। मैत्री भाव में नदा मन स्वस्थ एवं प्रमत्त रहता है।

जगत् के सभी प्राणियों के साथ हमारा माता-पिता, माई, पुत्र, स्त्री, आदि का सम्बन्ध रह चुका है। उसे स्मरण करके मैत्री भाव को पुष्ट करना चाहिए। अपकारियों

के साथ भी यह सोच कर मैत्री भाव बनाये रखना चाहिये कि यदि घर के लोग बुरे भी होते हैं तो भी वे हमारे ही रहते हैं और हम निरन्तर सद्भावना के साथ उनके हितसाधन में तत्पर रहते हैं। विश्व के प्राणी भी हमारे घर वाले रह चुके हैं और भविष्य में रह सकते हैं। फिर उनके साथ भी हमारा वैसा ही व्यवहार होना चाहिए। न जाने हम इस संसार में भ्रमण करते हुए कितनी बार विश्व के प्राणियों से उपकृत हो चुके हैं। फिर उन उपकारियों के साथ मित्र भाव रखना ही हमारा फर्ज है। यदि वर्तमान में वे हानि पहुँचाते हों तो भी हमें तो उपकारों का स्मरण कर अपना कर्तव्य पालन करना ही चाहिये। अपने विषैले डंक से काटते हुए चण्डकौशिक का उद्धार करने वाले भगवान् श्री महावीर स्वामी की जगत् के उद्धार की भावना का सदा ध्यान रखना चाहिये। यदि हमारी ओर से किसी का अहित हो जाय या प्रतिकूल व्यवहार हो, तो हमें उससे तत्काल शुद्ध भाव से क्षमा याचना करनी चाहिये। इससे पारस्परिक भेद भाव नष्ट हो जाता है। इससे सामने वाला हमारे अहित का प्रयत्न नहीं करता है और हमारा चित्त भी शुद्ध हो जाता है एवं उसकी ओर से हानि पहुँचने की आशङ्का मिट जाती है।

यह मैत्री भाव मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। वैर करना पशुता है। मैत्री भाव का पूर्ण विकास होने पर समीपस्थ प्राणी भी पारस्परिक वैरभाव भूल जाते हैं। तो



शत्रुओं का मित्र होना तो साधारण सी बात है। मैत्री भाव के विकाश के लिए चित्त को निर्मल तथा विशद बनाना आवश्यक है। घर के लोगों से मैत्री भाव का प्रारम्भ होता है और बढ़ते २ सारे संसार में इस भाव का प्रसार होजाता है। तब विश्व भर में आत्मा का कोई शत्रु नहीं रहता। इस कोटि पर पहुँच कर आत्मा पूर्ण शान्ति का अनुभव करता है। अतएव सदा इस भावना में दत्तचित्त रह कर वैर भाव को भुलाना चाहिए और मैत्री भाव की वृद्धि करना चाहिये। आत्मा की तरह जगत् के जीवों की सांसारिक दुःखद्वन्द्वों से मुक्ति हो, एवं जो हम अपने लिए चाहें। वही विश्व के समस्त प्राणियों के लिये भी चाहें। एवं संसार के सभी प्राणी मित्र रूप में दिखाई देने लगें। इस प्रकार की भावना ही मैत्री भावना है।

- (२) प्रमोद भावना:—अधिक गुण सम्पन्न महापुरुषों को और उनके मान पूजा सत्कार आदि को देखकर हर्षित होना प्रमोद भावना है। चिरकाल के अशुभ संस्कारों से यह मन ईर्ष्यालु हो गया है। इस प्रकार दूसरे की बढ़ती को वह सहन नहीं कर सकता। परन्तु ईर्ष्या महादुर्गुण है। इस से जीव दूसरों को गिरते देख कर प्रसन्न होना चाहता है। किन्तु उसके चाहने से किसी का पतन संभव नहीं। विज्जली के चाहने से सींका (छींका) नहीं टूटता। परन्तु यह मलीन भावना अपने स्वामी को मलीन कर गिरा देती है एवं सद्गुणों को हर लेती है। ईर्ष्यालु आत्मा सभी को सब बातों में अपने से नीचे

देखना चाहता है। परन्तु यह सम्भव नहीं है। इसके फलस्वरूप वह सदा जलता रहता है एवं अपने स्वास्थ्य और गुणों का नाश करता है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी सम्पत्ति में सभी हर्षित हों, हमारी उन्नति से सभी प्रसन्न हों, हमारे गुणों से सभी को प्रेम हो। यह इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है, जब हम भी दूसरों के प्रति ईर्ष्या छोड़ कर उनके गुणों से प्रेम करेंगे। उनकी उन्नति से प्रसन्न होंगे। इससे यह लाभ होगा कि हमारे प्रति भी कोई ईर्ष्या न करेगा एवं जिन अच्छे गुणों से हम प्रसन्न होंगे, वे गुण हमें भी प्राप्त होंगे। इसलिए सदा गुणवान् पुरुष—जैसे अरिहन्त भगवान्, साधु महाराज आदि के गुणानुवाद करना, श्रावक वर्ग में दानी, परोपकारी आदि का गुणानुवाद करना, उनके गुणों पर प्रसन्नता प्रकट करना, उनकी उन्नति से हर्षित होना, उनकी प्रशंसा सुन कर फूलना आदि प्रमोद भावना हैं।

(३) करुणा भावना:—शारीरिक मानसिक दुःखों से दुःखित प्राणियों के दुःख को दूर करने की इच्छा रखना करुणा भावना है। दीन, अपङ्ग, रोगी, निर्बल, लोगों की सेवा करना, वृद्ध, विधवा और अनाथ बालकों को सहायता देना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि दुर्भिक्ष के समय अन्न जल बिना दुःख पाने वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, वेधरवार लोगों को शरण देना, महामारी आदि के समय लोगों को औषधि पहुँचाना, स्वजनों से

वियुक्त लोगों को उनके स्वजनों से मिला देना, भयभीत प्राणियों के भय को दूर करना, वृद्ध और रोगी पशुओं की सेवा करना। यथाशक्ति प्राणियों के दुःख दूर करना, समर्थ मानवों का कर्त्तव्य है। धन तथा शारीरिक और मानसिक बल का होना तभी सार्थक है। जब कि वह उपरोक्त दुःखी जीवों के उद्धार के लिए लगा दिए जावे। संसार में जो सुख ऐश्वर्य दिखाई देता है। वह सभी इस करुणा-जनित पुण्य के फलस्वरूप है। भविष्य में इनकी प्राप्ति पुण्य बल पर ही होगी। जो लोग पूर्व पुण्य के बल से तप बल, धन बल एवं मनोबल पाकर उसका उपयोग दूसरों के दुःख दूर करने में नहीं करते, वे भविष्य में आने वाले सुखों को अपने ही हाथों रोकते हैं।

करुणा-दया भाव, जैन दर्शन में सम्यग् दर्शन का लक्षण माना गया है। अन्य धर्मों में भी इसे धर्म रूप वृत्त का मूल बताया गया है। दया के बिना धर्माराधन असम्भव है। इस लिए धर्मार्थी एवं सुखार्थी समर्थ आत्माओं को यथा शक्ति दुःखी प्राणियों के दुःखों को दूर करना चाहिए। असमर्थ जनों को भी दुःख दूर करने की भावना अवश्य रखनी चाहिए। अवसर आने पर उसे क्रियात्मक रूप भी देना चाहिए। इस प्रकार धनहीन, दुःखी, भयभीत आत्माओं के दुःख को दूर करने की बुद्धि करुणा भावना है।

- (४) माध्यस्थ भावनाः—मनोज्ञ अमनोज्ञ पदार्थ एवं इष्ट अनिष्ट मानवों के संयोग वियोग में राग-द्वेष न करना

माध्यस्थ भावना है। यह भावना आत्मा को पूर्ण शान्ति देने वाली है। मध्यस्थ भाव से भावित आत्मा पर भले बुरे का कोई भी असर ठीक उसी प्रकार नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण पर प्रतिबिम्बित पदार्थों का असर नहीं होता। अर्थात् जैसे दर्पण पहाड़ का प्रतिबिम्ब ग्रहण करके भी पहाड़ के भार से नहीं दबता या समुद्र का प्रतिबिम्ब ग्रहण कर भीग नहीं जाता। वैसे ही राग द्वेष त्याग कर माध्यस्थ भावना का आलम्बन लेने वाला आत्मा अच्छे बुरे पदार्थ एवं संयोगों को कर्म का खेल समझ कर समभाव से उनका सामना करता है। किन्तु उनसे आत्म भाव को चञ्चल नहीं होने देता। संसार के सभी पदार्थ विनश्वर हैं। संयोग अस्थायी है। मनुष्य भी भले के बुरे और बुरे के भले होते रहते हैं। फिर राग द्वेष के पात्र हैं ही क्या ?

दूसरी बात यह है कि इष्ट, अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति, संयोग वियोग आदि शुभाशुभ कर्म जनित हैं, वे तो नियत काल तक हो कर ही रहेंगे। राग करने से कोई पदार्थ हमेशा के लिए हमारे साथ न रह सकेगा। न द्वेष करने से ही किसी पदार्थ का हमारे से वियोग हो जायेगा। यदि प्राणी अशुभ को नहीं चाहते तो उन्हें अशुभ कर्म नहीं करने थे। अशुभ कर्म करने के बाद अशुभ फल को रोकना प्राणियों की शक्ति के बाहर है। जवान पर मिर्च रख कर उसके तिक्तपन से मुक्ति चाहने की तरह यह अज्ञानता है। शुभाशुभ कर्म जनित इष्ट अनिष्ट पदार्थ एवं संयोगों में राग द्वेष का त्याग करना (उपेक्षा भाव रखना) ही माध्यस्थ भावना है।

जगत् के जो प्राणी विपरीत वृत्ति वाले हैं। उन्हें सुधारने के लिए प्रयत्न करना मानव कर्त्तव्य है। ऐसा करने से हम उनका ही सुधार नहीं करते बल्कि उनके कुमार्गगामी होने से उत्पन्न हुई अव्यवस्था एवं अपने साथियों की असुविधाओं को मिटाते हैं। इसके लिए प्रत्येक मनुष्य को सहनशील बनना चाहिए। कुमार्गगामी पुरुष हमारी सुधार भावना को विपरीत रूप देकर हमें भला बुरा कह सकता है। हानि पहुँचाने का प्रयत्न भी कर सकता है। उस समय सहनशीलता धारण करना सुधारक का कर्त्तव्य है। यह सहनशीलता कमजोरी नहीं किन्तु आत्म-बल का प्रकाशन है उम समय यह सोच कर सुधारक में सुधार भाव और भी ज्यादा बढ़ होना चाहिए कि जब वह अपने बुरे स्वभाव को नहीं छोड़ता है। तब मैं अपने अच्छे स्वभाव को क्यों छोड़ दूँ? यदि सुधारक सहनशील न हुआ तो वह अपने उद्देश्य से नीचे गिर जायगा। पाप से घृणा होनी चाहिए, पापी से नहीं। इस लिए घृणा योग्य पाप को दूर करने का प्रयत्न करना, परन्तु पापी को किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाना चाहिए। मलीन वस्त्र की शुद्धि उसको फाड़ देने से नहीं होती, परन्तु पानी द्वारा कोमल करके की जाती है। इसी तरह पापी का सुधार कोमल उपायों से करना चाहिए। कठिन उपायों से नहीं। यदि कठोर उपाय का आश्रय लेना ही पड़े तो वह कठोरता बाह्य होनी चाहिए। अन्तर में तो कोमलता ही रहनी चाहिए। इस

तरह विपरीत वृत्ति वाले पतित आत्माओं के सुधार की चेष्टा करनी चाहिए। यदि सुधार में सफलता मिलती न दिखाई दे तो सामने वाले के अशुभ कर्मों की प्रबलता समझ कर उदासीनता धारण करनी चाहिये। यही माध्यस्थ भावना है।

( भावना शतक परिशिष्ट )

( कर्त्तव्य कौमुदी भाग २ श्लोक ३५ से ५५ )

( चतुर्भावना पाठमाला के आधार पर )

२५७—बन्ध की व्याख्या और उसके भेदः—

( १ ) जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल लगा कर धूलि में लेटे, तो धूलि उसके शरीर पर चिपक जाती है। उसी प्रकार मिथ्यात्व कपाय योग आदि से जीव के प्रदेशों में जब हल चल होती है तब जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश हैं। वहीं के अनन्त-अनन्त कर्म योग्य पुद्गल परमाणु जीव के एक एक प्रदेश के साथ बंध जाते हैं। कर्म और आत्म प्रदेश इस प्रकार मिल जाते हैं। जैसे दूध और पानी तथा आग और लोह पिण्ड परस्पर एक हो कर मिल जाते हैं। आत्मा के साथ कर्मों का जो यह सम्बन्ध होता है, वही बन्ध कहलाता है।  
बंध के चार भेद हैं।

( १ ) प्रकृति बन्ध ।

( २ ) स्थिति बन्ध ।

( ३ ) अनुभाग बन्ध ।

( ४ ) प्रदेश बन्ध ।

( १ ) प्रकृति बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गलों में जुड़े जुड़े स्वभावों का अर्थात् शक्तियों का पैदा होना प्रकृति बन्ध कहलाता है।

( २ ) स्थिति बन्ध—जीव के द्वारा ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गलों में अमृक काल तक अपने स्वभावों को त्याग न करते हुए जीव के साथ रहने की काल मर्यादा को स्थिति बन्ध कहते हैं ।

( ३ ) अनुभाग बन्ध—अनुभाग बन्ध को अनुभाव बन्ध और अनुभव बन्ध भी कहते हैं । जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म पुद्गलों में से इसके तरतम भाव का अर्थात् फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना अनुभाग बन्ध कहलाता है ।

( ४ ) प्रदेश बन्ध—जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म स्कन्धों का सम्बन्ध होना प्रदेश बन्ध कहलाता है ।

( ठाण्णांग ४ उ० २ सूत्र २६६ )

( कर्मग्रन्थ भाग १ गाथा २ )

२४८—चारों बन्धों का स्वरूप समझाने के लिए मोदक (लड्डू) का दृष्टान्तः—

जैसे—सोंठ, पीपल, मिर्च आदि से बनाया हुआ मोदक वायु नाशक होता है । इसी प्रकार पित्त नाशक पदार्थों से बना हुआ मोदक पित्त का एवं कफ नाशक पदार्थों से बना हुआ मोदक कफ का नाश करने वाला होता है । इसी प्रकार आत्मा से ग्रहण किए हुए कर्म पुद्गलों में से किन्हीं में ज्ञान गुण को आच्छादन करने की शक्ति पैदा होती है, किन्हीं में दर्शन गुण घात करने की । कोई कर्म-पुद्गल, आत्मा के आनन्द गुण का धात करते हैं । तो कोई आत्मा की अनन्त शक्ति का । इस

तरह भिन्न भिन्न कर्म पुद्गलों में भिन्न २ प्रकार की प्रकृतियों के बन्ध होने को प्रकृति बन्ध कहते हैं। जैसे कोई मोदक एक सप्ताह, कोई एक पक्ष, कोई एक मास तक निजी स्वभाव को रखते हैं। इसके बाद-में छोड़ देते हैं अर्थात् विकृत हो जाते हैं। मोदकों की काल मर्यादा की तरह कर्मों की भी काल मर्यादा होती है। वही स्थिति बन्ध है। स्थिति पूर्ण होने पर कर्म आत्मा से जुड़े हो जाते हैं।

कोई मोदक रस में अधिक मधुर होते हैं तो कोई कम। कोई रस में अधिक कटु होते हैं, कोई कम। इस प्रकार मोदकों में जैसे रसों की न्यूनाधिकता होती है। उसी प्रकार कुछ कर्म दलों में शुभ रस अधिक और कुछ में कम। कुछ कर्म दलों में अशुभ रस अधिक और कुछ में अशुभ रस कम होता है। इसी प्रकार कर्मों में तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द, मन्दतर, मन्दतम, शुभाशुभ रसों का बन्ध होना रस बन्ध है। यही बन्ध अनुभाग बन्ध भी कहलाता है।

कोई मोदक परिमाण में दो तोले का, कोई पाँच तोले और कोई पाव भर का होता है। इसी प्रकार भिन्न २ कर्म दलों में परमाणुओं की संख्या का न्यूनाधिक होना प्रदेश बन्ध कहलाता है।

यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि जीव संख्यात असंख्यात और अनन्त परमाणुओं से बने हुए कार्माण स्कन्ध को ग्रहण नहीं करता परन्तु अनन्तानन्त परमाणु



वाले स्कन्ध को ग्रहण करता है ।

(ठाणांग ४, ३० २ सूत्र २६६)

(कर्मग्रन्थ भाग पहला गा० २)

प्रकृति बन्ध और प्रदेश बन्ध योग के निमित्त से होते हैं । स्थिति बन्ध तथा अनुभाग बन्ध कृपाय के निमित्त से बंधते हैं ।

२४६—उपक्रम की व्याख्या और भेदः—

उपक्रम का अर्थ आरम्भ है । वस्तु परिकर्म एवं वस्तु विनाश को भी उपक्रम कहा जाता है । उपक्रम के चार भेद हैं ।

(१) बन्धनोपक्रम । (२) उदीरणोपक्रम ।

(३) उपशमनोपक्रम । (४) विपरिणामनोपक्रम ।

(१) बन्धनोपक्रम—कर्म पुद्गल और जीव प्रदेशों के परस्पर सम्बन्ध होने को बन्धन कहते हैं । उसके आरम्भ को बन्धनोपक्रम कहते हैं अथवा खिखरी हुई अवस्था में रहे हुए कर्मों को आत्मा से सम्बन्धित अवस्था वाले कर देना बन्धनोपक्रम है ।

(२) उदीरणोपक्रम—विपाक अर्थात् फल देने का समय न होने पर भी कर्मों का फल भोगने के लिए प्रयत्न विशेष से उन्हें उदय अवस्था में प्रवेश कराना उदीरणा है । उदीरणा के प्रारम्भ को उदीरणोपक्रम कहते हैं ।

(३) उपशमनोपक्रम—कर्म, उदय, उदीरणा, निघत्त करण और निकाचना करण के अयोग्य हो जायें, इस प्रकार उन्हें स्थापन करना उपशमना है । इसका आरम्भ

उपशमनोपक्रम है । इसमें अपवर्त्तन, उद्वर्त्तन और संक्रमण ये तीन करण होते हैं ।

- (४) विपरिणामनोपक्रम—सत्ता, उदय, क्षय, क्षयोपशम, उद्वर्त्तना, अपवर्त्तना, आदि द्वारा कर्मों के परिणाम को बदल देना विपरिणामना है अथवा गिरिनदीपापाण की तरह स्वाभाविक रूप से या द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि से अथवा करण विशेष से कर्मों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना विपरिणामना है । इसका उपक्रम (आरम्भ) विपरिणामनोपक्रम है ।

( ठाणग ४ उ० २ सूत्र २६६ )

२५०—संक्रम ( संक्रमण ) की व्याख्या और उसके भेदः—

जीव जिस प्रकृति को बाध रहा है । उसी विपाक में वीर्य विशेष से दूसरी प्रकृति के दलिकों ( कर्म पृद्गलों ) को परिणत करना संक्रम कहलाता है ।

( ठाणग ४ उ० २ सूत्र २६६ )

जिस वीर्य विशेष से कर्म एक स्वरूप को छोड़ कर दूसरे सजातीय स्वरूप को प्राप्त करता है । उस वीर्य विशेष का नाम संक्रमण है । इसी तरह एक कर्म प्रकृति का दूसरी सजातीय कर्म प्रकृति रूप बन जाना भी संक्रमण है । जैसे-मति ज्ञानावरणीय का श्रुत ज्ञानावरणीय अथवा श्रुत ज्ञानावरणीय का मति ज्ञानावरणीय कर्म रूप में बदल जाना ये दोनों कर्म प्रकृतियाँ ज्ञानावरणीय कर्म के भेद होने से आपस में सजातीय हैं ।

( कर्म ग्रन्थ भाग २ गा १ की व्याख्या )

इसके चार भेद हैं:—

(१) प्रकृति संक्रम । (२) स्थिति संक्रम ।

(३) अनुभाग संक्रम । (४) प्रदेश संक्रम ।

( ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २६६ )

२५१—निधत्त की व्याख्या और भेद:—

उद्वर्त्तना और अपवर्त्तना करण के सिवाय विशेष करणों के अयोग्य कर्मों को रखना निधत्त कहा जाता है । निधत्त अवस्था में उदीरणा, संक्रमण वगैरह नहीं होते हैं । तपा कर निकाली हुई लोह शलाका के सम्बन्ध के समान पूर्ववद्ध कर्मों को परस्पर मिलाकर धारण करना निधत्त कहलाता है । इसके भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप से चार भेद होते हैं ।

( ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २६६ )

२५२—निकाचित की व्याख्या और भेद:—

जिन कर्मों का फल बन्ध के अनुसार निश्चय ही भोगा जाता है । जिन्हें बिना भोगे छुटकारा नहीं होता । वे निकाचित कर्म कहलाते हैं । निकाचित कर्म में कोई भी करण नहीं होता । तपा कर निकाली हुई लोह शलाकायें (सुइयें) घन से कूटने पर जिस तरह एक हो जाती हैं । उसी प्रकार इन कर्मों का भी आत्मा के साथ गाढ़ा सम्बन्ध हो जाता है । निकाचित कर्म के भी प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से चार भेद हैं ।

( ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २६६ )

२५३—कर्म की चार अवस्थाएं—

- (१) बन्ध । (२) उदय ।  
(३) उदीरणा । (४) सत्ता ।

- (१) बन्ध—मिथ्यात्व आदि के निमित्त से ज्ञानावरणीय आदि रूप में परिणत होकर कर्म पृद्गलों का आत्मा के साथ दूध पानी की तरह मिल जाना बन्ध कहलाता है ।  
(२) उदय—उदय काल अर्थात् फलदान का समय आने पर कर्मों के शुभाशुभ फल का देना उदय कहलाता है ।  
(३) उदीरणा—अबाधा काल व्यतीत हो चुकने पर भी जो कर्म-दलिक पीछे से उदय में आने वाले हैं । उनको प्रयत्न विशेष से खींच कर उदय प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उदीरणा है ।

बंधे हुए कर्मों से जितने समय तक आत्मा को अबाधा नहीं होती अर्थात् शुभाशुभ फल का वेदन नहीं होता, उतने समय को अबाधा काल समझना चाहिए ।

- (४) सत्ता—बंधे हुए कर्मों का अपने स्वरूप को न छोड़ कर आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता है ।

( कर्मग्रन्थ भाग २ गाथा १ व्याख्या )

२५४—अन्तक्रियाएं चार—

कर्म अथवा कर्म कारणक भव का अन्त करना अन्तक्रिया है । यों तो अन्तक्रिया एक ही स्वरूप वाली होती है । किन्तु सामग्री के भेद से चार प्रकार की बताई गई है ।

(१) प्रथम अन्तक्रिया—कोई जीव अल्प कर्म वाला हो कर मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ । उसने मुँडित होकर गृहस्थ से साधुपने की प्रव्रज्या ली । वह प्रचुर संयम, संवर और समाधि महित होता है । वह शरीर और मन से रूक्ष द्रव्य और भाव से स्नेह रहित संसार समुद्र के पार पहुँचने की इच्छा वाला, उपधान तप वाला, दुःख एवं उसके कारण भूत कर्मों का क्षय करने वाला, आभ्यन्तर तप अर्थात् शुभ ध्यान वाला होता है । वह श्री वर्धमान स्वामी की तरह वैसा घोर तप नहीं करता, न परिपह उपसर्ग जनित घोर वेदना सहता है । इस प्रकार का वह पुरुष दीर्घ दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध होता है । बुद्ध होता है । मुक्त होता है । निर्वाण को प्राप्त करता है एवं सभी दुःखों का अन्त करता है । जैसे भग्न महाराज । भरत महाराज लघु कर्म वाले होकर सर्वार्थसिद्ध विमान से चवे, वहाँ से चव कर मनुष्य भव में चक्रवर्ती रूप से उत्पन्न हुए । चक्रवर्ती अवस्था में ही केवल ज्ञान उत्पन्न कर उन्होंने एक लाख पूर्व की दीक्षा पाली एवं विना घोर तप किए और विना विशेष कष्ट सहन किये ही मोक्ष पधार गये ।

(२) दूसरी अन्तक्रिया—कोई पुरुष महा कर्म वाला होकर मनुष्य भव में उत्पन्न हुआ । वह दीक्षित होकर यावत् शुभध्यान वाला होता है । महा कर्म वाला होने से उन कर्मों का क्षय करने के लिए वह घोर तप करता है । इसी प्रकार घोर वेदना भी सहता है । उस प्रकार का वह पुरुष थोड़ी

ही दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध हो जाता है। यावत् सभी दुःखों का अन्त कर देता है। जैसे—गजमुकुमार ने भगवान् श्री अरिष्टनेमि के पास दीक्षा लेकर शमशान भूमि में कायोत्सर्ग रूप महोत्सव प्रारम्भ किया और सिर पर रखे हुए जाज्वल्यमान अङ्गारों से उत्पन्न अत्यन्त ताप वेदना को सहन कर अल्प दीक्षा पर्याय से ही सिद्ध हो गए।

(३)—तीसरी अन्तक्रिया—कोई पुरुष महा कर्म वाला होकर उत्पन्न होता है। वह दीक्षा लेकर यावत् शुभ ध्यान करने वाला होता है। महा कर्म वाला होने से वह घोर तप करता है, एवं घोर वेदना सहता है। इस प्रकार का वह पुरुष दीर्घ दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध, बुद्ध, यावत् मुक्त होता है। जैसे—सनत्कुमार चक्रवर्ती। सनत्कुमार चक्रवर्ती ने दीक्षा लेकर कर्म क्षय करने के लिए घोर तप किया एवं शरीर में पैदा हुए रोगादि की घोर वेदना सही और दीर्घ काल तक दीक्षा पर्याय पाली। कर्म अधिक होने से बहुत काल तक तपस्या करके मोक्ष प्राप्त किया।

(४) चौथी अन्त क्रिया—कोई पुरुष अल्प कर्म वाला होकर उत्पन्न होता है। वह दीक्षा लेकर यावत् शुभ ध्यान वाला होता है। वह पुरुष न घोर तप करता है न घोर वेदना सहता है। इस प्रकार वह पुरुष अल्प दीक्षा पर्याय पाल कर ही सिद्ध, बुद्ध यावत् मुक्त हो जाता है। जैसे—मरु देवी माता। मरु देवी माता के कर्म क्षीण प्रायः थे। अतएव बिना तप किए, बिना वेदना सहते, हाथी पर विराजमान ही सिद्ध होगई।

नोट:—उपरोक्त दृष्टान्त देश दृष्टान्त है। इस लिए सभी बातों में साधर्म्य नहीं है। जैसे—मरुदेवी माता मुंडित न हुई, इत्यादि। किन्तु भाव में समानता है।-

(ठायांग ४ उ० १ सूत्र २३५)

२५५—भाव दुःख शय्या के चार प्रकार:—

पलङ्ग विछौना वगैरह जैसे होने चाहिए, वैसे न हों, दुःखकारी हों, तो ये द्रव्य से दुःख शय्या रूप हैं। चित्त (मन) श्रमण स्वभाव वाला न होकर दुःश्रमणता वाला हो, तो वह भाव से दुःख शय्या है। भाव दुःख शय्या चार हैं।

(१) पहली दुःख शय्या:—किसी गुरु (भारी) कर्म वाले मनुष्य ने मुंडित होकर दीक्षा ली। दीक्षा लेने पर वह निर्ग्रन्थ प्रवचन में शङ्का, कांक्षा (पर मत अच्छा है। इस प्रकार की बुद्धि) विचिकित्सा (धर्म फल के प्रति सन्देह) करता है। जिन शासन में कहे हुए भाव वैसे ही हैं अथवा दूसरी तरह के हैं? इस प्रकार चित्त को डांवा डोल करता है। कलुष भाव अर्थात् विपरीत भाव को प्राप्त करता है। वह जिन प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि नहीं रखता। जिन प्रवचन में श्रद्धा प्रतीति न करता हुआ और रुचि न रखता हुआ मन को ऊंचा नीचा करता है। इस कारण वह धर्म में भ्रष्ट हो जाता है। इस प्रकार वह श्रमणता रूपी शय्या में दुःख से रहता है।

(२) दूसरी दुःख-शय्या:—कोई कर्मों से भारी मनुष्य प्रव्रज्या लेकर अपने लाभ से सन्तुष्ट नहीं होता। वह असन्तोषी बन कर दूसरे के लाभ में से, वह मुझे देगा, ऐसी इच्छा रखता

है। यदि वह देवे तो मैं भोगूँ, ऐसी इच्छा करता है। उसके लिए याचना करता है और अति अभिलाषा करता है। उसके मिल जाने पर और अधिक चाहता है। इस प्रकार दूसरे के लाभ में से आशा, इच्छा, याचना यावत् अभिलाषा करता हुआ वह मन को ऊँचा नीचा करता है। इस कारण वह धर्म से भ्रष्ट होजाता है। यह दूसरी दुःख शय्या है।

(३) तीसरी दुःख शय्या:—कोई कर्म बहुल प्राणी दीक्षित होकर देव तथा मनुष्य सम्बन्धी काम भोग पाने की आशा करता है। याचना यावत् अभिलाषा करता है। इस प्रकार करते हुए वह अपने मन को ऊँचा नीचा करता है और धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। यह तीसरी दुःख शय्या है।

(४) चौथी दुःख शय्या—कोई गुरु कर्मी जीव साधुपन लेकर सोचता है कि मैं जब गृहस्थ वास में था। उस समय तो मेरे शरीर पर मालिश होती थी। पीठी होती थी, तैलादि लगाए जाते थे और शरीर के अङ्ग उपाङ्ग धोये जाते थे अर्थात् मुझे स्नान कराया जाता था। लेकिन जब से साधु बना हूँ। तब से मुझे ये मर्दन आदि प्राप्त नहीं हैं। इस प्रकार वह उनकी आशा यावत् अभिलाषा करता है और मन को ऊँचा नीचा करता हुआ धर्म भ्रष्ट होता है। यह चौथी दुःख शय्या है। श्रमण को ये चारों दुःख शय्या छोड़ कर संयम में मन को स्थिर करना चाहिए।

(ठाण्णाग ४ ३० ३ सूत्र ३२५)

२५६—सुख शय्या चार:—

ऊपर बताई हुई दुःख शय्या से विपरीत सुख शय्या जाननी चाहिए। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं:—



- (१) जिन प्रवचन पर शंका, कांक्षा, विचिकित्सा न करता हुआ तथा चित्त को डांवा डोल और कलुषित न करता हुआ साधु निर्ग्रन्थ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि रखता है और मन को संयम में स्थिर रखता है। वह धर्म से भ्रष्ट नहीं होता अपितु धर्म पर और भी अधिक दृढ़ होता है। यह पहली सुख शय्या है।
- (२) जो साधु अपने लाभ से सन्तुष्ट रहता है और दूसरों के लाभ में से आशा, इच्छा, याचना और अभिलाषा नहीं करता। उस सन्तोषी साधु का मन संयम में स्थिर रहता है और वह धर्म भ्रष्ट नहीं होता। यह दूसरी सुख शय्या है।
- (३) जो साधु देवता और मनुष्य मन्वन्धी काम भोगों की आशा यावत् अभिलाषा नहीं करता। उसका मन संयम में स्थिर रहता है और वह धर्म से भ्रष्ट नहीं होता। यह तीसरी सुख शय्या है।
- (४) कोई साधु होकर यह सोचता है कि जब हृष्ट, नीरोग, बलवान् शरीर वाले अरिहन्त भगवान् आशंसा दोष रहित अतएव उदार, कल्याणकारी, दीर्घ कालीन, महा प्रभावशाली, कर्मों को क्षय करने वाले तप को संयम पूर्वक आदर भाव से अंगीकार करते हैं तो क्या मुझे केश लोच, ब्रह्मचर्य्य आदि में होने वाली आभ्युपगमिकी और ज्वर, अतिसार आदि रोगों से होने वाली औपक्रमिकी वेदना को शान्ति पूर्वक, दैन्यभाव न दर्शाते हुए, विना किसी पर कोप किए सम्यक् प्रकार से सम भाव पूर्वक न सहना

चाहिए ? इस वेदना को सम्यक् प्रकार न सहन कर मैं एकान्त पाप कर्म के सिवाय और क्या उपार्जन करता हूँ ? यदि मैं इसे सम्यक् प्रकार सहन कर लूँ, तो क्या मुझे एकान्त निर्जरा न होगी ? इस प्रकार विचार कर ब्रह्मचर्य्य व्रत के दूषण रूप मर्दन आदि की आशा, इच्छा का त्याग करना चाहिए एवं उनके अभाव में प्राप्त वेदना तथा अन्य प्रकार की वेदना को सम्यक् प्रकार सहना चाहिए । यह चौथी सुख शय्या है ।

( ठाणांग ४ उ० ३ सूत्र ३२५ )

२५७—चार स्थान से हास्य की उत्पत्ति:—

हास्य मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न हास्य रूप विकार अर्थात् हँसी की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है ।

(१) दर्शन से । (२) भाषण से ।

(३) श्रवण से । (४) स्मरण से ।

(१) दर्शन:—विदूषक, बहुरूपिये आदि की हँसी जनक चेष्टा देखकर हँसी आजाती है ।

(२) भाषण—हास्य उत्पादक वचन कहने से हँसी आती है ।

(३) श्रवण—हास्य जनक किसी का वचन सुनने से हँसी की उत्पत्ति होती है ।

(४) स्मरण—हँसी के योग्य कोई बात या चेष्टा को याद करने से हँसी उत्पन्न होती है ।

( ठाणांग ४ उ० १ सूत्र २६६ )

२५८—गुणलोप के चार स्थान:—

चार प्रकार से दूसरे के विद्यमान गुणों का लोप किया जाता है ।

- (१) क्रोध से ।
- (२) दूसरे की पूजा प्रतिष्ठा न सहन कर सकने के कारण, ईर्ष्या से ।
- (३) अकृतज्ञता से ।
- (४) विपरीत ज्ञान से ।

जीव दूसरे के विद्यमान् गुणों का अपलाप करता है ।

( ठाणग ४'३० ४ सूत्र ३७० )

२५६—गुण प्रकाश के चार स्थानः—

चार प्रकार से दूसरे के विद्यमान् गुण प्रकाशित किए जाते हैं ।

- (१) अभ्यास अर्थात् आग्रह वश, अथवा वर्णन किए जाने वाले पुरुष के समीप में रहने से ।
- (२) दूसरे के अभिप्राय के अनुकूल व्यवहार करने के लिए ।
- (३) इष्ट कार्य के प्रति दूसरे को अनुकूल करने के लिए ।
- (४) किये हुए गुण प्रकाश रूप उपकार व अन्य उपकार का बदला चुकाने के लिए ।

( ठाणग ४ ३० ४ सूत्र ३७० )

२६०—चार प्रकार का नरक का आहारः—

- (१) अङ्गारों के सदृश आहार—थोड़े काल तक दाह होने से ।
- (२) भोभर के सदृश आहार—अधिक काल तक दाह होने से ।
- (३) शीतल आहार—शीत वेदना उत्पन्न करने से ।
- (४) हिम शीतल आहार—अत्यन्त शीत वेदना जनक होने से ।

( ठाणग ४ ३० ४ सूत्र ३४० )

२६१—चार प्रकार का तिर्यञ्च का आहारः—

- (१) कंकोपम—जैसे कंक पक्षी को मुश्किल में हजम होने वाला आहार भी सुभक्ष होता है और मुख से हजम हो जाता है। इसी प्रकार तिर्यञ्च का सुभक्ष और सुखकारी परिणाम वाला आहार कंकोपम आहार है।
- (२) विलोपमः—जो आहार विल की तरह गले में बिना रस का स्वाद दिए शीघ्र ही उतर जाता है। वह विलोपम आहार है।
- (३) मातङ्ग मांसोपमः—अर्थात् जैसे चाण्डाल का मांस अस्पृश्य होने से घृणा के कारण बड़ी मुश्किल से खाया जाता है। वैसे ही जो आहार मुश्किल से खाया जा सके वह मातङ्ग मांसोपम आहार है।
- (४) पुत्र मांसोपम—जैसे स्नेह होने से पुत्र का मांस बहुत ही कठिनाई के साथ खाया जाता है। इसी प्रकार जो आहार बहुत ही मुश्किल से खाया जाय वह पुत्र मांसोपम आहार है।

( ठाणग ४ उ० ४ सूत्र ३४० )

२६२—चार प्रकार का मनुष्य का आहारः—

- |            |              |
|------------|--------------|
| (१) अशन।   | (२) पान।     |
| (३) खादिम। | (४) स्वादिम। |
- (१) दाल, रोटी, भात वगैरह आहार अशन कहलाता है।
- (२) पानी वगैरह आहार यानि पेय पदार्थ पान है।

(३) फल, मंत्रा वगैरह आहार खादिम कहलाता है ।

(४) पान, सुपारी, इलायची वगैरह आहार म्वादिम है ।

( ठाणांग ४ ३० ४ मूत्र ३४० )

२६३—देवता का चार प्रकार का आहारः—

( १ ) शुभ वर्ण ( २ ) शुभ गन्ध ( ३ ) शुभ रस ( ४ ) शुभ स्पर्श वाला देवता का आहार होता है ।

( ठाणांग ४ ३० ४ मूत्र ३४० )

२६४—चार भाण्ड (पण्य वस्तु)ः—

(१) गणिम—जिस चीज का गिनती से व्यापार होता है वह गणिम है । जैसे—नारियल वगैरह ।

(२) धरिम—जिस चीज का तराजु में तोल कर व्यवहार अर्थात् लेन देन होता है । जैसे—गेहूं, चाँवल, शकर वगैरह ।

(३) मेय—जिस चीज का व्यवहार या लेन देन पायली आदि से या हाथ, गज आदि से नाप कर होता है, वह मेय है । जैसे—कपड़ा वगैरह । जहाँ पर धान वगैरह पायली आदि ने माप कर लिए और दिए जाते हैं । वहाँ पर वे भी मेय हैं ।

(४) परिच्छेद्य—गुण की परीक्षा कर जिस चीज का मूल्य स्थिर किया जाता है और बाद में लेन देन होता है । उसे परिच्छेद्य कहते हैं । जैसे—जवाहरात ।

बढ़िया वस्त्र वगैरह जिनके गुण की परीक्षा प्रधान है, वे भी परिच्छेद्य गिने जाते हैं ।

( ज्ञाता सूत्र प्रथम श्रुत म्कन्ध अध्याय ८ मूत्र ६६ )

२६४—(क) आराधक विराधक की चौभङ्गी—

(१) एक पुरुष शीलवान् है किन्तु श्रुतवान् नहीं है, वह पाप से निवृत्त है किन्तु धर्म को नहीं जानता है, इसलिए वह पुरुष देशाराधक है । (२) एक पुरुष श्रुतवान् है किन्तु शीलवान् नहीं, वह धर्म को जानता है किन्तु पाप से निवृत्त नहीं है । इसलिए वह देशविराधक है । (३) एक पुरुष शीलवान् है और श्रुतवान् भी है वह पाप से निवृत्त है और धर्म को भी जानता है । इसलिए वह सर्व आराधक है । (४) एक पुरुष शीलवान् नहीं है और श्रुतवान् भी नहीं है, वह पुरुष पाप से निवृत्त नहीं है और धर्म को भी नहीं जानता है । इसलिए वह सर्व विराधक है ।

(भगवती शतक ८ उ० १०)

२६५—चार व्याधि—(१) वात की व्याधि (२) पित्त की व्याधि ।  
(३) कफ की व्याधि (४) सन्निपातज व्याधि ।

(ठाण्णाग ४ उ० ४ सूत्र ३४३ )

२६६—चार पुद्गल परिणामः—

पुद्गल का परिणाम अर्थात् एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना चार प्रकार से होता है ।

(१) वर्ण परिणाम । (२) गन्ध परिणाम ।

(३) रस परिणाम । (४) स्पर्श परिणाम । (ठा ४ उ. १ मू. २६५ )

२६७—चार प्रकार से लोक की व्यवस्था हैः—

(१) आकाश पर घनवात, तनुवात, रूपवात (वायु) रहा हुआ है ।

(२) वायु पर घनोदधि रहा हुआ है । (३) घनोदधि पर पृथ्वी रही

हुई है । (४) पृथ्वी पर त्रस और स्थावर प्राणी रहे हुए हैं ।

ठाण्णाग ४ उ० २ सूत्र २८६ )

२६८—चार कारणों से जीव और पुद्गल लोक के बाहर जाने में असमर्थ हैंः—(१) गति के अभाव से । (२) निरुपग्रह होने से ।

- (३) रूचता से । (४) लोक मर्यादा से ।
- (१) गति के अभाव से:—जीव और पुद्गल का लोक से बाहर जाने का स्वभाव नहीं है । जैसे—दीप शिखा स्वभाव से ही नीचे को नहीं जाती ।
- (२) निरुपग्रह होने से:—लोक के बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव है । जीव और पुद्गल के गमन में नष्टायक धर्मास्तिकाय का अभाव होने से ये लोक से बाहर नहीं जा सकते । जैसे—बिना गाड़ी के पङ्गु पुरुष नहीं जा सकता ।
- (३) रूचता से:—लोक के अन्त तक जाकर पुद्गल इस प्रकार से रुखे हो जाते हैं कि आगे जाने के लिए उनमें मामर्थ्य ही नहीं रहता । कर्म पुद्गलों के रुखे हो जाने पर जीव भी जैसे ही हो जाते हैं । अतः वे भी लोक के बाहर नहीं जा सकते । सिद्ध जीव तो धर्मास्तिकाय का आधार न होने से ही आगे नहीं जाते ।
- (४) लोक मर्यादा से:—लोक मर्यादा इसी प्रकार की है । जिससे जीव और पुद्गल लोक से बाहर नहीं जाते । जैसे—सूर्य मण्डल अपने मार्ग से दूसरी ओर नहीं जाता ।

( ठाण्णाग ४ ३० ३ सूत्र ३३५ )

२६६—भाषा के चार भेद:—

- (१) सत्य भाषा । (२) असत्य भाषा ।  
 (३) सत्यामृषा भाषा (मिश्र भाषा) ।  
 (४) असत्यामृषा भाषा (व्यवहार भाषा) ।

- (१) सत्य भाषा:—विद्यमान जीवादि पदार्थों का यथार्थ स्वरूप कहना सत्य भाषा है। अथवा सन्त अर्थात् मुनियों के लिए हितकारी निरवद्य भाषा सत्य भाषा कही जाती है।
- (२) असत्य भाषा:—जो पदार्थ जिस स्वरूप में नहीं हैं। उन्हें उस स्वरूप से कहना असत्य भाषा है। अथवा सन्तों के लिए अहितकारी सावद्य भाषा असत्य भाषा कही जाती है।
- (३) सत्यामृषा भाषा (मिश्र भाषा):—जो भाषा सत्य है और मृषा भी है। वह सत्यामृषा भाषा है।
- (४) असत्यामृषा भाषा (व्यवहार भाषा)—जो भाषा न सत्य है और न असत्य है। ऐसी आमन्त्रणा, आज्ञापना आदि की व्यवहार भाषा असत्यामृषा भाषा कही जाती है। असत्यामृषा भाषा का दूसरा नाम व्यवहार भाषा है।

(पन्नवणा भाषापद ११ सू० १६१)

२७०—असत्य वचन के चार प्रकार:—

जो वचन सन्त अर्थात् प्राणी, पदार्थ एवं मुनि के लिए हितकारी न हो, वह असत्य वचन है।

अथवा:—

प्राणियों के लिये पीड़ाकारी एवं घातक, पदार्थों का अयथार्थ स्वरूप बताने वाला और मुमुक्षु मुनियों के मोक्ष का घातक वचन असत्य वचन है।

असत्य वचन के चार भेद:—

- (१) सद्भाव प्रतिषेध। (२) असद्भावोद्भावन।  
(३) अर्थान्तर। (४) गर्हा।



- (१) सद्भाव प्रतिषेध—विद्यमान वस्तु का निषेध करना सद्भाव प्रतिषेध है। जैसे—यह कहना कि आत्मा, पुण्य, पाप आदि नहीं हैं।
- (२) असद्भावोद्भावन—अविद्यमान वस्तु का अस्तित्व बताना असद्भावोद्भावन है। जैसे—यह कहना कि आत्मा सर्व व्यापी है। ईश्वर, जगत् का कर्ता है। आदि।
- (३) अर्थान्तर—एक पदार्थ को दूसरा पदार्थ बताना अर्थान्तर है। जैसे—गाय को घोड़ा बताना।
- (४) गर्हा—दोष प्रकट कर किसी को पीड़ाकारी वचन कहना गर्हा (असत्य) है। जैसे—काणे को काणा कहना।

(दशवैकालिक सूत्र अध्ययन ४ दूसरे महाव्रत की टीका)

२७१—चतुष्पद तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के चार भेदः—

- (१) एक खुर। (२) द्विखुर।  
(३) गण्डी पद। (४) सनख पद।

- (१) एक खुर—जिसके पैर में एक खुर हो। वह एक खुर चतुष्पद है। जैसे—घोड़ा, गदहा वगैरह।
- (२) द्विखुर—जिसके पैर में दो खुर हों। वह द्विखुर चतुष्पद है। जैसे—गाय, भैंस वगैरह।
- (३) गण्डीपद—सुनार की एरण के समान चपटे पैर वाले चतुष्पद गण्डीपद कहलाते हैं। जैसे—हाथी, ऊँट वगैरह।
- (४) सनख पद—जिनके पैरों में नख हों। वे सनख चतुष्पद कहलाते हैं। जैसे—सिंह, कुत्ता वगैरह।

(ठाणांग ४ उ० ४ सूत्र ३५०)

२७२—पक्षी चारः—(१) चर्म पक्षी । (२) रोम पक्षी ।

(३) समुद्गक पक्षी । (४) वितत पक्षी ।

(१) चर्म पक्षीः—चर्ममय पङ्क वाले पक्षी चर्म पक्षी कहलाते हैं ।  
जैसे—चिमगादड़ वगैरह ।

(२) रोम पक्षीः—रोम मय पङ्क वाले पक्षी रोम पक्षी कहलाते हैं ।  
जैसे—हंस वगैरह ।

(३) समुद्गक पक्षीः—डिब्बे की तरह बन्द पङ्क वाले पक्षी  
समुद्गक पक्षी कहलाते हैं ।

(४) वितत पक्षीः—फँसे हुए पङ्क वाले पक्षी वितत पक्षी कहलाते  
हैं । समुद्गकपक्षी और विततपक्षी ये दोनों जाति के पक्षी  
अर्दाई द्वीप के बाहर ही होते हैं । ( ठा ४ उ० ४ सूत्र ३५० )

२७३—जम्बूद्वीप में मेरु पर्वत पर चार वन हैंः—

(१) भद्रशाल वन । (२) नन्दन वन ।

(३) सौमनस वन । (४) पाण्डक वन ।

ये चारों वन बड़े ही मनोहर एवं रमणीय हैं । ( ठा ४ उ० २ सू० ३०२ )

२७३—(क) चार कषाय का फलः—

(१) क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है । (२) मान से अधम-  
गति प्राप्त होती है । (३) माया से सद्गति का नाश होता  
है । (४) लोभ से इसलोक तथा परलोक में भय प्राप्त  
होता है । ( उत्तराध्ययन अध्ययन ६ गा० ५४ )

२७३—(ख) समाधि के चार भेदः—

(१) विनय समाधि । (२) श्रुत समाधि ।

(३) तप समाधि । (४) आचार समाधि ।

इन प्रत्येक के फिर चार २ भेद हैं । ( दश० अध्य० ६ उ० ४ )

## पाँचवाँ बोल

( बोल सख्या २७४ से ४२३ तक )

२७४—पञ्च परमेष्ठीः—

परम ( उत्कृष्ट ) स्वरूप अर्थात् आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित आत्मा परमेष्ठी कहलाता है । परमेष्ठी पांच हैंः—

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (१) अरिहन्त ।  | (२) सिद्ध ।    |
| (३) आचार्य्य । | (४) उपाध्याय । |
| (५) साधु ।     |                |

(१) अरिहन्त—ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय रूप चार सर्व घाती कर्म शत्रुओं का नाश करने वाले महा पुरुष अरिहन्त कहलाते हैं ।

घाती कर्म शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष वंदना, नमस्कार, पूजा और सत्कार के योग्य होते हैं तथा सिद्धगति के योग्य होते हैं । इस लिये भी वे अरिहन्त कहलाते हैं ।

(२) सिद्ध—आठ कर्म नष्ट हो जाने से कृत कृत्य हुए, लोकाग्रस्थित सिद्ध गति में चिराजने वाले मुक्तात्मा सिद्ध कहलाते हैं ।

(३) आचार्य्य—पञ्च प्रकार के आचार का स्वयं पालन करने वाले एवं अन्य साधुओं से पालन कराने वाले गच्छ के नायक आचार्य्य कहलाते हैं ।

(४) उपाध्याय—शास्त्रों को स्वयं पढ़ने एवं दूसरों को पढ़ाने वाले मुनिराज उपाध्याय कहलाते हैं ।

(५) साधु—सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन एवं सम्यक्चारित्र द्वारा मोक्ष की साधना करने वाले मुनिराज साधु कहलाते हैं ।

( भगवती, मंगलाचरण )

२७५—पञ्च कल्याणकः—

तीर्थङ्कर भगवान् के नियमपूर्वक पांच महाकल्याणक होते हैं । वे दिन तीनों लोकों में आनन्ददायी तथा जीवों के मोक्ष रूप कल्याण के साधक हैं । पञ्च कल्याणक के अवसर पर देवेन्द्र आदि भक्ति भाव पूर्वक कल्याणकारी उत्सव मनाते हैं । पञ्च कल्याणक ये हैं—

(१) गर्भ कल्याणक ( ज्यवन कल्याणक ) ।

(२) जन्म कल्याणक (३) दीक्षा (निष्क्रमण) कल्याणक ।

(४) केवलज्ञान कल्याणक । (५) निर्वाण कल्याणक ।

( पञ्चाशक गा० ३०-३१ ) ( दशा श्रुत स्कन्ध दशा ८ )

नोटः—गर्भ कल्याणक के अवसर पर देवेन्द्र आदि के उत्सव का वर्णन नहीं पाया जाता है । भगवान् श्री महावीर स्वामी के गर्भापहरण को भी कोई २ आचार्य्य कल्याणक मानते हैं । गर्भापहरण कल्याणक की अपेक्षा भगवान् श्री महावीर स्वामी के छः कल्याणक कहलाते हैं ।

२७६—पांच अस्तिकायः—

‘अस्ति’ शब्द का अर्थ प्रदेश है और काय का अर्थ है ‘राशि’ । प्रदेशों की राशि वाले द्रव्यों को अस्तिकाय कहते हैं ।

अस्तिकाय पांच हैंः—

(१) धर्मास्तिकाय ।

(२) अधर्मास्तिकाय ।

(३) आकाशास्तिकाय । (४) जीवास्तिकाय ।

(५) पुद्गलास्तिकाय ।

(१) धर्मास्तिकायः—गति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों की गति में जो सहायक हो उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं । जैसे—पानी, मछली की गति में सहायक होता है ।

(२) अधर्मास्तिकायः—स्थिति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों की स्थिति में जो सहायक ( सहकारी ) हो, उसे अधर्मास्तिकाय कहते हैं । जैसे—विश्राम चाहने वाले थके हुए पथिक के ठहरने में छायादार वृक्ष सहायक होता है ।

(३) आकाशास्तिकायः—जो जीवादि द्रव्यों को रहने के लिए अवकाश दे । वह आकाशास्तिकाय है ।

(४) जीवास्तिकायः—जिसमें उपयोग और वीर्य दोनों पाये जाते हैं । उसे जीवास्तिकाय कहते हैं ।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २८ गाथा ७ से १२ )

(५) पुद्गलास्तिकायः—जिस में वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श हों और जो इन्द्रियों से ग्राह्य हो तथा विनाश धर्म वाला हो । वह पुद्गलास्तिकाय है ।

( ठाणांग ५ ८० ३ सूत्र ४४१ )

२७७—अस्तिकाय के पाँच पाँच भेदः—

प्रत्येक अस्तिकाय के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की अपेक्षा से पाँच पाँच भेद हैं ।

धर्मास्तिकाय के पाँच प्रकार—

(१) द्रव्य की अपेक्षा धर्मास्तिकाय एक द्रव्य है ।

(२) क्षेत्र की अपेक्षा धर्मास्तिकाय लोक परिमाण अर्थात् सर्व-लोकव्यापी है यानि लोकाकाश की तरह असंख्यात

प्रदेशी है ।

- (३) काल की अपेक्षा धर्मास्तिकाय त्रिकाल स्थायी है। यह भूत काल में रहा है। वर्तमान काल में विद्यमान है और भविष्यत् काल में भी रहेगा। यह ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है, अक्षय एवं अव्यय है तथा अवस्थित है।
- (४) भाव की अपेक्षा धर्मास्तिकाय वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श रहित है। अरूपी है तथा चेतना रहित अर्थात् जड़ है।
- (५) गुण की अपेक्षा गति गुण वाला है अर्थात् गति परिणाम वाले जीव और पुद्गलों की गति में सहकारी होना इसका गुण है।

( ठाणांग ५ उ० ३ सूत्र ४४१ )

अधर्मास्तिकाय के पाँच प्रकार—

अधर्मास्तिकाय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा धर्मास्तिकाय जैसा ही है।

गुण की अपेक्षा अधर्मास्तिकाय स्थिति गुण वाला है।

आकाशास्तिकाय के पाँच प्रकारः—

आकाशास्तिकाय द्रव्य, काल और भाव की अपेक्षा धर्मास्तिकाय जैसा ही है।

क्षेत्र की अपेक्षा आकाशास्तिकाय लोकालोक व्यापी है और अनन्त प्रदेशी है। लोकाकाश धर्मास्तिकाय की तरह असंख्यात प्रदेशी है।

गुण की अपेक्षा आकाशास्तिकाय अवगाहना गुण वाला है अर्थात् जीव और पुद्गलों को अवकाश देना ही इसका गुण है।

जीवास्तिकाय के पाँच प्रकार—

- १—द्रव्य की अपेक्षा जीवास्तिकाय अनन्त द्रव्य न्य है क्योंकि पृथक् पृथक् द्रव्य रूप जीव अनन्त हैं ।
- २—क्षेत्र की अपेक्षा जीवास्तिकाय लोक परिमाण है । एक जीव की अपेक्षा जीव असंख्यात प्रदेशी हैं और सब जीवों के प्रदेश अनन्त हैं ।
- ३—काल की अपेक्षा जीवास्तिकाय आदि अन्त रहित है अर्थात् ध्रुव, शाश्वत और नित्य है ।
- ४—भाव की अपेक्षा जीवास्तिकाय वर्ण, गन्ध, रस और च्यञ्च रहित है । अरूपी तथा चेतना गुण वाला है ।
- ५—गुण की अपेक्षा जीवास्तिकाय उपयोग गुण वाला है ।

पुद्गलास्तिकाय के पाँच प्रकारः—

- (१) द्रव्य की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय अनन्त द्रव्य रूप है ।
- (२) क्षेत्र की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय लोक परिमाण है और अनन्त प्रदेशी है ।
- (३) काल की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय आदि अन्त रहित अर्थात् ध्रुव, शाश्वत और नित्य है ।
- (४) भाव की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय वर्ण, गन्ध, रस और च्यञ्च सहित है । यह रूपी और जड़ है ।
- (५) गुण की अपेक्षा पुद्गलास्तिकाय का ग्रहण गुण है अर्थात् औदारिक शरीर आदि रूप से ग्रहण किया जाना या इन्द्रियों से ग्रहण होना अर्थात् इन्द्रियों का विषय होना

आ परस्पर एक दूसरे से मिल जाना पुद्गलास्तिकाय का गुण है ।

(ठाण्ण ५ उ० ३ सूत्र ४४१)

२७८—गति पाँचः—

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| (१) नरक गति ।    | (२) तिर्यञ्च गति । |
| (३) मनुष्य गति । | (४) देव गति ।      |
| (५) सिद्ध गति ।  |                    |

नोटः—गति नाम कर्म के उदय से पहले की चार गतियाँ होती हैं । सिद्ध गति, गति नाम कर्म के उदय से नहीं होती, क्योंकि सिद्धों के कर्मों का सर्वथा अभाव है । यहाँ गति शब्द का अर्थ जहाँ जीव जाते हैं ऐसे क्षेत्र विशेष से है । चार गतियों की व्याख्या १३१ वें बोल में दे दी गई है ।

(ठाण्ण ५ उ० ३ सूत्र ४४२)

२७९—मोक्ष प्राप्ति के पाँच कारण—

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (१) काल ।               | (२) स्वभाव ।            |
| (३) नियति ।             | (४) पूर्वकृत कर्मक्षय । |
| (५) पुरुषकार (उद्योग) । |                         |

इन पाँच कारणों के समुदाय से मोक्ष की प्राप्ति होती है । इन में से एक के भी न होने पर मोक्ष की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है ।

बिना काल लब्धि के मोक्ष रूप कार्य की सिद्धि नहीं होती है । मन्व्य जीव काल (समय) पाकर ही मोक्ष प्राप्त करते हैं । इस लिए मोक्ष प्राप्ति में काल की आवश्यकता है ।



यदि काल को ही कारण मान लिया जाय तो अभव्य भी मुक्त हो जाय । पर अभव्यों में मोक्ष प्राप्ति का स्वभाव नहीं है । इस लिए वे मोक्ष नहीं पा सकते । भव्यों के मोक्ष प्राप्ति का स्वभाव होने में ही वे मोक्ष पाते हैं ।

यदि काल और स्वभाव दोनों ही कारण माने जाय तो सब भव्य एक साथ मुक्त हो जाय । परन्तु नियति अर्थात् भवितव्यता (होनहार) का योग न होने में ही सभी भव्य एक साथ मुक्त नहीं होते । जिन्हें काल और स्वभाव के साथ नियति का योग प्राप्त होता है । वे ही मुक्त होते हैं ।

काल, स्वभाव और नियति इन तीनों को ही मोक्ष प्राप्ति के कारण मान लें तो श्रेणिक राजा मोक्ष प्राप्त कर लेते । परन्तु उन्होंने मोक्ष के अनुकूल उद्योग कर पूर्वकृत कर्मों का क्षय नहीं किया । इस लिए वे उक्त तीन कारणों का योग प्राप्त होने पर भी मुक्त न हो सके । इस लिए पुण्यार्थ और पूर्वकृत कर्मों का क्षय—ये दोनों भी मोक्ष प्राप्ति के कारण माने गये हैं ।

काल, स्वभाव, नियति और पुण्यार्थ से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता तो शालिभद्र मुक्त हो जाते । परन्तु पूर्वकृत शुभ कर्म अवशिष्ट रह जाने से वे मुक्त न हो सके । इस लिए पूर्वकृत कर्म-क्षय भी मोक्ष प्राप्ति में पाँचवाँ कारण है ।

मरुदेवी माता बिना पुरुषार्थ किये मुक्त हुईं हों यह बात नहीं है। वे भी क्षपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर शुक्ल ध्यान रूप अन्तरङ्ग पुरुषार्थ करके ही मुक्त हुई थीं।

इस प्रकार उक्त पांच कारणों के समवाय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है।

( सन्मति प्र० तृ० काण्ड भाग ५ गा० ५३ पृष्ठ ७१० )

( आगम सार, कारण संवाद )

२८०—पांच निर्याण मार्ग—

मरण समय में जीव के निकलने का मार्ग निर्याण मार्ग कहलाता है।

निर्याण-मार्ग पांच हैं:—

(१) दोनों पैर । (२) दोनों जानु ।

(३) छाती । (४) मस्तक ।

(५) सर्व अङ्ग ।

जो जीव दोनों पैरों से निकलता है। वह नरकगामी होता है। दोनों जानुओं से निकलने वाला जीव तिर्यञ्च गति में जाता है।

छाती से निकलने वाला जीव मनुष्य गति में जाता है। मस्तक से निकलने वाला जीव देवों में जाकर पैदा-होता है। जो जीव सभी अङ्गों से निकलता है। वह जीव सिद्ध गति में जाता है।

( ढाण्डांग ५ उ० ३ सूत्र ४६१ )

२८१—जाति की व्याख्या और भेद:—

अनेक व्यक्तियों में एकता की प्रतीति कराने वाले

समान धर्म को जाति कहते हैं। जैसे-गोन्व (गायपना) सभी भिन्न २ वर्ण की गौओं में एकता का बोध कराता है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय जाति एक इन्द्रिय (स्पर्श इन्द्रिय) वाले, दो इन्द्रिय (स्पर्श और रसना) वाले जीवों में एकता का ज्ञान कराती है। इस लिए एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि जीव के भेद भी जाति कहलाते हैं।

जिस कर्म के उदय से जीव एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय आदि कहे जाँय उस नाम कर्म को जाति कहते हैं।

जाति के पाँच भेदः—<sup>५</sup>

- ( १ ) एकेन्द्रिय ( २ ) द्वीन्द्रिय ( ३ ) त्रीन्द्रिय ।  
( ४ ) चतुरिन्द्रिय ( ५ ) पञ्चेन्द्रिय ।

१—एकेन्द्रियः— जिन जीवों के केवल स्पर्शन नामक एक ही इन्द्रिय होती है। वे एकेन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे—पृथ्वी, पानी वगैरह।

२—द्वीन्द्रियः—( वे इन्द्रिय ) जिन जीवों के स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रियां होती हैं। वे द्वीन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे—लट, सीप, अलसिया वगैरह।

३—त्रीन्द्रिय—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना और नासिका ये तीन इन्द्रियां हों। वे त्रीन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे—चींटी, मकोड़ा वगैरह।

४—चतुरिन्द्रियः— जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, नासिका और चक्षु ये चार इन्द्रियां होती हैं। वे चतुरिन्द्रिय कहलाते हैं। जैसे—मक्खी, मच्छर, भँवरा वगैरह।

५—पञ्चेन्द्रियः—जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, नासिका, चक्षु

और श्रोत्र ये पाँचों ही इन्द्रियाँ हैं, वे पञ्चेन्द्रिय हैं। जैसे—मच्छ, मगर, गाय, भैंस, सर्प, पक्षी, मनुष्य वगैरह। एकेन्द्रिय जीव की उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक १००० योजन है। द्वीन्द्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना बारह योजन है। त्रीन्द्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना तीन कोस है। चतुरिन्द्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना चार कोस है। पञ्चेन्द्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना १००० योजन है।

( पन्नवणा पद २३ उद्देशा २ सू० २६३ )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार १८७ भाग २ गाथा १०६६ से ११०४ )

२८२—समकित के पाँच भेद—

- (१) उपशम समकित । (२) सास्वादन समकित ।  
 (३) क्षायोपशमिक समकित । (४) वेदक समकित ।  
 (५) क्षायिक समकित ।

- (१) उपशम समकित—अनन्तानुबन्धी चार कषाय और दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियाँ—इन सात प्रकृतियों के उपशम से प्रगट होने वाला तत्त्व रुचि रूप आत्म-परिणाम उपशम समकित कहलाता है। इसकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त्त है। इसका अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त उत्कृष्ट देशोन अर्द्ध पुद्गल परावर्तन काल का। यह समकित जीव को एक भव में जघन्य एक बार उत्कृष्ट दो बार तथा अनेक भवों में जघन्य एक बार और उत्कृष्ट पाँच बार प्राप्त हो सकती है।
- (२) सास्वादन समकित—उपशम समकित से गिर कर मिथ्यात्व की ओर आते हुए जीव के, मिथ्यात्व में पहुँचने से पहले जो परिणाम रहते हैं। वही सास्वादन समकित है। इसकी

स्थिति- जघन्य एक समय उत्कृष्ट छः आवर्तिका की होती है। सास्वादन समकित में अनन्तानुबन्धी कपायों का उदय रहने से जीव के परिणाम निर्मल नहीं रहते। इस में तत्त्वों में अरुचि अव्यक्त (अप्रगट) रहती है और मिथ्यात्व में व्यक्त (प्रगट)। यही दोनों में अन्तर है। सास्वादन समकित का अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट देशोन अर्द्ध पुद्गल परावर्तन काल का। यह समकित भी एक भव में जघन्य एक बार उत्कृष्ट दो बार तथा अनेक भवों में जघन्य एक बार उत्कृष्ट पांच बार प्राप्त हो सकती है।

(३) चायोपशमिक समकित—अनन्तानुबन्धी कपाय तथा उदय प्राप्त मिथ्यात्व को क्षय करके अनुदय प्राप्त मिथ्यात्व का उपशम करते हुए या उसे सम्यक्त्व रूप में परिणत करते हुए तथा सम्यक्त्व मोहनीय को वेदते हुए जीव के परिणाम विशेष को चायोपशमिक समकित कहते हैं। चायोपशमिक समकित की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त और उत्कृष्ट ६६ सागरोपम से कुछ अधिक है। इसका अन्तर पड़े तो जघन्य अन्तर्मुहूर्त्त का उत्कृष्ट देशोन अर्द्ध पुद्गल परावर्तन काल का। यह समकित एक भव में जघन्य एक बार उत्कृष्ट प्रत्येक हजार बार और अनेक भवों में जघन्य दो बार उत्कृष्ट असंख्यात बार होती है।

(४) वेदक समकित—चायोपशमिक समकित वाला जीव सम्यक्त्व-मोहनीय के पुञ्ज का अधिकांश क्षय करके जब सम्यक्त्व मोहनीय के आखिरी पुद्गलों को वेदता है। उस समय होने

वाले आत्म परिणाम को वेदक समकित कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि क्षायिक समकित होने से ठीक अव्यवहित पहले क्षण में होने वाले क्षायोपशमिक समकितधारी जीव के परिणाम को वेदक समकित कहते हैं। वेदक समकित की स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट एक समय की है। एक समय के बाद वेदक समकित क्षायिक समकित में परिणत हो जाता है। इसका अन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि वेदक समकित के बाद निश्चय पूर्वक क्षायिक समकित होता ही है। वेदक समकित जीव को एक बार ही आता है।

- (५) क्षायिक समकित—अनन्तानुबन्धी चार कषाय और दर्शन मोहनीय की तीन-इन सात प्रकृतियों के क्षय से होने वाला आत्मा का तत्त्वरुचि रूप परिणाम क्षायिक समकित कहलाता है। क्षायिक समकित सादि अनन्त है। इसका अन्तर नहीं पड़ता। यह समकित जीव को एक ही बार आता है और आने के बाद सदा बना रहता है।

( कर्म ग्रन्थ भाग १ गाथा १५ )

२८३—समकित के पाँच लक्षणः—

- |                |                |
|----------------|----------------|
| (१) शम ।       | (२) संवेद ।    |
| (३) निर्वेद ।  | (४) अनुकम्पा । |
| (५) आस्तिक्य । |                |

- (१) शम—अनन्तानुबन्धी कषाय का उदय न होना शम कहलाता है। कषाय के अभाव से होने वाला शान्ति-भाव भी शम कहा जाता है।

(२) संवेग—मनुष्य एवं देवता के सुखों का परिहार ( विषयों से निवृत्ति) करके मोक्ष के सुखों की इच्छा करना संवेग है।

अथवा:—

विरति परिणाम के कारण रूप मोक्ष की अभिलाषा का अध्ववसाय संवेग है।

(३) निर्वेद—संसार से उदासीनता रूप वैराग्य भाव का होना निर्वेद कहलाता है।

(४) अनुकम्पा—निष्पन्नपात होकर दुःखी जीवों के दुःखों को मिटाने की इच्छा अनुकम्पा है। यह अनुकम्पा द्रव्य और भाव से दो प्रकार की है।

शक्ति होने पर दुःखी जीवों के दुःख दूर करना द्रव्य अनुकम्पा है। दुःखी जीवों के दुःख देख कर दया से हृदय का कोमल हो जाना भाव अनुकम्पा है।

(५) आस्तिक्य—जिनेन्द्र भगवान् के फरमाये हुए अतीन्द्रिय धर्मास्तिकाय, आत्मा, परलोक आदि पर श्रद्धा रखना आस्तिक्य है।

( धर्म संप्रह अधिकार २ श्लोक २० पृष्ठ १३ )

२८४—समकित के पांच भूषणः—

(१) जिन-शासन में निपुण होना।

(२) जिन-शासन की प्रभावना करना यानि जिन-शासन के गुणों को दिखाना। जिन-शासन की महत्ता प्रगट हो ऐसे कार्य करना।

(३) चार तीर्थ की सेवा करना।

(४) शिथिल पुरुषों को उपदेशादि द्वारा धर्म में स्थिर करना ।

(५) अरिहन्त, साधु तथा गुणवान पुरुषों का आदर, सत्कार करना और उनकी विनय भक्ति करना

( धर्म संग्रह अधि० २ श्लोक २२ टी० पृ० ४३ )

२८५—समकित के पांच अतिचारः—

(१) शङ्का ।

(२) काँचा ।

(३) विचिकित्सा ।

(४) पर पाषंडी प्रशंसा ।

(५) पर पाषंडी संस्तव ।

(१) शङ्काः—बुद्धि के मन्द होने से अरिहन्त भगवान् से निरूपित धर्मास्तिकाय आदि गहन पदार्थों की सम्यक् धारणा न होने पर उन में सन्देह करना शङ्का है ।

(२) काँचाः—बौद्ध आदि दर्शनों की चाह करना काँचा है ।

(३) विचिकित्साः—युक्ति तथा आगम संगत क्रिया विषय में फल के प्रति संदेह करना विचिकित्सा है । जैसे—नीरस तप आदि क्रिया का भविष्य में फल होगा या नहीं ?

शङ्का-तत्त्व के विषय में होती है और विचिकित्सा क्रिया के फल के विषय में होती है । यही दोनों में अन्तर है ।

(४) पर पाषंडी प्रशंसाः—सर्वज्ञ प्रणीत मत के सिवाय अन्य मत वालों की प्रशंसा करना, पर पाषंडी प्रशंसा है ।

(५) पर पाषंडी संस्तवः—सर्वज्ञ प्रणीत मत के सिवाय अन्य मत वालों के साथ संवास, भोजन, आलाप, संलाप आदि रूप



परिचय करना पर पापंडी संस्तव कहलाता है ।

( उपासक दशांग सूत्र अध्याय १ सूत्र ४ )

( हरिमट्टीय आवश्यक अ० ६ पृ० ८१० )

२८६—दुर्लभ बोधि के पांच कारणः—

पांच स्थानों से जीव दुर्लभ बोधि योग्य मोहनीय कर्म बाँधता है ।

- (१) अरिहन्त भगवान् का अवर्णवाद बोलने से ।
- (२) अरिहन्त भगवान् द्वारा प्ररूपित श्रुत चारित्र रूप धर्म का अवर्णवाद बोलने से ।
- (३) आचार्य्य उपाध्याय का अवर्णवाद बोलने से ।
- (४) चतुर्विध श्री संघ का अवर्णवाद बोलने से ।
- (५) भवान्तर में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किये हुए देवों का अवर्णवाद बोलने से ।

( ठाणांग ५ उ० २ सूत्र ४२६ )

२८७—मुल्लम बोधि के पांच बोलः—

- (१) अरिहन्त भगवान् के गुणग्राम करने से ।
- (२) अरिहन्त भगवान् से प्ररूपित श्रुत चारित्र धर्म का गुणानुवाद करने से ।
- (३) आचार्य्य उपाध्याय के गुणानुवाद करने से ।
- (४) चतुर्विध श्री संघ की श्लाघा एवं वर्णवाद (गुणानुवाद) करने से ।
- (५) भवान्तर में उत्कृष्ट तप और ब्रह्मचर्य का सेवन किये हुए देवों का वर्णवाद, श्लाघा करने से जीव मुल्लम बोधि के अनुरूप कर्म बाँधते हैं ।

( ठाणांग ५ उ० २ सूत्र ४२६ )

२८८—मिथ्यात्व पाँचः—

मिथ्यात्व मोहनीय के उदय से विपरीत श्रद्धान रूप जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं ।

मिथ्यात्व के पाँच भेदः—

- (१) आभिग्रहिक ।                      (२) अनाभिग्रहिक ।  
 (३) आभिनिवेशिक ।                (४) सांशयिक ।  
 (५) अनाभोगिक ।

- (१) आभिग्रहिक मिथ्यात्वः—तत्त्व की परीक्षा किये बिना ही पक्षपात पूर्वक एक सिद्धान्त का आग्रह करना और अन्य पक्ष का खण्डन करना आभिग्रहिक मिथ्यात्व है ।  
 (२) अनाभिग्रहिक मिथ्यात्वः—गुण दोष की परीक्षा किये बिना ही सब पक्षों को बराबर समझना अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है ।  
 (३) आभिनिवेशिक मिथ्यात्वः—अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी स्थापना के लिए दुरभिनिवेश (दुराग्रह-हठ) करना आभिनिवेशिक मिथ्यात्व है ।  
 (४) सांशयिक मिथ्यात्वः—इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप का ? इसी तरह गुरु और धर्म के विषय में संदेह शील बने रहना सांशयिक मिथ्यात्व है ।  
 (५) अनाभोगिक मिथ्यात्वः—विचार शून्य एकेन्द्रियादि तथा विशेष ज्ञान विकल जीवों को जो मिथ्यात्व होता है । वह अनाभोगिक मिथ्यात्व कहा जाता है ।

( धर्मसंग्रह अधिकार २ श्लोक २२ टी० पृ० ३६ )  
 (कर्म ग्रन्थ भाग ४ गा० ५१)

२८६—पाँच आश्रवः—

जिन से आत्मा में आठ प्रकार के कर्मों का प्रवेश होता है। वह आश्रव है।

अथवाः—

जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी पानी का आना आश्रव है।

अथवाः—

जैसे—जल में रही हुई नौका (नाव) में छिद्रों द्वारा जल प्रवेश होता है। इसी प्रकार जीवों की पाँच इन्द्रिय, विषय, कषायादि रूप छिद्रों द्वारा कर्म रूपी पानी का प्रवेश होता है। नाव में छिद्रों द्वारा पानी का प्रवेश होना द्रव्य आश्रव है और जीव में विषय कषायादि से कर्मों का प्रवेश होना भावाश्रव कहा जाता है।

आश्रव के पाँच भेदः—

(१) मिथ्यात्व । (२) अविरति ।

(३) प्रमाद । (४) कषाय ।

(५) (योग) ।

(१) मिथ्यात्वः—मोहवश तत्त्वार्थ में श्रद्धा न होना या विपरीत श्रद्धा होना मिथ्यात्व कहा जाता है।

(२) अविरतिः—प्राणातिपात आदि पाप से निवृत्त न होना अविरति है।

(३) प्रमादः—शुभ उपयोग के अभाव को या शुभ कार्य में यत्न, उद्यम न करने को प्रमाद कहते हैं।

अथवा:—

जिससे जीवसम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यग्चारित्र्य रूप मोक्ष मार्ग के प्रति उद्यम करने में शिथिलता करता है। वह प्रमाद है।

- (४) कषायः—जो शुद्ध स्वरूप वाली आत्मा को क्लृपित करते हैं। अर्थात् कर्म मल से मलीन करते हैं। वे कषाय हैं।

अथवा:—

कषय अर्थात् कर्म या संसार की प्राप्ति या वृद्धि जिस से हो, वह कषाय है।

अथवा:—

कषाय मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जीव का क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणाम कषाय कहलाता है।

- (५) \* योगः—मन, वचन, काया की शुभाशुभ प्रवृत्ति को योग कहते हैं।

श्रोत्रेन्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय—इन पांच इन्द्रियों को वश में न रख कर शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श विषयों में इन्हें स्वतन्त्र रखने से भी पांच आश्रव होते हैं।

प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह—ये पांच भी आश्रव हैं।

( ठाण्णांग ५ उ० २ सूत्र ४१८ )

( समवायांग ५ )

२६०—दण्ड की व्याख्या और भेदः—

\* व्यवहार में शुभ योग को सवर ही माना है। ( प्रश्न व्याकरण )

जिससे आत्मा व अन्य प्राणी दंडित हो अर्थात् उनकी हिंसा हो इस प्रकार की मन, वचन, काया की कलुषित प्रवृत्ति को दण्ड कहते हैं—

दण्ड के पांच भेद—

- (१) अर्थ दण्ड । (२) अनर्थ दण्ड ।  
 (३) हिंसा दण्ड । (४) अकस्मादण्ड ।  
 (५) दृष्टि विपर्यास दण्ड ।

- (१) अर्थ दण्ड—स्व, पर या उभय के प्रयोजन के लिये त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करना अर्थ दण्ड है ।  
 (२) अनर्थ दण्ड—अनर्थ अर्थात् विना प्रयोजन के त्रस स्थावर जीवों की हिंसा करना अनर्थ दण्ड है ।  
 (३) हिंसा दण्ड—इन प्राणियों ने भूतकाल में हिंसा की है । वर्तमान काल में हिंसा करते हैं और भविष्य काल में भी करेंगे, यह सोच कर सर्प, बिच्छू, शेर आदि जहरीले तथा हिंसक प्राणियों का और वैरी का वध करना हिंसा दण्ड है ।  
 (४) अकस्मादण्ड—एक प्राणी के वध के लिए प्रहार करने पर दूसरे प्राणी का अकस्मात्-विना इरादे के वध हो जाना अकस्मादण्ड है ।  
 (५) दृष्टि विपर्यास दण्ड—मित्र को वैरी समझ कर उसका वध कर देना दृष्टि विपर्यास दण्ड है ।

(ठायांग ५ उ० २ सूत्र ४१८)

२६१—प्रमाद पांचः—

(१) मद्य ।

(२) विषय ।

(३) कषाय ।

(४) निद्रा ।

(५) विकथा ।

मज्जं विसय कसाया, निहा विगहा य पञ्चमी भणिया ।

ए ए पञ्च पमाया, जीवं पाडेन्ति संसारे ॥ १ ॥

भावार्थः—मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा ये पांच प्रमाद जीव को संसार में गिराते हैं ।

(१) मद्यः—शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन करना मद्य प्रमाद है । इससे शुभ परिणाम नष्ट होते हैं और अशुभ परिणाम पैदा होते हैं । शराब में जीवों की उत्पत्ति होने से जीव हिंसा का भी महापाप लगता है । लज्जा, लक्ष्मी, बुद्धि, चित्त आदि का नाश तथा जीव हिंसा आदि मद्यपान के दोष प्रत्यक्ष ही दिखाई देते हैं तथा परलोक में यह प्रमाद दुर्गति में ले जाने वाला है । एक ग्रन्थकार ने मद्यपान के दोष निम्न श्लोक में बताये हैं—

वैरूप्यं व्याधिपिण्डः स्त्रजनपरिभवः कार्यकालातिपातो ।

विद्वेषो ज्ञाननाशः स्मृतिमतिहरणं विप्रयोगश्च सद्भिः ॥

पारुष्यं नीचसेवा कुलबलविलयो धर्मकामार्थहानिः ।

कष्टं वै षोडशैते निरुपचयकरा मद्यपानस्य दोषाः ॥

भावार्थः—मद्यपान से शरीर कुरूप और बेडौल हो जाता है । व्याधियाँ शरीर में घर कर लेती हैं । घर के लोग तिरस्कार करते हैं । कार्य का उचित समय हाथ से निकल जाता है । द्वेष उत्पन्न होता है । ज्ञान का नाश होता है । स्मृति और बुद्धि का नाश हो जाता है । सब्जनों से जुदाई

होती है। वाणी में केठोरता आ जाती है। नीचों की सेवा करनी पड़ती है। कुल की हीनता होती है और शक्ति का हास हो जाता है। धर्म, काम एवं अर्थ की हानि होती है। इस प्रकार आत्मा को गिराने वाले मद्य पान के सोलह कष्ट दायक दोष हैं।

(हरिभद्रीयाष्टक अष्टक १६ वां श्लोक १ टीका)

(२) विषय प्रमादः—पाँच इन्द्रियों के विषय-शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श-जनित प्रमाद विषय प्रमाद है।

शब्द, रूप आदि में आसक्त प्राणी विषाद को प्राप्त होते हैं। इस लिए शब्दादि विषय कहे जाते हैं।

अथवा:—

शब्द, रूप आदि भोग के समय मधुर होने से तथा परिणाम में अति कटुक होने से विष से उपमा दिये जाते हैं। इस लिये ये विषय कहलाते हैं।

इस विषय प्रमाद से व्याकुल चित्तवाला जीव हितहित के विवेक से शून्य हो जाता है। इस लिये अंकृत्य का सेवन करता हुआ वह चिर काल तक दुःख रूपी अटवी में अमण करता रहता है।

शब्द में आसक्त हिरण्य व्याध का शिकार बनता है। रूप मोहित पतंगिया दीप में जल भरता है। गन्ध में गृध्र भँवरा सूर्यास्त के समय कमल में ही बन्द होकर नष्ट हो जाता है। रस में अनुरक्त हुई मछली कांटे में फँस फर मृत्यु का शिकार बनती है। स्पर्श सुख में आसक्त हाथी

स्वतन्त्रता सुख से वञ्चित होकर बन्धन को प्राप्त होता है। इस प्रकार अजितेन्द्रिय, विषय प्रमाद में प्रसक्त, जीवों के अनेक अपाय होते हैं। एक एक विषय के बशीभूत होकर जीव उपरोक्त रीति से विनाश को पाते हैं। तो फिर पांचों इन्द्रियों के विषय में प्रमादी जीवों के दुःखों का तो कहना ही क्या ?

विषयासक्त जीव विषय का उपभोग करके भी कभी वृत्त नहीं होता। विषय भोग से विषयेच्छा शान्त न होकर उसी प्रकार बढ़ती है। जैसे-अग्नि घी से। विषयासक्त जीव के ऐहिक दुःख यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और परलोक में नरक तिर्यञ्च योनि में महा दुःख भोगने पड़ते हैं। इस लिए विषय प्रमाद से निवृत्त होने में ही श्रेय है।

(३) कपाय प्रमादः—क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कपाय का सेवन करना कपाय प्रमाद है।

क्रोधादि का स्वरूप इस प्रकार हैः—

क्रोध—क्रोध शुभ परिणामों का नाश करता है। वह सर्व प्रथम अपने स्वामी को जलाता है और बाद में दूसरों को। क्रोध से विवेक दूर भागता है और उसका साथी अविवेक आकर जीव को अकार्य में प्रवृत्त करता है। क्रोध, सदाचार को दूर करता है और मनुष्य को दुराचार में प्रवृत्त होने के लिये प्रेरित करता है। क्रोध वह अग्नि है, जो चिर काल से अभ्यस्त यम, नियम, तप आदि को क्षण भर में भस्म कर देती है। क्रोध के बश होकर द्वीपायन ऋषिने स्वर्ग सरीखी सुन्दर द्वारिका नगरी को जला कर भस्म कर



दिया । दोनों लोक त्रिगाड़ने वाला, पापमय, स्व-पर का अपकार करने वाला यह क्रोध प्राणियों का वास्तव में महान् शत्रु है । इस क्रोध को शान्त करने का एक उपाय, चमा है ।

**मानः—**कुल, जाति, बल, रूप, तप, विद्या, लाभ और ऐश्वर्य का मान करना नीच गोत्र के बन्ध का कारण है । मान विवेक को भगा देता है और आत्मा को शील, सदाचार से गिरा देता है । वह विनय का नाश कर देता है और विनय के साथ ज्ञान का भी । फिर आश्चर्य तो यह है कि मान से जीव ऊँचा बनना चाहता है पर कार्य नीचे होने का करता है । इस लिए उन्नति के इच्छुक आत्मा को विनय का आश्रय लेना चाहिये और मान का परिहार करना चाहिये ।

**मायाः—**माया अविद्या की जननी है और अक्रीति का घर है । माया पूर्वक सेवित तप संयमादि अनुष्ठान नकली सिक्के की तरह असार है और स्वप्न तथा इन्द्रजाल की माया के समान निष्फल है । माया शल्य है वह आत्मा को ब्रतधारी नहीं बनने देती, क्योंकि ब्रती निःशल्य होता है । माया इस लोक में तो अपयज्ञ देती है और परलोक में दुर्गति । ऋजुता अर्थात् सरलता धारण करने से माया कपायनष्ट हो जाती है । इस लिये माया का त्याग कर सरलता को अपनाना चाहिये ।

लोभ कषायः—लोभ कषाय सब पापों का आश्रय है। इसके पोषण के लिए जीव माया का भी आश्रय लेता है। सभी जीवों में जीने की इच्छा प्रबल होती है और मृत्यु से डरते हैं। किन्तु लोभ इसके विपरीत जीवों को ऐसे कार्यों में प्रवृत्त करता है। जिन में सदा मृत्यु का खतरा बना रहता है। यदि जीव वहीं मर गया तो लोभ के परिणाम स्वरूप उसे दुर्गति में दुःख भोगने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में उसका यहाँ का सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। यदि उससे लाभ भी हो गया तो उसके भागी और ही होते हैं। अधिक क्या कहा जाय, लोभी आत्मा को स्वामी, गुरु, भाई, वृद्ध, स्त्री, बालक, कीर्ण, दुर्बल, अनाथ आदि की हत्या करने में भी हिचकिचाहट नहीं होती। संक्षेप में यों कह सकते हैं, कि शास्त्रकारों ने नरक गति के कारण रूप जो दोष बताये हैं। वे सभी दोष लोभ से प्रगट होते हैं। लोभ की औषधि सन्तोष है। इस लिए इच्छा का संयमन कर संतोष को धारण करना चाहिए।

- (४) निद्रा प्रमादः—जिस में चेतना अस्पष्ट भाव को प्राप्त हो, ऐसी सोने की क्रिया निद्रा है। अधिक निद्रालु जीव न ज्ञान का उपार्जन कर सकता है और न धन का ही। ज्ञान और धन दोनों के न होने से वह दोनों लोक में दुःख का भागी होता है। निद्रा में संयम न रखने से यह प्रमाद सदा बढ़ता रहता है। जिससे अन्य कर्त्तव्य कार्यों में बाधा पड़ती है। कहा भी हैः—

वर्द्धन्ते पञ्च कौन्तेय ! सेव्यमानानि नित्यशः ।  
आलस्यं मैथुनं निद्रा क्षुधा क्रोधश्च पञ्चमः ॥१॥

हे अर्जुन ! आलस्य, मैथुन, निद्रा, क्षुधा और क्रोध ये पांचों प्रमाद सेवन किये जाने से सदा बढ़ते रहते हैं ।

इस लिए निद्रा-प्रमाद का त्याग करना चाहिए । समय पर स्वास्थ्य के लिए आवश्यक निद्रा के सिवाय अधिक निद्रा न लेनी चाहिये और असमय में नहीं सोना चाहिये ।

(५) विकथा प्रमादः—प्रमादी साधु राग द्वेष वश होकर जो वचन कहता है । वह विकथा है । स्त्री आदि के विषय की कथा करना भी विकथा है ।

नोटः—विकथा का विशेष वर्णन १४८ वें बोल में दिया गया है ।

( ठाण्णाग ६ उ० ३ सूत्र ५०० )

( धर्म संग्रह अधिकार २ श्लोक २६ टी० पृष्ठ ८१ )

( पञ्चाशक प्रथम गाथा २३ )

२६२—क्रिया की व्याख्या और उसके भेदः—

कर्म-बन्ध की कारण चेष्टा को क्रिया कहते हैं ।

अथवाः—

दुष्ट व्यापार विशेष को क्रिया कहते हैं ।

अथवाः—

कर्म बन्ध के कारण रूप कायिकी आदि पांच पांच करके पञ्चीस क्रियाएं हैं । वे जैनागम में क्रिया शब्द से कही गई हैं ।

क्रिया के पाँच भेद—

- (१) कायिकी । (२) आधिकरणिकी ।  
 (३) प्राद्वेषिकी । (४) पारितापनिकी ।  
 (५) प्राणातिपातिकी क्रिया ।

- (१) कायिकी—काया से होने वाली क्रिया कायिकी क्रिया कहलाती है ।  
 (२) आधिकरणिकी—जिस अनुष्ठान विशेष अथवा बाह्य खड्गादि शस्त्र से आत्मा नरक गति का अधिकारी होता है । वह अधिकरण कहलाता है । उस अधिकरण से होने वाली क्रिया आधिकरणिकी कहलाती है ।  
 (३) प्राद्वेषिकी—कर्म बन्ध के कारण रूप जीव के मत्सर भाव अर्थात् ईर्ष्या रूप अकुशल परिणाम को प्रद्वेष कहते हैं । प्रद्वेष से होने वाली क्रिया प्राद्वेषिकी कहलाती है ।  
 (४) पारितापनिकी:— ताड़नादि से दुःख देना अर्थात् पीड़ा पहुँचाना परिताप है । इससे होने वाली क्रिया पारितापनिकी कहलाती है ।  
 (५) प्राणातिपातिकी क्रिया:—इन्द्रिय आदि प्राण हैं । उनके अतिपात अर्थात् विनाश से लगने वाली क्रिया प्राणातिपातिकी क्रिया है ।

( ठाणाग २ उ० १ सूत्र ६० )

( ठाणाग ५ उ० २ सूत्र ४१६ )

( पन्नवणा पद २२ सू० २७६ )

२२३—क्रिया पाँच:—

- (१) आरम्भिकी । (२) पारिग्रहिकी ।

- (३) माया प्रत्यया । (४) अप्रत्याख्यानिकी ।  
(५) मिथ्यादर्शन प्रत्यया ।

- (१) आरम्भिकी—छः काया रूप जीव तथा अजीव ( जीव रहित शरीर, आटे वगैरह के बनाये हुए जीव की आकृति के पदार्थ या वस्त्रादि) के आरम्भ अर्थात् हिंसा से लगने वाली क्रिया आरम्भिकी क्रिया कहलाती है ।
- (२) पारिग्रहिकी—मूर्च्छा अर्थात् ममता को परिग्रह कहते हैं । जीव और अजीव में मूर्च्छा-ममत्व भाव से लगने वाली क्रिया पारिग्रहिकी है ।
- (३) माया प्रत्यया—छल कपट को माया कहते हैं । माया द्वारा दूसरों को ठगने के व्यापार से लगने वाली क्रिया माया-प्रत्यया है । जैसे-अपने अशुभ भाव छिपा कर शुभ भाव प्रगट करना, भूठे लेख लिखना आदि ।
- (४) अप्रत्याख्यानिकी क्रिया—अप्रत्याख्यान अर्थात् थोड़ा सा भी विरति परिणाम न होने रूप क्रिया अप्रत्याख्यानिकी क्रिया है ।

अथवा:—

- अत्रत से जो कर्म बन्ध होता है । वह अप्रत्याख्यान क्रिया है ।
- (५) मिथ्यादर्शन प्रत्यया--मिथ्यादर्शन अर्थात् तत्त्व में अश्रद्धान या विपरीत श्रद्धान से लगने वाली क्रिया मिथ्यादर्शन प्रत्यया क्रिया है ।

( ठाणाग २ उ० १ सूत्र ६० )

( ठाणाग ५ उ० २ सूत्र ४१६ )

( पन्नवणा पद २२ सू० २८४ )

२६४—क्रिया के पांच प्रकारः—

- (१) दृष्टिजा ( दिष्टिया ) ।
- (२) पृष्टिजा या स्पर्शजा ( पुष्टिया ) ।
- (३) प्रातीत्यिकी ( पाडुच्चिया ) ।
- (४) सामन्तोपनिपातिकी ( सामन्तोवणिया ) ।
- (५) स्वाहस्तिकी ( साहत्थिया ) ।

(१) दृष्टिजा ( दिष्टिया )—अश्वादि जीव और चित्रकर्म आदि अजीव पदार्थों को देखने के लिए गमन रूप क्रिया दृष्टिजा ( दिष्टिया ) क्रिया है ।

दर्शन, या देखी हुई वस्तु के निमित्त से लगने वाली क्रिया भी दृष्टिजा क्रिया है ।

अथवाः—

दर्शन से जो कर्म उदय में आता है । वह दृष्टिजा क्रिया है ।

- (२) पृष्टिजा या स्पर्शजा ( पुष्टिया )—राग द्वेष के वश हो कर जीव या अजीव विषयक प्रश्न से या उनके स्पर्श से लगने वाली क्रिया पृष्टिजा या स्पर्शजा क्रिया है ।
- (३) प्रातीत्यिकी (पाडुच्चिया)—जीव और अजीव रूप बाह्य वस्तु के आश्रय से जो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है । तज्जनित कर्म बन्ध को प्रातीत्यिकी (पाडुच्चिया) क्रिया कहते हैं ।
- (४) सामन्तोपनिपातिकी-(सामन्तोवणिया)—चारों तरफ से आकर इकट्ठे हुए लोग ज्यों ज्यों किसी प्राणी, घोड़े, गोधे (सांड) आदि प्राणियों की और अजीव-रथ आदि की प्रशंसा सुन

कर हर्षित होते हैं। हर्षित होते हुए उन पुरुषों को देख कर अश्वदि के स्वामी को जो क्रिया लगती है। वह सामन्तोप निपातिकी क्रिया है।

( हरि० आवश्यक अर्ध० ४ क्रियाविकार पृ० ६१२ )

(५) स्वाहस्तिकी—अपने हाथ में ग्रहण किये हुए जीव या अजीव ( जीव की प्रतिकृति ) को मारने से अथवा ताड़न करने से लगने वाली क्रिया स्वाहस्तिकी ( माहर्त्थिया ) क्रिया है।

( ठाणग २ उ० १ सूत्र ६० )

( ठाणग ५ उ० २ सूत्र ४१६ )

२६५—क्रिया के पांच भेदः—

(१) नैसृष्टिकी ( नेसर्त्थिया ) ।

(२) आज्ञापनिका या आनायनी ( आणवणिया ) ।

(३) वैदारिणी ( वेयारणिया ) ।

(४) अनाभोग प्रत्यया (अणाभोग वत्तिया) ।

(५) अनवकांक्षा प्रत्यया (अणवकांख वत्तिया) ।

(१) नैसृष्टिकी (नेसर्त्थिया)—राजा आदि की आज्ञा से यंत्र ( फच्वारे आदि ) द्वारा लल छोड़ने से अथवा घनुप से वाण फेंकने से होने वाली क्रिया नैसृष्टिकी क्रिया है।

अथवाः—

गुरु आदि को शिष्य या पुत्र देने से अथवा निर्दोष आहार पानी आदि देने से लगने वाली क्रिया नैसृष्टिकी क्रिया है।

(२) आज्ञापनिका या आनायनी (आणवणिया)—जीव अथवा अजीव को आज्ञा देने से अथवा दूसरे के द्वारा संगाने से लगने वाली क्रिया आज्ञापनिका-या आनायनी क्रिया है।

(३) वैदारिणी (वेयारणिया)—जीव अथवा अजीव को विदारण करने में लगने वाली क्रिया वैदारिणी क्रिया है ।

अथवा:—

जीव अजीव के व्यवहार में व्यापारियों की भाषा में या भाव में असमानता होने पर दुभाषिया या दलाल जो मौंटा करा देता है उससे लगने वाली क्रिया भी वियारणिया क्रिया है ।

अथवा:—

लोगों को ठगने के लिए कोई पुरुष किसी जीव अर्थात् पुरुष आदि की या अजीव रथ आदि की प्रशंसा करता है । इस वञ्चना ( ठगई ) से लगने वाली क्रिया भी वियारणिया क्रिया है ।

अनाभोग प्रत्यया—अनुपयोग से वस्त्रादि को ग्रहण करने तथा वर्तन आदि को पूंजने में लगने वाली क्रिया अनाभोग प्रत्यया क्रिया है ।

अनवकांक्षा प्रत्यया—स्व-पर के शरीर की अपेक्षा न करते हुए स्व-पर को हानि पहुँचाने से लगने वाली क्रिया अनवकांक्षा प्रत्यया क्रिया है ।

अथवा:—

इस लोक और परलोक की परवाह न करते हुए दोनों लोक विरोधी हिंसा, चोरी, आर्चध्यान, रौद्रध्यान आदि में लगने वाली क्रिया अनवकांक्षा प्रत्यया क्रिया है ।

( ठाणग २ उ० १ सूत्र ६० )

( ठाणग ५ उ० २ सूत्र ४१६ )

( हरि० आ० ४ क्रियाधिकार प्र० ६१३-६१४ )



२६६—क्रिया के पांच भेदः—

- (१) प्रेम प्रत्यया ( पेज्ज वत्तिया ) ।
- (२) द्वेष प्रत्यया ।
- (३) प्रायोगिकी क्रिया ।
- (४) सामुदानिकी क्रिया ।
- (५) ईर्यापथिकी क्रिया ।

(१) प्रेम प्रत्यया (पेज्ज वत्तिया)—प्रेम (राग) यानि माया और लोभ के कारण से लगने वाली क्रिया प्रेम प्रत्यया क्रिया है ।

अथवाः—

दूसरे में प्रेम (राग) उत्पन्न करने वाले वचन कहने से लगने वाली क्रिया प्रेम प्रत्यया क्रिया कहलाती है ।

(२) द्वेष प्रत्ययाः—जो स्वयं द्वेष अर्थात् क्रोध और मान करता है और दूसरे में द्वेष आदि उत्पन्न करता है । उससे लगने वाली अप्रीतिकारी क्रिया द्वेष प्रत्यया क्रिया है ।

(३) प्रायोगिकी क्रियाः—अर्त ध्यान, रौद्र ध्यान करना, तीर्थ-ङ्करों से निन्दित सावद्य अर्थात् पाप जनक वचन बोलना तथा प्रमाद पूर्वक जाना, आना, हाथ पैर फैलाना, संकोचना आदि मन, वचन, काया के व्यापारों से लगने वाली क्रिया प्रायोगिकी क्रिया है ।

(४) सामुदानिकी क्रियाः—जिससे समग्र अर्थात् आठ कर्म ग्रहण किये जाते हैं । वह सामुदानिकी क्रिया है । सामुदानिकी क्रिया देशोपघात और सर्वोपघात रूप से दो भेद वाली है ।

अथवा:—

अनेक जीवों को एक साथ जो एक सी क्रिया लगती है। वह सामुदानिकी क्रिया है। जैसे—नाटक, सिनेमा आदि के दर्शकों को एक साथ एक ही क्रिया लगती है। इस क्रिया से उपाजित कर्मों का उदय भी उन जीवों के एक साथ प्रायः एक मा ही होता है। जैसे—भूकम्प वगैरह।

अथवा:—

जिमसे प्रयोग (मन, वचन, काया के व्यापार) द्वारा ग्रहण किये हुए एवं समुदाय अवस्था में रहे हुए कर्म, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश रूप में व्यवस्थित किये जाते हैं। वह सामुदानिकी क्रिया है। यह क्रिया मिथ्या दृष्टि से लगा कर सूक्ष्म सम्पराय गुण स्थान तक लगती है।

(सूयगडाग श्रुतस्कन्ध २ अध्ययन २ नि० गा० १६८ टी०)

(५) ईर्यापथिकी क्रिया:— उपशान्त मोह, क्षीण मोह और सयोगी केवली इन तीन गुण स्थानों में रहे हुए अप्रमत्त साधु के केवल योग कारण से जो सातावेदनीय कर्म बंधता है। वह ईर्यापथिकी क्रिया है।

(ठाणाग २ सूत्र ६०)

(ठाणाग ५ सूत्र ४१६)

(हरि० आवश्यक अध्य० ४ क्रियाधिकार पृ० ६१४)

२६७—असंयम पाँच:—

पाप से निवृत्त न होना, असंयम कहलाता है अथवा सावध अनुष्ठान सेवन करना असंयम है।

एकेन्द्रिय जीवों का समारम्भ करने वाले के पाँच प्रकार का असंयम होता है:—

- (१) पृथ्वीकाय असंयम ।
- (२) अप्काय असंयम ।
- (३) तेजस्काय असंयम ।
- (४) वायु काय असंयम ।
- (५) वनस्पति काय असंयम ।

पञ्चेन्द्रिय जीवों का समारम्भ करने वाला पाँच इन्द्रियों का व्याघात करता है । इस लिये उसे पाँच प्रकार का असंयम होता है ।

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय असंयम ।      (२) चक्षुरिन्द्रिय असंयम ।
- (३) घ्राणेन्द्रिय असंयम ।      (४) रसनेन्द्रिय असंयम ।
- (५) स्पर्शनेन्द्रिय असंयम ।

सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का समारम्भ करने वाले के पाँच प्रकार का असंयम होता है:—

- (१) एकेन्द्रिय असंयम ।      (२) द्वीन्द्रिय असंयम ।
- (३) त्रीन्द्रिय असंयम ।      (४) चतुरिन्द्रिय असंयम ।
- (५) पञ्चेन्द्रिय असंयम ।

( ठाण्णांग ५ उ० २ सूत्र ४२६ से ४३० )

२६८—संयम पाँच:—

सम्यक् प्रकार सावद्य योग से निवृत्त होना या आश्रव से विरत होना या छः काया की रक्षा करना संयम है ।

एकेन्द्रिय जीवों का समारम्भ न करने वाले के पाँच प्रकार का संयम होता है ।

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| (१) पृथ्वीकाय संयम ।  | (२) अफ्फायाय संयम । |
| (३) तेजस्काय संयम ।   | (४) वायुकाय संयम ।  |
| (५) वनस्पतिकाय संयम । |                     |

पञ्चेन्द्रिय जीवों का समारम्भ न करने वाला पाँच इन्द्रियों का व्याघात नहीं करता । इस लिए उसका पाँच प्रकार का संयम होता है ।

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (१) श्रोत्रेन्द्रिय संयम । | (२) चक्षुरिन्द्रिय संयम । |
| (३) घ्राणेन्द्रिय संयम ।   | (४) रसनेन्द्रिय संयम ।    |
| (५) स्पर्शनेन्द्रिय संयम । |                           |

सर्व प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का समारम्भ न करने वाले के पाँच प्रकार का संयम होता है ।

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| (१) एकेन्द्रिय संयम ।   | (२) द्वीन्द्रिय संयम ।  |
| (३) त्रीन्द्रिय संयम ।  | (४) चतुरिन्द्रिय संयम । |
| (५) पञ्चेन्द्रिय संयम । |                         |

( ठाण्णाग ५ उ० २ सूत्र ४२६ से ४३० )

२६२—पाँच संवरः—

कर्म बन्ध के कारण प्राणातिपात आदि जिससे रोके जाय वह संवर है ।

अथवाः—

जीव रूपी तालाब में आते हुए कर्म रूपी पानी का रुक जाना संवर कहलाता है ।

अथवा:—

जैसे:—जल में रही हुई नाव में निरन्तर जल प्रवेश कराने वाले छिद्रों को किसी द्रव्य से रोक देने पर, पानी आना रुक जाता है। उसी प्रकार जीव रूपी नाव में कर्म रूपी जल प्रवेश कराने वाले इन्द्रियादि रूप छिद्रों को सम्यक् प्रकार से संयम, तप आदि के द्वारा रोकने से आत्मा में कर्म का प्रवेश नहीं होता। नाव में पानी का रुक जाना द्रव्य संवर है और आत्मा में कर्मों के आगमन को रोक देना भाव संवर है।

संवर के पांच भेद:—

- |                     |             |
|---------------------|-------------|
| (१) सम्यक्त्व ।     | (२) विरति । |
| (३) अप्रमाद ।       | (४) अकषाय । |
| (५) अयोग (शुभयोग) । |             |

( ठाण्णांग ५ उ० २ सूत्र ४१८ )

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| (१) श्रोत्रेन्द्रिय संवर । | (२) चक्षुरिन्द्रिय संवर । |
| (३) घ्राणेन्द्रिय संवर ।   | (४) रसनेन्द्रिय संवर ।    |
| (५) स्पर्शनेन्द्रिय संवर । |                           |

( ठाण्णांग ५ उ० २ सूत्र ४२७ )

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (१) अहिंसा ।   | (२) अमृषा ।  |
| (३) अचौर्य ।   | (४) अमैथुन । |
| (५) अपरिग्रह । |              |

- (१) सम्यक्त्व—सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में विश्वास होना सम्यक्त्व है।

- (२) विरति—प्राणातिपात आदि पाप-व्यापार से निवृत्त होना विरति है ।
- (३) अप्रमाद-मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा—इन पाँच प्रमादों का त्याग करना, अप्रमत्त भाव में रहना अप्रमाद है ।
- (४) अकषाय—क्रोध, मान, माया, लोभ—इन चार कषायों को त्याग कर क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच ( निलोभता ) का सेवन करना अकषाय है ।
- (५) अयोग-मन, वचन, काया के व्यापारों का निरोध करना अयोग है । निश्चय दृष्टि से योग निरोध ही संवर है । किंतु व्यवहार से शुभ योग भी संवर माना जाता है ।

पाँचों इन्द्रियों को उनके विषय शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श की ओर जाने से रोकना, उन्हें अशुभ व्यापार से निवृत्त करके शुभ व्यापार में लगाना श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और स्पर्शन इन्द्रियों का संवर है ।

- (१) अहिंसा—किसी जीव की हिंसा न करना या दया करना अहिंसा है ।
- (२) अमृषा—भ्रूठ न बोलना या निरवद्य सत्य वचन बोलना अमृषा है ।
- (३) अचौर्य—चोरी न करना या स्वामी की आज्ञा मांग कर कोई भी चीज़ लेना अचौर्य है ।
- (४) अमैथुन—मैथुन का त्याग करना अर्थात् ब्रह्मचर्य पालन करना अमैथुन है ।

(५) अपरिग्रह—परिग्रह का त्याग करना, ममता मूर्च्छा से रहित होना या शौच सन्तोष का सेवन करना अपरिग्रह है।

( प्रश्न व्याकरण संवर द्वार )

३००—अणुव्रत पांचः—

महाव्रत की अपेक्षा छोटा व्रत अर्थात् एक देश त्याग का नियम अणुव्रत है। इसे शीलव्रत भी कहते हैं।

अणुव्रतः—

सर्व विरत साधु की अपेक्षा अणु अर्थात् थोड़े गुण वाले (श्रावक) के व्रत अणुव्रत कहलाते हैं।

श्रावक के स्थूल प्राणातिपात आदि त्याग रूप व्रत अणुव्रत हैं।

अणुव्रत पांच हैंः—

- (१) स्थूल प्राणातिपात का त्याग।
- (२) स्थूल मृषावाद का त्याग।
- (३) स्थूल अदत्तादान का त्याग।
- (४) स्वदार सन्तोष।
- (५) इच्छा-परिमाण।

(१) स्थूल प्राणातिपात का त्याग—स्वशरीर में पीड़ाकारी, अपराधी तथा सापेक्ष निरपराधी के सिवाय शेष द्वीन्द्रिय आदि त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक हिंसा का दो करण तीन योग से त्याग करना, स्थूल प्राणातिपात त्याग रूप प्रथम अणुव्रत है।

(२) स्थूल मृषावाद का त्याग—दुष्ट अध्यवसाय पूर्वक तथा स्थूल वस्तु विषयक बोला जाने वाला असत्य-भूठ, स्थूल

मृपावाद है। अविश्वास आदि के कारण स्वरूप इस स्थूल मृपावाद का दो करण तीन योग से त्याग करना स्थूल मृपावाद-त्याग रूप द्वितीय अणुव्रत है।

स्थूल मृपावाद पाँच प्रकार का है—

- (१) कन्या-वर सम्बन्धी झूठ।
- (२) गाय, भैंस आदि पशु सम्बन्धी झूठ।
- (३) भूमि सम्बन्धी झूठ।
- (४) किमी की धरोहर ढवाना या उमके सम्बन्ध में झूठ बोलना।
- (५) झूठी गवाही देना।

(३) स्थूल अदत्तादान का त्याग—चेत्रादि में सावधानी से रखी हुई या असावधानी से पड़ी हुई या भूली हुई किसी सचित्त, अचित्त स्थूल वस्तु को, जिसे लेने से चोरी का अपराध लग सकता हो अथवा दुष्ट अध्यवसाय पूर्वक साधारण वस्तु को स्वामी की आज्ञा बिना लेना स्थूल अदत्तादान है। खात खनना, गांठ खोल कर चीज निकालना, जेब काटना, दूमरे के ताले को बिना आज्ञा चाबी लगा कर खोलना, मार्ग में चलते हुए को लूटना, स्वामी का पता होते हुए भी किसी पड़ी वस्तु को ले लेना आदि स्थूल अदत्तादान में शामिल हैं। ऐसे स्थूल अदत्तादान का दो करण तीन योग से त्याग करना स्थूल अदत्तादान त्याग रूप तृतीय अणुव्रत है।

- (४) स्वदार सन्तोषः—स्व-स्त्री अर्थात् अपने साथ व्याही हुई स्त्री में सन्तोष करना। विवाहित पत्नी के सिवाय शेष



श्रौदारिक शरीर धारी अर्थात् मनुष्य तिर्यञ्च के शरीर को धारण करने वाली स्त्रियों के साथ एक करण एक योग से ( अर्थात् काय से सेवन नहीं करूँगा इस प्रकार ) तथा वैक्रिय शरीरधारी अर्थात् देव शरीरधारी स्त्रियों के साथ दो करण तीन योग से मैथुन सेवन का त्याग करना स्वदार सन्तोष नामक चौथा अणुव्रत है ।

- (४) इच्छा-परिमाणः—( परिग्रह परिमाण ) क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, द्विपद, चतुष्पद, धन, धान्य एवं कुप्य ( सोने चांदी के सिवाय कौसा, तौवा, पीतल आदि के पात्र तथा अन्य घर का सामान )—इन नव प्रकार के परिग्रह की मर्यादा करना मर्यादा उपरान्त परिग्रह का एक करण तीन योग\* से त्याग करना इच्छा-परिमाण व्रत है । तृष्णा, मूर्च्छा कम कर सन्तोष रत रहना ही इस व्रत का मुख्य उद्देश्य है ।

( हरिभद्रिय आवश्यक अ० ६ पृष्ठ ८१७ से ८२६ )

( ठाण्णाग ५ उ० १ सूत्र ३८६ )

( उपासक दशांग अ० १ सू० ७ )

( धर्म सग्रह अधिकार २ ग्लोक २३ से २६ )

३०१—अहिंसा अणुव्रत (स्थूल प्राणातिपात-विरमण व्रत) के पाँच अतिचारः—

वर्जित कार्य को करने का विचार करना अतिक्रम है । कार्य-पूर्ति यानि व्रत भङ्ग के लिए साधन एकत्रित करना व्यतिक्रम है । व्रतभङ्ग की पूरी तैयारी है परन्तु जब तक व्रत भङ्ग नहीं हुआ है तब तक अतिचार है । अथवा

\*एक करण एक योग से भी मर्यादा की जा सकती है ।

व्रत की अपेक्षा रखते हुए कुछ अंश में व्रत का भङ्ग करना अतिचार है। व्रत की अपेक्षा न रखते हुए संकल्प पूर्वक व्रत भङ्ग करना अनाचार है। इस प्रकार अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार-ये चारों व्रत की मर्यादा भङ्ग करने के प्रकार हैं। शास्त्रों में व्रतों के अतिचारों का वर्णन है। परन्तु यह मध्यम भङ्ग का प्रकार है और इससे आगे के अतिक्रम, व्यतिक्रम, और पीछे का अनाचार भी ग्रहण किये जाते हैं। वे भी त्याज्य हैं। यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यदि संकल्प पूर्वक व्रतों की विना अपेक्षा किये अतिचारों का सेवन किया जाय तो वह अनाचार-सेवन ही है और वह व्रत-भङ्ग का कारण है।

प्रथम अणुव्रत के पाँच अतिचारः—

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| (१) बन्ध ।               | (२) वध ।     |
| (३) छविच्छेद ।           | (४) अतिभार । |
| (५) भक्त-पान व्यवच्छेद । |              |

(१) बन्धः—द्विपद, चतुष्पदों को रस्सी आदि से अन्याय पूर्वक बाँधना बन्ध है। यह बन्ध दो प्रकार का हैः—

- (१) द्विपद का बन्ध ।  
 (२) चतुष्पद का बन्ध ।

प्रत्येक के फिर दो दो भेद हैं—

एक अर्थ बन्ध और दूसरा अनर्थ बन्ध। अर्थ-बन्ध भी दो प्रकार का है—

- (१) सापेक्ष अर्थ बन्ध ।

(२) निरपेक्ष अर्थ बन्ध ।

द्विपद, चतुष्पद को इस प्रकार से बांधना कि आग आदि लगने पर आसानी से खोले जा सकें, सापेक्ष बन्ध कहलाता है । जैसे-चतुष्पद गाय, भैंस आदि और द्विपद, दामी, चोर, या दुर्विनीत पुत्र को उनकी रक्षा या भलाई का ख्याल कर या शिक्षा के लिये करुणा पूर्वक शरीर की हानि और कष्ट को बचाते हुए बांधना सापेक्ष बन्ध है । लापरवाही के साथ निर्दयता पूर्वक क्रोधवश गाढ़ बन्धन बांध देना निरपेक्ष अर्थबन्ध है । श्रावक के लिये सापेक्ष अर्थबन्ध अतिचार रूप नहीं है । अनर्थबन्ध एवं निरपेक्ष अर्थबन्ध अतिचार रूप हैं और श्रावक के लिए त्याज्य हैं ।

(२) वधः—कोड़े आदि से मारना वध है । इसके भी बन्ध की तरह अर्थ, अनर्थ एवं सापेक्ष, निरपेक्ष प्रकार से दो दो भेद हैं । अनर्थ एवं निरपेक्ष वध अतिचार में शामिल हैं । शिक्षा के हेतु दास, दासी, पुत्र आदि को या नुकसान करते हुए चतुष्पद को आवश्यकता होने पर दयापूर्वक उनके मर्म स्थानों पर चोट न लगाते हुए मारना सापेक्ष अर्थबन्ध है । यह श्रावक के लिए अतिचार रूप नहीं है ।

(३) छविच्छेद—शस्त्र से अङ्गोंपाङ्ग का छेदन करना छविच्छेद है । छविच्छेद भी बन्ध और वध, की तरह सप्रयोजन तथा निष्प्रयोजन और सापेक्ष तथा निरपेक्ष होता है । निष्प्रयोजन तथा प्रयोजन होने पर भी निर्दयता पूर्वक हाथ, पैर, कान, नाक आदि का छेदन करना अतिचार रूप है और वह श्रावक के लिए त्याज्य है । किन्तु प्रयोजन होने पर दया पूर्वक

सामने वाले की भलाई के लिए गांठ, मस्सा बगैरह काटना, जैसे-डाक्टर या वैद्य चीरफाड़ करते हैं। डाम देकर जलाना आदि सापेक्ष छविच्छेद हैं। सापेक्ष छविच्छेद से श्रावक अतिचार के दोष का भागी नहीं होता।

(४) अतिभार—द्विपद, चतुष्पद पर उसकी शक्ति से अधिक भार लादना अतिभार है। श्रावक को मनुष्य अथवा पशु पर क्रोध अथवा लोभवश निर्दयता के साथ अधिक भार नहीं धरना चाहिये और न मनुष्य तथा पशुओं पर बोझ लादने की वृत्ति करनी चाहिए। यदि अन्य जीविका न हो और यह वृत्ति करनी ही पड़े तो करुणा भाव रख कर, सामने वाले के स्वास्थ्य का ध्यान रखता हुआ करे। मनुष्य से उतना ही भार उठवाना चाहिये, जितना वह स्वयं उठा सके और स्वयं उतार सके। ऊँट, बैल, आदि पर भी स्वभाविक भार से कम लादना चाहिये। हल, गाड़ी बगैरह से बैलों को नियत समय पर छोड़ देना चाहिये। इसी तरह गाड़ी, तांगे, इक्के, घोड़े आदि पर सवारी चढ़ाने में भी विवेक रखना चाहिये।

(५) भक्त-पान विच्छेद—निष्कारण निर्दयता के साथ किसी के आहार पानी का विच्छेद करना, भक्त-पान विच्छेद अतिचार है। तीव्र जुधा और प्यास से व्याकुल होकर कई प्राणी मर जाते हैं और भी इसमें अनेक दोषों की सम्भावना है। इस लिए इस अतिचार का परिहार करना चाहिये। रोगादि निमित्त से वैद्यादि के कहने पर, या शिवा के हेतु आहार पानी न देना या भय दिखाने के लिये आहार न देने की

घात कहना सापेक्ष भक्तपान विच्छेद है और यह अतिचार रूप नहीं है ।

नोटः—बिना कारण किसी की जीविका का नाश करना तथा नियत समय पर वेतन न देना आदि भी इसी अतिचार में गभित है ।

( धर्म सग्रह अवि० २ श्लो० ४३ पृ० १०० )

( हरिभद्रीय आवश्यक अध्ययन ६ पृष्ठ ८१८ )

( उपासक दशाग सूत्र अ० १ सू० ७ )

३०२—सत्याणुव्रत ( स्थूल मृषावाद विरमण व्रत ) के पांच अतिचारः—

(१) सहसाऽभ्याख्यान । (२) रहोऽभ्याख्यान ।

(३) स्वदार मन्त्र भेद । (४) मृषोपदेश ।

(५) कूट लेखकरण ।

(१) सहसाऽभ्याख्यान—बिना विचारें किसी पर मिथ्या आरोप लगाना सहसाऽभ्याख्यान है । अनुपयोग अर्थात् असावधानी से बिना विचारे आरोप लगाना अतिचार है । जानते हुए इरादा पूर्वक तीव्र संक्लेश से मिथ्या आरोप लगाना अनाचार है और उससे व्रत भंग हो जाता है ।

(२) रहोऽभ्याख्यान—एकान्त में सलाह करते हुए व्यक्तियों पर आरोप लगाना रहोऽभ्याख्यान है । जैसे-ये राजा के अपकार की मन्त्रणा करते हैं । अनुपयोग से ऐसा करना अतिचार माना गया है और जान बूझ कर ऐसा करना अनाचार में शामिल है । एकान्त विशेषण होने से यह अतिचार पहले अतिचार से भिन्न है । इस अतिचार में सम्भावित अर्थ कहा जाता है ।

- (३) स्वदार मन्त्र भेद—स्वस्त्री के साथ एकान्त में हुई विश्वस्त मन्त्रणा—(वार्तालाप) का दूसरे से कहना स्वदारमन्त्र भेद है।

अथवा:—

विश्वास करने वाली स्त्री, मित्र आदि की गुप्त मन्त्रणा का प्रकाश करना स्वदार मन्त्र भेद है।

यद्यपि वक्ता पुरुष स्त्री या मित्र के साथ हुई सत्य मन्त्रणा को ही कहता है परन्तु अप्रकाश्य मन्त्रणा के प्रकाशित हो जाने से लज्जा एवं संकोच वश स्त्री, मित्र आदि आत्मघात कर सकते हैं या जिसके आगे उक्त मन्त्रणा प्रकाशित की गई है उसी का घात कर सकते हैं। इस प्रकार अनर्थ परम्परा का कारण होने से वास्तव में वह त्याज्य ही है।

- (४) मृपोपदेश—बिना विचारे, अनुपयोग से या किसी वहाने से दूसरों को असत्य उपदेश देना मिथ्योपदेश है। जैसे—हम लोगों ने ऐसा ऐसा झूठ कह कर अमुक व्यक्ति को हरा दिया था इत्यादि कह कर दूसरों को असत्य वचन कहने में प्रेरित करना।

अथवा:—

असत्य उपदेश देना मृपोपदेश है। सत्यव्रतधारी पुरुष के लिये पर पीड़ाकारी वचन कहना भी असत्य है। इस लिए प्रमाद से पर पीड़ाकारी उपदेश देना भी मृपोपदेश अतिचार है। जैसे—ऊँट, गधे वगैरह को चलाना चाहिये, चोरों को मारना चाहिये। आदि।

अथवा:—

कोई सन्दिग्ध ( सन्देह वाला ) व्यक्ति सन्देह निवारण के लिये आवे, उसे उत्तर में अयथार्थ स्वरूप कहना मृषोपदेश है। अथवा विवाह में स्वयं या दूसरे से किसी को अभिसंधान ( सम्बन्ध जोड़ने के उपाय ) का उपदेश देना या दिलाना मृषोपदेश है अथवा व्रत रक्षण की बुद्धि से दूसरे के वृत्तान्त को कह कर मृषा उपदेश देना मृषोपदेश है।

- (५) कूट लेखकरण—कूट अर्थात् भूठा लेख लिखना, कूट लेख करण अतिचार है। जाली अर्थात् नकली लेख, दस्तावेज, मोहर और दूसरे के हस्ताक्षर आदि बनाना, कूट लेख करण में शामिल है। प्रमाद और अविवेक (अज्ञान) से ऐसा करना अतिचार है। व्रत का पूरा आशय न समझ कर यह सोचना कि मैंने भूठ बोलने का त्याग किया था यह तो भूठा लेख है। मृषावाद तो नहीं है। व्रत की अपेक्षा होने से और अविवेक की वजह से यह अतिचार है। जान बूझ कर कूट लेख लिखना अनाचार है।

( उपासक दशाग सूत्र अ० १ सू० ७ )

( धर्मसंग्रह अधिकार २ श्लो० ४४ पृष्ठ १०१-१०२ )

( हरिभद्रीय आवश्यक अध्ये० ६ पृष्ठ ८२० )

- ३०३—अचौर्याणुव्रत ( स्थूल अदत्तादान विरमण व्रत ) के पांच अतिचार:—

स्थूल अदत्तादान विरमण रूप तीसरे अणुव्रत के पांच अतिचार हैं:—

(१) स्तेनाहृत।

(२) स्तेन प्रयोग।

(३) विरुद्धराज्यातिक्रम । (४) कूट तुला कूट मान ।

(५) तत्प्रतिरूपक व्यवहार ।

(१) स्तेनाहृतः—चोर की चुराई हुई वस्तु को बहुमूल्य समझकर लोभवश उसे खरीदना या यो ही छिपा कर ले लेना स्तेनाहृत अतिचार है ।

(२) स्तेन प्रयोगः—चोरों को चोरी के लिए प्रेरणा करना, उन्हें चोरी के उपकरण देना या बेचना अथवा चोर की सहायता करना, “तुम्हारे पास खाना नहीं है तो मैं देता हूँ तुम्हारी चुराई हुई वस्तु को कोई बेचने वाला नहीं है तो मैं बेच दूँगा” इत्यादि वचनों से चोर को चोरी में उत्साहित करना स्तेन प्रयोग है ।

(३) विरुद्ध राज्यातिक्रमः—शत्रु राजाओं के राज्य में आना जाना विरुद्ध राज्यातिक्रम अतिचार है क्योंकि विरोध के समय शत्रु राजाओं द्वारा राज्य में प्रवेश करने की मनाई होती है ।

(४) कूट तुला कूट मानः—भ्रूठा अर्थात् हीनाधिक तोल और माप रखना, परिमाण से बड़े तोल और माप से वस्तु लेना और छोटे तोल और माप में वस्तु बेचना कूट तुला कूट मान अतिचार है ।

(५) तत्प्रतिरूपक व्यवहारः—बहुमूल्य बढिया वस्तु में अल्पमूल्य वाली घटिया वस्तु, जो उसी के सदृश है अर्थात् उसी रूप, रंग की है और उसमें खपने वाली है, मिलाकर बेचना या असली सरीखी नकली ( बनावटी ) वस्तु को ही असली के नाम से बेचना तत्प्रतिरूपक व्यवहार है ।



पांचों अतिचारों में वर्णित क्रियाएं चोरी के नाम से न कही जाने पर भी चोरी के बराबर है। इनका करने वाला राज्य के द्वारा भी अपराधी माना जाकर दण्ड का भागी होता है। इस लिए उन्हें जान बूझ कर करना तो व्रत भङ्ग ही है। बिना विचारे अनुपयोग पूर्वक करने से या व्रत की अपेक्षा रख कर करने से या अतिक्रमादि की अपेक्षा ये अतिचार हैं।

(उपा० दशांग अ० १ सूत्र ७) (हरि० आ०अ० ६ पृ० ८२२)  
(धर्म सं० अवि० २ श्लो० ४५)

३०४—स्वदार सन्तोष व्रत के पाँच अतिचारः—

(१) इत्वरिका परिगृहीता गमन। (२) अपरिगृहीता गमन।

(३) अनङ्ग क्रीडा। (४) पर विवाह करण।

(५) काम भोग तीव्राभिलाष।

(१) इत्वरिका परिगृहीतागमनः—कुछ काल के लिये अपने अधीन की हुई स्त्री से गमन करना, इत्वरिका परिगृहीतागमन अतिचार है अथवा अल्प वय वाली अर्थात् जिसकी उम्र अभी भोग योग्य नहीं हुई है—ऐसी अपनी विवाहिता स्त्री से गमन करने के लिये आलाप संलापादि करना इत्वर परिगृहीतागमन अतिचार है।

(२) अपरिगृहीतागमनः—विवाहिता पत्नी के सिवाय शेष वेश्या, अनाथ, कन्या, विधवा, कुलवधु आदि से गमन करना, अपरिगृहीता गमन अतिचार है। अथवा जिस कन्या के साथ मंगई तो हो चुकी है किन्तु अभी विवाह नहीं हुआ है ऐसी कन्या के साथ गमन करने के लिए आलाप संलापादि करना अपरिगृहीता गमन अतिचार है क्योंकि वह अपनी होते हुए भी अपरिगृहीता है।

इत्वरिका परिगृहीता और अपरिगृहीता से गमन करने का संकल्प, एवं तत्सम्बन्धी उपाय, आलाप संलापादि अतिक्रम व्यतिक्रम की अपेक्षा ये दोनों अतिचार हैं । और ऐसा करने पर व्रत एक देश से खण्डित होता है । छई डोरा के न्याय से इन्हें सेवन करने में सर्वथा व्रत भङ्ग हो जाता है ।

(३) अनङ्ग क्रीडा:—काम सेवन के जो प्राकृतिक अङ्ग हैं । उनके सिवाय अन्य अङ्गों से, जो कि काम सेवन के लिए अनङ्ग हैं, क्रीडा करना अनङ्ग क्रीडा है । स्व स्त्री के सिवाय अन्य स्त्रियों के साथ मैथुन क्रिया वर्ज कर अनुराग से उनका आलिङ्गन आदि करने वाले का भी व्रत मलीन होता है । इस लिए वह भी अतिचार माना गया है ।

(४) परविवाहकरण:—अपना और अपनी सन्तान के सिवाय अन्य का विवाह करना परविवाहकरण अतिचार है ।

स्वदारसन्तोषी श्रावक को दूसरों का विवाहादि कर उन्हें मैथुन में लगाना निष्प्रयोजन है । इस लिये ऐसा करना अनुचित है । यह ख्याल न कर दूसरे का विवाह करने के लिये उद्यत होने में यह अतिचार है ।

(५) कामभोगतीव्रामिलाप:—पाँच इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध और स्पर्श में आसक्ति होना कामभोगतीव्रामिलाप नामक अतिचार है । इस का आणय यह है कि श्रावक विशिष्ट विरति वाला होता है । उसे पुरुषवेद जनित बाधा की शान्ति के उपरान्त मैथुन सेवन न करना चाहिये । जो वाजीकरण आदि औषधियों से तथा कामशास्त्र में बताये

हुए प्रयोगों द्वारा कामवाधा को अधिक उत्पन्न कर निरन्तर रति-क्रीड़ा के सुख को चाहता है। वह वास्तव में अपने व्रत को मलीन करता है। स्वयं खाज (खुजली) उत्पन्न कर उसे खुजलाने में सुख अनुभव करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। कहा भी है:—

“मीठी खाज खुजावताँ पीछे दुःख की खान” ।

( उपासक दशाग प्रथम अध्ययन सू० ७ )

३०५—परिग्रह परिमाण व्रत के पाँच अतिचार—

- (१) क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम ।
  - (२) हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम ।
  - (३) द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रम ।
  - (४) धन धान्य प्रमाणातिक्रम ।
  - (५) कुप्य प्रमाणातिक्रम ।
- (१) क्षेत्रवास्तु प्रमाणातिक्रम—धान्योत्पत्ति की जमीन को क्षेत्र (खेत) कहते हैं। वह दो प्रकार का है—
- (१) सेतु । (२) केतु ।

अरघट्टादि जल से जो खेत सींचा जाता है। वह सेतु क्षेत्र है। वर्षा का पानी गिरने पर जिसमें धान्य पैदा होता है। वह केतु क्षेत्र कहलाता है। घर आदि को वास्तु कहते हैं। भूमिगृह (भोंयरा)-भूमि गृह पर बना हुआ घर या प्रासाद एवं भूमि के ऊपर बना हुआ घर या प्रासाद वास्तु है। इस प्रकार वास्तु के तीन भेद हैं। उक्त क्षेत्र, वास्तु की जो मर्यादा की है। उसका उल्लंघन करना क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार है। अनुपयोग या अतिक्रम आदि की अपेक्षा से यह अतिचार

है । जानबूझ कर मर्यादा का उल्लंघन करना अनाचार है अथवा मर्यादित क्षेत्र या घर आदि से अधिक क्षेत्र या घर आदि मिलने पर वाड़ या दीवाल वगैरह हटा कर मर्यादित क्षेत्र या घर में मिला लेना भी क्षेत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम अतिचार है । व्रत की मर्यादा का ध्यान रख कर व्रती ऐसा करता है । इस लिये वह अतिचार है । इससे देशतः व्रत खंडित हो जाता है ।

(२) हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रमः—घटित ( घडे हुए ) और अघटित ( बिना घडे ) हुए सोना, चाँदी के परिमाण का एवं हीरा, पन्ना, जवाहरात, आदि के प्रमाण का अतिक्रमण करना हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है । अनुपयोग या अतिक्रम आदि की अपेक्षा से यह अतिचार है । जान बूझ कर मर्यादा का उल्लंघन करना अनाचार है अथवा नियत काल की मर्यादा वाले श्रावक पर राजा प्रसन्न होने से श्रावक को मर्यादा से अधिक मोने चाँदी आदि की प्राप्ति हो । उस समय व्रत भङ्ग के डर से श्रावक का परिमाण से अधिक सोने-चाँदी को नियत अवधि के लिये, अवधि पूर्ण होने पर वापिस ले लूँगा । इस भावना से, दूररे के पास रखना हिरण्य सुवर्ण प्रमाणातिक्रम अतिचार है ।

(३) द्विपद चतुष्पद प्रमाणातिक्रमः—द्विपद-सन्तान, स्त्री, दास-दामी, तोता, मैना वगैरह तथा चतुष्पद-गाय, घोड़ा, ऊँट, हाथी आदि के परिमाण का उल्लंघन करना द्विपद चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम अतिचार है । अनुपयोग एवं अतिक्रम आदि की अपेक्षा से यह अतिचार है अथवा

एक साल, आदि नियमित काल के लिये द्विपद-चतुष्पद की मर्यादा वाले श्रावक का यह सोच कर कि मर्यादा के बीच में गाय, घोड़ी आदि के बच्चा होने से मेरा व्रत भङ्ग हो जायगा । इस लिये नियत समय वीत जाने पर गर्भ धारण करवाना, जिससे कि मर्यादा का काल बीत जाने पर ही उनके बच्चे हों, द्विपद चतुष्पद-प्रमाणातिक्रम अतिचार है ।

- (४) धन धान्य प्रमाणातिक्रम—गणिम, धरिम, मेय, परिच्छेद्य रूप चार प्रकार का धन एवं सतरह या चौबीस प्रकार के धान्य की मर्यादा का उल्लंघन करना धन-धान्य-प्रमाणातिक्रम अतिचार है । वह भी अनुपयोग एवं अतिक्रम आदि की अपेक्षा से अतिचार है अथवा मर्यादा से अधिक धन धान्य की प्राप्ति होने पर उसे स्वीकार कर लेना परन्तु व्रत-भङ्ग के डर से उन्हें, धान्यादि के विक्रम होने पर ले लूँगा यह सोच कर, दूसरे के घर पर रहने देना धन-धान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है अथवा परिमित काल की मर्यादा वाले श्रावक के मर्यादित धन-धान्य से अधिक की समाप्ति पर्यन्त दूसरे के यहाँ रख देना धन-धान्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है ।

- (५) कुप्य प्रमाणातिक्रम—कुप्य—सोने चाँदी, के सिवाय अन्य धातु ( कांसी, पीतल, ताम्बा, लोहा आदि धातु की तथा इन से बने हुए बर्तन आदि की ) आसन, शयन, वस्त्र, कम्बल, बर्तन वगैरह घर के सामान की मर्यादा का अतिक्रमण करना कुप्य प्रमाणातिक्रम

अतिचार है। यह भी अनुपयोग एवं अतिक्रम आदि की अपेक्षा में अतिचार है।

अथवा:—

नियमित कुप्य से अधिक संख्या में कुप्य की प्राप्ति होने पर दो दो को मिला कर वस्तुओं को बढ़ी करा देना और नियमित संख्या कायम रखना कुप्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है।

अथवा:—

नियत काल के लिये कुप्य परिमाण वाले श्रावक का मर्यादित कुप्य से अधिक कुप्य की प्राप्ति होने पर उसी समय ग्रहण न करते हुए सामने वाले से यह कहना कि अमुक समय बीत जाने पर मैं तुमसे यह कुप्य ले लूँगा। तुम और किसी को न देना। यह कुप्य प्रमाणातिक्रम अतिचार है। (सपासक दशांग सूत्र अ० १ सू० ७)

(हरिभद्रिय आवश्यक अ० ६ पृष्ठ ८२५)

(धर्म संग्रह अधि० २ श्लोक ४७-४८ पृष्ठ १०५ से १०७)

३०६—दिशा परिमाण व्रत के पाँच अतिचार:—

- (१) ऊर्ध्व दिशा परिमाणातिक्रम।
- (२) अधो दिशा परिमाणातिक्रम।
- (३) तिर्यक् दिशा परिमाणातिक्रम।
- (४) क्षेत्र वृद्धि।
- (५) स्मृत्यन्तर्धान (स्मृतिभ्रंश)।

(१) ऊर्ध्वदिशा परिमाणातिक्रम:—ऊर्ध्व अर्थात् ऊंची दिशा

- के परिमाण को उल्लंघन करना ऊर्ध्व दिशा परिमाणान्तिक्रम अतिचार है ।
- (२) अश्वो दिशा परिमाणान्तिक्रमः—अश्वः अर्थात् निची दिशा का परिमाण उल्लंघन करना अश्वो दिशा परिमाणान्तिक्रम अतिचार है ।
- (३) तिर्यक्दिशा परिमाणान्तिक्रमः—तिर्यक् दिशा का परिमाण उल्लंघन करना तिर्यक्दिशा परिमाणान्तिक्रम अतिचार है ।  
अनुपयोग यानी अज्ञातवानी में ऊर्ध्व, अश्वः और तिर्यक् दिशा की मर्यादा का उल्लंघन करना अतिचार है । जान वृत्तकर परिमाण में आगे जाना अतिचार सेवन है ।
- (४) क्षेत्र वृद्धिः—एक दिशा का परिमाण बढ़ा कर दूसरी दिशा का परिमाण बढ़ा देना क्षेत्र वृद्धि अतिचार है । इस प्रकार क्षेत्र वृद्धि में दोनों दिशाओं के परिमाण का योग बढ़ी रहता है । इस लिए व्रत का पालन ही होता है । इस प्रकार व्रत की अपेक्षा होने में यह अतिचार है ।
- (५) स्मृत्यन्तर्धान (स्मृतिभ्रंश)ः—ग्रहण किए हुए परिमाण का स्मरण न रहना स्मृतिभ्रंश अतिचार है । जैसे-किमी ने पूर्व दिशा में १०० योजन की मर्यादा कर रनी है । परन्तु पूर्व दिशा में चलते समय उसे मर्यादा याद न रही । वह सोचने लगा कि मैंने पूर्व दिशा में ५० योजन की मर्यादा की है या १०० योजन की ? इस प्रकार स्मृति न रहने से मन्देह पड़ने पर पचाम योजन में भी आगे जाना अतिचार है ।

३०७—उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत के पाँच अतिचारः—

- (१) सचित्ताहार । (२) सचित्त प्रतिवद्धाहार ।  
 (३) अपक्व औषधि भक्षण । (४) दुष्पक्व औषधि भक्षण ।  
 (५) तुच्छ औषधि भक्षण ।

(१) सचित्ताहार—सचित्त त्यागी श्रावक का सचित्त वस्तु जैसे नमक, पृथ्वी, पानी, वनस्पति, कच्चा फल, कन्द-मूल, हरी कच्ची इत्यादि का आहार करना एवं सचित्त वस्तु का परिमाण करने वाले श्रावक का परिमाणोपरान्त सचित्त वस्तु का आहार करना सचित्ताहार करना है । बिना जाने उपरोक्त रीति से सचित्ताहार करना अतिचार है और जान बूझ कर इसका सेवन करना अनाचार है ।

(२) सचित्त प्रतिवद्धाहारः—सचित्त वृक्षादि से सम्बद्ध अचित्त गोंद या पक्के फल बगैरह खाना अथवा सचित्त बीज से सम्बद्ध अचेतन खजूर बगैरह का खाना या बीज सहित फल को, यह सोच कर कि इसमें अचित्त अंश खा लूँगा और सचित्त बीजादि अंश को फेंक दूँगा, खाना सचित्त प्रतिवद्धाहार अतिचार है ।

सर्वथा सचित्त त्यागी श्रावक के लिए सचित्त वस्तु में छूती हुई किसी भी अचित्त वस्तु को खाना अतिचार है एवं जिसने सचित्त की मर्यादा कर रखी है । उसके लिए मर्यादा उपरान्त सचित्त वस्तु से संघटा चाली (सम्बन्ध रखने वाली) अचित्त वस्तु को खाना अतिचार है । व्रत की अपेक्षा होने से यह अतिचार है ।



- (३) अपक्व औषधि भक्षणः—अग्नि में बिना पकी हुई शालि आदि औषधि का भक्षण करना अपक्व औषधि भक्षण अतिचार है। अनुपयोग से खाने में यह अतिचार है।
- (४) दुष्पक्व औषधि भक्षणः—दुष्पक्व (बुरी तरह से पकाई हुई) अग्नि में अधपकी औषधि का पकी हुई जान कर भक्षण करना दुष्पक्व औषधि भक्षण अतिचार है।

अपक्व औषधि भक्षण एवं दुष्पक्व औषधि भक्षण अतिचार भी सर्वथा सचित्र त्यागी के लिए है। सचित्त औषधि की मर्यादा वाले के लिए तो मर्यादोपरान्त अपक्व एवं दुष्पक्व औषधि का भक्षण करना अतिचार है।

- (५) तुच्छौषधि भक्षण—तुच्छ अर्थात् असार औषधियाँ जैसे मूँग की कच्ची फली, सीताफल, ( गन्डेरी-गन्ना ) वर्गरह को खाना तुच्छौषधि भक्षण अतिचार है। इन्हें खाने में बड़ी विराधना होती है और अल्प तृप्ति होती है। इस लिए विवेकशील अचित्तभोजी श्रावक को उन्हें अचित्र करके भी न खाना चाहिये। वैसा करने पर भी वह अतिचार का भागी है।

( उपासक दशाग सूत्र अध्यायन १ सू० ७ )

( प्रवचनसारोद्धार द्वार ६ गाथा २८१ )

भोजन की अपेक्षा से ये पाँच अतिचार हैं। भोगोपभोग सामग्री की प्राप्ति के साधन भूत द्रव्य के उपार्जन के लिये भी श्रावक कर्म अर्थात् वृत्ति व्यापार की मर्यादा करता है। वृत्ति-व्यापार की अपेक्षा श्रावक को खर कर्म अर्थात् कठोर कर्म का त्याग करना चाहिये।

उत्कट ज्ञानावरणीयादि अशुभ कर्म के कारण भूत कर्म एवं व्यापार को कर्मादान कहते हैं। इंगालकर्म, वन कर्म आदि पन्द्रह कर्मादान हैं। ये कर्म की अपेक्षा सातवें व्रत के अतिचार हैं। प्रायः ये लोक व्यवहार में भी निन्द्य गिने जाते हैं और महा पाप के कारण होने से दुर्गति में ले जाने वाले हैं। अतः श्रावक के लिये त्याज्य हैं।

नोटः—पन्द्रह कर्मादान का विवेचन आगे पन्द्रहवें बोल में दिया जायगा।

३०८—अनर्थदण्ड विरमण व्रत के पाँच अतिचार—

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| (१) कन्दर्प ।              | (२) कौत्कुच्य ।     |
| (३) मौस्र्य ।              | (४) संयुक्ताधिकरण । |
| (५) उपभोग परिभोगातिरिक्त । |                     |

(१) कन्दर्पः—शाम उत्पन्न करने वाले वचन का प्रयोग करना, राग के आवेश में हास्य मिश्रित मोहोदीपक मजाक करना कन्दर्प अतिचार है।

(२) कौत्कुच्यः—भांडों की तरह भौएं, नेत्र, नासिका, श्रोष्ठ, मुख, हाथ, पैर आदि अंगों को विकृत बना कर दूसरों को हंसाने वाली चेष्टा करना कौत्कुच्य अतिचार है।

(३) मौस्र्यः—ठिठ्ठी के साथ असत्य, उट पटाँग वचन बोलना मौस्र्य अतिचार है।

(४) संयुक्ताधिकरणः—कार्य करने में समर्थ ऐमे उखल और मूमल, शिला और लोढ़ा, हाल और फाल, गाड़ी और जूआ, धनुष और नाण, बसूला और कुल्हाड़ी, चक्की

आदि दुर्गति में ले जाने वाले अधिकरणों को, जो साथ ही काम आते हैं, एक साथ रखना संयुक्ताधिकरण अतिचार है। जैसे-ऊखल के बिना मूसल काम नहीं देता और न मूसल के बिना ऊखल ही। इसी प्रकार शिला के बिना लोढ़ा और लोढ़े के बिना शिला भी काम नहीं देती। इस प्रकार के उपकरणों को एक साथ न रख कर विवेकी श्रावक को जुदे जुदे रखना चाहिये।

(५) उपभोग परिभोगातिरिक्त (अतिरेक):—उबटन, आँवला, तैल, पुष्प, वस्त्र, आभूषण तथा अशन, पान, खादिम, स्वादिम आदि उपभोग परिभोग की वस्तुओं को अपने एवं आत्मीय जनों के उपयोग से अधिक रखना उपभोग परिभोगातिरिक्त अतिचार है।

( उपासक दशांग सूत्र अ० १ सू० ७ )

( हरिभङ्गीय आवश्यक अ० ६ पृष्ठ ८२६-८३० )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६ गाथा २८२ )

अपध्यानाचरित, प्रमादाचरित, हिंस्र प्रदान और पाप कर्मोपदेश ये चार अनर्थदण्ड हैं। अनर्थदण्ड से विरत होने वाला श्रावक इन चारों अनर्थदण्ड के कार्यों से निवृत्त होता है। इनसे विरत होने वाले के ही ये पाँच अतिचार हैं। उक्त पाँचों अतिचारों में कहीं हुई क्रिया का असावधानी से चिन्तन करना अपध्यानाचरित विरति का अतिचार है। कन्दर्प, कौत्सुक्य एवं उपभोग परिभोगातिरेक ये तीनों प्रमादाचरित-विरति के अतिचार हैं।

संयुक्ताधिकरण, हिंस्रप्रदान विरति का अतिचार है।  
मौख्य्य, पाप कर्मोपदेश विरति का अतिचार है।

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६ गाथा २८२ की टीका )

३०६—सामायिक व्रत के पाँच अतिचार—

- (१) मनोदुष्प्रणिधान ।
  - (२) वाग्दुष्प्रणिधान ।
  - (३) काया दुष्प्रणिधान ।
  - (४) सामायिक का स्मृत्यकरण ।
  - (५) अनवस्थित सामायिक करण ।
- (१) मनोदुष्प्रणिधानः—मन का दुष्ट प्रयोग करना अर्थात् मन को बुरे व्यापार में लगाना, जैसे—सामायिक करके घर सम्बन्धी अच्छे बुरे कार्यों का विचार करना, मनोदुष्प्रणिधान अतिचार है ।
- (२) वाग्दुष्प्रणिधानः—वचन का दुष्ट प्रयोग करना, जैसे असभ्य, कठोर एवं सावध वचन कहना वाग्दुष्प्रणिधान अतिचार है ।
- (३) काय दुष्प्रणिधानः—बिना देखी, बिना पूंजी जमीन पर हाथ, पैर आदि अवयव रखना, काय दुष्प्रणिधान अतिचार है ।
- (४) सामायिक का स्मृत्यकरणः—सामायिक क्री स्मृति न रखना अर्थात् उपयोग न रखना सामायिक का स्मृत्यकरण अतिचार है । जैसे—गुप्ते इस समय सामायिक करना चाहिये । सामायिक मैंने की या न की आदि प्रबल प्रमाद वश भूल जाना ।

(५) अनवस्थित सामायिक करणः—अन्यवस्थित रीति से सामायिक करना अनवस्थित सामायिक करण अतिचार है।

जैसे—अनियत सामायिक करना, अल्पकाल की सामायिक करना, करने के बाद ही सामायिक छोड़ देना, जैसे-तैसे ही अस्थिरता से सामायिक पूरी करना या अनादर से सामायिक करना।

अनुपयोग से प्रथम तीन अतिचार हैं और प्रमाद बहुलता से चौथा, पाँचवाँ अतिचार है।

( उपासक दशाग सूत्र अ० १ सूत्र ७ )

( हरिभद्रीय आवश्यक अ० ६ पृष्ठ ८३१ )

३१०—देशावकाशिक व्रत के पाँच अतिचारः—

(१) आनयन-प्रयोग। (२) प्रेष्यप्रयोग।

(३) शब्दानुपात। (४) रूपानुपात।

(५) वहिः पुद्गल प्रक्षेप।

(१) आनयन प्रयोगः—मर्यादा किये हुए क्षेत्र से बाहर स्वयं न जा सकने से दूसरे को, तुम यह चीज लेते आना इस प्रकार संदेशादि देकर सचित्तादि द्रव्य भंगाने में लगाना आनयन प्रयोग अतिचार है।

(२) प्रेष्य प्रयोग—मर्यादित क्षेत्र से बाहर स्वयं जाने से मर्यादा का अतिक्रम हो जायगा। इस भय से नौकर, चाकर आदि आज्ञाकारी पुरुष को भेज कर कार्य्य कराना प्रेष्य प्रयोग अतिचार है।

(३) शब्दानुपात—अपने घर की बाड़ या चहारदीवारी के अन्दर के नियमित क्षेत्र में बाहर कार्य्य होने पर

व्रती का व्रत भङ्ग के भय से स्वयं बाहर न जाकर निकट-वर्ती लोगों को छींक, खांसी आदि शब्द द्वारा ज्ञान कराना शब्दानुपात अतिचार है ।

- (४) रूपानुपात—नियमित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन होने पर दूसरों को अपने पास बुलाने के लिए अपना या पदार्थ विशेष का रूप दिखाना रूपानुपात अतिचार है ।
- (५) वहिः पुद्गल प्रक्षेपः—नियमित क्षेत्र से बाहर प्रयोजन होने पर दूसरों को जताने के लिये देला, कङ्कर आदि फेंकना वहिः पुद्गल प्रक्षेप अतिचार है ।

पूरा विवेक न होने से तथा सहसाकार अनुपयोगादि में पहले के दो अतिचार हैं । मायापरता तथा व्रत सापेक्षता में पिछले तीन अतिचार हैं ।

( उपासक दशाग अ० १ सू० ७ )

( धर्म संग्रह अक्षर २ श्लोक ५६ पृष्ठ ११४-११५ )

( हरिभद्रिय आवश्यक अ० ६ पृष्ठ ८३४ )

३११—प्रतिपूर्ण ( परिपूर्ण ) पौषध व्रत के पाँच अतिचारः—

- (१) अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारक ।
- (२) अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारक ।
- (३) अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रस्रवण भूमि ।
- (४) अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमि ।
- (५) पौषध का सम्यक् अपालन ।

(१) अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारकः—शय्या संस्तारक का चक्षु से निरीक्षण न करना या अन्यमनस्क

होकर असावधानी से निरीक्षण करना अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित शय्या संस्तारक अतिचार है ।

- (२) अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारकः—शय्या संस्तारक (संथारे) को न पूंजना या अनुपयोग पूर्वक असावधानी से पूंजना अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारक अतिचार है ।
- (३) अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रस्रवण भूमिः—मल, मूत्र आदि परिठवने के स्थण्डिल को न देखना या अनुपयोग पूर्वक असावधानी से देखना अप्रत्युपेक्षित दुष्प्रत्युपेक्षित उच्चार प्रस्रवण भूमि अतिचार है ।
- (४) अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमिः—मल, मूत्र आदि परिठवने के स्थण्डिल को न पूंजना या विना उपयोग असावधानी से पूंजना अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमि अतिचार है ।
- (५) पौषधोपवास का सम्यक् अपालनः—आगमोक्त विधि से स्थिर चित्त होकर पौषधोपवास का पालन न करना, पौषध में आहार, शरीर शुश्रूषा, अत्रह तथा सावद्य व्यापार की अभिलाषा करना पौषधोपवास का सम्यक् अपालन अतिचार है ।

व्रती के प्रमादी होने से पहले के चार अतिचार है । अतिचारोक्त शय्या संस्तारक तथा उच्चार प्रस्रवण भूमि का उषभोग करना अतिचार का कारण होने से ये अतिचार

कहे गये हैं। भाव से विरति का बाधक होने से पांचवां अतिचार है।

(उपासक दशाग अ० १ सू० ७)

३१२—अतिथि संविभाग व्रत के पांच अतिचारः—

(१) सचित्त निक्षेप। (२) सचित्त पिधान।

(३) कालातिक्रम। (४) पर व्यपदेश।

(५) मत्सरिता।

(१) सचित्त निक्षेपः—साधु को नहीं देने की बुद्धि से कपट पूर्वक सचित्त धान्य आदि पर अचित्त अन्नादि का रखना सचित्त निक्षेप अतिचार है।

(२) सचित्त पिधानः—साधु को नहीं देने की बुद्धि से कपट पूर्वक अचित्त अन्नादि को सचित्त फल आदि से ढंकता सचित्तपिधान अतिचार है।

(३) कालातिक्रमः—उचित्त भिन्ना काल का अतिक्रमण करना कालातिक्रम अतिचार है। काल का अतिक्रम हो जाने पर यह सोच कर दान के लिए उद्यत होना कि अब साधु जी आहार तो लेंगे नहीं, पर वह जानेंगे कि यह श्रावक दातार है।

(४) पर व्यपदेशः—आहारादि अपना होने पर भी न देने की बुद्धि से उसे दूसरे का बताना परव्यपदेश अतिचार है।

(५) मत्सरिताः—अमुक पुरुष ने दान दिया है। क्या मैं उससे कृपण या हीन हूँ? इस प्रकार ईर्ष्याभाव से दान देने में प्रवृत्ति करना मत्सरिता अतिचार है।



अथवा:-

मांगने पर कुपित होना और होते हुए भी न देना, मत्सरिता अतिचार है।

अथवा:-

कषाय क्लुपित चित्त से साधु को दान देना मत्सरिता अतिचार है।

(धर्म० सं० अधि० २ श्लो० ४३ सं ५८ पृ० १०० से ११६)

(उपासक दशांग अ० १ सू० ७)

(हरिभद्रिय आवश्यक अ० ६ पृष्ठ ८३७-८३८)

३१३—अपथिम मारणान्तिकी संलेखना के पाँच अतिचारः—

अन्तिम मरण समय में शरीर और कषयादि को कृश करने वाला तप विशेष अपथिम मारणान्तिकी संलेखना है। इसके पाँच अतिचार हैं:-

- (१) इहलोकाशंसा प्रयोग । (२) परलोकाशंसा प्रयोग ।  
 (३) जीविताशंसा प्रयोग । (४) मरणाशंसा प्रयोग ।  
 (५) कामभोगाशंसा प्रयोग ।

(१) इहलोकाशंसा प्रयोग—इहलोक अर्थात् मनुष्य लोक विषयक इच्छा करना। जैसे-जन्मान्तर में मैं राजा, मन्त्री या सेठ होऊँ, ऐसी चाहना करना-इहलोकाशंसा प्रयोग अतिचार है।

(२) परलोकाशंसा प्रयोगः—परलोक विषयक अभिलाषा करना, जैसे—मैं जन्मान्तर में इन्द्र या देव होऊँ, ऐसी चाहना करना, परलोकाशंसा प्रयोग अतिचार है।

- (३) जीविताशंसा प्रयोगः—बहु परिवार एवं लोक प्रशंसा आदि कारणों से अधिक जीवित रहने की इच्छा करना जीविताशंसा प्रयोग है ।
- (४) मरणाशंसा प्रयोगः—अनशन करने पर प्रशंसा आदि न देख कर या लुधा आदि कष्ट से पीडित होकर शीघ्र मरने की इच्छा करना मरणाशंसा प्रयोग है ।
- (५) कामभोगाशंसा प्रयोग—मनुष्य एवं देवता सम्बन्धी काम अर्थात् शब्द, रूप एवं भोग अर्थात् गन्ध, रस, स्पर्श की इच्छा करना कामभोगाशंसा प्रयोग है ।

(उपा० द० अ० १ सू० ७) (धर्म सं० अधि० २ श्लो० ६६ पृष्ठ २३०)  
(हरि० श्राव० अर्ध० ६ पृष्ठ ८३८)

३१४—श्रावक के पांच अभिगम—उपाश्रय की सीमा में प्रवेश करते ही श्रावक को पांच अभिगमों का पालन करना चाहिये । साधु जी के सन्मुख जाते समय पाले जाने वाले नियम अभिगम कहलाते हैं । वे ये हैं:—

- (१) सचित्तद्रव्य, जैसे-पुष्प, ताम्बूल आदि का त्याग करना ।  
(२) अचित्त द्रव्य, जैसे:—वस्त्र वगैरह मर्यादित करना ।  
(३) एक पट वाले दुपट्टे का उत्तरासंग करना ।  
(४) मुनिराज के दृष्टि गोचर होते ही हाथ जोड़ना ।  
(५) मन को एकाग्र करना ।

( भगवती शतक २ उद्देशा ५ सूत्र १०६ ) .

३१५—चारित्र की व्याख्या और भेदः—चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय, उपशम या क्षयोपशम से होने वाले विरति परिणाम को चारित्र कहते हैं ।

अन्य जन्म में ग्रहण किये हुए कर्म संचय को दूर करने के लिये मोक्षामिलायी आत्मा का सर्व सावद्य योग से निवृत्त होना चारित्र कहलाता है ।

चारित्र के पाँच भेदः—

- (१) सामायिक चारित्र । (२) छेदोपस्थापनिक चारित्र ।
- (३) परिहार विशुद्धि चारित्र । (४) सूक्ष्मसम्पराय चारित्र ।
- (५) यथाख्यातचारित्र ।

(१) सामायिक चारित्र—सम अर्थात् राग द्वेष रहित आत्मा-के प्रतिक्षण अपूर्व अपूर्व निर्जरा से होने वाली आत्म-विशुद्धि का प्राप्त होना सामायिक है ।

भवाटवी के भ्रमण से पैदा होने वाले क्लेश को प्रतिक्षण नाश करने वाली, चिन्तामणि, कामधेनु एवं कल्प वृक्ष के सुखों का भी निरस्कार करने वाली, निरुपम सुख देने वाली ऐसी ज्ञान, दर्शन, चारित्र पर्यायों को प्राप्त कराने वाले, राग द्वेष रहित आत्मा के क्रियानुष्ठान को सामायिक चारित्र कहते हैं ।

सर्व सावद्य व्यापार का त्याग करना एवं निरवद्य व्यापार का मेवन करना सामायिक चारित्र है ।

यों तो चारित्र के सभी भेद सावद्य योग विरतिरूप हैं। इस लिये सामान्यतः सामायिक ही हैं । किन्तु चारित्र के दूसरे भेदों के साथ छेद आदि विशेषण होने से नाम और अर्थ से भिन्न भिन्न बताये गये हैं । छेद आदि विशेषणों के न होने से पहले चारित्र का नाम सामान्य रूप से सामायिक ही दिया गया है ।

सामायिक के दो भेद—इत्वर कालिक सामायिक और यावत्कथिक सामायिक ।

इत्वरकालिक सामायिक—इत्वर काल का अर्थ है अल्प काल अर्थात् भविष्य में दूसरी बार फिर सामायिक व्रत का व्यपदेश होने से जो अल्प काल की सामायिक हो, उसे इत्वर-कालिक सामायिक कहते हैं । पहले एवं अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् के तीर्थ में जब तक शिष्य में महाव्रत का आरोपण नहीं किया जाता तब तक उस शिष्य के इत्वर कालिक सामायिक समझनी चाहिये ।

यावत्कथिक सामायिकः—यावज्जीवन की सामायिक यावत्कथिक सामायिक कहलाती है । प्रथम एवं अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान् के सिवाय शेष बार्हस तीर्थङ्कर भगवान् एवं महाविदेह क्षेत्र के तीर्थङ्करों के साधुओं के यावत्कथिक सामायिक होती है । क्योंकि इन तीर्थङ्करों के शिष्यों को दूसरी बार सामायिक व्रत नहीं दिया जाता ।

(२) छेदोपस्थापनिक चारित्र—जिस चारित्र में पूर्व पर्याय का छेद एवं महाव्रतों में उपस्थापन-आरोपण होता है उसे छेदोपस्थापनिक चारित्र कहते हैं ।

अथवाः—

पूर्व पर्याय का छेद करके जो महाव्रत दिये जाते हैं। उसे छेदोपस्थापनिक चारित्र कहते हैं ।

यह चारित्र भरत, ऐरावत क्षेत्र के प्रथम एवं चरम-तीर्थङ्करों के तीर्थ में ही होता है शेष तीर्थङ्करों के तीर्थ में नहीं होता ।

छेदोपस्थापनिक चारित्र के दो भेद हैं—

(१) निरतिचार छेदोपस्थापनिक ।

(२) सातिचार छेदोपस्थापनिक ।

(१) निरतिचार छेदोपस्थापनिकः— इत्वर सामायिक वाले शिष्य के एवं एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाने वाले साधुओं के जो व्रतों का आरोपण होता है। वह निरतिचार छेदोपस्थापनिक चारित्र है।

(२) सातिचार छेदोपस्थापनिकः—मूल गुणों का घात करने वाले साधु के जो व्रतों का आरोपण होता है। वह सातिचार छेदोपस्थापनिक चारित्र है।

(३) परिहार विशुद्धि चारित्रः—जिस चारित्र में परिहार तप विशेष से कर्म निर्जरा रूप शुद्धि होती है। उसे परिहार विशुद्ध चारित्र कहते हैं।

अथवाः—

जिस चारित्र में अनेपणीयादि का परित्याग विशेष रूप से शुद्ध होता है। वह परिहार विशुद्धि चारित्र है।

स्वयं तीर्थकर भगवान् के समीप, या तीर्थङ्कर भगवान् के समीप रह कर पहले जिसने परिहार विशुद्धि चारित्र अङ्गीकार किया है उसके पास यह चारित्र अङ्गीकार किया जाता है। नव साधुओं का गण परिहार तप अङ्गीकार करता है। इन में से चार तप करते हैं जो पारिहारिक कहलाते हैं। चार वैयावृत्त्य करते हैं। जो अनुपारिहारिक कहलाते हैं और एक कल्पस्थित अर्थात्

गुरु रूप में रहता है जिसके पास पारिहारिक एवं अनुपारिहारिक साधु आलोचना, वन्दना, प्रत्याख्यान आदि करते हैं। पारिहारिक साधु ग्रीष्म ऋतु में जघन्य एक उपवास, मध्यम बेला (दो उपवास) और उत्कृष्ट तेला (तीन उपवास) तप करते हैं। शिशिर काल में जघन्य बेला मध्यम तेला और उत्कृष्ट (चार उपवास) चौला तप करते हैं। वर्षा काल में जघन्य तेला, मध्यम चौला और उत्कृष्ट पचौला तप करते हैं। शेष चार आनुपारिहारिक एवं कल्पस्थित (गुरु रूप) पाँच साधु प्रायः नित्य भोजन करते हैं। ये उपवास आदि नहीं करते। आर्यंघिल के सिवाय ये और भोजन नहीं करते। अर्थात् सदा आर्यंघिल ही करते हैं। इस प्रकार पारिहारिक साधु छः मास तक तप करते हैं। छः मास तक तप कर लेने के बाद वे अनुपारिहारिक अर्थात् वैयावृत्त्य करने वाले हो जाते हैं और वैयावृत्त्य करने वाले (आनुपारिहारिक) साधु पारिहारिक बन जाते हैं अर्थात् तप करने लग जाते हैं। यह क्रम भी छः मास तक पूर्ववत् चलता है। इस प्रकार आठ साधुओं के तप कर लेने पर उन में से एक गुरु पद पर स्थापित किया जाता है और शेष सात वैयावृत्त्य करते हैं और गुरु पद पर रहा हुआ साधु तप करना शुरू करता है। यह भी छः मास तक तप करता है। इस प्रकार अठारह मास में यह परिहार तप का कल्प पूर्ण होता है। परिहार तप पूर्ण होने पर वे साधु या तो इसी कल्प को पुनः प्रारम्भ करते हैं या जिन कल्प धारण कर

लेते हैं या वापिस गच्छ में आ जाते हैं। यह चारित्र छेदोपस्थापनिक चारित्र वालों के ही होता है दूसरों के नहीं।

निर्विश्यमानक और निर्विष्टकायिक के भेद से परिहार विशुद्धि चारित्र दो प्रकार का है।

तप करने वाले पारिहारिक साधु निर्विश्यमानक कहलाते हैं। उनका चारित्र निर्विश्यमानक परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है।

तप करके वैयावृत्त्य करने वाले अनुपारिहारिक साधु तथा तप करने के बाद गुरु पद रहा हुआ साधु निर्विष्टकायिक कहलाता है। इनका चारित्र निर्विष्टकायिक परिहार विशुद्धि चारित्र कहलाता है।

(-विशे० गा० १२७० - १२७६)

(४) सूक्ष्म सम्पराय चारित्रः—सम्पराय का अर्थ कपाय होता है। जिस चारित्र में सूक्ष्म सम्पराय अर्थात् संज्वलन लोभ का सूक्ष्म अंश रहता है। उसे सूक्ष्म सम्पराय चारित्र कहते हैं।

विशुद्धयमान और संक्लिरयमान के भेद से सूक्ष्म सम्पराय चारित्र के दो भेद हैं।

क्षपक श्रेणी एवं उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले साधु के परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध रहने से उनका सूक्ष्म सम्पराय चारित्र विशुद्धयमान कहलाता है।

उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परिणाम संक्लेश युक्त होते हैं। इस लिये उनका सूक्ष्मसम्पराय चारित्र संक्लिरयमान कहलाता है।

(५) यथाख्यात चारित्र—सर्वथा कपाय का उदय न होने से अतिचार रहित पारमार्थिक रूप से प्रसिद्ध चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है अथवा अकपायी साधु का निरतिचार यथार्थ चारित्र यथाख्यात चारित्र कहलाता है।

छद्मस्थ और केवली के भेद से यथाख्यात चारित्र के दो भेद हैं अथवा उपशान्त मोह और क्षीण मोह या प्रतिपाती और अप्रतिपाती के भेद से इसके दो भेद हैं।

सयोगी केवली और अयोगी केवली के भेद से केवली यथाख्यात चारित्र के दो भेद हैं।

( ठाण्ण ५ उद्देशा २ सूत्र ४२८ )

( अनुयोगद्वार सूत्र १४४ पृष्ठ २२० )

( अभिधान राजेन्द्र कोप भाग ३ तथा ७  
सामाह्व और चारित्त शब्द )

( विशेषावश्यक भाष्य गाथा १२६०—१२७० )

३१६—महाव्रत की व्याख्या और उसके भेदः—

देशविरति श्रावक की अपेक्षा महान् गुणवान् साधु मुनिराज के सर्वविरति रूप व्रतों को महाव्रत कहते हैं।

अथवाः—

श्रावक के अणुव्रत की अपेक्षा साधु के व्रत बड़े हैं।

इस लिये ये महाव्रत कहलाते हैं।

महाव्रत पाँच हैंः—

(१) प्राणातिपात विरमण महाव्रत ।

(२) मृषावाद विरमण महाव्रत ।

(३) अदत्तादान विरमण महाव्रत ।



(४) मैथुन-विरमण महाव्रत ।

(५) परिग्रह विरमण महाव्रत ।

(१) प्राणातिपात विरमण महाव्रतः—प्रमाद पूर्वकं सूक्ष्म और बादर, त्रस और स्थावर रूप समस्त जीवों के पाँच इन्द्रिय, मन, वचन, काया, श्वासोच्छ्वास और आयु रूप दश प्राणों में से किसी का अतिपात (नाश) करना प्राणातिपात है । सम्यग्ज्ञान एव श्रद्धापूर्वक जीवन पर्यन्त प्राणातिपात से तीन करण तीन योग से निवृत्त होना प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रत है ।

(२) मृपावाद विरमण महाव्रतः—प्रियकारी, पथ्यकारी एवं सत्य वचन को छोड़ कर कथोय, भय, हास्य आदि के वश असत्य, अप्रिय, अहितकारी वचन कहना मृपावाद है । सूक्ष्म, बादर के भेद से असत्य वचन दो प्रकार का है । सद्भाव प्रतिषेध, असद्भावोद्भावन, अर्थान्तर और गर्हा के भेद से असत्य वचन चार-प्रकार का भी है ।

नोटः—असत्य वचन के चार भेद और उनकी व्याख्या बोल नम्बर २७० में दे दी गई है—

चोर को चोर कहना, कोढ़ी को कोढ़ी कहना, काण को काणा कहना आदि अप्रिय वचन हैं । क्या जंगल में तुमने मृग देखे ? शिकारियों के यह पूछने पर मृग देखने वाले पुरुष का उन्हें विधि-रूप में उत्तर-देना अहित वचन है । उक्त अप्रिय एवं अहित वचन व्यवहार में सत्य होने पर भी पर पीड़ाकारी होने से एवं प्राणियों की हिंसा

जनित पाप के हेतु होने से सावद्य है। इस लिये हिंसा युक्त होने से वास्तव में असत्य ही है। ऐसे मृषावाद से सर्वथा जीवन पर्यन्त तीन करण तीन योग से निवृत्त होना मृषावाद विरमण रूप द्वितीय महाव्रत है।

(३) अदत्तादान विरमण महाव्रत—कहीं पर भी ग्राम, नगर, अरण्य आदि में सचित्त, अचिन्त, अल्प, बहु, अणु, स्थूल आदि वस्तु को, उसके स्वामी की बिना आज्ञा लेना अदत्तादान है। यह अदत्तादान स्वामी, जीव, तीर्थङ्कर एवं गुरु के भेद से चार प्रकार का होता है—

(१) स्वामी से बिना दी हुई तृण, काष्ठ आदि वस्तु लेना स्वामी अदत्तादान है।

(२) कोई सचित्त वस्तु स्वामी ने दे दी हो, परन्तु उस वस्तु के अधिष्ठाता जीव की आज्ञा बिना उसे लेना जीव अदत्तादान है। जैसे-माता पिता या सरंजक द्वारा पुत्रादि शिष्य भिक्षा रूप में दिये जाने पर भी उन्हें उनकी इच्छा बिना दीक्षा लेने के परिणाम न होने पर भी उनकी अनुमति के बिना उन्हें दीक्षा देना जीव अदत्तादान है। इसी प्रकार सचित्त पृथ्वी आदि स्वामी द्वारा दिये जाने पर भी पृथ्वी-शरीर के स्वामी जीव की आज्ञा न होने से उसे भोगना जीव अदत्तादान है। इस प्रकार सचित्त वस्तु के भोगने से प्रथम महाव्रत के साथ साथ तृतीय महाव्रत का भी भङ्ग होता है।

(३) तीर्थङ्कर से प्रतिषेध किये हुए आधाकर्मादि आहार ग्रहण करना तीर्थङ्कर अदत्तादान है।

(४) स्वामी द्वारा निर्दोष आहार दिये जाने पर भी गुरु की आज्ञा प्राप्त किये बिना उसे भोगना गुरु अदत्तादान है।

किसी भी क्षेत्र एवं वस्तु विषयक उक्त चारों प्रकार के अदत्तादान से सदा के लिये तीन करण तीन योग से निवृत्त होना अदत्तादान विरमण रूप तीसरा महाव्रत है।

(४) मैथुन विरमण महाव्रत—देव, मनुष्य और तिर्यञ्च सम्बन्धी दिव्य एवं औदारिक काम-सेवन का तीन करण तीन योग से त्याग करना मैथुन विरमण रूप चतुर्थ महाव्रत है।

(५) परिग्रह विरमण महाव्रतः—अल्प, बहु, अणु, स्थूल, मक्षि, अक्षि आदि समस्त द्रव्य विषयक परिग्रह का तीन करण तीन योग से त्याग करना परिग्रह विरमण रूप पाँचवाँ महाव्रत है। मूर्च्छा, ममत्व होना, भाव परिग्रह हैं और वह त्याज्य है। मूर्च्छाभाव का कारण होने से बाल सकल वस्तुएं द्रव्य परिग्रह हैं और वे भी त्याज्य हैं। भाव-परिग्रह मुख्य हैं और द्रव्य परिग्रह गौण। इस लिए यह कहा गया है कि यदि धर्मोपकरण एवं शरीर पर यति के मूर्च्छा, ममता भाव जनित राग भाव न हो तो वह उन्हें धारण करता हुआ भी अपरिग्रही ही है।

(दशवैकालिक अध्ययन ४)

(ठाण्णांग ५ उ० १ सूत्र ३२६)

(धर्म सग्रह अधि० ३ श्लो० ३६ पृष्ठ १२० से १२४)

(प्रवचन सारोद्धार द्वार ६६ गाथा ५५३)

३१७—प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रत की पाँच भावनाएंः—

- (१) साधु ईर्या समिति में उपयोग रखने वाला हो, क्योंकि ईर्या समिति रहित साधु प्राण, भूत, जीव और सत्त्व की हिंसा करने वाला होता है।
- (२) साधु सदा उपयोग पूर्वक देख कर चौड़े मुख वाले पात्र में आहार, पानी ग्रहण करे एवं प्रकाश वाले स्थान में देख कर भोजन करे। अनुपयोग पूर्वक बिना देखे आहारादि ग्रहण करने वाले एवं भोगने वाले साधु के प्राण, भूत, जीव और सत्त्व की हिंसा का सम्भव है।
- (३) अयतना से पात्रादि भंडोपगरण लेने और रखने का आगम में निषेध है। इसलिए साधु आगम में कहे अनुसार देख कर और पूंजकर यतना पूर्वक भंडोपगरण लेवे और रखे, अन्यथा प्राणियों की हिंसा का सम्भव है।
- (४) संयम में सावधान साधु मन को शुभ प्रवृत्तियों में लगावे। मन को दुष्ट रूप से प्रवर्ताने वाला साधु प्राणियों की हिंसा करता है। काया का गोपन होते हुए भी मन की दुष्ट प्रवृत्ति राजर्षि प्रसन्न चन्द्र की तरह कर्मबन्ध का कारण होती है।
- (५) संयम में सावधान साधु अदुष्ट अर्थात् शुभ वचन में प्रवृत्ति करे। दुष्ट वचन में प्रवृत्ति करने वाले के प्राणियों की हिंसा का संभव है।

३१८—मृपावाद विरमण रूप द्वितीय महाव्रत की पांच भावनाएं:—

- (१) सत्यवादी साधु को हास्य का त्याग करना चाहिये क्योंकि हास्य वश मृषा भी बोला जा सकता है।
- (२) साधु को सम्यग्ज्ञान पूर्वक विचार करके बोलना चाहिये। क्योंकि बिना विचारे बोलने वाला कभी भूठ भी कह सकता है।
- (३) क्रोध के कुफल को जान कर साधु को उसे त्यागना चाहिये। क्रोधान्ध व्यक्ति का चित्त अशान्त हो जाता है। वह स्व, पर का भान भूल जाता है और जो मन में आता है वही कह देता है। इस प्रकार उसके भूठ बोलने की बहुत संभावना है।
- (४) साधु को लोभ का त्याग करना चाहिये क्योंकि लोभी व्यक्ति धनादि की इच्छा से भूठी साक्षी आदि से भूठ बोल सकता है।
- (५) साधु को भय का भी परिहार करना चाहिये। भयभीत व्यक्ति अपने प्राणादि को बचाने की इच्छा से सत्य व्रत को दूषित कर असत्य में प्रवृत्ति कर सकता है।

३१६—अदत्तादान विरमण रूप तीसरे महाव्रत की पांच भावनाएं—

- (१) साधु को स्वयं ( दूसरे के द्वारा नहीं ) स्वामी अथवा स्वामी से अधिकार प्राप्त पुरुष को अच्छी तरह जान कर शुद्ध अवग्रह (रहने के स्थान) की याचना करनी चाहिये। अन्यथा साधु को अदत्त ग्रहण का दोष लगता है।
- (२) अवग्रह की आज्ञा लेकर भी वहाँ रहे हुए वृणादि ग्रहण के लिये साधु को आज्ञा प्राप्त करना चाहिये। शय्यातर का

अनुमति वचन सुन कर ही साधु को उन्हें लेना चाहिये अन्यथा वह बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने एवं भोगने का दोषी है ।

(३) साधु को उपाश्रय की सीमा को खोल कर एवं आज्ञा प्राप्त कर उसका सेवन करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि एक बार स्वामी के उपाश्रय की आज्ञा दे देने पर भी बार बार उपाश्रय का परिमाण खोल कर आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । ग्लानादि अवस्था में लघुनीत, बड़ीनीत परिठवने, हाथ, पैर घोने आदि के स्थानों की, अवग्रह ( उपाश्रय ) की आज्ञा होने पर भी, याचना करना चाहिये ताकि दाता का दिल दुःखित न हो ।

(४) गुरु अथवा रत्नाधिक की आज्ञा प्राप्त कर आहार करना चाहिए । आशय यह है कि सूत्रोक्त विधि से प्राप्त हुए एषणीय प्राप्त हुए आहार को उपाश्रय में लाकर गुरु के आगे आलोचना कर और आहार दिखला कर फिर साधुमंडली में या अकेले उसे खाना चाहिये । धर्म के साधन रूप अन्य उपकरणों का ग्रहण एवं उपयोग भी गुरु की आज्ञा से ही करना चाहिये । --

(५) उपाश्रय में रहे हुए समान आचारेवाले संभोगी साधुओं से नियत क्षेत्र और काल के लिये उपाश्रय की आज्ञा प्राप्त करके ही वहाँ रहना एवं भोजनादि करना चाहिये अन्यथा चोरी का दोष लगता है । (प्रव० सा० द्वार० ७२-गा० ६३८)

३२०—मैथुन विरमण रूप-चतुर्थ महाव्रत की पाँच भावनाएं-

(१) ब्रह्मचारी को आहार के विषय में संयत होना चाहिए । अति-

स्निग्ध, सरस आहार न करना चाहिए और न परिमाण से अधिक ठूस ठूस कर ही आहार करना चाहिए । अन्यथा ब्रह्मचर्य की विराधना हो सकती है । मात्रा से अधिक आहार तो ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त शरीर के लिए भी पीड़ाकारी है ।

- (२) ब्रह्मचारी को शरीर की विभूषा अर्थात् शोभा, शुश्रूषा न करनी चाहिये । स्नान, विलेपन, केश सम्मार्जन आदि शरीर की सजावट में दत्तचित्त साधु सदा चंचल चित्त रहता है और उसे विकारोत्पत्ति होती है । जिससे चौथे व्रत की विराधना भी हो सकती है ।
- (३) स्त्री एवं उसके मनोहर मुख, नेत्र आदि अंगों को काम वासना की दृष्टि से न निरखना चाहिए । वासना भरी दृष्टि द्वारा देखने से ब्रह्मचर्य खंडित होना संभव है ।
- (४) स्त्रियों के साथ परिचय न रखे । स्त्री, पशु, नपुंसक से सम्बन्धित उपाश्रय, शयन, आसन आदि का सेवन न करे । अन्यथा ब्रह्मचर्य व्रतभङ्ग हो सकता है ।
- (५) तत्त्वज्ञ मुनि, स्त्री विषयक कथा न करे । स्त्री कथा में आसक्त साधु का चित्त विकृत हो जाता है । स्त्री कथा को ब्रह्मचर्य के लिए घातक समझ कर इससे सदा ब्रह्मचारी को दूर रहना चाहिए ।

आचार्य सत्र तथा समवायांग सत्र में ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाओं में शरीर की शोभा विभूषा का त्याग करने के स्थान में पूर्व क्रीडित अर्थात् गृहस्थावस्था में भोगे हुए

काम भोग आदि का स्मरण न करना लिखा है । क्योंकि पूर्व रति एवं क्रीडा का स्मरण करने से कामाग्नि दीप्त होती है, जो कि ब्रह्मचर्य के लिए घातक है ।

३२१—परिग्रह विरमण रूप पांचवें महाव्रत की पांच भावनाएं:—

पाँचों इन्द्रियों के विषय शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श के इन्द्रिय गोचर होने पर मनोज्ञ पर मूच्छा—गृद्धि भाव न लावे एवं अमनोज्ञ पर द्रोप न करे, यों तो विषयों के गोचर होने पर इन्द्रियां उन्हें भोगती ही हैं परन्तु साधु को मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ विषयों पर राग द्रोप न करना चाहिए । पांचवें व्रत में मूच्छा रूप भाव परिग्रह का त्याग किया जाता है । इस लिए मूच्छा, ममत्व करने से व्रत खण्डित हो जाता है ।

( धोल नम्बर ३१७ से ३२१ तक के लिए प्रमाण )

( हरिभद्रीय आवश्यक प्रतिक्रमणाध्ययन पृष्ठ ६५८ )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ७२ गाथा ६३६ से ६४० पृष्ठ १७७ )

( समधायांग २५ वां समवाय )

( आचारांग सूत्र श्रुतस्कन्ध २ चूला ३ अ० २४ सूत्र १७६ )

( धर्म संग्रह अधिकार ३ श्लो० ४५ टीका पृष्ठ १२५ )

३२२—वेदिका प्रतिलेखना के पांच भेद:—

छः प्रमाद प्रतिलेखना में छठी वेदिका प्रतिलेखना है । वह पांच प्रकार की है:—

(१) ऊर्ध्व वेदिका । (२) अधोवेदिका ।

(३) तिर्यग्वेदिका । (४) द्विधा वेदिका ।

(५) एकतो वेदिका ।



- (१) ऊर्ध्व वेदिकाः—दोनों घुटनों के ऊपर हाथ रख कर प्रतिलेखना करना ऊर्ध्व वेदिका है ।
- (२) अधोवेदिकाः—दोनों घुटनों के नीचे हाथ रख कर प्रतिलेखना करना अधोवेदिका है ।
- (३) तिर्यग्वेदिकाः—दोनों घुटनों के पार्श्व (पसवाड़े) में हाथ रख कर प्रतिलेखना करना तिर्यग्वेदिका है ।
- (४) द्विधावेदिकाः—दोनों घुटनों को दोनों भुजाओं के बीच में करके प्रतिलेखना करना द्विधा वेदिका है ।
- (५) एकतोवेदिकाः—एक घुटने को दोनों भुजाओं के बीच में करके प्रतिलेखना करना एकतोवेदिका है ।

( ठाणांग ६ उद्देशा ३ सूत्र ५०३ टीका )

३२३—पांच समिति की व्याख्या और उसके भेदः

प्रशस्त एकाग्र परिणाम पूर्वक की जाने वाली आगमोक्त सम्यक् प्रवृत्ति समिति कहलाती है ।

अथवाः—

प्राणातिपात से निवृत्त होने के लिए यतना पूर्वक सम्यक् प्रवृत्ति करना समिति है ।

समिति पांच हैंः—

(१) ईर्या समिति ।

(२) भाषा समिति ।

(३) एषणा समिति ।

(४) आदान भण्ड मात्र निक्षेपणा समिति ।

(५) उच्चार प्रस्रवण खेल सिंघाण जल्ल परिस्थापनिका समिति ।

(१) ईर्या समितिः—ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के निमित्त आग-मोक्त काल में युग परिमाण भूमि को एकाग्र चित्त से देखते हुए राजमार्ग आदि में यतना पूर्वक गमनागमन करना ईर्या समिति है ।

(२) भाषा समितिः—यतना पूर्वक भाषण में प्रवृत्ति करना अर्थात् आवश्यकता होने पर भाषा के दोषों का परिहार करते हुए सत्य, हित, मित और असन्दिग्ध वचन कहना भाषा समिति है ।

(३) एषणा समितिः—गवेषण, ग्रहण और ग्रास सम्बन्धी एषणा के दोषों से अदूषित अत एव विशुद्ध आहार पानी, रजोहरण, मुखवस्त्रिका आदि औषिक उपधि और शय्या, पाट, पाटलादि औषग्रहिक उपधि का ग्रहण करना एषणा समिति है ।

नोटः—गवेषणैषणा, ग्रहणैषणा और ग्रासैषणा का स्वरूप ६३ वें बोल में दे दिया गया है ।

(४) आदान भंड मात्र निक्षेपणा समितिः—आसन, संस्तारक, पाट, पाटला, वस्त्र, पात्र, दण्डादि उपकरणों को उपयोग पूर्वक देख कर एवं रजोहरणादि से पूंज कर लेना एवं उपयोग पूर्वक देखी और पूंजी हुई भूमि पर रखना आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति है ।

(५) उच्चार प्रस्रवण खेल सिंघाण जल्ल परिस्थापनिका समितिः—स्थण्डिल के दोषों को वर्जते हुए परिठवने योग्य

लघुनीत, बड़ीनीत, थूंक, कफ, नासिका-मल और मैल आदि को निर्जीव स्थण्डिल में उपयोग पूर्वक परिठवना उच्चार प्रसवण खेल सिंघाण जल्ल परिस्थापनिका समिति है।

( समवायांग ५ )

( ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४५७ )

( धर्म संग्रह अधिकार ३ श्लो० ४७ पृष्ठ १३० )

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन २४ )

३२४—आचार पाँचः— मोक्ष के लिए किया जाने वाला ज्ञानादि आसेवन रूप अनुष्ठान विशेष आचार कहलाता है।

अथवाः—

गुण वृद्धि के लिए किया जाने वाला आचरण आचार कहलाता है।

अथवाः—

पूर्व पुरुषों से आचरित ज्ञानादि आसेवन विधि को आचार कहते हैं।

आचार के पाँच भेदः—

(१) ज्ञानाचार । (२) दर्शनाचार ।

(३) चारित्राचार । (४) तप आचार ।

(५) वीर्याचार ।

(१) ज्ञानाचारः—सम्यक् तत्त्व का ज्ञान कराने के कारण भूत श्रुतज्ञान की आराधना करना ज्ञानाचार है।

(२) दर्शनाचार—दर्शन अर्थात् सम्यक्त्व की निःशंकितादि रूप से शुद्ध आराधना करना दर्शनाचार है।

(३) चारित्राचार—ज्ञान एवं श्रद्धापूर्वक सर्व सावध योगों का त्याग करना चारित्र है। चारित्र का सेवन करना चारित्राचार है।

- (४) तप आचार—इच्छा निरोध रूप अनशनादि तप का सेवन करना तप आचार है ।
- (५) वीर्याचार—अपनी शक्ति का गोपन न करते हुए धर्म-कार्यों में यथाशक्ति मन, वचन, कार्या द्वारा प्रवृत्ति करना वीर्याचार है ।

( ठाणांग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३२ )

( धर्म मग्नह अधिकार ३ श्लोक ५४ पृष्ठ १४० )

३२५—आचार प्रकल्प के पांच प्रकार—

आचारांग नामक प्रथम अङ्ग के निशीथ नामक अध्ययन को आचार प्रकल्प कहते हैं । निशीथ अध्ययन आचारांग सूत्र की पंचम चूलिका है । इसके बीस उद्देशे हैं । इममें पांच प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन है । इसी लिये इसके पांच प्रकार कहे जाते हैं । वे ये हैं—

- (१) मासिक उद्घातिक । (२) मासिक अनुद्घातिक ।  
 (३) चौमासी उद्घातिक । (४) चौमामी अनुद्घातिक ।  
 (५) आरोपणा ।

(१) मासिक उद्घातिकः—उद्घात अर्थात् विभाग करके जो प्रायश्चित्त दिया जाता है वह उद्घातिक प्रायश्चित्त है । एक मास का उद्घातिक प्रायश्चित्त मासिक उद्घातिक है । इसी को लघु मास प्रायश्चित्त भी कहते हैं ।

मास के आधे पन्द्रह दिन, और मासिक प्रायश्चित्त के पूर्ववर्ती पच्चीस दिन के आधे १२॥ दिन—इन दोनों को जोड़ने से २७॥ दिन होते हैं । इस प्रकार भाग करके

जो एक मास का प्रायश्चित्त दिया जाता है। वह मासिक उद्घातिक या लघु मास प्रायश्चित्त है।

- (२) मासिक अनुद्घातिक—जिस प्रायश्चित्त का मागन हो यानि लघुकरण न हो वह अनुद्घातिक है। अनुद्घातिक प्रायश्चित्त को गुरु प्रायश्चित्त भी कहते हैं। एक मास का गुरुप्रायश्चित्त मासिक अनुद्घातिक प्रायश्चित्त कहलाता है।
- (३) चौमासी उद्घातिक—चार मास का लघु प्रायश्चित्त चौमासी उद्घातिक कहा जाता है।
- (४) चौमासी अनुद्घातिकः—चार मास का गुरु प्रायश्चित्त चौमासी अनुद्घातिक कहा जाता है।

दोषों के उपयोग, अनुपयोग तथा आसक्ति पूर्वक सेवन की अपेक्षा तथा दोषों की न्यूनाधिकता से प्रायश्चित्त भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट रूप से दिया जाता है। प्रायश्चित्त रूप में तप भी किया जाता है। दीक्षा का छेद भी होता है। यह सब विन्तार छेद छत्रों से जानना चाहिये।

- (५) आरोपणा—एक प्रायश्चित्त के ऊपर दूसरा प्रायश्चित्त चढ़ाना आरोपणा प्रायश्चित्त है। तप प्रायश्चित्त छः मास तक ऊपरा ऊपरी दिया जा सकता है। इसके आगे नहीं।

(ठाणानं ५ उद्देशा २ सूत्र ४३३)

३२६—आरोपणा के पांच भेदः—

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| (१) प्रस्थापिता । | (२) स्थापिता ।  |
| (३) कृत्स्ना ।    | (४) अकृत्स्ना । |
| (५) हाडाहडा ।     |                 |

- (१) प्रस्थापिताः—आरोपिता प्रायश्चित्त का जो पालन किया जाता है। वह प्रस्थापिता आरोपणा है।
- (२) स्थापिताः—जो प्रायश्चित्त आरोपणा से दिया गया है। उस का वैयावृत्त्यादि कारणों से उसी समय पालन न कर आगे के लिये स्थापित करना स्थापिता आरोपणा है।
- (३) कृत्स्नाः—दोषों का जो प्रायश्चित्त छः महीने उपरान्त न होने से पूर्ण सेवन कर लिया जाता है और जिस प्रायश्चित्त में कमी नहीं की जाती। वह कृत्स्ना आरोपणा है।
- (४) अकृत्स्नाः—अपराध बाहुल्य से छः मास से अधिक आरोपणा प्रायश्चित्त आने पर ऊपर का जितना भी प्रायश्चित्त है। वह जिसमें कम कर दिया जाता है। वह अकृत्स्ना आरोपणा है।
- (५) हाड़ाहड़ा—लघु अथवा गुरु एक, दो, तीन आदि मास का जो भी प्रायश्चित्त आया हो, वह तत्काल ही जिस में सेवन किया जाता है। वह हाड़ाहड़ा आरोपणा है।

( ठाणग ५ वदेशा २ सूत्र ४३३ )

( समवायाग २८ )

३२७—पाँच शौच ( शुद्धि )ः—

शौच अर्थात् मलीनता दूर करने रूप शुद्धि के पाँच प्रकार हैं।

(१) पृथ्वी शौच ।

(२) जल शौच ।

(३) तेजः शौच ।

(४) मन्त्र शौच ।

(५) ब्रह्म शौच ।

- (१) पृथ्वी शौच—मिट्टी से घृणित मल और गन्ध का दूर करना पृथ्वी शौच है ।
- (२) जल शौच—पानी से धोकर मलीनता दूर करना जल शौच है ।
- (३) तेजः शौच—अग्नि एवं अग्नि के विकार स्वरूप भस्म से शुद्धि करना तेजः शौच है ।
- (४) मन्त्र शौच—मन्त्र से होने वाली शुद्धि मन्त्र शौच है ।
- (५) ब्रह्म शौच—ब्रह्मचर्यादि कुशल अनुष्ठान, जो आत्मा के काम कपायादि आभ्यन्तर मल की शुद्धि करते हैं, ब्रह्म-शौच कहलाते हैं । सत्य, तप, इन्द्रिय निग्रह एवं सर्व प्राणियों पर दया भावरूप शौच का भी इसी में समावेश होता है ।
- इन में पहले के चार शौच द्रव्य शौच हैं और ब्रह्म शौच भाव शौच है ।

( ठाण्णाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४६.)

३२८—पाँच प्रकार का प्रत्याख्यानः—

प्रत्याख्यान ( पञ्चक्रवाण ) पाँच प्रकार से शुद्ध होता है । शुद्धि

के भेद से प्रत्याख्यान भी पाँच प्रकार का है—

- (१) श्रद्धान शुद्ध ।                      (२) विनय शुद्ध ।
- (३) अनुभाषण शुद्ध ।                (४) अनुपालना शुद्ध ।
- (५) भावशुद्ध ।

(१) श्रद्धान शुद्धः—जिनकल्प, स्थविरकल्प एवं श्रावक धर्म विषयक, तथा सुभिच्छ, दुर्भिच्छ, पहली, चौथी पहर एवं चरम काल में सर्वज्ञ भगवान् ने जो प्रत्याख्यान कहे हैं । उन पर श्रद्धा रखना श्रद्धान शुद्ध प्रत्याख्यान है ।

- (२) विनय शुद्धः—प्रत्याख्यान के समय में मन, वचन, काया का गोपन कर अन्युनाधिक अर्थात् पूर्ण वन्दना की विशुद्धि रखना विनय शुद्ध प्रत्याख्यान है।
- (३) अनुभाषण शुद्धः—गुरु को वन्दना करके उनके सामने खड़े हो, हाथ जोड़ कर प्रत्याख्यान करते हुए व्यक्ति का, गुरु के वचनों को धीमे शब्दों में अक्षर, पद, व्यञ्जन की अपेक्षा शुद्ध उच्चारण करते हुए दोहराना अनुभाषण (परिभाषण) शुद्ध है।
- (४) अनुपालन शुद्धः—अटवी, दुष्काल तथा ज्वरादि महा रोग होने पर भी प्रत्याख्यान को भङ्ग न करते हुए उसका पालन करना अनुपालना शुद्ध है।
- (५) भाव शुद्धः—राग, द्वेष, ऐहिक प्रशंसा तथा क्रोधादि परिणाम मे प्रत्याख्यान को दूषित न करना भावशुद्ध है।  
उक्त प्रत्याख्यान शुद्धि के मित्राय ज्ञान शुद्ध भी छठा प्रकार गिना गया है। ज्ञान शुद्ध का स्वरूप यह हैः—  
जिनकल्प आदि में मूल गुण उत्तर गुण विषयक जो प्रत्याख्यान जिस काल में करना चाहिये उसे जानना ज्ञान शुद्ध है। पर ज्ञान शुद्ध का समावेश श्रद्धान शुद्ध में हो जाता है क्योंकि श्रद्धान भी ज्ञान विशेष ही है।

{ टाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६६ }

{ हरिभद्रीयावश्यक प्रत्याख्यानध्ययन पृष्ठ ८४७ }

३२६— पांच प्रतिक्रमण—

प्रति अर्थात् प्रतिकूल और क्रमण अर्थात् गमन।



शुभ योगों से अशुभ योग में गये हुए पुरुष का वापिस शुभ योग में आना प्रतिक्रमण है। कहा भी है—

स्वस्थानात् यत् परस्थानं, प्रमादस्य वशाद् गतम् ।  
तत्रैव क्रमणं भूयः, प्रतिक्रमणमुच्यते ॥१॥

अर्थात् प्रमादवश आत्मा के निज गुणों को त्याग कर पर गुणों में गये हुए पुरुष का वापिस आत्म गुणों में लौट आना प्रतिक्रमण कहलाता है।

विषय भेद में प्रतिक्रमण पाँच प्रकार का है—

- (१) आश्रवद्वार प्रतिक्रमण । (२) मिथ्यात्व प्रतिक्रमण ।
- (३) कषाय प्रतिक्रमण । (४) योग प्रतिक्रमण ।
- (५) भावप्रतिक्रमण ।

(१) आश्रवद्वार ( असंयम ) प्रतिक्रमणः—आश्रव के द्वार प्राणातिपात, मृषावाद, अदस्तादान, मैथुन और परिग्रह से निवृत्त होना, पुनः इनका सेवन न करना आश्रवद्वार प्रतिक्रमण है।

(२) मिथ्यात्व प्रतिक्रमणः—उपयोग, अनुपयोग या सहसा-कारवश आत्मा के मिथ्यात्व परिणाम में प्राप्त होने पर उससे निवृत्त होना मिथ्यात्व प्रतिक्रमण है।

(३) कषाय प्रतिक्रमणः—क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय परिणाम से आत्मा को निवृत्त करना कषाय प्रतिक्रमण है।

(४) योग प्रतिक्रमणः—मन, वचन, काया, के अशुभ व्यापार प्राप्त होने पर उनसे आत्मा को पृथक् करना योग प्रतिक्रमण है।

(५) भाव प्रतिक्रमणः—आश्रवद्वार, मिथ्यात्व, कपाय और योग में तीन करण तीन योग से प्रवृत्ति न करना भाव प्रतिक्रमण है।

( टाण्णाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६७ )

(हरि० आच० प्रतिक्रमणाध्ययन गा० १२५०-५१ पृष्ठ ५६४ )

नोटः—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग के भेद से भी प्रतिक्रमण पांच प्रकार का कहा जाता है किन्तु वास्तव में ये और उपरोक्त पांचों भेद एक ही हैं। क्योंकि अविरति और प्रमाद का समावेश आश्रवद्वार में हो जाता है।

३३०—ग्रासैषणा (मांडला) के पांच दोषः—

(१) संयोजना ।

(२) अप्रमाण ।

(३) अंगार ।

(४) वृम ।

(५) अकारण ।

इन दोषों का विचार साधुमंडली में बैठ कर भोजन करते समय किया जाता है। इस लिये ये 'मांडला' के दोष भी कहे जाते हैं।

(१) संयोजनाः—उत्कर्षता पैदा करने के लिये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग करना संयोजना दोष है। जैसे—रस लालुपता के कारण दूध, शक्कर, घी आदि द्रव्यों को स्वाद के लिये मिलाना।

( पिण्ड० नि० गा० ६३६ से ६३७ )

(२) अप्रमाणः—स्वाद के लोभ से भोजन के परिमाण का अतिक्रमण कर अधिक आहार करना अप्रमाण दोष है।

(३) अङ्गारः—श्वादिष्ट, सरस आहार करते हुए आहार की या दाता की प्रशंसा करना अङ्गार दोष है। जैसे—अग्नि से जला हुआ रदिर आदि इन्धन अङ्गारा (कोयला) हो

जाता है। उसी प्रकार उक्त राग रूपी अग्नि से चारित्र रूपी इन्धन जल कर कोयले की तरह हो जाता है। अर्थात् राग से चारित्र का नाश हो जाता है।

(४) धूमः—विरस आहार करते हुए आहार या दाता की द्वेष वश निन्दा करना धूम दोष है। यह द्वेषभाव साधु के चारित्र को जला कर सधूम काष्ठ की तरह कलुषित करने वाला है।

(५) अकारणः—साधु को छः कारणों से आहार करने की आज्ञा है। इन छः कारणों के सिवाय बल, वीर्यादि की वृद्धि के लिए आहार करना अकारण दोष है।

१—क्षुधा वेदनीय को शान्त करने के लिए।

२—साधुओं की वैयावृत्त्य करने के लिए।

३—ईर्या समिति शोधने के लिए।

४—संयम निभाने के लिये।

५—दश प्राणों की रक्षा के लिये।

६—स्वाध्याय, ध्यान आदि करने के लिये।

( उक्त० अ० २४ गा० १२ टीका )

( उक्त० अ० २६ गाथा ३२ )

( धर्म संग्रह अधिकार ३ श्लोक २३ की टीका पृ० ५५ )

( पिण्ड निर्युक्ति प्रासैषणाधिकार गाथा ६३५ )

३३१—छन्नस्थ के परिषह उपसर्ग सहने के पाँच स्थानः—पाँच बोलों की भावना करता हुआ छन्नस्थ साधु उदय में आये हुए परिषह उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से निर्भय हो कर अदीनता पूर्वक सहे, खुश और परिषह उपसर्गों से विचलित न हो।

- (१) मिथ्यात्व मोहनीय आदि कर्मों के उदय से वह पुरुष शराव पिये हुए पुरुष की तरह उन्मत्त सा बना हुआ है। इसी से यह पुरुष मुझे गाली देता है, मजाक करता है, भर्त्सना करता है, बांधता है, रोकता है, शरीर के अवयव, हाथ पैर आदि का छेदन करता है, मूर्छित करता है, मरणान्त दुःख देता है, मारता है, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद पोञ्छन आदि को छीनता है। मेरे से वस्त्रादि को जुदा करता है, वस्त्र फाड़ता है एवं पात्र फोड़ता है तथा उपकरणों की चोरी करता है।
- (२) यह पुरुष देवता से अधिष्ठित है, इस कारण से गाली देता है। यावत् उपकरणों की चोरी करता है।
- (३) यह पुरुष मिथ्यात्व आदि कर्म के वशीभूत है और मेरे भी इसी भव में भोगे जाने वाले वेदनीय कर्म उदय में हैं। इसी से यह पुरुष गाली देता है, यावत् उपकरणों की चोरी करता है।
- (४) यह पुरुष मूर्ख है। पाप का इसे भय नहीं है। इस लिये यह गाली आदि परिपह दे रहा है। परन्तु यदि मैं इससे दिये गए परिपह उपसर्गों को सम्यक् प्रकार अदीन भाव से वीर की तरह सहन न करूँ तो मुझे भी पाप के सिवाय और क्या प्राप्त होगा।
- (५) यह पुरुष आक्रोश आदि परिपह उपसर्ग देता हुआ पाप कर्म बांध रहा है। परन्तु यदि मैं समभाव से इससे दिये गए परिपह उपसर्ग सह लूँगा तो मुझे एकान्त निर्जरा होगी।

यहाँ परिपह उपसर्ग से प्रायः आक्रोश और वध

रूप दो परिपह तथा मनुष्य सम्बन्धी प्रद्वेषादि जन्य उपसर्ग  
से तात्पर्य है । ( ठाणांग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०६ )

३३२—केवली के परिपह सहन करने के पांच स्थानः—

पांच स्थान मे केवली उदय में आये हुए आक्रोश,  
उपहास आदि उपरोक्त परिपह उपसर्ग सम्यक् प्रकार से  
सहन करते हैं ।

(१) पुत्र शोक आदि दुःख से इस पुरुष का चित्त खिन्न एवं  
विचित्र है । इस लिये यह पुरुष गाली देता है । यावत्  
उपकरणों की चोरी करता है ।

(२) पुत्र-जन्म आदि हर्ष से यह पुरुष उन्मत्त हो रहा है । इसी  
से यह पुरुष मुझे गाली देता है, यावत् उपकरणों की चोरी  
करता है ।

(३) यह पुरुष देवाधिष्ठित है । इसकी आत्मा परार्थीन है । इसी  
से यह पुरुष मुझे गाली देता है, यावत् उपकरणों की चोरी  
करता है ।

(४) मेरे इसी भव में भोगे जाने वाले वेदनीय कर्म उदय में हैं,  
इस कारण से यह पुरुष गाली देता है, यावत् उपकरणों  
की चोरी करता है ।

(५) परिपह उपसर्ग को सम्यक् प्रकार वीरता पूर्वक, अदीनभाव  
से सहन करते हुए एवं विचलित न होते हुए मुझे देख कर  
दूसरे बहुत से छद्मस्थ श्रमण निर्ग्रन्थ उदय में आये हुए  
परिपह उपसर्ग को सम्यक् प्रकार सहेंगे, खमेंगे एवं परिपह  
उपसर्ग के धर्म से चलित न होंगे । क्योंकि प्रायः सामान्य  
लोग महापुरुषों का अनुसरण किया करते हैं ।

( ठाणांग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०६ )

३३३—धार्मिक पुरुष के पाँच आलम्बन स्थानः—

श्रुत चरित्र रूप धर्म का सेवन करने वाले पुरुष के पाँच स्थान आलम्बन रूप हैं अर्थात् उपकारक हैंः—

(१) छः काया ।

(२) गण ।

(३) राजा ।

(४) गृहपति ।

(५) शरीर ।

(१) छः कायाः—पृथ्वी आधार रूप है । वह सोने, बैठने, उपकरण रखने, परिठवने आदि क्रियाओं में उपकारक है । जल पीने, वस्त्र पात्र धोने आदि उपयोग में आता है । आहार, ओसावन, गर्म पानी आदि में अग्नि काय का उपयोग है । जीवन के लिये वायु की अनिवार्य आवश्यकता है । संथारा, पात्र, दण्ड, वस्त्र, पीड़ा, पाटिया आदि उपकरण तथा आहार औषधि आदि द्वारा वनस्पति धर्म पालन में उपकारक होती है । इसी प्रकार त्रस जीव भी धर्म-पालन में अनेक प्रकार से सहायक होते हैं ।

(२) गणः—गुरु के परिवार को गण या गच्छ कहते हैं । गच्छवासी साधु को विनय से विपुल निर्जरा होती है तथा सारणा, वारणा आदि से उसे दोषों की प्राप्ति नहीं होती । गच्छवासी साधु एक दूसरे को धर्म पालन में सहायता करते हैं ।

(३) राजाः—राजा दुष्टों से साधु पुरुषों की रक्षा करता है । इस लिए राजा धर्म पालन में सहायक होता है ।

- (४) गृहपति (शय्यादाता)—रहने के लिये स्थान देने से संयमोपकारी होता है ।
- (५) शरीरः—धार्मिक क्रिया अनुष्ठानों का पालन शरीर द्वारा ही होता है । इसलिए शरीर धर्म का सहायक होता है ।  
(ठाण्णाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४७)

३३४—पाँच अवग्रह—

- (१) देवेन्द्रावग्रह । (२) राजावग्रह ।  
(३) गृहपति अवग्रह । (४) सागारी (शय्यादाता) अवग्रह ।  
(५) सार्धमिकावग्रह ।

(१) देवेन्द्रावग्रहः—लोक के मध्य में रहे हुए मेरु पर्वत के बीचों बीच रुचक प्रदेशों की एक प्रदेशवाली श्रेणी है । इस से लोक के दो भाग हो गये हैं । दक्षिणाद्ध और उत्तराद्ध । दक्षिणाद्ध का स्वामी शक्रेन्द्र है और उत्तराद्ध का स्वामी ईशानेन्द्र है । इसलिये दक्षिणाद्धवर्ती साधुओं को शक्रेन्द्र की और उत्तराद्धवर्ती साधुओं को ईशानेन्द्र की आज्ञा माँगनी चाहिये ।

भरत क्षेत्र दक्षिणाद्ध में है । इस लिये यहाँ के साधुओं को शक्रेन्द्र की आज्ञा लेनी चाहिये । पूर्वकालवर्ती साधुओं ने शक्रेन्द्र की आज्ञा ली थी । यह आज्ञा वर्तमान कालीन साधुओं के भी चल रही है ।

(२) राजावग्रहः—चक्रवर्ती आदि राजा जितने क्षेत्र का स्वामी है । उस क्षेत्र में रहते हुए साधुओं को राजा की आज्ञा लेना राजावग्रह है ।

- (३) गृहपति अवग्रहः—मण्डल का नायक या ग्राम का मुखिया गृहपति कहलाता है। गृहपति से 'अधिष्ठित क्षेत्र में रहते हुए साधुओं का गृहपति की अनुमति मँगना एवं उसकी अनुमति से कोई-वस्तु लेना गृहपति अवग्रह है।
- (४) सागारी (शय्यादाता) अवग्रहः—घर, पाट, पाटला आदि के लिये गृह स्वामी की आज्ञा प्राप्त करना सागारी अवग्रह है।
- (५) साधर्मिक अवग्रहः—समान धर्मवाले साधुओं से उपाश्रय आदि की आज्ञा प्राप्त करना साधर्मिकावग्रह है। साधर्मिक का अवग्रह पाँच कोस परिमाण जानना चाहिये।

वसति (उपाश्रय) आदि को ग्रहण करते हुए साधुओं को उक्त पांच स्वामियों की यथायोग्य आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

उक्त पांच स्वामियों में से पहले पहले के देवेन्द्र अवग्रहादि गौण हैं और पीछे के राजावग्रहादि मुख्य हैं। इसलिये पहले देवेन्द्रादि की आज्ञा प्राप्त होने पर भी पिछले राजा आदि की आज्ञा प्राप्त न हो तो देवेन्द्रादि की आज्ञा बाधित हो जाती है। जैसे—देवेन्द्र से अवग्रह प्राप्त होने पर यदि राजा अनुमति नहीं दे तो साधु देवेन्द्र से अनुज्ञापित वसति आदि उपभोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार किसी वसति आदि के लिये राजा की आज्ञा प्राप्त हो जाय, पर गृहपति की आज्ञा न हो तो भी साधु उसका उपभोग नहीं कर सकता। इसी प्रकार गृहपति की आज्ञा



सागारी से और सागारी की आज्ञा साधर्मिक से बाधित समझी जाती है।

( अभिधान राजेन्द्र कोप द्वितीय भाग पृष्ठ ६६८ )  
 ( आचाराग श्रुतस्कन्ध २ चू० १ अ० ७ उ० २ सूत्र १६२ )  
 ( प्रवचन सारोद्धार द्वार ८५ गाथा ६८१ )  
 ( भगवती शतक १६ उद्देशा २ सूत्र ५६७ )

३३५—पांच महानदियों को एक मास में दो अथवा तीन बार पार करने के पांच कारण—

उत्सर्ग मार्ग से साधु साध्वियों को पांच महानदियों (गंगा, यमुना, सरयू, ऐरावती और मही) को एक मास में दो बार अथवा तीन बार उतरना या नौकादि में पार करना नहीं कल्पता है। यहां पांच महानदियां गिनवाई गई हैं, पर शेष भी बड़ी नदियों को पार करना निषिद्ध है।

- परन्तु पांच कारण होने पर महानदियां एक मास में दो या तीन बार अपवाद रूप में पार की जा सकती हैं।
- (१) राज विरोधी आदि से उपकरणों के चोरे जाने का भय हो।
  - (२) दुर्भिक्ष होने से भिक्षा नहीं मिलती हो।
  - (३) कोई विरोधी गंगा आदि महानदियों में फेंक देवे।
  - (४) गंगा आदि महानदियां बाढ़ आने पर उन्मार्ग गामी होजाँय, जिससे साधु साध्वी बह जाय।
  - (५) जीवन और चारित्र के हरण करने वाले म्लच्छ आदि से पराभव हो।

( आचाराग ५ उद्देशा २ सूत्र ४१२ )

३३६—चौमासे के प्रारम्भिक पचास दिनों में विहार करने के पाँच कारणः—

पाँच कारणों से साधु साध्वियों को प्रथम प्रावृत्, अर्थात् चौमासे के पहले पचास दिनों में अपवाढ रूप से विहार करना कल्पता है ।

- (१) राज-विरोधी आदि से उपकरणों के चोरे जाने का भय हो ।
- (२) दुर्भिक्ष होने से भिक्षा नहीं मिलती हो ।
- (३) कोई ग्राम से निकाल देवे ।
- (४) पानी की बाढ आ जाय ।
- (५) जीवन और चारित्र का नाश करने वाले अनाय्य दुष्ट पुरुषों से पराभव हो ।

( ठाणान ५ उद्देशा ० मूत्र ४१३ )

३३७—वर्षावास अर्थात् चौमासे के पिछले ७० दिनों में विहार करने के पाँच कारणः—

वर्षावास अर्थात् चौमासे के पिछले सत्तर दिनों में नियम पूर्वक रहते हुए साधु, साध्वियों को ग्रामानुग्राम विहार करना नहीं कल्पता है पर अपवाढ रूप में पाँच कारणों में चौमासे के पिछले ७० दिनों में साधु, साध्वी विहार कर सकते हैं ।

- (१) ज्ञानार्थी होने से साधु, साध्वी विहार कर सकते हैं । जैसे कोई अपूर्व शास्त्रज्ञान किसी आचार्यादि के पास हो और वह संथारा करना चाहता हो । यदि वह शास्त्र ज्ञान उक्त

- आचार्यादि से ग्रहण न किया गया तो उसका विच्छेद हो जायगा । यह सोच कर उसे ग्रहण करने के लिये साधु साध्वी उक्त काल में भी ग्रामानुग्राम विहार कर सकते हैं।
- (२) दर्शनार्थी होने से साधु साध्वी विहार कर सकते हैं । जैसे—कोई दर्शन की प्रभावना करने वाले शास्त्र ज्ञान की इच्छा से विहार करे ।
- (३) चारित्रार्थी होने से साधु साध्वी विहार कर सकते हैं । जैसे कोई क्षेत्र अनेपणा, स्त्री आदि दोषों से दूषित हो तो चारित्र की रक्षा के लिये साधु साध्वी विहार कर सकते हैं।
- (४) आचार्य्य उपाध्याय काल कर जाँय तो गच्छ में अन्य आचार्यादि के न होने पर दूसरे गच्छ में जाने के लिये साधु साध्वी विहार कर सकते हैं ।
- (५) वर्षा क्षेत्र में बाहर रहे हुए आचार्य्य, उपाध्यायादि की वैयावृत्त्य के लिये आचार्य्य महाराज भेजें तो साधु विहार कर सकते हैं ।

( ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४१३ )

३३८—राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करने के पाँच कारणः—  
पाँच स्थानों से राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ साधु के आचार या भगवान् की आज्ञा का उल्लङ्घन नहीं करता ।

- (१) नगर प्राकार से घिरा हुआ हो और दरवाजे बन्द हों । इस कारण बहुत से श्रमण, माहण, आहार पानी के लिये न नगर से बाहर निकल सकते हों और न प्रवेश ही कर सकते हों । उन श्रमण, माहण आदि के प्रयोजन से अन्तःपुर

में रहे हुए राजा को या अधिकार प्राप्त रानी को मालूम कराने के लिये मुनि राजा के अन्तःपुर में प्रवेश कर सकते हैं ।

- (२) पडिहारी (कार्य समाप्त होने पर वापिस करने योग्य) पाट, पाटले, शय्या, संधारे को वापिस देने के लिये मुनि राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करे, क्योंकि जो वस्तु जहाँ से लाई गई है उसे वापिस वहीं सौंपने का साधु का नियम है ।

पाट, पाटलादि लेने के लिये अन्तःपुर में प्रवेश करने का भी इसी में समावेश होता है । क्यों कि ग्रहण करने पर ही वापिस करना सम्भव है ।

- (३) मतवाले दुष्ट हाथी, घोडे सामने आरहे हों, उनसे अपनी रक्षा के लिये साधु राजा के अन्तःपुर में प्रवेश कर सकता है ।
- (४) कोई व्यक्ति अकस्मात् या जवर्दस्ती से भुजा पकड़ कर साधु को राजा के अन्तःपुर में प्रवेश करा देवे ।
- (५) नगर से बाहर आराम या उद्यान में रहे हुए साधु को राजा का अन्तःपुर ( अन्तेउर ) वर्ग चारों तरफ से घेर कर बैठ जाय ।

( ठाणग ५ उद्देशा २ सूत्र ४१५ )

३३६—साधु साध्वी के एकत्र स्थान, शय्या, निषद्या के पाँच बोलः—

उत्सर्ग रूप में साधु, साध्वी का एक जगह कायोत्सर्ग करना, स्वाध्याय करना, रहना, सोना आदि निषिद्ध है । परन्तु पाँच बोलों से साधु, साध्वी एक जगह कायोत्सर्ग, स्वाध्याय करें तथा एक जगह रहें और शयन करें तो वे

भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करते ।

- (१) दुर्भिक्षादि कारणों से कोई साधु, साध्वी एक ऐसी लम्बी अटवी में चले जाँय, जहाँ बीच में न ग्राम हो और न लोगों का आना जाना हो । वहाँ उस अटवी में माधु साध्वी एक जगह रह सकते हैं और कायोत्सर्ग आदि कर सकते हैं ।
- (२) कोई साधु साध्वी, किसी ग्राम, नगर या राजधानी में आये हों । वहाँ उनमें से एक को रहने के लिये जगह मिल जाय और दूसरों को न मिले । ऐसी अवस्था में साधु, साध्वी एक जगह रह सकते हैं और कायोत्सर्ग आदि कर सकते हैं ।
- (३) कोई साधु या साध्वी नाग कुमार, सुवर्ण कुमार आदि के देहे में उतरे हों । देहरा सूना हो अथवा वहाँ बहुत से लोग हों और कोई उनके नायक न हो तो साध्वी की रक्षा के लिये दोनों एक स्थान पर रह सकते हैं और कायोत्सर्ग आदि कर सकते हैं ।
- (४) कहीं चोर दिखाई दें और वे वस्त्र छीनने के लिये साध्वी, को पकड़ना चाहते हों तो साध्वी की रक्षा के लिये साधु साध्वी एक स्थान पर रह सकते हैं और कायोत्सर्ग, स्वाध्याय आदि कर सकते हैं ।
- (५) कोई दुराचारी पुरुष साध्वी को शील अष्ट करने की इच्छा से पकड़ना चाहे तो ऐसे अवसर पर साध्वी की रक्षा के

लिये साधु साध्वी एक स्थान पर रह सकते हैं और स्वाध्यायादि कर सकते हैं ।

(ठाण्णंग ५ उद्देशा २ सूत्र ४१७)

३४०—साधु के द्वारा साध्वी को ग्रहण करने या सहारा देने के पाँच बोलः—

पाँच बोलों से साधु साध्वी को ग्रहण करने अथवा सहारा देने के लिये उसका स्पर्श करे तो भगवान् की आज्ञा का उल्लङ्घन नहीं करता ।

- (१) कोई मस्त सांड आदि पशु या गीध आदि पक्षी साध्वी को मारते हों तो साधु, साध्वी को बचाने के लिये उसका स्पर्श कर सकता है ।
- (२) दुर्ग अथवा विपम स्थानों पर फिसलती हुई या गिरती हुई साध्वी को बचाने के लिये साधु उसका स्पर्श कर सकता है ।
- (३) कीचड़ या दलदल में फँसी हुई अथवा पानी में बहती हुई साध्वी को साधु निकाल सकता है ।
- (४) नाव पर चढ़ती हुई या उतरती हुई साध्वी को साधु सहारा दे सकता है ।
- (५) यदि कोई साध्वी राग, भय या अपमान से शून्य चित्त वाली हो, सन्मान से हर्षोन्मत्त हो, यत्नाधिष्ठित हो, उन्माद वाली हो, उसके ऊपर उपसर्ग आये हों, यदि वह कलह करके खमाने के लिये आती हो, परन्तु पछतावे और

भय के मारे शिथिल हो, प्रायश्चित्त वाली हो, संथारा की हुई हो, दुष्ट पुरुष अथवा चोर आदि द्वारा संयम से डिगार्ह जाती हो, ऐसी साध्वी की रक्षा के लिये साधु उसका स्पर्श कर सकता है।

(ठाणांग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३७)

३४१—आचार्य्य के पाँच प्रकारः—

- (१) प्रव्राजकाचार्य्य ।                      (२) दिगाचार्य्य ।  
 (३) उद्देशाचार्य्य ।                      (४) समुद्देशानुज्ञाचार्य्य ।  
 (५) आम्नायार्थवाचकाचार्य्य ।

(१) प्रव्राजकाचार्य्यः—मामायिक व्रत आदि का आरोपण करने वाले प्रव्राजकाचार्य्य कहलाते हैं।

(२) दिगाचार्य्यः—सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु की अनुमति देने वाले दिगाचार्य्य कहलाते हैं।

(३) उद्देशाचार्य्यः—सर्व प्रथम श्रुत का कथन करने वाले या मूल पाठ सिखाने वाले उद्देशाचार्य्य कहलाते हैं।

(४) समुद्देशानुज्ञाचार्य्यः—श्रुत की वाचना देनेवाले गुरु के न होने पर श्रुत को स्थिर परिचित्त करने की अनुमति देने वाले समुद्देशानुज्ञाचार्य्य कहलाते हैं।

(५) आम्नायार्थवाचकाचार्य्य—उत्सर्ग अपवाद रूप आम्नाय अर्थ के कहने वाले आम्नायार्थवाचकाचार्य्य कहलाते हैं।

( धर्मसंग्रह अधिकार ३ श्लो० ४६ टीका पृष्ठ १२८ )

३४२—आचार्य, उपाध्याय के शेष साधुओं की अपेक्षा पाँच अतिशयः—

गच्छ में वर्तमान आचार्य, उपाध्याय के अन्य साधुओं की अपेक्षा पाँच अतिशय अधिक होते हैं ।

(१) उत्सर्ग रूप से सभी साधु जब बाहर से आते हैं तो स्थानक में प्रवेश करने के पहिले बाहर ही पैरों को पूँजते हैं और झाटकते हैं । उत्सर्ग से आचार्य, उपाध्याय भी उपाश्रय से बाहर ही खड़े रहते हैं और दूसरे साधु उनके पैरों का प्रमार्जन और प्रस्फोटन करते हैं अर्थात् धूलि दूर करते हैं और पूँजते हैं ।

परन्तु इसके लिये बाहर ठहना पड़े तो दूसरे साधुओं की तरह आचार्य, उपाध्याय बाहर न ठहरते हुए उपाश्रय के अन्दर ही आजाते हैं और अन्दर ही दूसरे साधुओं से धूलि न उड़े, इस प्रकार प्रमार्जन और प्रस्फोटन कराते हैं; यानि पुँजवाते हैं और धूलि दूर करवाते हैं । ऐसा करते हुए भी वे साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं करते ।

(२) आचार्य, उपाध्याय उपाश्रय में लघुनीत, बड़ीनीत परठाते हुए या पैर आदि में लगी हुई अशुचि को हटाते हुए साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं करते ।

(३) आचार्य, उपाध्याय इच्छा हो तो दूसरे साधुओं की वैयावृत्य करते हैं, इच्छा न हो तो नहीं भी करते हैं ।

(४) आचार्य, उपाध्याय उपाश्रय में एक या दो रात तक अकेले



रहते हुए भी साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं करते ।

- (५) आचार्य, उपाध्याय उपाश्रय से बाहर एक या दो रात तक अकेले रहते हुए भी साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं करते ।  
(ठाणांग ५ उ० २ सू० ४३८)

३४३—आचार्य, उपाध्याय के गण से निकलने के पाँच कारणः—  
पाँच कारणों से आचार्य, उपाध्याय गच्छ से निकल जाते हैं ।

- (१) गच्छ में साधुओं के दुर्विनीत होने पर आचार्य, उपाध्याय “इस प्रकार प्रवृत्ति करो, इस प्रकार न करो” इत्यादि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप, आज्ञा धारणा यथायोग्य न प्रवर्त्ता सकें।
- (२) आचार्य, उपाध्याय पद के अभिमान से रत्नाधिक (दीक्षा में बड़े) साधुओं की यथायोग्य विनय न करें तथा साधुओं में छोटों से बड़े साधुओं की विनय न करा सकें ।
- (३) आचार्य, उपाध्याय जो सूत्रों के अध्ययन, उद्देश आदि धारण किये हुए हैं । उनकी यथावसर गण को वाचना न दें । वाचना न देने में दोनों ओर की अयोग्यता संभव है । गच्छ के साधु अविनीत हो सकते हैं तथा आचार्य, उपाध्याय भी सुखासक्त तथा मन्दबुद्धि हो सकते हैं ।
- (४) गच्छ में रहे हुए आचार्य, उपाध्याय अपने या दूसरे गच्छ की साधु में मोहवश आसक्त हो जाँय ।
- (५) आचार्य, उपाध्याय के मित्र या ज्ञाति के लोग किसी कारण से उन्हें गच्छ से निकालें । उन लोगों की बात-स्वीकार

कर उनकी वस्त्रादि से सहायता करने के लिये आचार्य्य, उपाध्याय गच्छ से निकल जाते हैं ।

(ठाणग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३६ )

३४४—गच्छ में आचार्य्य, उपाध्याय के पाँच कलह स्थानः—

- (१) आचार्य्य, उपाध्याय गच्छ में “इस कार्य में प्रवृत्ति करो, इस कार्य को न करो” इस प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति रूप आज्ञा और धारणा की सम्यक् प्रकार प्रवृत्ति न करा सकें ।
- (२) आचार्य्य, उपाध्याय गच्छ में साधुओं से रतनाधिक (दीक्षा में बड़े) साधुओं की यथायोग्य विनय न करा सकें तथा स्वयं भी रतनाधिक साधुओं की उचित विनय न करें ।
- (३) आचार्य्य, उपाध्याय जो सूत्र एवं अर्थ जानते हैं । उन्हें यथा-वसर सम्यग् विधि पूर्वक गच्छ के साधुओं को न पढ़ावें ।
- (४) आचार्य्य उपाध्याय गच्छ में जो ग्लान और नवदीक्षित साधु हैं । उनके वैयावृत्त्य की व्यवस्था में सावधान न हों ।
- (५) आचार्य्य, उपाध्याय गण को विना पूछे ही दूसरे क्षेत्रों में विचरने लग जाँय ।

इन पाँच स्थानों से गच्छ में अनुशासन नहीं रहता है । इसमें गच्छ में साधुओं के बीच कलह उत्पन्न होता है अथवा साधु लोग आचार्य्य, उपाध्याय से कलह करते हैं ।

इन बोलों से विपरीत पाँच बोलों से गच्छ में सम्यक् व्यवस्था रहती है और कलह नहीं होता । इस लिये वे पाँच बोल अकलह स्थान के हैं ।

( ठाणग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६ )

३४५—संभोगी साधुओं को अलग करने के पाँच बोल—

पाँच बोल वाले स्वधर्मी संभोगी साधु को विसंभोगी अर्थात् संभोगी से पृथक् मंडली बाहर करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ भगवान् की आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ।

- (१) जो अकृत्य कार्य का सेवन करता है ।
- (२) जो अकृत्य सेवन कर उसकी आलोचना नहीं करता ।
- (३) जो आलोचना करने पर गुरु से दिये हुए प्रायश्चित्त का सेवन नहीं करता ।
- (४) गुरु से दिये हुए प्रायश्चित्त का सेवन प्रारम्भ करके भी पूरी तरह से उसका पालन नहीं करता ।
- (५) स्थविर कल्पी साधुओं के आचार में जो विशुद्ध आहार शय्यादि कल्पनीय हैं और मासकल्प आदि की जो मर्यादा है । उसका अतिक्रमण करता है । यदि साथ वाले कहें कि तुम्हें ऐसा न करना चाहिये, ऐसा करने से गुरु महाराज तुम्हें गच्छ से बाहर कर देंगे तो उत्तर में वह उन्हें कहता है कि मैं तो ऐसा ही करूँगा । गुरु महाराज मेरा क्या कर लेंगे ? नाराज हो कर भी वे मेरा क्या कर सकते हैं ? आदि ।

(ठाण्णंग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६८)

३४६—पारंचित प्रायश्चित्त के पाँच बोल—

श्रमण निर्ग्रन्थ पाँच बोल वाले साधर्मिक साधुओं को दशवां पारंचित प्रायश्चित्त देता हुआ आचार और आज्ञा का अतिक्रमण नहीं करता ।

- पारंचित दशवां प्रायश्चित्त है। इमसे बड़ा कोई प्रायश्चित्त नहीं है। इस में साधु को नियत काल के लिये दोष की शुद्धि पर्यन्त साधुलिङ्ग छोड़ कर गृहस्थ वेष में रहना पडता है।
- (१) साधु जिस गच्छ में रहता है। उसमें फूट डालने के लिये आपस में कलह उत्पन्न करता हो।
  - (२) साधु जिस गच्छ में रहता है। उस में भेद पड़ जाय इस आशय से, परस्पर कलह उत्पन्न करने में तत्पर रहता हो।
  - (३) साधु आदि की हिंसा करना चाहता हो।
  - (४) हिंसा के लिये प्रमत्तता आदि छिद्रों को देखता रहता हो।
  - (५) बार बार असंयम के स्थान रूप सावध अनुष्ठान की पूछताछ करता रहता हो अथवा अंगुष्ठ, कुड्यम प्रश्न वगैरह का प्रयोग करता हो।

नोट—अंगुष्ठ प्रश्न विद्या विशेष है। जिनके द्वारा अंगूठे में देवता बुलाया जाता है। इसी प्रकार कुड्यम प्रश्न भी विद्या विशेष है। जिसके द्वारा दीवाल में देवता बुलाया जाता है। देवता के कहे अनुसार प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया जाता है।

३४७—पांच अवन्दनीय साधुः—जिनमत में ये पांच साधु अवन्दनीय हैं।

(१) पासत्थ। (२) ओसन्न।

(३) कुशील। (४) संसक्त।

(५) यथाच्छन्द।

(१) पासत्थ (पार्श्वस्थ या पासस्थ):—जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और प्रवचन में सम्यग् उपयोग वाला नहीं है।

ज्ञानादि के समीप रह कर भी जो उन्हें अपनाता नहीं है। यह पासस्थ (पार्श्वस्थ) है।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र में जो सुस्त रहता है अर्थात् उद्यम नहीं करता है। वह पासस्थ कहा जाता है।

पाश का अर्थ है बन्धन। मिथ्यात्वादि बन्ध के हेतु भी भाव से पात्र रूप है। उनमें रहने वाला अर्थात् उनका आचरण करने वाला पासस्थ (पांशस्थ) या पार्श्वस्थ कहलाता है।

पासस्थ के दो भेदः—सर्व पासस्थ और देश पासस्थ।

सर्व पासस्थः—जो केवल साधु वेपधारी है। किन्तु ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूप रत्नत्रय की आराधना नहीं करता। वह सर्व पासस्थ कहा जाता है।

देश पासस्थ—विना कारण शय्यातर पिण्ड, राज पिण्ड, नित्य पिण्ड, अग्र पिण्ड और सामने लाये हुए आहार का भोजन करने वाला देश पासस्थ कहलाता है।

(२) ओसन्नः—(अवसन्न) समाचारी के विषय में प्रमाद करने वाला साधु (ओसन्न) अवसन्न कहा जाता है।

अवसन्न के दो भेद—

(१) सर्व अवसन्न। (२) देश अन्नसन्न।

सर्व अवसन्न—जो एक पक्ष के अन्दर पीठ फलक आदि बन्धन खोल कर उनकी पडिलेहना नहीं करता अथवा बार बार सोने के लिये संधारा बिछाये रखता

है तथा जो स्थापना और प्राभृतिका दोष से दूषित आहार लेता है। वह सर्व अवसन्न है।

(प्रव० २१० ० गा० १०६)

नोट:—स्थापना दोष:—साधु के निमित्त रख छोड़े हुए आहार को लेना स्थापना दोष है। (प्रव० द्वा० २ गा० १०६)

प्राभृतिका दोष:—साधु के लिये विवाहादि के भोज को आगे पीछे करके जो आहार बनाया जाता है। उसे लेना प्राभृतिका दोष है। (प्रव० द्वा० २ गा० १०६)

देश अवसन्न:—जो प्रतिक्रमण नहीं करता अथवा अविधि से हीनाधिक दोष युक्त करता है या असमय में करता है। स्वाध्याय नहीं करता है अथवा निषिद्ध काल में करता है। पडिलेहना नहीं करता है अथवा असावधानी से करता है। सुखार्थी होकर भिक्षा के लिये नहीं जाता है अथवा अनुपयोग पूर्वक भिक्षाचरी करता है। अनेपणीय आहार ग्रहण करता है। “मैंने क्या किया ? मुझे क्या करना चाहिये और मैं क्या क्या कर सकता हूँ” इत्यादि रूप शुभध्यान नहीं करता। साधुमंडली में बैठ कर भोजन नहीं करता, यदि करता है तो संयोजनादि मॉडला के दोषों का सेवन करता है। बाहर से आकर नैपेधिकी आदि समाचारी नहीं करता तथा उपाश्रय से जाते समय आवश्यकतादि समाचारी नहीं करता। गमनागमन में इरियावहिया का कायोत्सर्ग नहीं करता। बैठते और सोते समय भी जमीन पूंजने आदि की समाचारी का पालन नहीं करता और “दोषों की सम्यक् आलोचना आदि करके प्रायश्चित्त ले लो” आदि गुरु के

कहने पर उनके सामने अनिष्ट वचन कहता है और गुरु के कहे अनुसार नहीं करता। इत्यादि प्रकार से साधु की समाचारी में दोष लगाने वाला देश अवसन्न कहा जाता है।

(३) कुशीलः—कुत्सित अर्थात् निन्द्य शील-आचार वाले साधु को कुशील कहते हैं।

कुशील के तीन भेदः—ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र-कुशील।

ज्ञान कुशीलः—काल, विनय इत्यादि ज्ञान के आचार की विराधना करने वाला ज्ञान कुशील कहा जाता है।

दर्शन कुशीलः—निःशंकित, निष्कांचित आदि समकित के आठ आचार की विराधना करने वाला दर्शन कुशील कहा जाता है।

चारित्रकुशीलः—कौतुक, भूतिकर्म, प्रश्नाप्रश्न, निमित्त, आजीव, कल्ककुरुका, लक्षण, विद्या, मन्त्रादि द्वारा आजीविका करने वाला साधु चारित्र कुशील कहा जाता है।

कौतुकादि का लक्षण इस प्रकार है। (हरिभद्रीयावश्यक)

कौतुकः—सौभाग्यादि के लिए स्त्री आदि का विविध औपधि मिश्रित जल से स्नान आदि कौतुक कहा जाता है अथवा कौतुक आश्चर्य को कहते हैं। जैसे मुख में गोले डाल कर नाक या कान आदि से निकालना तथा मुख से अग्नि निकालना आदि।

भूतिकर्मः—ज्वर आदि रोग वालों को मंत्र की हुई भस्मी (राख) देना भूतिकर्म है।

**प्रश्नाप्रश्नः—**प्रश्न कर्ता अथवा दूसरे को, जाप की हुई विद्या अधिष्ठात्री देवी से, स्वप्न में कही हुई बात कहना अथवा कर्ण पिशाचिका और मन्त्र से अभिषिक्त घटिकादि से कही हुई बात कहना प्रश्नाप्रश्न है ।

**निमित्तः—**भूत, भविष्य और वर्तमान के लाभ, अलाभ आदि भाव कहना निमित्त है ।

**आजीवः—**जाति, कुल, गण, शिल्प (आचार्य से सीखा हुआ), कर्म (स्वयं सीखा हुआ) बता कर समान जाति कुल आदि वालों से आजीविका करना तथा अपने को तप और श्रुत का अम्यासी बता कर आजीविका करना आजीव है ।

**कल्क कुरुकाः—**कल्क कुरुका का अर्थ माया है अर्थात्-धूर्त्ता द्वारा दूसरों को ठगना कल्क कुरुका है ।

**अथवाः—**

**कल्कः—**प्रसूति आदि रोगों में चारपातन को कल्क कहते हैं अथवा शरीर के एक देश को या सारे शरीर को लोद आदि से उबटन करना कल्क है ।

**कुरुकाः—**शरीर के एक देश को या सारे शरीर को धोना कुरुका है ।

**लक्षणः—**स्त्री पुरुष आदि के शुभाशुभ सामुद्रिक लक्षण बतलाना लक्षण कहा जाता है ।

**विद्याः—**देवी जिसकी अधिष्ठायिका होती है अथवा जो साधी जाती है वह विद्या है ।

**मन्त्रः—**देवता जिस का अधिष्ठाता होता है वह मन्त्र है अथवा जिसे साधना नहीं पड़ता वह मन्त्र है ।



इसी प्रकार मूल कर्म, (गर्म गिराना, गर्म रक्षाने आदि की औषधि देना), चर्ण योग आदि तथा शरीर विभूषादि से चारित्र को मलीन करने वाले साधु को भी चारित्र कुशील ही समझना चाहिये ।

(प्रव० सा० द्वा०२ गा० १११—११५)

(आव०हरि० अ० ३ नि० गा० ११०७ पृ० ५१६)

- (४) संसक्तः—मूल गुण और उत्तर गुण तथा इनके जितने दोष हैं वे सभी जिसमें मिले रहते हैं वह संसक्त कहलाता है । जैसे—गाय के बांटे में अच्छी बुरी, उच्छिष्ट, अनुच्छिष्ट आदि सभी चीजें मिली रहती हैं ! इसी प्रकार संसक्त में भी गुण और दोष मिले रहते हैं ।

संसक्त के दो भेद—संक्लिष्ट और असंक्लिष्ट ।

संक्लिष्ट संसक्तः—प्राणातिपात आदि पाँच आश्रवों में प्रवृत्ति करने वाला ऋद्धि आदि तीन गारव में आसक्त, स्त्री प्रतिपेवी (स्त्री संक्लिष्ट) तथा गृहस्थ सम्बन्धी द्विपद, चतुष्पद, धन-धान्य आदि प्रयोजनों में प्रवृत्ति करने वाला संक्लिष्ट संसक्त कहा जाता है ।

असंक्लिष्ट संसक्तः—जो पासत्य, अवसन्न, कुशील आदि में मिल कर पासत्य, अवसन्न, कुशील आदि हो जाता है तथा संविग्र अर्थात् उद्यत विहारी साधुओं में मिलकर उद्यत विहारी हो जाता है । कभी धर्म प्रिय लोगों में आकर धर्म से प्रेम करने लगता है और कभी धर्म द्वेषी लोगों के बीच रह कर धर्म से द्वेष करने लगता है । ऐसे साधु को असंक्लिष्ट संसक्त कहते हैं । इसका आचार वैभे ही बदलता

रहता है। जैसे—कथा के अनुसार नट के हाव भाव, वेप और भाषा आदि बदलते रहते हैं।

- (५) यथाच्छन्द—उत्सूत्र (सूत्र विपरीत) की प्ररूपणा करने वाला और सूत्र विरुद्ध आचरण करने वाला, गृहस्थ के कार्यों में प्रवृत्ति करने वाला, चिढ़चिड़े स्वभाव वाला, आगम निरपेक्ष, स्वमति कल्पित अपुष्टालम्बन का आश्रय लेकर सुख चाहने वाला, विगय आदि में आसक्त, तीन गारव से गर्वोन्मत्त ऐसा साधु यथाच्छन्द कहा जाता है।

इन पांचों को वन्दना करने वाले के न निर्जरा होती हैं और न कीर्ति ही। वन्दना करने वाले को कायक्लेश होता है और इसके सिवाय कर्म-बन्ध भी होता है। पासत्थे आदि का संसर्ग करने वाले भी अवन्दनीय बताये गये हैं।

(हरि० आ० वन्दनाध्य० नि० गा० ११०७—= पृष्ठ ५१६ से ५१८)  
(प्रवचन सारोद्धार द्वा० २ पूर्व भाग गाथा १०३ से १२३)

३४८—पास जाकर वन्दना के पांच असमय—

- (१) गुरु महाराज अनेक भव्य जीवों से भरी हुई सभा में धर्म-कथादि में व्यग्र हों। उस समय पास जाकर वन्दना न करना चाहिये। उस समय वन्दना करने से धर्म में अन्तराय लगती है।
- (२) गुरु महाराज किसी कारण से पराङ्मुख हों अर्थात् मुंह फेरे हुए हो उस समय भी वन्दना नहीं करनी चाहिये क्योंकि उस समय वे वन्दना को स्वीकार न कर सकेंगे।
- (३) क्रोध व निद्रादि प्रमाद से प्रमत्त गुरु महाराज को भी वन्दना न करना चाहिये क्योंकि उस समय वे कोप कर सकते हैं।

(४) आहार करते हुए गुरु महाराज को भी वन्दना न करनी चाहिये क्योंकि उस समय वन्दना करने से आहार में अन्तराय पड़ती है ।

(५) मल मूत्र त्यागते समय भी गुरु महाराज को वन्दना न करनी चाहिये क्योंकि उस समय वन्दना करने से वे लज्जित हो सकते हैं या और कोई दोष उत्पन्न हो सकता है ।

(प्रवचन सारोद्धार द्वा० २ वन्दना द्वार गा० १२४ पृष्ठ २७०)

(हरिमन्त्रीयावश्यक वन्दनाध्ययन नि० गा० ११६८ पृष्ठ ५४०)

३४६—पास जाकर वन्दना योग्य समय के पांच बोल—

(१) गुरु महाराज प्रमन्न चित्त हों, प्रशान्त हों अर्थात् व्याख्या-नादि में व्यग्र न हों ।

(२) गुरु महाराज आसन पर बैठे हों ।

(३) गुरु महाराज क्रोधादि प्रमादवश न हों ।

(४) शिष्य के 'वन्दना करना चाहता हूँ' ऐसा पूछने पर गुरु महाराज 'इच्छा हो' ऐसा कहते हुए वन्दना स्वीकार करने में सावधान हों ।

(५) ऐसे गुरु महाराज से आज्ञा प्राप्त की हो ।

(हरिमन्त्रीयावश्यक अ० ६ गा० ११६६ पृष्ठ ५४१)

(प्रवचन सारोद्धार वन्दना द्वार २ गाथा १२५ पृष्ठ २७१)

३५०—भगवान् महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच बोलः—

पाँच बोलों का भगवान् महावीर ने नाम निर्देश पूर्वक स्वरूप और फल बताया है । उन्होंने उनकी प्रशंसा की है और आचरण करने की अनुमति दी है ।

वे बोल निम्न प्रकार हैंः—

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (१) ज्ञान्ति । | (२) मुक्ति । |
| (३) आर्जव ।    | (४) मार्दव । |
| (५) लाघव ।     |              |

- (१) ज्ञान्तिः—शक्त अथवा अशक्त पुरुष के कठोर भाषणादि को सहन कर लेना तथा क्रोध का सर्वथा त्याग करना ज्ञान्ति है ।
- (२) मुक्तिः—सभी वस्तुओं में तृष्णा का त्याग करना, धर्मोपकरण एवं शरीर में भी ममत्व भाव न रखना, सब प्रकार के लोभ को छोड़ना मुक्ति है ।
- (३) आर्जवः—मन, वचन, काया की सरलता रखना और माया का निग्रह करना आर्जव है ।
- (४) मार्दवः—विनम्र वृत्ति रखना, अभिमान न करना मार्दव है ।
- (५) लाघवः—द्रव्य से अल्प उपकरण रखना एवं भाव से तीन गारव का त्याग करना लाघव है ।

( ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६ )

( धर्म संग्रह अधिकार ३ श्लो० ४६ टी० पृष्ठ १२७ )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६६ पूर्वभाग गा० ५५४ पृष्ठ १३४ )

३५१—भगवान् से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः—

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| (१) सत्य ।         | (२) संयम ।  |
| (३) तप ।           | (४) त्याग । |
| (५) ब्रह्मचर्य्य । |             |

- (१) सत्यः—सावद्य अर्थात् असत्य, अप्रिय, अहित वचन का त्याग करना, यथार्थ भाषण करना, मन वचन काया की

सरलता रखना सत्य है ।

- (२) संयमः—सर्व सावध व्यापार से निवृत्त होना संयम है । पाँच आश्रव से निवृत्ति, पाँच इन्द्रिय का निग्रह, चार कपाय पर विजय और तीन दण्ड से विरति । इस प्रकार सतरह भेद वाले संयम का पालन करना संयम है ।
- (३) तपः—जिस अनुष्ठान से शरीर के रस, रक्त आदि सात धातु और आठ कर्म तप कर नष्ट हो जाय वह तप है । यह तप बाह्य और आभ्यन्तर के भेद से दो प्रकार का है । दोनों के छः छः भेद हैं ।
- (४) त्यागः—कर्मों के ग्रहण कराने वाले बाह्य कारण माता, पिता, धन, धान्यादि तथा आभ्यन्तर कारण राग, द्वेष, कपाय आदि सर्व मन्वन्धों का त्याग करना, त्याग है ।

अथवाः—

साधुओं को वस्त्रादि का दान करना त्याग है ।

अथवाः—

शक्ति होते हुए उद्यत विहारी होना, लाम होने पर संभोगी साधुओं को आहारादि देना अथवा असक्त होने पर यथाशक्ति उन्हें गृहस्थों के घर बताना और इसी प्रकार उद्यत विहारी, असंभोगी साधुओं को श्रावकों के घर दिखाना त्याग है ।

नोटः—हेम कोष में दान का अपर नाम त्याग है ।

- (५) ब्रह्मचर्यवासः—मैथुन का त्याग कर शास्त्र में बताई हुई ब्रह्मचर्य की नव गुप्ति (बाढ़) पूर्वक शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन

करना ब्रह्मचर्य्य वास है ।

( ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६ )

( धर्म समग्र अधिकार ३ श्लो ४६ टी० पृष्ठ १२७ )

( प्रवचन सारोद्धार द्वा० ६६ पूर्वभाग गा० ५५४ पृष्ठ १३४ )

३५२—भगवान् से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थानः—

- (१) उत्तिप्त चरक ।                      (२) निक्षिप्त चरक ।  
 (३) अन्त चरक ।                      (४) प्रान्त चरक ।  
 (५) लूक्ष चरक ।

(१) उत्तिप्त चरकः—गृहस्थ के अपने प्रयोजन से पकाने के बर्तन से बाहर निकाले हुए आहार की गवेपणा करने वाला साधु उत्तिप्त चरक है ।

(२) निक्षिप्त चरकः—पकाने के पात्र से बाहर न निकाले हुए अर्थात् उसी में रहे हुए आहार की गवेपणा करने वाला साधु निक्षिप्त चरक कहलाता है ।

(३) अन्त चरकः—घर वालों के भोजन करने के पश्चात् बचे हुए आहार की गवेपणा करने वाला साधु अन्त चरक कहलाता है ।

(४) प्रान्त चरकः—भोजन से अवशिष्ट, वासी या तुच्छ आहार की गवेपणा करने वाला साधु प्रान्त चरक कहलाता है ।

(५) लूक्ष चरकः—रूखे, स्नेह रहित आहार की गवेपणा करने वाला साधु लूक्ष चरक कहलाता है ।

ये पाँचों अभिग्रह-विशेषधारी साधु के प्रकार हैं । प्रथम दो भाव-अभिग्रह और शेष तीन द्रव्य अभिग्रह हैं ।

( ठाणाग ५ उ० १ सूत्र ३६६ )

३५३—भगवान् से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थानः—

- (१) अज्ञात चरक ।

- (२) अन्न इलाय चरक (अन्न ग्लानक चरक, अन्न ग्लायक चरक, अन्य ग्लायक चरक) ।
- (३) मौन चरक ।
- (४) संसृष्ट कल्पिक ।
- (५) तज्जात संसृष्ट कल्पिक ।
- (१) अज्ञात चरकः—आगे पीछे के परिचय रहित अज्ञात घरों में आहार की गवेषणा करने वाला अथवा अज्ञात रह कर गृहस्थ को स्वजाति आदि न बतला कर आहार पानी की गवेषणा करने वाला साधु अज्ञात चरक कहलाता है ।
- (२) अन्न इलाय चरक (अन्न ग्लानक चरक, अन्न ग्लायक चरक, अन्य ग्लायक चरक) :—  
अभिग्रह विशेष से सुबह ही आहार करने वाला साधु अन्न ग्लानक चरक कहलाता है ।  
अन्न के बिना भूख आदि से जो ग्लान हो उसी अवस्था में आहार की गवेषणा करने वाला साधु अन्न ग्लायक चरक कहलाता है ।  
दूसरे ग्लान साधु के लिये आहार की गवेषणा करने वाला मुनि अन्य ग्लायक चरक कहलाता है ।
- (३) मौन चरकः—मौनव्रत पूर्वक आहार की गवेषणा करने वाला साधु मौन चरक कहलाता है ।
- (४) संसृष्ट कल्पिकः—संसृष्ट अर्थात् खरड़े हुए हाथ या भाजन आदि से दिया जाने वाला आहार ही जिसे कल्पता है । वह संसृष्ट कल्पिक है ।
- (५) तज्जात संसृष्ट कल्पिकः—दिये जाने वाले द्रव्य से ही खरड़े हुए हाथ या भाजन आदि से दिया जाने वाला आहार

जिसे कल्पता है। वह तज्जात संसृष्ट कल्पिक है।

ये पाँचों प्रकार भी अभिग्रह विशेष धारी साधु के ही जानने चाहिये।

(ठाणग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६)

३५४—भगवान् महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पांच स्थानः—

- (१) औपनिधिक। (२) शुद्धैषणिक।  
 (३) संख्या दत्तिक। (४) दृष्ट लाभिक।  
 (५) पृष्ट लाभिक।

(१) औपनिधिकः—गृहस्थ के पास जो कुछ भी आहारादि रखा है उसी की गवेपणा करने वाला साधु औपनिधिक कहलाता है।

(२) शुद्धैषणिक—शुद्ध अर्थात् शंकितादि दोष वजित निर्दोष एषणा अथवा संसृष्टादि सात प्रकार की या और किसी एषणा द्वारा आहार की गवेपणा करने वाला साधु शुद्धैषणिक कहा जाता है।

(३) संख्यादत्तिकः—दत्ति (दात) की संख्या का परिमाण करके आहार लेने वाला साधु संख्या दत्तिक कहा जाता है।

साधु के पात्र में धार टूटे बिना एक बार में जितनी भिक्षा आ जाय वह दत्ति यानि दात कहलाती है।

(४) दृष्टलाभिकः—देखे हुए आहार की ही गवेपणा करने वाला साधु दृष्ट लाभिक कहलाता है।

(५) पृष्टलाभिकः—‘हे मुनिराज ! क्या आपको मैं आहार दूँ’ इस प्रकार पूछने वाले दाता से ही आहार की गवेपणा करने वाला साधु पृष्ट लाभिक कहलाता है।



ये भी अभिग्रह धारी साधु के प्रकार हैं ।

३५५—भगवान् महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थान-

(१) आचाम्लिक । (२) निर्विकृतिक ।

(३) पूर्वार्द्धिक । (४) परिमित पिएडपातिक ।

(५) भिन्न पिएडपातिक ।

(१) आचाम्लिक (आयंविलिए):—आचाम्ल (आयंविल) तप करने वाला साधु आचाम्लिक कहलाता है ।

(२) निर्विकृतिक (णिव्वियते):—धी आदि विगय का त्याग करने वाला साधु निर्विकृतिक कहलाता है ।

(३) पूर्वार्द्धिक (पुरिमड्ढी):—पुरिमड्ढ अर्थात् प्रथम दो पहर तक का प्रत्याख्यान करने वाला साधु पूर्वार्द्धिक कहा जाता है ।

(४) परिमित पिएडपातिक:—द्रव्यादि का परिमाण करके परिमित आहार लेने वाला साधु परिमित पिएडपातिक कहलाता है ।

(५) भिन्न पिएडपातिक:—पूरी वस्तु न लेकर दुकड़े की हुई वस्तु को ही लेने वाला साधु भिन्न पिएडपातिक कहलाता है ।

(ठाणान ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६)

३५६—भगवान् महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थान:-

(१) अरसाहार ।

(२) विरसाहार ।

(३) अन्ताहार ।

(४) ग्रान्ताहार ।

(५) लूनाहार ।

- (१) अरसाहारः—हींग आदि के बघार से रहित नीरस आहार करने वाला साधु अरसाहार कहलाता है ।
- (२) विरसाहारः—विगत रस अर्थात् रस रहित पुराने धान्य आदि का आहार करने वाला साधु विरसाहार कहलाता है ।
- (३) अन्ताहारः—भोजन के बाद अवशिष्ट रही हुई वस्तु का आहार करने वाला साधु अन्ताहार कहलाता है ।
- (४) प्रान्ताहारः—तुच्छ, हल्का या बासी आहार करने वाला साधु प्रान्ताहार कहलाता है ।
- (५) लूचाहारः—नीरस, घी, तैलादि वर्जित भोजन करने वाला साधु लूचाहार कहलाता है ।

ये भी पाँच अभिग्रह विशेष-धारी साधुओं के प्रकार हैं । इसी प्रकार जीवन पर्यन्त अरस, विरस, अन्त, प्रान्त, एवं रूक्ष भोजन से जीवन निर्वाह के अभिग्रह वाले साधु अरसजीवी, विरसजीवी, अन्तजीवी, प्रान्तजीवी एवं रूक्ष जीवी कहलाते हैं ।

( ठाणाम ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६ )

३५७—भगवान् महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थानः—

- (१) स्थानातिग ।
- (२) उत्कटुकासनिक ।
- (३) प्रतिमास्थायी ।
- (४) वीरासनिक ।
- (५) नैषधिक ।

- (१) स्थानातिगः—अतिशय रूप से स्थान अर्थात् कायोत्सर्ग करने वाला साधु स्थानातिग कहलाता है ।
- (२) उत्कटुकासनिक—पीठे चगैरह पर कून्हे ( पुत ) न लगाते हुए पैरों पर बैठना उत्कटुकासन है । उत्कटुकासन से बैठने

- के अभिग्रह वाला साधु उत्कट्टकासनिक कहा जाता है ।
- (३) प्रतिमास्थायी:—एक रात्रि आदि की प्रतिमा अङ्गीकार कर कायोत्सर्ग विशेष में रहने वाला साधु प्रतिमास्थायी है ।
- (४) वीरासनिक:—पैर जमीन पर रख कर सिंहासन पर बैठे हुए पुरुष के नीचे से सिंहासन निकाल लेने पर जो अवस्था रहती है उस अवस्था से बैठना वीरासन है । यह आसन बहुत दुष्कर है । इस लिये इसका नाम वीरासन रखा गया है ।
- (५) नैषधिक:—निषद्या अर्थात् बैठने के विशेष प्रकारों से बैठने वाला साधु नैषधिक कहा जाता है ।

( ठाणग ५ उ० १ सूत्र ३६६ )

३५८—निषद्या के पाँच भेद:—

- (१) समपादयुता ।                      (२) गोनिषदिका ।  
 (३) हस्तिशुण्डिका ।                    (४) पर्यङ्का ।  
 (५) अर्द्ध पर्यङ्का ।

- (१) समपादयुता:—जिस में समान रूप से पैर और कून्हों से पृथ्वी या आसन का स्पर्श करते हुए बैठा जाता है वह समपादयुता निषद्या है ।
- (२) गोनिषदिका:—जिस आसन में गाय की तरह बैठा जाता है । वह गोनिषदिका है ।
- (३) हस्तिशुण्डिका:—जिस आसन में कून्हों पर बैठ कर एक पैर ऊपर रक्खा जाता है । वह हस्तिशुण्डिका निषद्या है ।
- (४) पर्यङ्का:—पद्मासन से बैठना पर्यङ्का निषद्या है ।
- (५) अर्द्ध पर्यङ्का:—जंघा पर एक पैर रख कर बैठना अर्द्ध-पर्यङ्का निषद्या है ।

पांच निषद्या में इस्तिशुण्डिका के स्थान पर उत्कटुका भी कहते हैं ।

उत्कटुका:—आसन पर कूल्हा (पुत) न लगाते हुए पैरों पर बैठना उत्कटुका निषद्या है ।

( ठाणग ५ उ० १ सूत्र ३६६ टीका )

( ठाणग ५ उ० १ सूत्र ४०० )

३५६—भगवान महावीर से उपदिष्ट एवं अनुमत पाँच स्थान:—

- (१) दण्डायतिक । (२) लगण्डशायी ।  
(३) आतापक । (४) अप्रावृतक ।

(५) अकण्डयक

(१) दण्डायतिक:—दण्ड की तरह लम्बे होकर अर्थात् पैर फैला कर बैठने वाला दण्डायतिक कहलाता है ।

(२) लगण्डशायी:—दुःसंस्थित या बांकी लकड़ी को लगण्ड कहते हैं । लगण्ड की तरह कुबड़ा होकर मस्तक और कोहनी को जमीन पर लगाते हुए एवं पीठ से जमीन को स्पर्श न करते हुए सोने वाला साधु लगण्डशायी कहलाता है ।

(३) आतापक:—शीत, आतप आदि सहन रूप आतापना लेने वाला साधु आतापक कहा जाता है ।

(४) अप्रावृतक:—वस्त्र न पहन कर शीत काल में ठण्ड और ग्रीष्म में घाम का सेवन करने वाला अप्रावृतक कहा जाता है ।

(५) अकण्डयक:—शरीर में खुजली चलने पर भी न खुजलाने वाला साधु अकण्डयक कहलाता है ।

( ठाणग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६६ )

३६०—महानिर्जरा और महापर्यवसान के पाँच बोल—

- (१) आचार्य्य ।
- (२) उपाध्याय (सूत्रदाता) ।
- (३) स्थविर ।
- (४) तपस्वी ।
- (५) ग्लान साधु की ग्लानि रहित बहुमान पूर्वक वैयावृत्त्य करता हुआ श्रमण निर्ग्रन्थ महा निर्जरा वाला होता है और पुनः उत्पन्न न होने से महापर्यवसान अर्थात् आत्यन्तिक अन्त वाला होता है ।

( ठाण्णाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६७ )

३६१—महानिर्जरा और महापर्यवसान के पाँच बोलः—

- (१) नवदीक्षित साधु ।
- (२) कुल ।
- (३) गण ।
- (४) संघ ।
- (५) साधर्मिक की ग्लानि रहित बहुमान पूर्वक वैयावृत्त्य करने वाला साधु महानिर्जरा और महापर्यवसान वाला होता है ।

- (१) थोड़े समय की दीक्षा पर्याय वाले साधु को नव दीक्षित कहते हैं ।
- (२) एक आचार्य्य की सन्तति को कुल कहते हैं अथवा चान्द्र आदि साधु समुदाय विशेष को कुल कहते हैं ।
- (३) गणः—कुल के समुदाय को गण कहते हैं अथवा सापेक्ष तीन कुलों के समुदाय को गण कहते हैं ।

(४) संघः—गणों के समुदाय को संघ कहते हैं

(५) साधर्मिकः—लिङ्ग और प्रवचन की अपेक्षा समान धर्म वाला साधु साधर्मिक कहा जाता है ।

(ठाणांग ५ उ० १ सूत्र ३६७)

३६२—पाँच परिज्ञा—वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना और ज्ञान पूर्वक उसे छोड़ना परिज्ञा है । परिज्ञा के पाँच भेद हैं ।

(१) उपधि परिज्ञा ।

(२) उपाश्रय परिज्ञा ।

(३) कषाय परिज्ञा ।

(४) योग परिज्ञा ।

(५) भक्तपान परिज्ञा ।

(ठाणांग ५ उद्देशा २ सूत्र ४२०)

३६३—पाँच व्यवहार—मोक्षामिलापी आत्माओं की प्रवृत्ति निवृत्ति को एवं तत्कारणक ज्ञान विशेष को व्यवहार कहते हैं ।

व्यवहार के पाँच भेदः—

(१) आगम व्यवहार ।

(२) श्रुतव्यवहार ।

(३) आज्ञा व्यवहार ।

(४) धारणाव्यवहार ।

(५) जीत व्यवहार ।

(१) आगम व्यवहारः—केवल ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान, अवधिज्ञान, चौदह पूर्व, दश पूर्व और नव पूर्व का ज्ञान आगम कहलाता है । आगम ज्ञान से प्रवर्तित प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार आगम व्यवहार कहलाता है ।

(२) श्रुत व्यवहारः—आचार प्रकल्प आदि ज्ञान श्रुत है । इससे प्रवर्तिया जाने वाला व्यवहार श्रुतव्यवहार कहलाता है । नव, दश, और चौदह पूर्व का ज्ञान भी श्रुत रूप है परन्तु

अतीन्द्रिय अर्थ विषयक विशिष्ट ज्ञान का कारण होने से उक्त ज्ञान अतिशय वाला है और इसी लिये वह आगम रूप माना गया है ।

(३) आज्ञा व्यवहार:—दो गीतार्थ साधु एक दूसरे से अलग दूर देश में रहे हुए हों और शरीर क्षीण हो जाने से वे विहार करने में असमर्थ हों । उन में से किसी एक के प्रायश्चित्त आने पर वह मुनि योग्य गीतार्थ शिष्य के अभाव में मति और धारणा में अकुशल अगीतार्थ शिष्य को आगम की सांकेतिक गूढ भाषा में अपने अतिचार दोष कह कर या लिख कर उसे अन्य गीतार्थ मुनि के पास भेजता है और उसके द्वारा आलोचना करता है । गूढ भाषा में कही हुई आलोचना सुन कर वे गीतार्थ मुनि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, संहनन, धैर्य, बल आदि का विचार कर स्वयं वहां आते हैं अथवा योग्य गीतार्थ शिष्य को समझा कर भेजते हैं । यदि वैसे शिष्य का भी उनके पास योग न हो तो आलोचना का संदेश लाने वाले के द्वारा ही गूढ अर्थ में अतिचार की शुद्धि अर्थात् प्रायश्चित्त देते हैं । यह आज्ञा व्यवहार है ।

(४) धारणा व्यवहार—किसी गीतार्थ संविग्न मुनि ने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जिस अपराध में जो प्रायश्चित्त दिया है । उसकी धारणा से वैसे अपराध में उसी प्रायश्चित्त का प्रयोग करना धारणा व्यवहार है ।

वैयावृत्त्य करने आदि से जो साधु गच्छ का उपकारी हो । वह यदि सम्पूर्ण छेद सूत्र सिखाने योग्य न

हो तो उसे गुरु महाराज कृपा पूर्वक उचित प्रायश्चित्त पदों का कथन करते हैं। उक्त साधु का गुरु महाराज से कहे हुए उन प्रायश्चित्त पदों का धारण करना धारणा व्यवहार है।

- (५) जीत व्यवहार—द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुरुष, प्रतिसेवना का और संहनन धृति आदि की हानि का विचार कर जो प्रायश्चित्त दिया जाता है। वह जीत व्यवहार है।

अथवा:—

किसी गच्छ में कारण विशेष से सूत्र से अधिक प्रायश्चित्त की प्रवृत्ति हुई हो और दूसरों ने उसका अनुसरण कर लिया हो तो वह प्रायश्चित्त जीत व्यवहार कहा जाता है।

अथवा:—

अनेक गीतार्थ मुनियों द्वारा की हुई मर्यादा का प्रतिपादन करने वाला ग्रन्थ जीत कहलाता है। उससे प्रवर्तित व्यवहार जीत व्यवहार है।

इन पाँच व्यवहारों में यदि व्यवहर्त्ता के पास आगम हो तो उसे आगम से व्यवहार चलाना चाहिए। आगम में भी केवल ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान आदि छः भेद हैं। इनमें पहले केवल ज्ञान आदि के होते हुए उन्हीं से व्यवहार चलाया जाना चाहिए। पिछले मनःपर्यय ज्ञान आदि से नहीं। आगम के अभाव में श्रुत से, श्रुत के अभाव में आज्ञा से, आज्ञा के अभाव में धारणा से और धारणा के अभाव में जीत व्यवहार से, प्रवृत्ति निवृत्ति रूप व्यवहार का प्रयोग होना चाहिए। देश, काल के अनुसार ऊपर कहे अनुसार



सम्यक् रूपेण पक्षपात रहित व्यवहारों का प्रयोग करता हुआ साधु भगवान् की आज्ञा का आराधक होता है ।

( ठाणांग ५ उद्देशा २ सूत्र ४२१ )

( व्यवहार सूत्र पीठिका भाष्य गा० १-२ )

( भगवती शतक ८ उद्देशा ८ सू० ३४० )

३६४—पाँच प्रकार के मुएडः—

मुएडन शब्द का अर्थ अपनयन अर्थात् हटाना, दूर करना है । यह मुएडन द्रव्य और भाव से दो प्रकार का है । शिर से वालों को अलग करना द्रव्य मुएडन है और मन से इन्द्रियों के विषय शब्द, रूप, रस और गन्ध, स्पर्श, सम्बन्धी राग द्वेष और कपायों को दूर करना भाव मुएडन है । इस प्रकार द्रव्य मुएडन और भाव मुएडन धर्म से युक्त पुरुष मुएड कहा जाता है ।

पाँच मुएड—

(१) श्रोत्रेन्द्रिय मुएड । (२) चक्षुरिन्द्रिय मुएड ।

(३) घ्राणेन्द्रिय मुएड । (४) रसनेन्द्रिय मुएड ।

(५) स्पर्शनेन्द्रिय मुएड ।

(१) श्रोत्रेन्द्रिय मुएडः—श्रोत्रेन्द्रिय के विषय रूप मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्दों में राग द्वेष को हटाने वाला पुरुष श्रोत्रेन्द्रिय मुएड कहा जाता है ।

इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय मुएड आदि का स्वरूप भी समझना चाहिये । ये पाँचों भाव मुएड हैं ।

( ठाणांग ५ उ० ३ सूत्र ४४३ )

३६५—पाँच प्रकार के मुण्डः—

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| (१) क्रोध मुण्ड । | (२) मान मुण्ड । |
| (३) माया मुण्ड ।  | (४) लोभ मुण्ड । |
| (५) सिर मुण्ड ।   |                 |

मन से क्रोध, मान, माया और लोभ को हटाने वाले पुरुष क्रमशः क्रोध मुण्ड, मान मुण्ड, माया मुण्ड और लोभ मुण्ड हैं। सिर से केश अलग करने वाला पुरुष सिर मुण्ड है।

इन पाँचों में सिर मुण्ड द्रव्य मुण्ड है और शेष चार भाव मुण्ड हैं।

(ठाण्णाग ५ उ० ३ सूत्र ४४३)

३६६—पाँच निर्ग्रन्थः—

ग्रन्थ दो प्रकार का है। आभ्यन्तर और बाह्य। मिथ्यात्व आदि आभ्यन्तर ग्रन्थ हैं और धर्मोपकरण के सिवाय शेष धन-धान्यादि बाह्य ग्रन्थ है। इस प्रकार बाह्य और आभ्यन्तर ग्रन्थ से जो मुक्त है। वह निर्ग्रन्थ कहा जाता है।

निर्ग्रन्थ के पाँच भेदः—

- |              |                  |
|--------------|------------------|
| (१) पुलाक ।  | (२) बकुश ।       |
| (३) कुशील ।  | (४) निर्ग्रन्थ । |
| (५) स्नातक । |                  |

(१) पुलाकः—दाने से रहित धान्य की भूसी को पुलाक कहते हैं। वह निःसार होती है। तप और श्रुत के प्रभाव से

प्राप्त, संघादि के प्रयोजन से बल ( सेना ) वाहन सहित चक्रवर्ती आदि के नाम को मर्दन करने वाली लब्धि के प्रयोग और ज्ञानादि के अतिचारों के सेवन द्वारा संयम को पुलाक की तरह निस्तार करने वाला साधु पुलाक कहा जाता है ।

पुलाक के दो भेद होते हैं—

(१) लब्धि पुलाक । (२) प्रति सेवा पुलाक ।

लब्धि का प्रयोग करने वाला साधु लब्धि पुलाक है और ज्ञानादि के अतिचारों का सेवन करने वाला साधु प्रति सेवा पुलाक है । (भगवती शतक २५ उद्देशा ६)

(२) बकुशः—बकुश शब्द का अर्थ है शबल अर्थात् चित्र वर्ण । शरीर और उपकरण की शोभा करने से जिसका चारित्र शुद्धि और दोषों से मिला हुआ अत एव अनेक प्रकार का है । वह बकुश कहा जाता है ।

बकुश के दो भेद हैं—

(१) शरीर बकुश । (२) उपकरण बकुश ।

शरीर बकुशः—विभूषा के लिये हाथ, पैर, मुँह आदि धोने वाला, आँख, कान, नाक आदि अवयवों से मैल आदि दूर करने वाला, दाँत साफ करने वाला, केश सँवारने वाला, इस प्रकार कायगुप्ति रहित साधु शरीर-बकुश है ।

उपकरण बकुशः—विभूषा के लिये अकाल में चोलपट्टा आदि धोने वाला, धूपादि देने वाला, पात्र, दण्ड आदि को तैलादि लगा कर चमकाने वाला, साधु उपकरण बकुश है ।

ये दोनों प्रकार के साधु प्रभूत वस्त्र पात्रादि रूप ऋद्धि और यश के कामी होते हैं। ये सातागारव वाले होते हैं और इस लिये रात दिन के कर्त्तव्य अनुष्ठानों में पूरे सावधान नहीं रहते। इनका परिवार भी संयम से पृथक् तैलादि सं शरीर की मालिश करने वाला, कैंची से केश काटने वाला होता है। इस प्रकार इनका चारित्र सर्व या देश रूप से दीक्षा पर्याय के छेद योग्य अतिचारों से मलीन रहता है।

(३) कुशीलः—मूल गुणों तथा उत्तर गुणों में दोष लगाने से तथा संज्वलन कपाय के उदय से दूषित चारित्र वाला साधु कुशील कहा जाता है।

कुशील के दो भेद हैंः—

(१) प्रतिसेवना कुशील।

(२) कपाय कुशील।

प्रतिसेवना कुशीलः—चारित्र के प्रति अभिमुख होते हुए भी अजितेन्द्रिय एवं किसी तरह पिएड विशुद्धि, समिति भावना, तप, प्रतिमा आदि उत्तर गुणों की तथा मूल गुणों की विराधना करने से सर्षज्ञ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला प्रतिसेवना कुशील है।

कपाय कुशीलः—संज्वलन कपाय के उदय से सकपाय त्वास्त्रि वाला साधु कपाय कुशील कहा जाता है।

(४) निर्ग्रन्थ—ग्रन्थ का अर्थ मोह है। मोह से रहित साधु निर्ग्रन्थ कहलाता है। उपशान्त मोह और क्षीण मोह के भेद से निर्ग्रन्थ के दो भेद हैं।

(५) स्नातकः—शुक्लध्यान द्वारा सम्पूर्ण घाती क्रमों के समूह को न्य करके जो शुद्ध हुए हैं वे स्नातक कहलाते हैं। सयोगी और अयोगी के भेद से स्नातक भी दो प्रकार के होते हैं।

( ठाणग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५ )

( भगवती शतक २५ उद्देशा ६ सूत्र ७५१ टी० )

( पंचनिर्ग्रन्थी प्रकरण गाथा ४१ )

३६७—पुलाक ( प्रति सेवा पुलाक ) के पाँच भेदः—

- (१) ज्ञान पुलाक । (२) दर्शन पुलाक ।  
(३) चारित्र पुलाक । (४) लिङ्ग पुलाक ।

(५) यथा सूक्ष्म पुलाक ।

(१) ज्ञान पुलाकः—स्खलित, मिलित आदि ज्ञान के अतिचारों का सेवन कर संयम को असार करने वाला साधु ज्ञान पुलाक कहलाता है ।

(२) दर्शन पुलाकः—कुतीर्थ परिचय आदि समकित के अतिचारों का सेवन कर संयम को असार करने वाला साधु दर्शन पुलाक है ।

(३) चारित्र पुलाकः—मूल गुण और उत्तर गुणों में दोष लगा कर चारित्र की विराधना करने वाला साधु चारित्र पुलाक है ।

(४) लिङ्ग पुलाकः—शास्त्रों में उपदिष्ट साधु-लिङ्ग से अधिक धारण करने वाला अथवा निष्कारण अन्य लिङ्ग को धारण करने वाला साधु लिङ्ग पुलाक है ।

(५) यथा सूक्ष्म पुलाकः—कुछ प्रमाद होने से मन से अकल्पनीय ग्रहण करने के विचार वाला साधु यथा सूक्ष्म पुलाक है ।

अथवा उपरोक्त चारों भेदों में ही जो थोड़ी थोड़ी विराधना करता है। वह यथासूक्ष्म पुलाक कहलाता है।

( ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५ )

( भगवती शतक २५ उद्देशा ६ सू० ७५१ )

३६८—वकुश के पाँच भेदः—

- (१) आभोग वकुश ।      (२) अनाभोग वकुश ।  
 (३) संवृत्त वकुश ।      (४) असंवृत्त वकुश ।  
 (५) यथा सूक्ष्म वकुश ।

- (१) आभोग वकुशः—शरीर और उपकरण की विभूषा करना साधु के लिए निषिद्ध है। यह जानते हुए भी शरीर और उपकरण की विभूषा कर चारित्र में दोष लगाने वाला साधु आभोग वकुश है।
- (२) अनाभोग वकुशः—अनजान से अथवा सहसा शरीर और उपकरण की विभूषा कर चारित्र को दूषित करने वाला साधु अनाभोग वकुश है।
- (३) संवृत्त वकुशः—छिप कर शरीर और उपकरण की विभूषा कर दोष सेवन करने वाला साधु संवृत्त वकुश है।
- (४) असंवृत्त वकुशः—प्रकट रीति से शरीर और उपकरण की विभूषा रूप दोष सेवन करने वाला साधु असंवृत्त वकुश है।
- (५) यथा सूक्ष्म वकुशः—उत्तर गुण के सम्बन्ध में प्रकट या अप्रकट रूप से कुछ प्रमाद सेवन करने वाला, आँख का मैल आदि दूर करने वाला साधु यथा सूक्ष्म वकुश कहा जाता है।

( ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५ )

३६६—कुशील के पाँच भेदः—प्रतिसेवना कुशील और कपाय कुशील के पाँच पाँच भेद हैं—

- (१) ज्ञान कुशील । (२) दर्शन कुशील ।  
 (३) चारित्र कुशील । (४) लिङ्ग कुशील ।  
 (५) यथासूक्ष्म कुशील ।

ज्ञान, दर्शन, चारित्र और लिङ्ग से आजीविका कर इनमें दोष लगाने वाले क्रमशः प्रतिसेवना की अपेक्षा - ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र कुशील और लिङ्ग कुशील हैं ।

यथा सूक्ष्म कुशीलः—यह तपस्वी है । इस प्रकार प्रशंसा से हर्षित होने वाला प्रतिसेवना की अपेक्षा यथा सूक्ष्म कुशील है ।

कपाय कुशील के भी ये ही पाँच भेद हैं । इसका स्वरूप इस प्रकार हैः—

- (१) ज्ञान कुशीलः—संज्वलन क्रोधादि पूर्वक विद्यादि ज्ञान का प्रयोग करने वाला साधु ज्ञान कुशील है ।  
 (२) दर्शनकुशीलः—संज्वलन क्रोधादि पूर्वक दर्शन ( दर्शन-ग्रन्थ ) का प्रयोग करने वाला साधु दर्शन कुशील है ।  
 (३) चारित्र कुशीलः—संज्वलन कपाय के आवेश में किसी को शाप देने वाला साधु चारित्र कुशील है ।  
 (४) लिङ्ग कुशीलः—संज्वलन कपाय वश अन्य लिङ्ग धारण करने वाला साधु लिङ्ग कुशील है ।  
 (५) यथा सूक्ष्म कुशीलः—मन से संज्वलन कपाय करने वाला साधु यथा सूक्ष्म कुशील है ।

अथवा:—

संज्वलन कपाय सहित होकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और लिङ्ग की विराधना करने वाले क्रमशः ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील, चारित्र्य कुशील और लिङ्ग कुशील हैं एवं मन से संज्वलन कपाय करने वाला यथासूक्ष्म कपाय कुशील है ।

लिङ्ग कुशील के स्थान में कहीं २ तप कुशील भी है ।

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५ )

३७०—निर्ग्रन्थ के पांच भेद:—

(१) प्रथम समय निर्ग्रन्थ । (२) अप्रथम समय निर्ग्रन्थ ।

(३) चरम समय निर्ग्रन्थ । (४) अचरम समय निर्ग्रन्थ ।

(५) यथा सूक्ष्म निर्ग्रन्थ ।

(१) प्रथम समय निर्ग्रन्थ:—अन्तर्मुहूर्त्त प्रमाण निर्ग्रन्थ काल की समय राशि में से प्रथम समय में वर्तमान निर्ग्रन्थ प्रथम समय निर्ग्रन्थ है ।

(२) अप्रथम समय निर्ग्रन्थ:—प्रथम समय के सिवाय शेष समयों में वर्तमान निर्ग्रन्थ अप्रथम समय निर्ग्रन्थ है ।

ये दोनों भेद पूर्वानुपूर्वी की अपेक्षा है ।

(३) चरम समय निर्ग्रन्थ:—अन्तिम समय में वर्तमान निर्ग्रन्थ चरम समय निर्ग्रन्थ है ।

(४) अचरम समय निर्ग्रन्थ:—अन्तिम समय के सिवाय शेष समयों में वर्तमान निर्ग्रन्थ अचरम समय निर्ग्रन्थ है ।

ये दोनों भेद पश्चानुपूर्वी की अपेक्षा है ।



(५) यथासूक्ष्म निर्ग्रन्थः—प्रथम समय आदि की अपेक्षा विना सामान्य रूप से सभी समयों में वर्तमान निर्ग्रन्थ यथासूक्ष्म निर्ग्रन्थ कहलाता है ।

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५ )

३७१—स्नातक के पांच भेदः—

- (१) अच्छवि ।
  - (२) अशबल ।
  - (३) अकर्मांश ।
  - (४) संशुद्ध ज्ञान दर्शनधारी अरिहन्त जिन केवली ।
  - (५) अपरिश्रावी ।
- (१) अच्छविः—स्नातक काय योग का निरोध करने से छवि अर्थात् शरीर रहित अथवा व्यथा ( पीड़ा ) नहीं देने वाला होता है ।
- (२) अशबलः—स्नातक निरतिचार शुद्ध चारित्र को पालता है । इसलिए वह अशबल होता है ।
- (३) अकर्मांशः—घातिक कर्मों का क्षय कर डालने से स्नातक अकर्मांश होता है ।
- (४) संशुद्ध ज्ञान दर्शनधारी अरिहन्त जिन केवलीः—दूसरे ज्ञान एवं दर्शन से असम्बद्ध अत एव शुद्ध निष्कलंक ज्ञान और दर्शन धारक होने से स्नातक संशुद्ध ज्ञान दर्शनधारी होता है । वह पूजा योग्य होने से अरिहन्त, कपायों का विजेता होने से जिन एवं परिपूर्ण ज्ञान, दर्शन, चारित्र का स्वामी होने से केवली है ।

(५) अपरिश्रावी—सम्पूर्ण काय योग का निरोध कर लेने पर स्नातक निष्क्रिय हो जाता है और कर्म प्रवाह रुक जाता है । इस लिये वह अपरिश्रावी होता है ।

(ठाणग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४५)  
(भगवती शतक २५ उद्देशा ६ सू० ७५१)

३७२—पाँच प्रकार के श्रमणः—

पाँच प्रकार के साधु श्रमण नाम से कहे जाते हैं—

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| (१) निर्ग्रन्थ । | (२) शाक्य । |
| (३) तापस ।       | (४) गैरुक । |
| (५) आजीविक ।     |             |

(१) निर्ग्रन्थः—जिन-प्रवचन में उपदिष्ट पाँच महाव्रत, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदि साधु क्रिया का पालन करने वाले जैन मुनि निर्ग्रन्थ कहलाते हैं ।

(२) शाक्यः—बुद्ध के अनुयायी साधु शाक्य कहलाते हैं ।

(३) तापसः—जटाधारी, जंगलों में रहने वाले मन्यासी तापस कहलाते हैं ।

(४) गैरुक—गेरुए रंग के वस्त्र पहनने वाले त्रिदण्डी साधु गैरुक कहलाते हैं ।

(५) आजीविक—गोशालक मत के अनुयायी साधु आजीविक कहलाते हैं ।

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ६४ प्रथम भाग गा० ७३१ पृष्ठ २१२ )

३७३—वनीपक की व्याख्या और भेदः—

दूसरों के आगे अपनी दुर्दशा दिखाकर अनुकूल

भाषण करने से जो द्रव्य मिलता है उसे वनी कहते हैं। वनी को भोगनं वाला साधु वनीपक कहलाता है।

अथवा:—

प्रायः दाता के माने हुए श्रमणादि का अपनं को भक्त वता कर जो आहार मांगता है वह वनीपक कहलाता है।

वनीपक के पाँच भेद—

- (१) अतिथि वनीपक ।      (२) कृपण वनीपक ।  
 (३) ब्राह्मण वनीपक ।      (४) श्वा वनीपक ।  
 (५) श्रमण वनीपक ।

(१) अतिथि वनीपक:—भोजन के समय पर उपस्थित होने वाला मेहमान अतिथि कहलाता है। अतिथि-भक्त दाता के आगे अतिथिदान की प्रशंसा करके आहारादि चाहने वाला अतिथि वनीपक है।

(२) कृपण वनीपक:—जो दाता कृपण, दीन, दुःखी पुरुषों का भक्त है अर्थात् ऐसे पुरुषों को दानादि देने में विश्वास करता है। उसके आगे कृपण दान की प्रशंसा करके आहारादि लेने वाला एवं भोगने वाला कृपण वनीपक है।

(३) ब्राह्मण वनीपक:—जो दाता ब्राह्मणों का भक्त है। उसके आगे ब्राह्मण दान की प्रशंसा करके आहारादि लेने वाला एवं भोगने वाला ब्राह्मण वनीपक कहलाता है।

(४) श्वा वनीपक—कुत्ते, काक आदि को आहारादि देने में पुण्य समझने वाले दाता के आगे इस कार्य की प्रशंसा

करके आहारादि लेने वाला एवं भोगने वाला श्वा-वनीपक कहलाता है ।

- (५) श्रमण वनीपकः—श्रमण के पाँच भेद कहे जा चुके हैं । जो दाता श्रमणों का भक्त है उसके आगे श्रमण-दान की प्रशंसा करके आहारादि प्राप्त करने वाला श्रमण-वनीपक है ।

( ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४५४ )

३७४—वस्त्र के पाँच भेदः—

निर्ग्रन्थ और निर्ग्रन्थी को पाँच प्रकार के वस्त्र ग्रहण करना और सेवन करना कल्पता है । वस्त्र के पाँच प्रकार ये हैं :—

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| (१) जाङ्गमिक ।   | (२) भाङ्गिक । |
| (३) सानक ।       | (४) पोतक ।    |
| (५) तिरीङ्पट्ट । |               |

(१) जाङ्गमिकः—त्रस जीवों के रोमादि से बने हुए वस्त्र जाङ्गमिक कहलाते हैं । जैसेः—कम्बल वगैरह ।

(२) भाङ्गिकः—अलसी का बना हुआ वस्त्र भाङ्गिक कहलाता है ।

(३) सानकः—सन का बना हुआ वस्त्र सानक कहलाता है ।

(४) पोतकः—कपास का बना हुआ वस्त्र पोतक कहलाता है ।

(५) तिरीङ्पट्टः—तिरीङ् वृक्ष की छाल का बना हुआ कपड़ा तिरीङ् पट्ट कहलाता है ।

इन पाँच प्रकार के वस्त्रों में से उत्सर्ग रूप से तो कपास और ऊन के बने हुए दो प्रकार के अल्प मूल्य के वस्त्र ही साधु के ग्रहण करने योग्य हैं ।

( अष्टाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४६ )

३७५—ज्ञान के पाँच भेदः—

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| (१) मति ज्ञान ।  | (२) श्रुतज्ञान ।      |
| (३) अवधि ज्ञान । | (४) मनः पर्यय ज्ञान । |
| (५) केवल ज्ञान । |                       |

(१) मति ज्ञान (आभिनिबोधिक ज्ञान):—इन्द्रिय और मन की सहायता से योग्य देश में रही हुई वस्तु को जानने वाला ज्ञान मतिज्ञान ( आभिनिबोधिक ज्ञान ) कहलाता है ।

(२) श्रुतज्ञानः—वाच्य-वाचक भाव सम्वन्ध द्वारा शब्द से सम्वद्ध अर्थ को ग्रहण कराने वाला इन्द्रिय मन कारणक ज्ञान श्रुतज्ञान है । जैसे—इस प्रकार कम्बुग्रीवादि आकार वाली वस्तु जलधारणादि क्रिया में समर्थ है और घट शब्द से कही जाती है । इत्यादि रूप से शब्दार्थ की पर्यालोचना के बाद होने वाले त्रैकालिक सामान्य परिणाम को प्रधानता देने वाला ज्ञान श्रुत ज्ञान है ।

अथवाः—

मति ज्ञान के अनन्तर होने वाला, और शब्द तथा अर्थ की पर्यालोचना जिसमें हो ऐसा ज्ञान श्रुतज्ञान कहलाता है । जैसे कि घट शब्द के सुनने पर अथवा आँसू से घड़े के देखने पर उसके बनाने वाले का, उसके रंग का

और इसी प्रकार तत्सम्बन्धी भिन्न भिन्न विषयों का विचार करना श्रुतज्ञान है ।

- (३) अवधि ज्ञानः—इन्द्रिय तथा मन की सहायता बिना, मर्यादा को लिये हुए रूपी द्रव्य का ज्ञान करना अवधि ज्ञान कहलाता है ।
- (४) मनः पर्यय ज्ञानः—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना मर्यादा को लिये हुए संज्ञी जीवों के मनोगत भावों का जानना मनः पर्यय ज्ञान है ।
- (५) केवल ज्ञानः—मति आदि ज्ञान की अपेक्षा बिना, त्रिकाल एवं त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थों को युगपत् हस्तामलकवत् जानना केवल ज्ञान है ।

( ठाण्णाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६३ )

( कर्म ग्रन्थ प्रथम भाग गा० ४ व्याख्या )

( नन्दी सूत्र १ )

३७६—केवली के पाँच अनुत्तरः—

केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवान् में पाँच गुण अनुत्तर अर्थात् सर्वश्रेष्ठ होते हैं ।

- (१) अनुत्तर ज्ञान ।                      (२) अनुत्तर दर्शन ।
- (३) अनुत्तर चारित्र ।                    (४) अनुत्तर तप ।
- (५) अनुत्तर वीर्य्य ।

केवली भगवान् के ज्ञानावरणीय एवं दर्शनावरणीय कर्म के क्षय हो जाने से केवलज्ञान एवं केवल दर्शन रूप अनुत्तर ज्ञान, दर्शन होते हैं । मोहनीय कर्म के क्षय होने से अनुत्तर

चारित्र होता है। तप चारित्र का भेद है। इम लिये अनुत्तर चारित्र होने से उनके अनुत्तरतप भी होता है। शैलेशी अवस्था में होने वाला शुक्लध्यान ही केवली के अनुत्तर तप है। वीर्यान्तराय कर्म के क्षय होने में केवली के अनुत्तर वीर्य्य होता है।

(ठाणग ५ उद्देशा १ सूत्र ४१०)

३७७—अवधिज्ञान या अवधिज्ञानी के चलित होने के पाँच बोलः—

पाँच बोलों से अवधिज्ञान द्वारा पदार्थों को देखते ही प्रथम समय में वह चलित हो जाता है अथवा अवधिज्ञान-द्वारा पदार्थों का ज्ञान होने पर प्रारम्भ में ही अवधिज्ञानी “यह क्या ?” इस तरह मोहनीय कर्म का क्षय न होने में विस्मयादि से दङ्ग रह जाता है।

- (१) अवधिज्ञानी थोड़ी पृथ्वी देख कर “यह क्या ?” इम प्रकार आश्चर्य्य में लुब्ध हो जाता है क्योंकि इस ज्ञान के पहले वह विशाल पृथ्वी की सम्भावना करता था।
- (२) अत्यन्त प्रचुर कुंशुओं की राशि रूप पृथ्वी देख कर विस्मय और दयावश अवधिज्ञानी चकित रह जाता है।
- (३) बाहर के डीपों में होने वाले एक हजार योजन परिमाण के महासर्प को देखकर विस्मय और भयवश अवधिज्ञानी घबरा उठता है।
- (४) देवता को महाऋद्धि, श्रुति, प्रभाव, बल और सौख्य सहित देखकर अवधिज्ञानी आश्चर्यान्वित हो जाता है।

(५) अवधिज्ञानी पुरों (नगरों) में पुराने विस्तीर्ण, बहुमूल्य रत्नादि से भरे हुए खजाने देखता है। उनके स्वामी नष्ट हो गये हैं। स्वामी की सन्तान का भी पता नहीं है न उनके कुल, गृह आदि ही हैं। खजानों के मार्ग भी नहीं है और 'यहाँ खजाना है' इस प्रकार खजाने का निर्देश करने वाले चिह्न भी नहीं रहे हैं। इसी प्रकार ग्राम, आकर, नगर, खेड़, कर्बट, द्रोणमुख, पाटन, आश्रम, संवाह, सन्निवेश, त्रिकोण, मार्ग, तीन चार और अनेक पथ जहाँ मिलते हैं ऐसे मार्ग, राजमार्ग, गलियों, नगर के गटर (गन्दी नालियाँ), श्मशान, सने घर, पर्वत की गुफा, शान्ति गृह, उपस्थान गृह, भवन और घर इत्यादि स्थानों में पड़े हुए बहुमूल्य रत्नादि के निधान अवधिज्ञानी देखता है। अदृष्ट पूर्व इन निधानों को देखकर अवधिज्ञानी विस्मय एवं लोभवेश चंचल हो उठता है।

( ठाण्णंग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६४ )

३७८—ज्ञानावरणीय की व्याख्या और उसके पांच भेदः—

ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानावरणीय कहते हैं। जिस प्रकार आँख पर कपड़े की पट्टी लपेटने से वस्तुओं के देखने में रुकावट हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से 'आत्मा' को पदार्थों का ज्ञान करने में रुकावट पड़ जाती है। परन्तु यह कर्म आत्मा को सर्वथा ज्ञानशून्य अर्थात् जड़ हीन कर देता है जैसे घने बादलों से सूर्य के टंक जाने पर भी सूर्य का दिन रात बताने वाला, प्रकाश तो रहता ही है। उसी प्रकार ज्ञाना-



वरणीय कर्म से ज्ञान के ढक जाने पर भी जीव में इतना ज्ञानांश तो रहता ही है कि वह जड़ पदार्थ से पृथक् समझा जा सके ।

ज्ञानावरणीय कर्म के पांच भेद—

- (१) मति ज्ञानावरणीय । (२) श्रुत ज्ञानावरणीय ।  
 (३) अवधि ज्ञानावरणीय । (४) मनः पर्यय ज्ञानावरणीय ।  
 (५) केवल ज्ञानावरणीय ।

(१) मति ज्ञानावरणीयः—मति, ज्ञान के एक अपेक्षा से तीन सौ चालीस भेद होते हैं । इन सब ज्ञान के भेदों का आवरण करने वाले कर्मों को मति ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(२) श्रुत ज्ञानावरणीयः—चौदह अथवा बीस भेद वाले श्रुतज्ञान का आवरण करने वाले कर्मों को श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(३) अवधि ज्ञानावरणीयः—भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय तथा अनुगामी, अननुगामी आदि भेद वाले अवधिज्ञान के आवरणक कर्मों को अवधि ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(४) मनः पर्यय ज्ञानावरणीयः—ऋजुमति और विपुलमति भेद वाले मनःपर्यय ज्ञान का आच्छादन करने वाले कर्मों को मनःपर्यय ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

(५) केवल ज्ञानावरणीयः—केवल ज्ञान का आवरण करने वाले कर्मों को केवल ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

इन पाँच ज्ञानावरणीय कर्मों में केवल ज्ञानावरणीय मर्ब घाती हैं और शेष चार कर्म देशघाती हैं ।

( ठाणग ५ उदेशा ३ मूत्र १६४ )  
( कर्मग्रन्थ प्रथम भाग गाया ६ )

३७६—परोक्ष प्रमाण के पाँच भेदः—

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| (१) स्मृति । | (२) प्रत्यभिज्ञान । |
| (३) तर्क ।   | (४) अनुमान ।        |
| (५) आगम ।    |                     |

- (१) स्मृतिः—पहले जाने हुए पदार्थ को याद करना स्मृति है ।
- (२) प्रत्यभिज्ञानः—स्मृति और प्रत्यक्ष के विषयभूत पदार्थ में जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं । जैसेः—यह वही मनुष्य है जिसे कल देखा था ।
- (३) तर्कः—अविनाभाव सम्बन्ध रूप व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं । साधन (हेतु) के होने पर साध्य का होना, और साध्य के न होने पर साधन का भी न होना अविनाभाव सम्बन्ध है । जैसे—जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है और जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ धूम भी नहीं होता ।
- (४) अनुमानः—साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं । जैसेः—धूम को देख कर अग्नि का ज्ञान ।  
जिसे हम सिद्ध करना चाहते हैं वह साध्य है और जिस के द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है वह साधन है । साधन, साध्य के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से रहता है । उसके होने पर साध्य अवश्य होता है और साध्य के अभाव में

वह नहीं रहता । जैसे—ऊपर के दृष्टान्त में धूम के सद्भाव में अग्नि का सद्भाव और अग्नि के अभाव में धूम का अभाव होता है । यहां धूम, अग्नि का साधन है ।

(१) स्वार्थानुमान । ( रत्ना० परि० ३ सू० १० )

(२) परार्थानुमान । ( रत्ना० परि० ३ सू० २३,४२ )

स्वयं साधन द्वारा साध्य का ज्ञान करना स्वार्थानुमान है । दूसरे को साधन से साध्य का ज्ञान कराने के लिए कहे जाने वाला प्रतिज्ञा, हेतु आदि वचन परार्थानुमान है ।

(५) आगमः—आप्त (हितोपदेश सर्वज्ञ भगवान्) के वचन से उत्पन्न हुए पदार्थ-ज्ञान को आगम कहते हैं । उपचार से आप्त का वचन भी आगम कहा जाता है ।

जो अभिधेय वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानता है और जैसा जानता है उसी प्रकार कहता है । वह आप्त है । अथवा रागादि दोषों के क्षय होने को आप्ति कहते हैं । आप्ति से युक्त पुरुष आप्त कहलाता है ।

( रत्नाकरावतारिका परिच्छेद ३ व ४ )

( रत्ना० परि० ४ सू० १-२ )

३८०—परार्थानुमान के पांच अङ्गः—

(१) प्रतिज्ञा । (२) हेतु ।

(३) उदाहरण । (४) उपनय ।

(५) निगमन ।

(१) प्रतिज्ञाः—पक्ष और साध्य के कहने को प्रतिज्ञा कहते हैं । जहां हम साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं वह पक्ष है यानि

साध्य के रहने के स्थान को पक्ष कहते हैं। जैसे:—इस पर्वत में अग्नि है। यह प्रतिज्ञा वचन है। यहाँ अग्नि साध्य है क्योंकि इसे सिद्ध करना है और पर्वत पक्ष है क्योंकि साध्य अग्नि को हम पर्वत में सिद्ध करना चाहते हैं।

(२) हेतु:—साधन के कहने को हेतु कहते हैं। जैसे—“क्योंकि यह धूम वाला है”। यहाँ धूम, साध्य अग्नि को सिद्ध करने वाला होने से साधन है और साधन को कहने वाला यह वचन हेतु है।

(३) उदाहरण:—व्याप्ति पूर्वक दृष्टान्त का कहना उदाहरण है। जैसे—जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, जैसे—रसोई घर। जहाँ अग्नि नहीं होती, वहाँ धूम भी नहीं होता। जैसे:—तालाब।

जहाँ साध्य और साधन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दिखाई जाती है। वह दृष्टान्त है। जैसे:—रसोई घर और तालाब।

(.न्याय दीपिका प्रकाश ३.)

दृष्टान्त के अन्वय और व्यतिरेक की अपेक्षा दो भेद हैं। जहाँ साधन की उपस्थिति में साध्य की उपस्थिति दिखाई जाय। वह अन्वय दृष्टान्त है। जैसे:—रसोई घर। जहाँ साध्य की अनुपस्थिति में साधन की अनुपस्थिति दिखाई जाय। वह व्यतिरेक दृष्टान्त है। जैसे:—तालाब।

(४) उपनय:—पक्ष में हेतु का उपसंहार करना उपनय है। जैसे:—यह पर्वत भी धूम वाला है।

(५) निगमन:—नतीजा निकाल कर पक्ष में साध्य को दुहराना निगमन है। जैसे:—“इस लिये इस पर्वत में भी अग्नि

है" । इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग निगमन कहलाता है ।

( रत्नाकरावतारिका परिच्छेद ३ )

३८१—स्वाध्याय की व्याख्या और भेदः—

शोभन रीति से मर्यादा पूर्वक अस्वाध्याय काल का परिहार करते हुए शास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है ।

स्वाध्याय के पाँच भेदः—

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| (१) वाचना       | (२) पृच्छना ।     |
| (३) परिवर्त्तना | (४) अनुप्रेक्षा । |
| (५) धर्म कथा ।  |                   |

(१) वाचनाः—शिष्य को सूत्र अर्थ का पढाना वाचना है ।

(२) पृच्छनाः—वाचना ग्रहण करके संशय होने पर पुनः पृच्छना पृच्छना है या पहले सीखे हुए सूत्रादि ज्ञान में शंका होने पर प्रश्न करना पृच्छना है ।

(३) परिवर्त्तनाः—पढे हुए भूल न जाँय इस लिये उन्हें फेरना परिवर्त्तना है ।

(४) अनुप्रेक्षाः—सीखे हुए सूत्र के अर्थ का विस्मरण न हो जाय, इस लिये उसका बार बार मनन करना अनुप्रेक्षा है ।

(५) धर्मकथाः—उपरोक्त चारों प्रकार से शास्त्र का अभ्यास करने पर भव्य जीवों को शास्त्रों का व्याख्यान सुनाना धर्म कथा है ।

( टाण्णाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ६५ )

३८२—सूत्र की वाचना देने के पाँच बोल यानि गुरु महाराज पाँच बोलों से शिष्य को सूत्र सिखावें—

- (१) शिष्यों को शास्त्र ज्ञान का ग्रहण हो और इनके श्रुत का संग्रह हो, इस प्रयोजन से शिष्यों को वाचना देवे ।
- (२) उपग्रह के लिये शिष्यों को वाचना देवे । इस प्रकार शास्त्र सिखाये हुए शिष्य आहार, पानी, वस्त्रादि शुद्ध गवेपणा द्वारा प्राप्त कर सकेंगे और संयम में सहायक होंगे ।
- (३) सूत्रों की वाचना देने से मेरे कर्मों की निर्जरा होगी । यह विचार कर वाचना देवे ।
- (४) यह सोच कर वाचना देवे कि वाचना देने से मेरा शास्त्र ज्ञान स्पष्ट हो जायगा ।
- (५) शास्त्र का व्यवच्छेद न हो और शास्त्र की परम्परा चलती रहे, इस प्रयोजन से वाचना देवे ।

(ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६८)

३८३—सूत्र सीखने के पाँच स्थानः—

- १—तत्त्वों के ज्ञान के लिये सूत्र सीखे ।
- २—तत्त्वों पर श्रद्धा करने के लिये सूत्र सीखे ।
- ३—चारित्र के लिये सूत्र सीखे ।
- ४—मिथ्यामिनिवेश छोड़ने के लिये अथवा दूसरे से छुड़वाने के लिये सूत्र सीखे ।
- ५—सूत्र सीखने से यथावस्थित द्रव्य एवं पर्यायों का ज्ञान होगा, इस विचार से सूत्र सीखे ।

( ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६८ )

३८४—निरयावलिका के पाँच वर्गः—

- (१) निरयावलिका ।
- (२) कप्य वडंसिया ।

(३) पुष्फिया ।

(४) पुष्फ चूलिया ।

(५) वण्हदशा ।

(१) निरयावलिकाः—प्रथम निरयावलिका वर्ग के दस अध्याय हैं।

(१) काल ।

(२) सुकाल ।

(३) महाकाल ।

(४) कृष्ण ।

(५) सुकृष्ण ।

(६) महा कृष्ण ।

(७) वीर कृष्ण ।

(८) राम कृष्ण ।

(९) सेन कृष्ण ।

(१०) महा सेन कृष्ण ।

उपरोक्त दस ही श्रेणिक राजा के पुत्र हैं। इनकी माताएं काली, सुकाली आदि कुमारों के सदृश नाम वाली ही हैं। जिनका वर्णन अन्तकृदशा सूत्र में है। श्रेणिक राजा ने कोणिक कुमार के सगे भाई वेहल्ल कुमार को एक सेचानक गन्ध हस्ती और एक अठारह लड़ा हार दिया था। श्रेणिक राजा की मृत्यु होने पर कोणिक राजा हुआ। उसने रानी पद्मावती के आग्रह वश वेहल्ल कुमार से वह सेचानक गन्ध-हस्ती और अठारह लड़ा हार मांगा। इस पर वेहल्ल कुमार ने अपने नाना चेड़ा राजा की शरण ली। तत्पश्चात् कोणिक राजा ने इनके लिये काल, सुकाल आदि दस भाइयों के साथ महाराजा चेड़ा पर चढाई की। नव मल्लि नव लिच्छवी राजाओं ने चेड़ा राजा का साथ दिया। दोनों के बीच रथमूसल संग्राम हुआ। ये दस ही भाई इस युद्ध में काम आये और मर कर चौथी नरक में उत्पन्न हुए। वहां से आयु पूरी होने पर ये महा विदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और सिद्ध होंगे।

(२) कप्प वडंसियाः—कप्पवडंसिया नामक द्वितीय वर्ग के दस अध्ययन हैं ।

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| (१) पद्म ।      | (२) महापद्म ।     |
| (३) भद्र ।      | (४) सुभद्र ।      |
| (५) पद्मभद्र ।  | (६) पद्मसेन ।     |
| (७) पद्मगुल्म । | (८) नलिनी गुल्म । |
| (९) आनन्द ।     | (१०) नन्दन ।      |

ये दसों निरयावलिका वर्ग के दस कुमारों के पुत्र हैं । इनकी माताएँ इन्हीं के नाम वाली हैं । इन्होंने भगवान् महावीर के पास दीक्षा ली । प्रथम दो कुमारों ने पाँच वर्ष दीक्षा पर्याय पाली । तीसरे, चौथे और पाँचवें कुमार ने चार वर्ष और छठे, सातवें, आठवें कुमार ने तीन वर्ष तक दीक्षा-पर्याय पाली । अन्तिम दो कुमारों की दो दो वर्ष की दीक्षा-पर्याय है । पहले आठ कुमार क्रमशः पहले से आठवें देवलोक में उत्पन्न हुए । नववां कुमार दसवें देवलोक में और दसवां कुमार बारहवें देवलोक में उत्पन्न हुआ । ये सभी देवलोक से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म ग्रहण करेंगे और वहाँ से सिद्धगति (मोक्ष) को प्राप्त करेंगे ।

(३) पुष्फियाः—तृतीय वर्ग पुष्फिया के दस अध्ययन हैं ।

- |                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| (१) चन्द्र ।    | (२) सूर्य ।       |
| (३) शुक्र ।     | (४) बहुपुत्रिका । |
| (५) पूर्णभद्र । | (६) मणिभद्र ।     |
| (७) दत्त ।      | (८) शिव ।         |
| (९) बल ।        | (१०) अनादित ।     |



चन्द्र, सूर्य और शुक्र ज्योतिषी देव हैं । बहुपुत्रिका सौधर्म देवलोक की देवी है । पूर्णभद्र, मणिभद्र, दत्त, शिव, बल और अनादित ये छहों सौधर्म देवलोक के देव हैं ।

भगवान् महावीर राजगृह नगर के गुणशील चैत्य में विराजते थे । वहाँ ये सभी भगवान् महावीर के दर्शन करने के लिये आये और नाटक आदि दिखला कर भगवान् को वन्दना नमस्कार कर वापिस यथास्थान चले गये । गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् महावीर स्वामी ने इनके पूर्व भव बताये और कहा कि ऐसी करणी (तप, आदि क्रिया) करके इन्होंने यह ऋद्धि पाई है । भगवान् ने यह भी बताया कि इस भव से चव कर ये चन्द्र, सूर्य और शुक्र महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होंगे । बहुपुत्रिका देवी देवलोक से चव कर सोमा ब्राह्मणी का भव करेगी । वहाँ उसके बहुत बाल बच्चे होंगे । बाल बच्चों से धवरा कर सोमा ब्राह्मणी सुव्रता आर्या के पास दीक्षा लेगी और सौधर्म देवलोक में सामानिक सोमदेव रूप में उत्पन्न होगी । वहाँ से चव कर वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेगी और सिद्ध होगी । पूर्णभद्र, मणिभद्र आदि छहों देवता भी देवलोक से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे और वहाँ से मुक्ति को प्राप्त होंगे ।

इस वर्ग में शुक्र और बहुपुत्रिका देवी के अध्ययन बड़े हैं । शुक्र पूर्व भव में सोमिल ब्राह्मण था । सोमिल के

भव की कथा से तत्कालीन ब्राह्मण संन्यासियों के अनेक प्रकार और उनकी चर्या आदि का पता लगता है। इस कथा में ब्राह्मणों के क्रिया-काण्ड और अनुष्ठानों से जैन व्रत नियमों की प्रधानता बताई गई है। बहुपुत्रिका के पूर्व भव सुभद्रा की कथा से यह ज्ञात होता है कि बिना बाल बच्चों वाली स्त्रियाँ बच्चों के लिये कितनी तरसती हैं और अपने को हतभाग्या समझती हैं। बहुपुत्रिका के आगामी सोमा ब्राह्मणी के भव की कथा से यह मालूम होता है कि अधिक बाल बच्चों वाली स्त्रियाँ बाल बच्चों से कितनी घबरा उठती हैं। आदि आदि।

(४) पुष्प चूलियाः—चतुर्थ वर्ग पुष्प चूलिया के दस अर्ध-यन हैं।

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| (१) श्री ।     | (२) ह्री ।       |
| (३) धृति ।     | (४) कीर्त्ति ।   |
| (५) बुद्धि ।   | (६) लक्ष्मी ।    |
| (७) इला देवी । | (८) सुरा देवी ।  |
| (९) रस देवी ।  | (१०) गन्ध देवी । |

ये दस ही प्रथम सौधर्म देवलोक की देवियाँ हैं। इनके विमानों के वे ही नाम हैं जो कि देवियों के हैं। इस वर्ग में श्री देवी की कथा विस्तार से दी गई है।

श्री देवी राजगृह नगर के गुणशील चैत्य में विराजमान भगवान् महावीर स्वामी के दर्शनार्थ आईं। उसने बत्तीस प्रकार के नाटक वताये और भगवान् को

वन्दना नमस्कार कर वापिस अपने स्थान पर चली गई। गौतम स्वामी के पूछने पर भगवान् ने श्री देवी का पूर्व भव बताया। पूर्व भव में यह राजगृह नगर के सुदर्शन गाथापति की पुत्री थी। इसका नाम भूता था। उसने भगवान् पार्ष्वनाथ का उपदेश सुना और संसार से विरक्त होगई। उसने दीक्षा ली और पुष्प चूला आर्या की शिष्या हुई। किसी समय उसे सर्वत्र अशुचि ही अशुचि दिखाई देने लगी। फिर वह शौच धर्म वाली होगई और शरीर की शुश्रूषा करने लगी। वह हाथ, पैर आदि शरीर के अवयवों को, सोने, बैठने आदि के स्थानों को बारबार धोने लगी और स्व साफ रखने लगी। पुष्प चूला आर्या के मना करने पर भी वह उनसे अलग रहने लगी। इस तरह बहुत वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाल कर अन्त समय में उसने आलोचना, प्रतिक्रमण क्रिये बिना ही संन्यास किया, और काल धर्म को प्राप्त हुई। भगवान् ने फरमाया यह करणी करके श्री देवी ने यह ऋद्धि पाई है और यहाँ से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्धगति को प्राप्त होगी।

शेष नव अध्ययन भी इसी तरह के हैं। इनके पूर्व-भव के नगर, चैत्य, माता पिता और खुद के नाम संग्रहणी सूत्र के अनुसार ही हैं। सभी ने भगवान् पार्ष्वनाथ के पास दीक्षा ली और पुष्प चूला आर्या की शिष्या हुई। सभी श्री देवी की तरह शौच और शुश्रूषा धर्म वाली हो गईं। यहाँ से चव कर ये सभी श्री देवी की तरह ही महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगी और सिद्ध पद को प्राप्त करेंगी।

(५) वणिहदसाः—पञ्चम वर्ग वणिहदसा के वारह अध्ययन हैं—

- |               |                |
|---------------|----------------|
| (१) निसद ।    | (२) माअग्णि ।  |
| (३) वह ।      | (४) वहे ।      |
| (५) पगया ।    | (६) जुत्ती ।   |
| (७) दसरह ।    | (८) ददरह ।     |
| (९) महाधणू ।  | (१०) सत्तधणू । |
| (११) दस धणू । | (१२) सय धणू ।  |

इनमें पहले अध्ययन की कथा विस्तार पूर्वक दी गई है। शेष ग्यारह अध्ययन के लिये संग्रहणी की सूचना दी है।

निसद कुमार द्वारिका नगरी के बलदेव राजा की रेवती रानी के पुत्र थे। भगवान् अरिष्टनेमि के द्वारिका नगरी के नन्दन वन में पधारने पर निसद कुमार ने भगवान् के दर्शन किये और उपदेश श्रवण किया। उपदेश सुन कर कुमार ने श्रावक के वारह व्रत अङ्गीकार किये। प्रधान शिष्य वरदत्त अणुगार के पूछने पर भगवान् अरिष्टनेमी ने निसद कुमार के पूर्व भव की कथा कही। पूर्वभव में निसद कुमार भरतक्षेत्र के रोहीडक नामक नगर में महाबल राजा के यहां पद्मावती रानी की कुक्षि से पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। इनका नाम-वीरङ्गद था। इन्होंने सिद्धार्थ आचार्य के पास दीक्षा ली। ४५ वर्ष की दीक्षा-पर्याय पाल कर वीरङ्गद कुमार ने संन्यास किया और ब्रह्म देवलोक में देवता हुए। वहाँ से चव कर ये निसद कुमार हुए हैं।

बाद में निसङ्ग कुमार ने भगवान् अरिष्टनेमि के पास दीक्षा ली। नौ वर्ष तक दीक्षा पर्याय पाल कर वे संथारा करके काल धर्म को प्राप्त हुए और सर्वार्थसिद्ध विमान में देवता हुए।

वरदत्त अणुगार के पूछने पर भगवान् अरिष्टनेमि ने बताया कि ये सर्वार्थसिद्ध विमान से चव कर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेंगे। वहाँ दीक्षा लेकर बहुत वर्ष तक चारित्र्य पाल कर अन्त में एक मास की संलेखना करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे।

(निरयात्रलिका।)

३८५—दग्धाक्षर पांचः—

काव्य में अक्षरों के शुभाशुभपने पर ध्यान दिया जाता है। अशुभ अक्षरों में भी पांच अक्षर बहुत दूषित समझे जाते हैं। जो दग्धाक्षर कहलाते हैं। पद्य के आदि में ये अक्षर न आने चाहिये। दग्धाक्षर ये हैंः—

ऋ, ह, र, म, य।

यदि छन्द का पहला शब्द देवता या मङ्गलवाची हो तो अशुभ अक्षरों का दोष नहीं रहता। अक्षर के दीर्घ कर देने से भी दग्धाक्षर का दोष जाता रहता है।

(सरल पिङ्गल)

३८६—पांच बोल छद्मस्थ साक्षात् नहीं जानताः—

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (१) घर्मास्तिकाय।  | (२) अघर्मास्तिकाय। |
| (३) आकाशास्तिकाय।  | (४) शरीर रहित जीव। |
| (५) परमाणु पुद्गल। |                    |

धर्मास्तिकाय आदि अमूर्त्त हैं इस लिये अवधिज्ञानी उन्हें नहीं जानता। परन्तु परमाणु पुद्गल मूर्त्त (रूपी) है और उसे अवधिज्ञानी जानता है। इसलिए यहां छद्मस्थ से अवधि ज्ञान आदि के अतिशय रहित छद्मस्थ ही का आशय है।

(ठाण्णग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४५० टीका)

३८७—जीव के पांच भावः—

विशिष्ट हेतुओं से अथवा स्वभाव से जीवों का भिन्न भिन्न रूप से होना भाव है।

अथवाः—

उपशमादिपर्यायों से जो होते हैं वे भाव कहलाते हैं।

भाव के पांच भेदः—

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (१) औपशमिक।    | (२) क्षायिक। |
| (३) चायोपशमिक। | (४) औदयिक।   |
| (५) पारिणामिक। |              |

(१) औपशमिकः—जो उपशम से होता है वह औपशमिक भाव कहलाता है। प्रदेश और विपाक दोनों प्रकार से कर्मों का उदय रुक जाना उपशम है। इस प्रकार का उपशम सर्वोपशम कहलाता है और वह सर्वोपशम मोहनीय कर्म का ही होता है, शेष कर्मों का नहीं।

औपशमिक भाव के दो भेद हैं—

- |                |              |
|----------------|--------------|
| (१) सम्यक्त्व। | (२) चारित्र। |
|----------------|--------------|

ये भाव दर्शन और चारित्र मोहनीय के उपशम से होने वाले हैं।

(२) क्षायिक भाव—जो कर्म के सर्वथा क्षय होने पर प्रकट होता है। वह क्षायिक भाव कहलाता है।

क्षायिक भाव के नौ भेदः—

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| (१) केवल ज्ञान।    | (२) केवल दर्शन।  |
| (३) दान लब्धि।     | (४) लाभ लब्धि।   |
| (५) भोग लब्धि।     | (६) उपभोग लब्धि। |
| (७) वीर्य्य लब्धि। | (८) सम्यक्त्व।   |

(९) चारित्र।

चार सर्वघाती कर्मों के क्षय होने पर ये नव भाव प्रकट होते हैं। ये सादि अनन्त हैं।

(३) क्षयोपशमिकः—उदय में आये हुए कर्म का क्षय और अनुदीर्ण अंश का विपाक की अपेक्षा उपशम होना क्षयोपशम कहलाता है। क्षयोपशम में प्रदेश की अपेक्षा कर्म का उदय रहता है। इसके (१८) अठारह भेद हैं—

चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य्य की पांच लब्धियाँ, सम्यक्त्व, देशविरति और सर्व विरति चारित्र। चार सर्वघाती कर्मों के क्षयोपशम से ये भाव प्रकट होते हैं। शेष कर्मों का क्षयोपशम नहीं होता।

(४) औदयिक भावः—यथा योग्य समय पर उदय प्राप्त आठ कर्मों का अपने अपने स्वरूप से फल भोगना उदय है। उदय से होने वाला भाव औदयिक कहलाता है। औदयिक भाव के इक्कीस भेद हैंः—

चार गति, चार कषाय, तीन लिङ्ग, छः लेश्या, अज्ञान, मिथ्यात्व, असिद्धत्व, असंयम।

(५) पारिणामिक भावः—कर्मों के उदय, उपशम आदि ऐसे निरपेक्ष जो भाव जीव को केवल स्वभाव से ही होता है। वह पारिणामिक भाव है।

अथवाः—

स्वभाव से ही स्वरूप में परिणत होते रहना पारिणामिक भाव है।

अथवाः—

अवस्थित वस्तु का पूर्व अवस्था का त्याग किये बिना उत्तरावस्था में चले जाना परिणाम कहलाता है। उससे होने वाला भाव पारिणामिक भाव है।

अनुयोगद्वार सूत्र में और प्रवचन सारोद्धार में पारिणामिक भाव के दो भेद बताये गये हैंः—

(१) सादि पारिणामिक और (२) अनादि पारिणामिक।

ये भाव अनादि अनन्त होते हैं।

जीव द्रव्य के उपरोक्त पाँच भाव हैं। अजीव द्रव्यों में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, इन चारों के पारिणामिक भाव ही होता है। पुद्गल द्रव्य में परमाणु पुद्गल और द्व्यणुकादि सादि स्फुन्ध पारिणामिक भाव वाले ही हैं। किन्तु औदारिक आदि शरीर रूप स्फुन्धों में पारिणामिक और औदयिक दो भाव होते हैं। कर्म पुद्गल के तो औपशमिक आदि पाँचों भाव होते हैं।

नोटः—कर्मग्रन्थ में पारिणामिक भाव के तीन भेद बताये गये हैंः—जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। प्रवचन सारोद्धार में ये तीन भेद भी बताये गये हैं। कर्मग्रन्थ में पारिणामिक भाव को अनादि अनन्त बताया गया है।

(कर्म ग्रन्थ ४ गा० ६६) (अनुयोग द्वार सूत्र १२६)  
(प्रवचन सारोद्धार द्वा० २२१ गाथा १२६४)



३८८—अन्तराय कर्म के पाँच भेदः—

जो कर्म आत्मा के वीर्य, दान, लाम, भोग और उप-भोग रूप शक्तियों का वात करता है। वह अन्तराय कहा जाता है। यह कर्म भण्डारी के नमान है। जैसे—राजा को दान देने की आज्ञा होने पर भी भण्डारी के प्रतिवृत्त होने से याचक को खाली हाथ लौटना पड़ना है। राजा की इच्छा को भण्डारी सफल नहीं होने देता। इसी प्रकार जीव राजा है, दान देने आदि की उसकी इच्छा है परन्तु भण्डारी के मुरीखा वह अन्तराय कर्म जीव की इच्छा को सफल नहीं होने देता।

अन्तराय कर्म के पाँच भेदः—

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (१) दानान्तराय     | (२) लामान्तराय ।   |
| (३) भोगान्तराय     | (४) उपभोगान्तराय । |
| (५) वीर्यान्तराय । |                    |

(१) दानान्तरायः—दान की सामग्री तैयार है, गुणवान पात्र आया हुआ है, दाता दान का फल भी जानता है। इस पर भी जिम कर्म के उदय से जीव को दान करने का उत्साह नहीं होता, वह दानान्तराय कर्म है।

(२) लामान्तरायः—योग्य सामग्री के रहते हुए भी जिस कर्म के उदय से अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, वह लामान्तराय कर्म है। जैसे—दाता के उदार होने हुए, दान की सामग्री विद्यमान रहते हुए तथा माँगने की कला में कुशल होने हुए भी कोई याचक दान नहीं पाता, यह लामान्तराय कर्म का फल ही समझना चाहिए।

- (३) भोगान्तरायः—त्याग, प्रत्याख्यान के न होते हुए तथा भोगने की इच्छा रहते हुए भी जिस कर्म के उदय से जीव विद्यमान स्वाधीन भोग सामग्री का कृपणता वश भोग न कर सके, वह भोगान्तराय कर्म है ।
- (४) उपभोगान्तरायः—जिस कर्म के उदय से जीव त्याग, प्रत्याख्यान न होते हुए तथा उपभोग की इच्छा होते हुए भी विद्यमान स्वाधीन उपभोग सामग्री का कृपणता वश उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय कर्म है ।
- (५) वीर्यान्तरायः—शरीर नीरोग हो, तरुणावस्था हो, बलवान् हो, फिर भी जिस कर्म के उदय से जीव प्राणशक्ति रहित होता है तथा सत्त्व हीन की तरह प्रवृत्ति करता है । वह वीर्यान्तराय कर्म है ।

वीर्यान्तराय कर्म के तीन भेदः—

- (१) बाल वीर्यान्तराय ।      (२) पण्डित वीर्यान्तराय ।  
(३) बाल-पण्डित वीर्यान्तराय ।

बाल-वीर्यान्तरायः—समर्थ होते हुए एवं चाहते हुए भी जिसके उदय से जीव सांसारिक कार्य न कर सके । वह बाल वीर्यान्तराय है ।

पण्डित वीर्यान्तरायः—सम्यग्दृष्टि साधु मोक्ष की चाह रखता हुआ भी जिस कर्म के उदय से जीव मोक्ष प्राप्ति योग्य क्रियाएं न कर सके । वह पण्डित वीर्यान्तराय है ।

बाल-पण्डित-वीर्यान्तरायः—देश विरति रूप चारित्र को चाहता हुआ भी जिस कर्म के उदय से जीव श्रावक की क्रियाओं का पालन न कर सके। वह बाल-पण्डित वीर्यान्तराय है।

( कर्म ग्रन्थ भाग १ गा० ५२ )

( पन्नवणा पद २३ मू० २६३ )

३८६—शरीर की व्याख्या और उसके भेदः—

जो उत्पत्ति समय से लेकर प्रतिक्षण जीर्ण-शीर्ण होता रहता है तथा शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। वह शरीर कहलाता है।

शरीर के पाँच भेदः—

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| (१) औदारिक शरीर ।  | (२) वैक्रिय शरीर । |
| (३) आहारक शरीर ।   | (४) तैजस शरीर ।    |
| (५) कार्माण शरीर । |                    |

(१) औदारिक शरीरः—उदार अर्थात् प्रधान अथवा स्थूल पुद्गलों से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है। तीर्थङ्कर गणधरों का शरीर प्रधान पुद्गलों से बनता है और सर्व साधारण का शरीर स्थूल अक्षर पुद्गलों से बना हुआ होता है।

अथवाः—

अन्य शरीरों की अपेक्षा अवस्थित रूप से विशाल अर्थात् बड़े परिमाण वाला होने से यह औदारिक शरीर कहा जाता है। वनस्पति काय की अपेक्षा औदारिक शरीर की एक सहस्र योजन की अवस्थित अवगाहना है। अन्य सभी शरीरों की अवस्थित अवगाहना इससे कम है। वैक्रिय

शरीर की उत्तर वैक्रिय की अपेक्षा अनवस्थित अवगाहना लाख योजना की है। परन्तु भव धारणीय वैक्रिय शरीर की अवगाहना तो पांच सौ धनुष से ज्यादा नहीं है।

अथवा:—

अन्य शरीरों की अपेक्षा अल्प प्रदेश वाला तथा परिमाण में बड़ा होने से यह औदारिक शरीर कहलाता है।

अथवा:—

मांस, रुधिर, अस्थि आदि से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है। औदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यञ्च के होता है।

(२) वैक्रिय शरीर:—जिस शरीर से विविध अथवा विशिष्ट प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वह वैक्रिय शरीर कहलाता है। जैसे-एक रूप होकर अनेक रूप धारण करना, अनेक रूप होकर एक रूप धारण करना, छोटे शरीर से बड़ा शरीर बनाना और बड़े से छोटा बनाना, पृथ्वी और आकाश पर चलने योग्य शरीर धारण करना, दृश्य, अदृश्य रूप बनाना आदि।

वैक्रिय शरीर दो प्रकार का है:—

(१) औपपातिक वैक्रिय शरीर।

(२) लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर।

जन्म से ही जो वैक्रिय शरीर मिलता है। वह औपपातिक वैक्रिय शरीर है। देवता और नारकी के नैरिये जन्म से ही वैक्रिय शरीरधारी होते हैं।

लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीरः—तप आदि द्वारा प्राप्त लब्धि विशेष से प्राप्त होने वाला वैक्रिय शरीर लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर है। मनुष्य और तिर्यञ्च में लब्धि प्रत्यय वैक्रिय शरीर होता है।

(३) आहारक शरीरः—प्राणी दया, तीर्थङ्कर भगवान् की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय निवारण आदि प्रयोजनों से चौदह पूर्वधारी मुनिराज, अन्य क्षेत्र (महाविदेह क्षेत्र) में विराजमान तीर्थङ्कर भगवान् के ममीप भेजने के लिये, लब्धि विशेष से अतिविशुद्ध स्फटिक के सदृश एक हाथ का जो पुतला निकालते हैं। वह आहारक शरीर कहलाता है। उक्त प्रयोजनों के सिद्ध हो जाने पर वे मुनिराज उस शरीर को छोड़ देते हैं।

(४) तैजस शरीरः—तेजःपुद्गलों से बना हुआ शरीर तैजस शरीर कहलाता है। प्राणियों के शरीर में विद्यमान उष्णता से इस शरीर का अस्तित्व सिद्ध होता है। यह शरीर आहार का पाचन करता है। तपोविशेष से प्राप्त तैजस-लब्धि का कारण भी यही शरीर है।

(५) कार्माण शरीरः—कर्मों से बना हुआ शरीर कार्माण कहलाता है अथवा जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुए आठ प्रकार के कर्म पुद्गलों को कार्माण शरीर कहते हैं। यह शरीर ही सब शरीरों का बीज है।

पाँचों शरीरों के इस क्रम का कारण यह है कि आगे आगे के शरीर पिछले की अपेक्षा प्रदेश बहुल

( अधिक प्रदेश वाले ) हैं एवं परिमाण में सूक्ष्मतर हैं ।  
तैजस और कार्माण शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं ।  
इन दोनों शरीरों के साथ ही जीव मरण देश को छोड़ कर  
उत्पत्ति स्थान को जाता है ।

( ठाण्णाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६५ )

( पन्नवणा पद २१ सूत्र २६७ )

( कर्मग्रन्थ पहला गा० ३३ )

३६०—बन्धन नाम कर्म के पांच भेदः—

जिस प्रकार लाख, गोंद आदि चिकने पदार्थों से दो  
चीजें आपस में जोड़ दी जाती हैं उसी प्रकार जिस नाम  
कर्म से प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर पुद्गलों के साथ  
वर्तमान में ग्रहण किये जाने वाले शरीर पुद्गल परस्पर  
बन्धन को प्राप्त होते हैं। वह बन्धन नाम कर्म कहा जाता है।

बन्धन नाम कर्म के पांच भेदः—

- (१) औदारिक शरीर बन्धन नाम कर्म ।
- (२) वैक्रिय शरीर बन्धन नाम कर्म ।
- (३) आहारक शरीर बन्धन नाम कर्म ।
- (४) तैजस शरीर बन्धन नाम कर्म ।
- (५) कार्माण शरीर बन्धन नाम कर्म ।

(१) औदारिक शरीर बन्धन नाम कर्मः—जिस कर्म के उदय से  
पूर्व गृहीत एवं गृह्यमाण (वर्तमान में ग्रहण किये जाने वाले)  
औदारिक पुद्गलों का परस्पर व तैजस कार्माण शरीर  
पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है। वह औदारिक शरीर  
बन्धन नाम कर्म है ।

- (२) वैक्रिय शरीर बन्धन नामकर्मः—जिस कर्म के उदय से पूर्व गृहीत एवं गृह्यमाण वैक्रिय पुद्गलों का परस्पर व तैजस कार्माण शरीर के पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है। वह वैक्रिय शरीर बन्धन नामकर्म है।
- (३) आहारक शरीर बन्धन नामकर्मः—जिस कर्म के उदय से पूर्व गृहीत एवं गृह्यमाण आहारक पुद्गलों का परस्पर एवं तैजस कार्माण शरीर के पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है। वह आहारक शरीर बन्धन नामकर्म है।
- (४) तैजस शरीर बन्धन नामकर्मः—जिस कर्म के उदय से पूर्व गृहीत एवं गृह्यमाण तैजस पुद्गलों का परस्पर एवं कार्माण शरीर-पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होता है। वह तैजस शरीर बन्धन नामकर्म है।
- (५) कार्माण शरीर बन्धन नामकर्मः—जिस कर्म के उदय से पूर्व गृहीत एवं गृह्यमाण कर्म पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध होता है। वह कार्माण शरीर बन्धन नामकर्म है।

औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीरों का उत्पत्ति के समय सर्व बन्ध और वाद में देश बन्ध होता है। तैजस और कार्माण शरीर की नवीन उत्पत्ति न होने से उनमें सदा देश बन्ध ही होता है।

(कर्म ग्रन्थ भाग पहला गाथा ३५)

(प्रवचन सारोद्धार द्वा० २१६ गाथा १२७२)

३६१—संघात नाम कर्म के पांच भेदः—

पूर्वगृहीत औदारिक शरीर आदि पुद्गलों का गृह्यमाण औदारिक आदि पुद्गलों के साथ सम्बन्ध होना बन्ध

कहलाता है। परन्तु यह सम्बन्ध तभी हो सकता है जब कि वे पुद्गल एकत्रित होकर सन्निहित हों। संघात नाम कर्म का यही कार्य है कि वह गृहीत और गृह्यमाण शरीर पुद्गलों को परस्पर सन्निहित कर व्यवस्था से स्थापित कर देता है। इसके बाद बन्धन नाम कर्म से वे सम्बद्ध हो जाते हैं। जैसे दांतली से डधर उधर विखरी हुई घास इकट्ठी की जाकर व्यवस्थित की जाती है। तभी बाद में वह गट्टे के रूप में बाँधी जाती है। जिस कर्म के उदय से गृह्यमाण नवीन शरीर-पुद्गल पूर्व गृहीत शरीर-पुद्गलों के समीप व्यवस्था पूर्वक स्थापित किये जाते हैं। वह संघात नाम कर्म है।

संघात नाम कर्म के पाँच भेदः—

- (१) औदारिक शरीर संघात नाम कर्म।
- (२) वैक्रिय शरीर संघात नाम कर्म।
- (३) आहारक शरीर संघात नाम कर्म।
- (४) तैजस शरीर संघात नाम कर्म।
- (५) कार्माण शरीर संघात नाम कर्म।

औदारिक शरीर संघात नाम कर्मः—जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर रूप से परिणत गृहीत एवं गृह्यमाण पुद्गलों का परस्पर सान्निध्य हो अर्थात् एकत्रित होकर वे एक दूसरे के पास व्यवस्था पूर्वक जम जाँय, वह औदारिक शरीर संघात नाम कर्म है। इसी प्रकार शेष चार संघात का स्वरूप भी समझना चाहिये।

( कर्मग्रन्थ प्रथम भाग गाथा ३६ )

( प्रवचन सारोद्धार द्वा० २१६ गाथा १२७२ )



## ३६२—पाँच इन्द्रियाँ:—

आत्मा, सर्व वस्तुओं का ज्ञान करने तथा भोग करने रूप ऐश्वर्य से सम्पन्न होने से इन्द्र कहलाता है। आत्मा के चिह्न को इन्द्रिय कहते हैं।

अथवा:—

इन्द्र अर्थात् आत्मा द्वारा दृष्ट, रचित, सेवित और दी हुई होने से श्रोत्र, चक्षु आदि इन्द्रियाँ कहलाती हैं।

अथवा:—

त्वचा, नेत्र आदि जिन साधनों से सर्दी, गर्मी, काला, पीला आदि विषयों का ज्ञान होता है तथा जो अङ्गोपाङ्ग और निर्माण नाम कर्म के उदय से प्राप्त होती है वह इन्द्रिय कहलाती है।

इन्द्रिय के पाँच भेद:—

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय ।      (२) चक्षुरिन्द्रिय ।  
 (३) घ्राणेन्द्रिय ।      (४) रसनेन्द्रिय ।  
 (५) स्पर्शनेन्द्रिय ।

- (१) श्रोत्रेन्द्रिय:—जिसके द्वारा जीव, अजीव और मिश्र शब्द का ज्ञान होता है। उसे श्रोत्रेन्द्रिय कहते हैं।  
 (२) चक्षुरिन्द्रिय:—जिसके द्वारा आत्मा पाँच वर्णों का ज्ञान करती है। वह चक्षुरिन्द्रिय कहलाती है।  
 (३) घ्राणेन्द्रिय:—जिसके द्वारा आत्मा सुगन्ध और दुर्गन्ध को जानती है। वह घ्राणेन्द्रिय कहलाती है।  
 (४) रसनेन्द्रिय:—जिसके द्वारा पाँच प्रकार के रसों का ज्ञान होता है। वह रसनेन्द्रिय कहलाती है।

(५) स्पर्शनेन्द्रियः — जिसके द्वारा आठ प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान होता है । वह स्पर्शनेन्द्रिय कहलाती है ।

(पन्नवणा पद १५ उ० १ सू० १६१)

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४३ )

( जैन सिद्धान्त प्रवेशिका )

३६३—पाँच इन्द्रियों के संस्थानः—

इन्द्रियों की विशेष प्रकार की बनावट को संस्थान कहते हैं । इन्द्रियों का संस्थान दो प्रकार का है । बाह्य और आभ्यन्तर । इन्द्रियों का बाह्य संस्थान भिन्न भिन्न जीवों के भिन्न भिन्न होता है । सभी के एक सा नहीं होता । किन्तु आभ्यन्तर संस्थान सभी जीवों का एक सा होता है । इस लिये यहाँ इन्द्रियों का आभ्यन्तर संस्थान दिया जाता है ।

श्रोत्रेन्द्रिय का संस्थान कदम्ब के फूल जैसा है ।

चक्षुरिन्द्रिय का संस्थान मखर की दाल जैसा है ।

घ्राणेन्द्रिय का आकार अतिमुक्तक चन्द्र ( राहू आदि से सर्वथा मुक्त चन्द्रमा या लुहार की धोकरणी ) जैसा है ।

रसनेन्द्रिय का आकार खुरपे जैसा है ।

स्पर्शनेन्द्रिय का आकार अनेक प्रकार का है ।

( पन्नवणा पद १५ उ० १ सू० १६१ )

( ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४३ टीका )

३६४—पाँच इन्द्रियों का विषय परिमाणः—

श्रोत्रेन्द्रिय जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग से उत्कृष्ट वारह योजन से आये हुए, शब्दान्तर और वायु आदि से अप्रतिहत शक्ति वाले, शब्द पुद्गलों को विषय करती है ।

श्रोत्रेन्द्रिय कान में प्रविष्ट शब्दों को स्पर्श करती हुई ही जानती है ।

चक्षुरिन्द्रिय जघन्य अङ्गुल के संख्यातवें भाग उत्कृष्ट एक लाख योजन से कुछ अधिक दूरी पर रहे हुए अव्यवहित रूप को देखती है । यह अप्राप्यकारी है । इस लिये रूप का स्पर्श करके उसका ज्ञान नहीं करती ।

घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और स्पर्शनेन्द्रिय—ये तीनों इन्द्रियाँ जघन्य अङ्गुल के असंख्यातवें भाग उत्कृष्ट नव योजन से प्राप्त अव्यवहित विषयों को स्पर्श करती हुई जानती है ।

इन्द्रियों का जो विषय परिमाण है वह आत्माङ्गुल से जानना चाहिए ।

( पन्नवणा पद १५ उ० १ सू० १६५ )

३६५—पाँच काम गुणः—

- |              |           |
|--------------|-----------|
| (१) शब्द ।   | (२) रूप । |
| (३) गन्ध ।   | (४) रस ।  |
| (५) स्पर्श । |           |

ये पाँचों क्रमशः पाँच इन्द्रियों के विषय हैं । ये पाँच काम अर्थात् अभिलाषा उत्पन्न करने वाले गुण हैं । इस लिए काम गुण कहे जाते हैं ।

( ठाणांग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६० )

३६६—पाँच अनुत्तर विमानः—

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| (१) विजय ।          | (२) वैजयन्त । |
| (३) जयन्त ।         | (४) अपराजित । |
| (५) सर्वार्थसिद्ध । |               |

ये विमान अनुत्तर अर्थात् सर्वोत्तम होते हैं तथा इन विमानों में रहने वाले देवों के शब्द यावत् स्पर्श सर्व श्रेष्ठ होते हैं। इस लिये ये अनुत्तर विमान कहलाते हैं। एक बेला (दो उपवास) तपसे श्रेष्ठ साधु जितने कर्म क्षीण करता है उतने कर्म जिन मुनियों के बाकी रह जाते हैं वे अनुत्तर विमान में उत्पन्न होते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी देवों के जीव तो सात लव की स्थिति के कम रहने से वहां जाकर उत्पन्न होते हैं

(पन्नवर्णा पद १ सू० ३८)

(भगवती शतक १४ उद्देशा ७ सू० ५२६)

३६७—इन्द्र स्थान की पाँच सभाएँ:—

चरम आदि इन्द्रों के रहने के स्थान, भवन, नगर या विमान इन्द्र स्थान कहलाते हैं। इन्द्र स्थान में पाँच सभाएँ होती हैं—

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| (१) सुधर्मा सभा । | (२) उपपात सभा ।      |
| (३) अभिषेक सभा ।  | (४) अलङ्कारिका सभा । |
| (५) व्यवसाय सभा । |                      |

(१) सुधर्मा सभा:—जहाँ देवताओं की शय्या होती है। वह सुधर्मा सभा है।

(२) उपपात सभा:—जहाँ जाकर जीव देवता रूप से उत्पन्न होता है। वह उपपात सभा है।

(३) अभिषेक सभा:—जहाँ इन्द्र का राज्याभिषेक होता है। वह अभिषेक सभा है।

(४) अलङ्कारिका सभा:—जिस में देवता अलङ्कार पहनते हैं । वह अलङ्कारिका सभा है ।

(५) व्यवसाय सभा—जिसमें पुस्तकें पढ़कर तत्त्वों का निश्चय किया जाता है । वह व्यवसाय सभा है ।

( ठाणाम ५ उद्देशा ३ सूत्र ४७२ )

३६८—देवों की पाँच परिचारणा:—

वेद जनित वाधा होने पर उसे शान्त करना परिचारणा कहलाती है ।

परिचारणा के पाँच भेद हैं:—

(१) काय परिचारणा । (२) स्पर्श परिचारणा ।

(३) रूप परिचारणा । (४) शब्द परिचारणा ।

(५) मन परिचारणा ।

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म, ईशान देवलोक के देवता काय परिचारणा वाले हैं अर्थात् शरीर द्वारा स्त्री पुरुषों-की तरह मैथुन सेवन करते हैं और इससे वेद जनित वाधा को शान्त करते हैं ।

तीसरे सनत्कुमार और चौथे माहेन्द्र देवलोक के देवता स्पर्श परिचारणा वाले हैं अर्थात् देवियों के अङ्गोपाङ्ग का स्पर्श करने से ही उनकी वेद जनित वाधा शान्त हो जाती है ।

पाँचवें ब्रह्मलोक और छठे लान्तक देवलोक में देवता रूप परिचारणा वाले हैं । वे देवियों के सिर्फ रूप को देख कर ही तृप्त हो जाते हैं ।

सातवें महाशुक्र और आठवें सहस्रार देवलोक में देवता शब्द परिचारणा वाले हैं । वे देवियों के आभूषण आदि की ध्वनि को सुन कर ही वेद जनित वाधा से निवृत्त हो जाते हैं ।

शेष चार आणत, प्राणत, आरण और अच्युत देवलोक के देवता मन परिचारणा वाले होते हैं अर्थात् संकल्प मात्र से ही वे तृप्त हो जाते हैं ।

त्रैवेयक और अनुत्तर त्रिमानवासी देवता परिचारणा रहित होते हैं । उन्हें मोह का उदय कम रहता है । इस लिये वे प्रशम सुख में ही तल्लीन रहते हैं ।

काय परिचारणा वाले देवों से स्पर्श परिचारणा वाले देव अनन्त गुण सुख का अनुभव करते हैं । इसी प्रकार उत्तरोत्तर रूप, शब्द, मन की परिचारणा वाले देव पूर्व पूर्व से अनन्त गुण सुख का अनुभव करते हैं । परिचारणा रहित देवता और भी अनन्त गुण सुख का अनुभव करते हैं ।

( पन्नवणा पद ३४ सू० ३२३ )

( ठाणाग ५ उद्देशा १ सू० ४०२ टी० )

३६६—ज्योतिषी देव के पाँच भेदः—

- |              |               |
|--------------|---------------|
| (१) चन्द्र । | (२) सूर्य ।   |
| (३) ग्रह ।   | (४) नक्षत्र । |
| (५) तारा ।   |               |

मनुष्य क्षेत्रवर्ती अर्थात् मानुष्योत्तर पर्वत पर्यन्त अढ़ाई द्वीप में रहे हुए ज्योतिषी देव सदा मेरु पर्वत की

प्रदक्षिणा करते हुए चलते रहते हैं। मानुष्योत्तर पर्वत के आगे रहने वाले सभी ज्योतिषी देव स्थिर रहते हैं।

जम्बूद्वीप में दो चन्द्र, दो सूर्य, छप्पन नक्षत्र, एक सौ छिहत्तर ग्रह और एक लाख तेतीस हजार नौ सौ पचास कोड़ा कोड़ी तारे हैं। लवण समुद्र में चार, चार, घातकी खण्ड में बारह, कालोदधि में ब्यालीस और अर्द्धपुष्कर द्वीप में बहत्तर चन्द्र हैं। इन क्षेत्रों में सूर्य की संख्या भी चन्द्र के समान ही है। इस प्रकार अर्द्ध द्वीप में १३२ चन्द्र और १३२ सूर्य हैं।

एक चन्द्र का परिवार २८ नक्षत्र, ८८ ग्रह और ६६६७५ कोड़ा कोड़ी-तारे हैं। इस प्रकार अर्द्ध द्वीप में इनसे १३२ गुणे ग्रह नक्षत्र और तारे हैं।

चन्द्र से सूर्य, सूर्य से ग्रह, ग्रह से नक्षत्र और नक्षत्र से तारे शीघ्र गति वाले हैं।

मध्यलोक में मेरु पर्वत के सम भूमिभाग में ७२० योजन से ६०० योजन तक यानि ११० योजन में ज्योतिषी देवों के विमान हैं।

( ठाण्णांग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०१ )

( जीवाभिगम प्रतिपत्ति ३ सू० १२० )

४००—पाँच संवत्सरः—

एक वर्ष को संवत्सर कहते हैं। संवत्सर पाँच हैंः—

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| (१) नक्षत्र संवत्सर । | (२) युग संवत्सर ।   |
| (३) प्रमाण संवत्सर ।  | (४) लक्षण संवत्सर । |
| (५) शनैश्चर संवत्सर । |                     |

(१) नक्षत्र संवत्सरः—चन्द्रमा का अट्ठाईस नक्षत्रों में रहने का काल नक्षत्र मास कहलाता है। बारह नक्षत्र मास का संवत्सर, नक्षत्र संवत्सर कहलाता है।

(२) युग संवत्सरः—चन्द्र आदि पाँच संवत्सर का एक युग होता है। युग के एक देश रूप संवत्सर को युग संवत्सर कहते हैं।

युग संवत्सर पाँच प्रकार का होता हैः—

- (१) चन्द्र ।
- (२) चन्द्र ।
- (३) अभिवर्धित ।
- (४) चन्द्र ।
- (५) अभिवर्धित ।

(३) प्रमाण संवत्सरः—चन्द्र आदि संवत्सर ही जब दिनों के परिमाण की प्रधानता से वर्णन किये जाते हैं तो वे ही प्रमाण संवत्सर कहलाते हैं।

प्रमाण संवत्सर के पाँच भेदः—

- (१) नक्षत्र
- (२) चन्द्र
- (३) ऋतु
- (४) आदित्य
- (५) अभिवर्धित ।

नक्षत्र प्रमाण संवत्सरः—नक्षत्र मास ७३ $\frac{1}{2}$  दिन का होता है। ऐसे बारह मास अर्थात् ३२७ $\frac{1}{2}$  दिनों का एक नक्षत्र प्रमाण संवत्सर होता है।

चन्द्र प्रमाण संवत्सरः—कृष्ण प्रतिपदा से आरम्भ करके पूर्णमासी को समाप्त होने वाला २६ $\frac{1}{2}$  दिन का मास



चन्द्र मास कहलाता है। वारह चन्द्र मास अर्थात् ३५४ $\frac{१}{३}$  दिनों का एक चन्द्र प्रमाण संवत्सर होता है।

ऋतु प्रमाण संवत्सरः—६० दिन की एक ऋतु प्रसिद्ध है। ऋतु के आधे हिस्से को ऋतु मास कहते हैं। सावन मास और कर्म मास ऋतु मास के ही पर्यायवाची हैं। ऋतु मास तीस दिन का होता है। वारह ऋतु मास अर्थात् ३६० दिनों का एक ऋतु प्रमाण संवत्सर होता है।

आदित्य प्रमाण संवत्सरः—आदित्य (सूर्य) १८३ दिन दक्षिणायन और १८३ दिन उत्तरायण में रहता है। दक्षिणायन और उत्तरायण के ३६६ दिनों का वर्ष आदित्य संवत्सर कहलाता है।

अथवाः—

सूर्य के २८ नक्षत्र एवं वारह राशि के भोग का काल आदित्य संवत्सर कहलाता है। सूर्य ३६६ दिनों में उक्त नक्षत्र एवं राशियों का भोग करता है। आदित्य मास की औसत ३० $\frac{१}{३}$  दिन की है।

अभिवर्धित संवत्सरः—तेरह चन्द्र मास का संवत्सर, अभिवर्धित संवत्सर कहलाता है। चन्द्र संवत्सर में एक मास अधिक पड़ने से यह संवत्सर अभिवर्धित संवत्सर कहलाता है।

अथवाः—

३१ $\frac{२}{३}$  दिनों का एक अभिवर्धित मास होता है। वारह अभिवर्धित मास का एक अभिवर्धित संवत्सर होता है।

(४) लक्षण संवत्सरः—ये ही उपरोक्त नक्षत्र, चन्द्र, ऋतु, आदित्य और अभिवर्धित संवत्सर लक्षण प्रधान होने पर लक्षण संवत्सर कहलाते हैं। उनके लक्षण निम्न प्रकार हैं।

नक्षत्र संवत्सरः—कुछ नक्षत्र स्वभाव से ही निश्चित तिथियों में हुआ करते हैं। जैसे—कार्तिक पूर्णमासी में कृत्तिका और मार्गशीर्ष में मृगशिरा एवं पौषी पूर्णिमा में पुष्य आदि। जब ये नक्षत्र ठीक अपनी तिथियों में हों और ऋतु भी यथा समय आरम्भ हो। शीत और उष्ण की अधिकता न हो एवं पानी अधिक हो। इन लक्षणों वाला संवत्सर नक्षत्र संवत्सर कहलाता है।

चन्द्र संवत्सरः—जिस संवत्सर में पूर्णिमा की पूरी रात चन्द्र से प्रकाश मान रहे। नक्षत्र विषमचारी हों तथा जिसमें शीत उष्ण और पानी की अधिकता हो। इन लक्षणों वाले संवत्सर को चन्द्र संवत्सर कहते हैं।

ऋतु संवत्सरः—जिस संवत्सर में असमय में वृक्ष अंकुरित हों, बिना ऋतु के वृक्षों में पुष्प और फल आवें तथा वर्षा ठीक समय पर न हो। इन लक्षणों वाले संवत्सर को ऋतु संवत्सर कहते हैं।

आदित्य संवत्सरः—जिस संवत्सर में सूर्य, पुष्प और फलों को पृथ्वी पानी के माधुर्य स्निग्धतादि रसों को देता है और इस लिये थोड़ी वर्षा होने पर भी खूब धान्य पैदा हो जाता है। इन लक्षणों वाला संवत्सर आदित्य संवत्सर कहलाता है।

अभिवर्धित संवत्सरः—जिस संवत्सर में क्षण, लव (४६ उच्छ्वास प्रमाण) दिवस और अतुर्ण सूर्य के तेज से तप्त होकर व्यतीत होती हैं। यहां पर सूर्य के ताप से पृथ्वी आदि के तपने पर भी क्षण, लव, दिवस आदि में ताप का उपचार किया गया है तथा जिसमें वायु से उड़ी हुई धूलि से स्थल भर जाते हैं। इन लक्षणों से युक्त संवत्सर को अभिवर्धित संवत्सर कहते हैं।

(५) शनैश्चर संवत्सरः—जितने काल में शनैश्चर एक नक्षत्र को भोगता है। वह शनैश्चर संवत्सर है। नक्षत्र २८ हैं। इस लिये शनैश्चर संवत्सर भी नक्षत्रों के नाम से २८ प्रकार का है।

अथवाः—

अट्ठाईस नक्षत्रों के तीस वर्ष परिमाण भोग काल को नक्षत्र संवत्सर कहते हैं।

(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६०)

(प्रवचन सारोद्धार द्वार १४२ गाथा ६०१)

४०१—पाँच अशुभ भावनाः—

(१) कन्दर्प भावना। (२) किल्बिषी भावना।

(३) आभियोगी भावना। (४) आसुरी भावना।

(५) सम्मोही भावना।

(प्रवचन सारोद्धार द्वार ७३ गा० ६४१)

(उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गा० २६१-६४)

४०२—कन्दर्प भावना के पाँच प्रकारः—

(१) कन्दर्प।

(२) कौत्कुच्य।

(३) दुःशीलता ।

(४) हास्योत्पादन ।

(५) परविस्मयोत्पादन ।

(१) कन्दर्पः—अड्डहास करना, हँसी मजाक करना, स्वच्छन्द होकर गुरु आदि से ठिठार्ई पूर्वक कठोर या वक्र वचन कहना, काम कथा करना, काम का उपदेश देना, काम की प्रशंसा करना आदि कन्दर्प है ।

(२) कौत्कुच्यः—भांड की तरह चेष्टा करना कौत्कुच्य है । काया और वचन के भेद से कौत्कुच्य दो प्रकार का हैः—काय कौत्कुच्य—स्वयं न हंसते हुए भौं, नेत्र, मुख, दांत, हाथ, पैर आदि से ऐसी चेष्टा करना जिससे दूसरे हँसने लगें, यह काय कौत्कुच्य है ।

वाक् कौत्कुच्यः—दूसरे प्राणियों की बोली की नकल करना, मुख से वाजा बंजाना तथा हास्यजनक वचन कहना वाक् कौत्कुच्य है ।

(३) दुःशीलताः—दुष्ट स्वभाव का होना दुःशीलता है । संभ्रम और आवेश वश विना विचारे जल्दी जल्दी बोलना, मदमाते ब्रैल की तरह जल्दी जल्दी चलना, सभी कार्य विना विचारे हड़बड़ी से करना इत्यादि हरकतों का दुःशीलता में समावेश होता है ।

(४) हास्योत्पादनः—दूसरों के विरूप वेप और भाषा विषयक छिद्रों की गवेपणा करना और भाण्ड की तरह उसी प्रकार के विचित्र वेप बनाकर और वचन कह कर दर्शक और श्रोताओं को हँसाना तथा स्वयं हँसना हास्योत्पादन है ।

(५) पर विस्मयोत्पादनः—इन्द्रजाल वगैरह कुतूहल, पहेली तथा कुहेटिक, आभाणक (नाटक का एक प्रकार) आदि से दूसरों को विस्मित करना पर विस्मयोत्पादन है।

भूठ मूँठ ही आश्चर्य में डालने वाले मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र आदि का ज्ञान कुहेटिका विद्या कहलाती है।

(उत्त० अ० ३६ गा० २६१) (प्रव० सा० द्वार० ७३ गा० ६४२)

४०३—किल्बिपी भावना के पाँच प्रकारः—

(१) श्रुतज्ञान। (२) केवली।

(३) धर्माचार्य्य। (४) संघ।

(५) साधु।

उपरोक्त पाँचों का अवर्णवाद बोलना, उन में अविद्यमान दोष बतलाना आदि ये किल्बिपी भावना के पाँच प्रकार हैं।

इसी के साथ मायावी होना भी किल्बिपी भावना में गिनाया गया है। कहीं कहीं 'संघ और साधु' के बदले सर्व साधु का अवर्णवाद करना कह कर पाँचवों प्रकार मायावी होना बतलाया गया है।

मायावीः—लोगों को रिझाने के लिये कपट करने वाला, महापुरुषों के प्रति स्वभाव से कठोर, बात बात में नाराज और खुश होने वाला, गृहस्थों की चापलूसी करने वाला, अपनी शक्ति का गोपन करने वाला, दूसरों के विद्यमान गुणों को ढकने वाला पुरुष मायावी कहलाता है। वह चोर की तरह सदा सर्व कार्यों में शंकाशील रहता है और कपटाचारी होता है।

(उत्त० अ० ३६ गा० २६२)

(प्रव० सा० द्वार० ७३ गा० ६४४)

४०४—आभियोगी भावना के पाँच प्रकारः—

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| (१) कौतुक ।  | (२) भूतिकर्म ।      |
| (३) प्रश्न । | (४) प्रश्नाप्रश्न । |
- (५) निमित्त ।
- (१) कौतुकः—बालक आदि की रक्षा के निमित्त स्नान कराना, हाथ घुमाना, मन्त्र करना, थुत्कारना, धूप देना आदि जो किय जाता है । वह कौतुक है ।
- (२) भूति कर्मः—वसति, शरीर और भाण्ड(पात्र)की रक्षा के लिये राख, मिट्टी या सूत से उन्हें परिवेष्टित करना भूति कर्म है ।
- (३) प्रश्नः—दूसरे से लाभ, अलाभ आदि पूछना प्रश्न है— अथवा अंगूठी, खड्ग, दर्पण, पानी आदि में स्वयं देखना प्रश्न है ।
- (४) प्रश्नाप्रश्नः—स्वप्न में आराधी हुई विद्या में अथवा घटिकादि में आई हुई देवी से कही हुई बात दूसरों से कहना प्रश्नाप्रश्न है ।
- (५) निमित्तः—अतीत, अनागत एवं वर्तमान का ज्ञान विशेष निमित्त है ।

इन कौतुकादि को अपने गौरव आदि के लिये करने वाला साधु आभियोगी भावना वाला है । परन्तु गौरव रहित अतिशय ज्ञानी साधु निस्पृह भाव से तीर्थोन्नति आदि के निमित्त अपवाद रूप में इनका प्रयोग करे तो वह आराधक है और तीर्थ की उन्नति करने से उच्च गोत्र बांधता है ।

(उत्त० अ० ३६ गा० २६२)

(प्रथ० सा० द्वा० ७३ गा० ६४४)

४०५—आसुरी भावना के पांच भेदः—

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| (१) सदा विग्रह शीलता । | (२) संसक्त तप । |
|------------------------|-----------------|

(३) निमित्त कथन । (४) निष्कृपता ।

(५) निरनुकम्पता ।

(१) सदा विग्रह शीलताः—हमेशा, लड़ाई भगड़ा करते रहना, करने के बाद पश्चात्ताप न करना, दूसरे के खमाने पर भी प्रसन्न न होना और सदा विरोध भाव रखना, सदा विग्रह शीलता है ।

(२) संसक्त तपः—आहार, उपकरण, शय्या आदि में आसक्त साधु का आहार आदि के लिये अनशन आदि तप करना संसक्त तप है ।

(३) निमित्त कथनः—अभिमानादि वश लाभ, अलाभ, सुख, दुःख, जीवन, मरण विषयक तीन काल सम्बन्धी निमित्त कहना निमित्त कथन है ।

(४) निष्कृपताः—स्थावरादि सत्त्वों को अजीव मानने से तद्विषयक दयाभाव की उपेक्षा करके या दूसरे कार्य में उपयोग रख कर आसन, शयन, गमन आदि क्रिया करना तथा किसी के कहने पर अनुताप भी न करना निष्कृपता है ।

(५) निरनुकम्पताः—कृपापात्र दुःखी प्राणी को देख कर भी क्रूर परिणाम जन्य कठोरता धारण करना और सामने वाले के दुःख का अनुभव करना निरनुकम्पता है ।

(उत्त० अ० ३६ गा० २६४)

(प्रव० सा० द्वा० ७३ गा० ६४५)

४०६—सम्मोही भावना के पाँच प्रकारः—

(१) उन्मार्ग देशना ।

(२) मार्ग दूषण ।

(३) मार्ग विप्रतिपत्ति ।

(४) मोह ।

(५) मोह जनन ।

- (१) उन्मार्ग देशनाः—ज्ञानादि धर्म मार्ग पर दोष न लगाते हुए स्व-पर के अहित के लिये सूत्र विपरीत मार्ग कहना उन्मार्ग देशना है ।
- (२) मार्ग दूषणः—पारमार्थिक ज्ञान, दर्शन और चारित्र रूप सत्य धर्म मार्ग और उसके पालने वाले साधुओं में स्वकल्पित दूषण बतलाना मार्ग दूषण है ।
- (३) मार्ग विप्रतिपत्तिः—ज्ञानादि रूप धर्म मार्ग पर दूषण लगा कर देश से सूत्र विरुद्ध मार्ग को अङ्गीकार करना मार्ग विप्रतिपत्ति है ।
- (४) मोहः—मन्द बुद्धि पुरुष का अति गहन ज्ञानादि विचारों में मोह प्राप्त करना तथा अन्य तीर्थियों की विविध ऋद्धि देख कर ललचा जाना मोह है ।
- (५) मोह जननः—सद्भाव अथवा कपट से अन्य दर्शनों में दूसरों को मोह प्राप्त कराना मोह जनन है । ऐसा करने वाले प्राणी को बोध बीज रूपी समकित की प्राप्ति नहीं होती ।

( उक्त० अध्या० ३६ गा० २६५ )

( प्रव० सा० द्वा० ७३ गा० ६५६ टीका )

ये पच्चीस भावनाएं चारित्र में विघ्न रूप हैं । इनके निरोध से सम्यक् चारित्र की प्राप्ति होती है ।

( षोडश नम्बर ४०१ से ४०६ तक के लिये प्रमाण )

( प्रवचन सारोद्धार द्वार ७३ गा० ६४६ )

( उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा २६१ से २६५ )

४०७—सांसारिक निधि के पांच भेदः—

विशिष्ट रत्न सुवर्णादि द्रव्य जिसमें रखे जाय ऐसे पात्रादि को निधि कहते हैं । निधि की तरह जो आनन्द



और सुख के साधन रूप हों, उन्हें भी निधि ही समझना चाहिए।

निधि पाँच हैं:—

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| (१) पुत्र निधि । | (२) मित्र निधि । |
| (३) शिल्प निधि । | (४) धन निधि ।    |

(५) धान्य निधि ।

(१) पुत्र निधि:—पुत्र स्वभाव से ही माता पिता के आनन्द और सुख का कारण है तथा द्रव्य का उपार्जन करने से निर्वाह का भी हेतु है। अतः वह निधि रूप है।

(२) मित्र निधि:—मित्र, अर्थ और काम का साधक होने से आनन्द का हेतु है। इसलिये वह भी निधि रूप कहा गया है।

(३) शिल्प निधि:—शिल्प का अर्थ है चित्रादि ज्ञान। यहाँ शिल्प का आशय सब विद्याओं से है। वे पुरुषार्थ चतुष्टय की साधक होने से आनन्द और सुख रूप हैं। इस लिये शिल्प-विद्या निधि कही गई है।

(४) धन निधि और (५) धान्य निधि वास्तविक निधि रूप हैं ही।

निधि के ये पाँचों प्रकार द्रव्य निधि रूप हैं और कुशल अनुष्ठान का सेवन भाव निधि है।

( ठाण्णां ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४८ )

४०८—पाँच धाय (धात्री):—

बच्चों का पालन पोषण करने के लिये रखी जाने वाली स्त्री धाय या धात्री कहलाती है।

धाय के पाँच भेदः—

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| (१) क्षीर धाय । | (२) मज्जन धाय ।  |
| (३) मण्डन धाय । | (४) क्रीडन धाय । |
| (५) अङ्क धाय ।  |                  |

- (१) क्षीर धायः—बच्चों को स्तन-पान कराने वाली धाय क्षीर धाय कहलाती है।
- (२) मज्जन धायः—बच्चों को स्नान कराने वाली धाय मज्जन धाय कहलाती है।
- (३) मण्डन धाय— बच्चों को अलङ्कारादि पहनाने वाली धाय मण्डन धाय कहलाती है।
- (४) क्रीडन धायः—बच्चों को खिलाने वाली धाय क्रीडन धाय कहलाती है।
- (५) अङ्क धायः—बच्चों को गोद में बिठाने या सुलाने वाली धाय अङ्क धाय कहलाती है।

(आचाराग श्रुतस्कंध २ भावना अध्ययन १५ चूलिका ३ सू० १७६)  
(भगवती शतक ११ उद्देशा ११ सू० ४२६)

४०६—तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के पांच भेदः—

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| (१) जलचर ।       | (२) स्थलचर ।    |
| (३) खेचर ।       | (४) उरपरिसर्प । |
| (५) भुजपरिसर्प । |                 |

- (१) जलचरः—पानी में चलने वाले जीव जलचर कहलाते हैं।  
जैसेः—मच्छ, वगैरह। मच्छ, कच्छप, मगर, ग्राह और सुंसुमार ये जलचर के पाँच भेद हैं।

- (२) स्थलचरः—पृथ्वी पर चलने वाले जीव स्थलचर कहलाते हैं। जैसे:—गाय, घोड़ा आदि।
- (३) खेचरः—आकाश में उड़ने वाले जीव खेचर कहलाते हैं। जैसे:—चील, कबूतर वगैरह।
- (४) उरपरिसर्पः—उर अर्थात् छाती से चलने वाले जीव उरपरिसर्प कहलाते हैं। जैसे:—सांप वगैरह।
- (५) भुज परिसर्पः—भुजाओं से चलने वाले जीव भुज परिसर्प कहलाते हैं। जैसे:—नोलिया, चूहा वगैरह।

पन्नवर्णां सूत्र एवं उत्तराध्ययन सूत्र में तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय के जलचर, स्थलचर और खेचर ये तीन भेद बतलाये गये हैं और स्थलचर के भेदों में उरपरिसर्प और भुज परिसर्प गिनाये हुए हैं।

(पन्नवर्णां पद १ सू० ३२ से ३६)

(उत्तराध्ययन अध्ययन ३६ गाथा १६६ से १६२)

४१०—मच्छ के पाँच प्रकारः—

- (१) अनुस्रोत चारी।                      (२) प्रति स्रोत चारी।  
 (३) अन्त चारी।                              (४) मध्य चारी।  
 (५) सर्वचारी।

- १—पानी के प्रवाह के अनुकूल चलने वाला मच्छ अनुस्रोत-चारी है।  
 २—पानी के प्रवाह के प्रतिकूल चलने वाला मच्छ प्रतिस्रोत-चारी है।  
 ३—पानी के पार्श्व अथवा पसवाड़े चलने वाला मच्छ अन्त-चारी है।

४—पानी के बीच में चलने वाला मच्छ मध्यचारी है ।

५—पानी में सब प्रकार से चलने वाला मच्छ सर्वचारी है ।

(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४५४)

४११—मच्छ की उपमा से भिच्चा लेने वाले भिच्चुक के पांच प्रकार हैं—

(१) अनुस्रोत चारी ।                      (२) प्रतिस्रोत चारी ।

(३) अन्त चारी ।                              (४) मध्य चारी ।

(५) सर्वस्रोत चारी ।

१—अभिग्रह विशेष से उपाश्रय के समीप से प्रारम्भ करके क्रम से भिच्चा लेने वाला साधु अनुस्रोत चारी भिच्चु है ।

२—अभिग्रह विशेष से उपाश्रय से बहुत दूर जाकर लौटते हुए भिच्चा लेने वाला साधु प्रतिस्रोत चारी है ।

३—क्षेत्र के पार्श्व में अर्थात् अन्त में भिच्चा लेने वाला साधु अन्तचारी है ।

४—क्षेत्र के बीच बीच के घरों से भिच्चा लेने वाला साधु मध्य चारी है ।

५—सर्व प्रकार से भिच्चा लेने वाला साधु सर्वस्रोत चारी है ।

(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४५४ )

४१२—पाँच स्थावर कायः—

पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के जीव स्थावर नाम कर्म का उदय होने से स्थावर कहलाते हैं । उनकी काय अर्थात् राशि को स्थावर काय कहते हैं ।

स्थावर काय पाँच हैं:—

(१) इन्द्र स्थावर काय । (२) ब्रह्म स्थावर काय ।

(३) शिल्प स्थावर काय । (४) सम्मति स्थावर काय ।

(५) प्राजापत्य स्थावर काय ।

(१) इन्द्र स्थावर काय:—पृथ्वी काय का स्वामी इन्द्र है । इस लिये इसे इन्द्र स्थावर काय कहते हैं ।

(२) ब्रह्म स्थावर काय:—अपकाय का स्वामी ब्रह्म है । इस लिये इसे ब्रह्म स्थावर काय कहते हैं ।

(३) शिल्प स्थावर काय:—तेजस्काय का स्वामी शिल्प है । इस लिये यह शिल्प स्थावर काय कहलाती है ।

(४) सम्मति स्थावर काय:—वायु का स्वामी सम्मति है । इस लिये यह सम्मति स्थावर काय कहलाती है ।

(५) प्राजापत्य स्थावर काय:—वनस्पति काय का स्वामी प्राजापति है । इस लिये इसे प्राजापत्य स्थावर काय कहते हैं ।

(ठाणांग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६३)

४१३—पाँच प्रकार की अचित्त वायु:—

(१) आक्रान्त । (२) ध्मात ।

(३) पीडित । (४) शरीरानुगत ।

(५) सम्मूर्च्छिम ।

(१) आक्रान्त:—पैर आदि से जमीन वगैरह के दबने पर जो वायु उठती है । वह आक्रान्त वायु है ।

(२) ध्मात:—धमणी आदि के धमने से पैदा हुई वायु ध्मात वायु है ।

- (३) पीडितः—गीले वस्त्र के निचोड़ने से निकलने वाली वायु पीडित वायु है ।
- (४) शरीरानुगतः—डकार आदि लेते हुए निकलने वाली वायु शरीरानुगत वायु है ।
- (५) सम्मूर्च्छिमः—पंखे आदि से पैदा होने वाली वायु सम्मूर्च्छिम वायु है ।

ये पांचों प्रकार की अचित्त वायु पहले अचेतन होती हैं और वाद में सचेतन भी हो जाती हैं ।

(ठाणाग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४४४)

४१४—पाँच वर्णः—

- |            |            |
|------------|------------|
| (१) काला । | (२) नीला । |
| (३) लाल ।  | (४) पीला । |
| (५) सफेद । |            |

ये ही पाँच मूल वर्ण हैं । इनके सिवाय लोक प्रसिद्ध अन्य वर्ण इन्हीं के संयोग से पैदा होते हैं ।

( ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६० )

४१५—पाँच रसः—

- |             |             |
|-------------|-------------|
| (१) तीखा ।  | (२) कडुआ ।  |
| (३) कपैला । | (४) खट्टा । |
| (५) मीठा ।  |             |

इनके अतिरिक्त दूसरे रस इन्हीं के संयोग से पैदा होते हैं । इस लिये यहाँ पाँच मूल रस ही गिनाये गये हैं ।

( ठाणाग ५ उद्देशा १ सूत्र ३६० )

## ४१६—पाँच प्रतिघातः—

प्रतिबन्ध या रुकावट को प्रतिघात कहते हैं ।

(१) गति प्रतिघात । (२) स्थिति प्रतिघात ।

(३) बन्धन प्रतिघात । (४) भोग प्रतिघात ।

(५) बल, वीर्य, पुरुषाकार पराक्रम प्रतिघात ।

(१) गति प्रतिघातः—शुभ देवगति आदि पाने की योग्यता होते हुए भी विरूप (विपरीत) कर्म करने से उसकी प्राप्ति न होना गति प्रतिघात है । जैसे दीक्षा पालने से कुण्डरीक को शुभ गति पाना था । लेकिन नरक गति की प्राप्ति हुई और इस प्रकार उसके देवगति का प्रतिघात हो गया ।

(२) स्थिति प्रतिघातः—शुभ स्थिति बान्ध कर अभ्यवसाय विशेष से उसका प्रतिघात कर देना अर्थात् लम्बी स्थिति को छोटी स्थिति में परिणत कर देना स्थिति प्रतिघात है ।

(३) बन्धन प्रतिघातः—बन्धन नामकर्म का भेद है । इसके आँदारिक बन्धन आदि पाँच भेद हैं । प्रशस्त बन्धन की प्राप्ति की योग्यता होने पर भी प्रतिकूल कर्म करके उसकी घात कर देना और अप्रशस्त बन्धन पाना बन्धन प्रतिघात है । बन्धन प्रतिघात से इसके सहचारी प्रशस्त शरीर, अङ्गोपाङ्ग, संहनन, संस्थान आदि का प्रतिघात भी सम्भ्र लेना चाहिये ।

(४) भोग प्रतिघातः—प्रशस्त गति, स्थिति, बन्धन आदि का प्रतिघात होने पर उनसे सम्बद्ध भोगों की प्राप्ति में रुकावट होना भोग प्रतिघात है । क्योंकि कारण के न होने पर कार्य कैसे हो सकता है ?

(५) बल वीर्य्य पुरुषाकार पराक्रम प्रतिघातः—गति, स्थिति आदि के प्रतिघात होने पर भोग की तरह प्रशस्त बल वीर्य्य पुरुषाकार पराक्रम की प्राप्ति में रुकावट पड़ जाती है। यही बल वीर्य्य पुरुषाकार पराक्रम प्रतिघात है।

शारीरिक शक्ति को बल कहते हैं। जीव की शक्ति को वीर्य्य कहते हैं। पुरुष कर्त्तव्य या पुरुषाभिमान को पुरुषकार (पुरुषाकार) कहते हैं। बल और वीर्य्य का प्रयोग करना पराक्रम है।

(ठायांग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०६)

४१७—पाँच अनन्तकः—

- (१) नाम अनन्तक। (२) स्थापना अनन्तक।  
 (३) द्रव्य अनन्तक। (४) गणना अनन्तक।  
 (५) प्रदेश अनन्तक।

- (१) नाम अनन्तकः—सचित्त, अचित्त, आदि वस्तु का 'अनन्तक' इस प्रकार जो नाम दिया जाता है। वह नाम अनन्तक है।  
 (२) स्थापना अनन्तकः—किसी वस्तु में अनन्तक की स्थापना करना स्थापना अनन्तक है।  
 (३) द्रव्य अनन्तकः—गिनती योग्य जीव या पुद्गल द्रव्यों का अनन्तक द्रव्य अनन्तक है।  
 (४) गणना अनन्तकः—गणना की अपेक्षा जो अनन्तक संख्या है। वह गणना अनन्तक है।  
 (५) प्रदेश अनन्तकः—आकाश प्रदेशों की जो अनन्तता है। वह प्रदेश अनन्तक है।

(ठायांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६२)



## ४१८—पाँच अनन्तकः—

- (१) एकतः अनन्तक ।      (२) द्विधा अनन्तक ।  
 (३) देश विस्तार अनन्तक । (४) सर्व विस्तार अनन्तक ।  
 (५) शाश्वत अनन्तक ।

- (१) एकतः अनन्तकः—एक अंश से अर्थात् लम्बाई की अपेक्षा जो अनन्तक है वह एकतः अनन्तक है । जैसे— एक श्रेणी वाला क्षेत्र ।  
 (२) द्विधा अनन्तकः—दो प्रकार से अर्थात् लम्बाई और चौड़ाई की अपेक्षा जो अनन्तक है । वह द्विधा अनन्तक कहलाता है । जैसे—प्रश्न क्षेत्र ।  
 (३) देश विस्तार अनन्तकः—रुचक प्रदेशों की अपेक्षा पूर्व पश्चिम आदि दिशा रूप जो क्षेत्र का एक देश है और उसका जो विस्तार है उसके प्रदेशों की अपेक्षा जो अनन्तता है । वह देश विस्तार अनन्तक है ।  
 (४) सर्व विस्तार अनन्तकः—सारे आकाश क्षेत्र का जो विस्तार है उसके प्रदेशों की अनन्तता सर्व विस्तार अनन्तक है ।  
 (५) शाश्वत अनन्तकः—अनादि अनन्त स्थिति वाले जीवादि द्रव्य शाश्वत अनन्तक कहलाते हैं ।

( ठाणांग ५ उद्देशा ३ सूत्र ४६२ )

## ४१९—पाँच निद्राः—

दर्शनावरणीय कर्म के नव भेद हैंः—  
 चार दर्शन और पाँच निद्रा ।

दर्शन के चार भेद:—

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| (१) चक्षु दर्शन । | (२) अचक्षु दर्शन । |
| (३) अवधि दर्शन ।  | (४) केवल दर्शन ।   |

नोट:—चक्षु दर्शन आदि का स्वरूप, बोल नम्बर १६६वें में दिया जा चुका है ।

निद्रा के पाँच भेद ये हैं:—

- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| (१) निद्रा ।        | (२) निद्रा निद्रा । |
| (३) प्रचला ।        | (४) प्रचला प्रचला । |
| (५) स्त्यानगृद्धि । |                     |

- (१) निद्रा:—जिस निद्रा में सोने वाला सुखपूर्वक धीमी धीमी आवाज से जग जाता है, वह निद्रा है ।
- (२) निद्रा निद्रा:—जिस निद्रा में सोने वाला जीव बड़ी मुश्किल से जोर जोर से चिल्लाने वा हाथ से हिलाने पर जगता है । वह निद्रा निद्रा है ।
- (३) प्रचला:—खड़े हुए या बैठे हुए व्यक्ति को जो नींद आती है, वह प्रचला है ।
- (४) प्रचला प्रचला:—चलते चलते जो नींद आती है, वह प्रचला प्रचला है ।
- (५) स्त्यानगृद्धि:—जिस निद्रा में जीव दिन अथवा रात में सोचा हुआ काम निद्रितावस्था में कर डालता है, वह स्त्यानगृद्धि है ।

वज्र ऋषभ नाराच संहनन वाले जीव को जब स्त्यानगृद्धि निद्रा आती है तब उसमें वासुदेव का आधा बल

आजाता है। ऐसी निद्रा में मरने वाला जीव, यदि आयु न बाँध चुका हो तो, नरक गति में जाता है।

( कर्म ग्रन्थ प्रथम भाग गा० १ )

( पञ्चवणा पद २३ उ० २ सू० २६३ )

४२०—निद्रा से जागने के पाँच कारणः—

- (१) शब्द । (२) स्पर्श ।  
 (३) लुधा । (४) निद्रा क्षय ।  
 (५) स्वप्न दर्शन ।

इन पाँच कारणों से सोये हुए जीव की निद्रा भङ्ग हो जाती है और वह शीघ्र जग जाता है।

( ठाणाग ५ उद्देशा २ सूत्र ४३६ )

४२१—स्वप्न दर्शन के पाँच भेदः—

- (१) याथातथ्य स्वप्न दर्शन । (२) प्रतान स्वप्न दर्शन ।  
 (३) चिन्ता स्वप्न दर्शन । (४) विपरीत स्वप्न दर्शन ।  
 (५) अव्यक्त स्वप्न दर्शन ।

(१) याथातथ्य स्वप्न दर्शनः—स्वप्न में जिस वस्तु स्वरूप का दर्शन हुआ है। जगने पर उसी को देखना या उसके अनुरूप शुभाशुभ फल की प्राप्ति होना याथातथ्य स्वप्न दर्शन है।

(२) प्रतान स्वप्न दर्शनः—प्रतान का अर्थ है विस्तार। विस्तार वाला स्वप्न देखना प्रतान स्वप्न दर्शन है। वह यथार्थ और अयथार्थ भी हो सकता है।

(३) चिन्ता स्वप्न दर्शनः—जागृत अवस्था में जिस वस्तु की चिन्ता रही हो, उसी का स्वप्न में देखना चिन्ता स्वप्न दर्शन है।

(४) विपरीत स्वप्न दर्शनः—स्वप्नमें जो वस्तु देखी है । जगने पर उससे विपरीत वस्तु की प्राप्ति होना विपरीत स्वप्न दर्शन है ।

(५) अव्यक्त स्वप्न दर्शनः—स्वप्न विषयक वस्तु का अस्पष्ट ज्ञान होना, अव्यक्त स्वप्न दर्शन है ।

४२२—पाँच देवः—

जो क्रीड़ादि धर्म वाले हैं अथवा जिनकी आराध्य रूप से स्तुति की जाती है । वे देव कहलाते हैं ।

देव पाँच हैंः—

(१) भव्य द्रव्य देव ।

(२) नर देव ।

(३) धर्म देव ।

(४) देवाधिदेव ।

(५) भाव देव ।

(१) भव्य द्रव्य देवः—आगामी भव में देव होकर उत्पन्न होने वाले तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय एवं मनुष्य भव्य द्रव्य देव कहलाते हैं ।

(२) नर देवः—समस्त रत्नों में प्रधान चक्र रत्न तथा नवनिधि के स्वामी, समुद्र कोश वाले, बत्तीस हजार नरेशों से अनुगत, पूर्व पश्चिम एवं दक्षिण में समुद्र तथा उत्तर में हिमवान् पर्वत पर्यन्त छः सड़ पृथ्वी के स्वामी मनुष्येन्द्र चक्रवर्ती नर देव कहलाते हैं ।

(३) धर्म देवः—श्रुत चारित्र रूप प्रधान धर्म के आराधक, ईर्ष्या आदि समिति समन्वित यावत् गुप्त ब्रह्मचारी अनगार धर्म देव कहलाते हैं ।

- (४) देवाधि देवः—देवों से भी बढ़कर अतिशय वाले, अतएव उन से भी आराध्य, केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन के धारक अरिहन्त भगवान् देवाधिदेव कहलाते हैं ।
- (५) भाव देवः—देवगति, नाम, गोत्र, आयु आदि कर्म के उदय से देव भव को धारण किए हुए भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष और वैमानिक देव भाव देव कहलाते हैं ।
- ( ठाण्णांग ५ उद्देशा १ सूत्र ४०१ )  
( भगवती शतक १२ उद्देशा ६ सूत्र ४६२ )

४२३—शिक्षाप्राप्ति में बाधक पाँच कारणः—

- (१) अभिमान । (२) क्रोध ।  
(३) प्रमाद । (४) रोग ।  
(५) आलस्य ।

ये पांच बातें जिस प्राणी में हों वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता । शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक प्राणी को उपरोक्त पांच बातों का त्याग कर शिक्षा प्राप्ति में उद्यम करना चाहिए । शिक्षा ही इह लौकिक और पारलौकिक सर्व सुखों का कारण है ।

( उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन ११ गाथा ३ )



## अन्तिम मंगलाचरणः—

शिवमस्तु सर्वजगतः, परहितनिरताः भवन्तु भूतगणाः ।

दोषाः प्रयान्तु नाशं, सर्वत्र सुखी भवतु लोकः ॥

भावार्थः—अखिल विश्व का कल्याण हो, जगत के प्राणी परोपकार में लीन रहें, दोष नष्ट हों और सब जगह लोग सदा सुखी रहें ।

सर्वं मङ्गलं माङ्गल्यं, सर्वं कल्याणं कारणं ।

प्रधानं सर्वं धर्माणां, जैनं जयतु शासनम् ॥

भावार्थः—सब मंगलों में मंगल रूप, सब प्रकार के कल्याणों का कारण भूत और सब धर्मों में प्रधान रूप जैन शासन जय पावे ।